

हिंदी व्याकरण

रचयिता

पं० कामताप्रसाद गुरु, एम० आर० ए० एल०



काशी नागरीप्रचारिणी सभा की आज्ञा से

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

संशोधित संस्करण]

सं० १९८४

[मूल्य ३॥]

Published by
K Mitra,
at The Indian Press, Ltd.,
Allahabad

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch

भूमिका

यह हिंदी-व्याकरण काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के अनुरोध और उत्तेजन से लिखा गया है। सभा ने लगभग पाँच वर्ष पूर्व हिंदी का एक सर्वांग-पूर्ण व्याकरण लिखवाने का विचार करके इस विषय के दो तीन ग्रंथ लिखवाये थे; जिनमें बाबू गंगाप्रसाद, एम० ए० और पं० रामकर्ण शर्मा के लिखे हुए व्याकरण अधिकांश में उपयोगी निकले। तब सभा ने इन ग्रंथों के आधार पर, अथवा स्वतंत्र रीति से, एक विस्तृत हिंदी-व्याकरण लिखने का गुरु भार मुझे सौंप दिया। इस विषय में पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी और पं० माधवराव सप्रे ने भी सभा से अनुरोध किया था, जिसके लिए मैं आप दोनों महाशयों का कृतज्ञ हूँ। मैंने इस कार्य में किसी विद्वान् को आगे बढते हुए न देखकर अपनी अल्पज्ञता का कुछ भी विचार न किया और सभा का दिया हुआ भार धन्यवाद-पूर्वक तथा कर्तव्य-बुद्धि से ग्रहण कर लिया। उस भार को अब मैं, पाँच वर्ष के पश्चात्, इस पुस्तक के रूप में, यह कहकर सभा को लौटाता हूँ कि—

“अर्पित है, गोविंद, तुम्हीं को वस्तु तुम्हारी।”

इस ग्रंथ की रचना में हमने पूर्वोक्त दोनों व्याकरणों से यत्र-तत्र सहायता ली है और हिंदी-व्याकरण के आज तक छपे हुए हिंदी और अँगरेजी ग्रंथों का भी थोड़ा-बहुत उपयोग किया है। इन सब ग्रंथों की सूची पुस्तक के अंत में दी गई है। द्विवेदीजी-लिखित “हिंदी भाषा की उत्पत्ति” और “ब्रिटिश विश्व-कोष” के “हिंदुस्तानी” नामक लेख के आधार पर, इस पुस्तक में, हिंदी की उत्पत्ति लिखी गई है। अरबी-फारसी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए हम अधिकांश में राजा शिव-प्रसाद-कृत “हिंदी-व्याकरण” और प्लाट्स-कृत “हिंदुस्तानी ग्रामर”

के ऋणी हैं। काले-कृत “उच्च संस्कृत व्याकरण” से हमने संस्कृत-व्याकरण के कुछ अंश लिये हैं।

सबसे अधिक सहायता हमें दामले-कृत “शास्त्रीय मराठी व्याकरण” से मिली है जिसकी शैली पर हमने अधिकांश में अपना व्याकरण लिखा है। पूर्वोक्त पुस्तक से हमने हिंदी में घटित होनेवाले व्याकरण-विषयक कई एक वर्गीकरण, विवेचन, नियम और न्याय-सम्मत लक्षण, आवश्यक परिवर्तन के साथ, लिये हैं। संस्कृत-व्याकरण के कुछ उदाहरण भी हमने इस पुस्तक से संग्रह किये हैं।

पूर्वोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अंगरेजी, बंगला और गुजराती व्याकरणों से भी कहीं-कहीं सहायता ली गई है।

इन सब पुस्तकों के लेखकों के प्रति हम, नम्रतापूर्वक, अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

हिंदी तथा अन्यान्य भाषाओं के व्याकरणों से उचित सहायता लेने पर भी, इस पुस्तक में जो विचार प्रकट किये गये हैं, और जो सिद्धांत ठहराये गये हैं, वे साहित्यिक हिंदी से ही संबंध रखते हैं और उन सबके लिए हमों उत्तरदाता हैं। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि हिंदी-व्याकरण की छोटी-मोटी कई पुस्तकें उपलब्ध होते हुए भी, हिंदी में, इस समय अपने विषय और ढंग की यही एक व्यापक और (संभवतः) मौलिक पुस्तक है। इसमें हमारा कई ग्रंथों का अध्ययन और कई वर्षों का परिश्रम तथा विषय का अनुराग और स्वार्थ-त्याग सम्मिलित है। इस व्याकरण में अन्यान्य विशेषताओं के साथ-साथ एक बड़ी विशेषता यह भी है कि नियमों के स्पष्टीकरण के लिए इसमें जो उदाहरण दिये गये हैं वे अधिकतर हिंदी के भिन्न-भिन्न कालों के प्रतिष्ठित और प्रामाणिक लेखकों के ग्रंथों से लिये गये हैं। इस विशेषता के कारण पुस्तक में यथा-संभव, अंध-परंपरा अथवा कृत्रिमता का दोष नहीं आने

पाया है। पर इन सब बातों पर यथार्थ सम्मति देने के अधिकारी विशेषज्ञ ही हैं।

कुछ लोगों का मत है कि हिंदी के “सर्वांग-पूर्ण” व्याकरण में, मूल विषय के साथ साथ, साहित्य का इतिहास, छंदो-निरूपण, रस, अलंकार, कहावतें, मुहाविरे, आदि विषय रहने चाहिए। यद्यपि ये सब विषय भाषा-ज्ञान की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं तो भी ये सब स्वतंत्र विषय हैं और व्याकरण से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किसी भी भाषा का “सर्वांग-पूर्ण” व्याकरण वही है जिसमें उस भाषा के सब शिष्ट रूपों और प्रयोगों का पूर्ण विवेचन किया जाय और उनमें यथा संभव स्थिरता लाई जाय। हमारे पूर्वजों ने व्याकरण का यही उद्देश्य माना है और हमने इसी पिछली दृष्टि से इस पुस्तक को सर्वांग-पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि यह ग्रंथ पूर्णतया सर्वांग-पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतने व्यापक विषय में विवेचन की कठिनाई और भाषा की अस्थिरता तथा लेखक की भ्रांति और अल्पज्ञता के कारण कई बातों का छूट जाना संभव है, तथापि हमें यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि इस पुस्तक से आधुनिक हिंदी के स्वरूप का प्रायः पूरा पता लग सकता है।

यह व्याकरण, अधिकांश में, अंगरेजी व्याकरण के ढंग पर लिखा गया है। इस प्रणाली के अनुसरण का मुख्य कारण यह है कि हिंदी में आरंभ ही से इसी प्रणाली का उपयोग किया गया है और आज तक किसी लेखक ने संस्कृत प्रणाली का कोई पूर्ण आदर्श उपस्थित नहीं किया। वर्तमान प्रणाली के प्रचार का दूसरा कारण यह है कि इसमें स्पष्टता और सरलता विशेष रूप से पाई जाती है

* उन्होंने सावधानता-पूर्वक अपनी भाषा के विषय का अवलोकन किया और जो सिद्धांत उन्हें मिले उनकी स्थापना की।—डा० भाण्डारकर।

और सूत्र तथा भाष्य, दोनों ऐसे मित्रे रहते हैं कि एक ही लेखक पूरा व्याकरण, विशद रूप में, लिख सकता है। हिंदी-भाषा के लिए वह दिन सचमुच बड़े गौरव का होगा जब इसका व्याकरण 'अष्टाध्यायी' और 'महाभाष्य' के मिश्रित रूप में लिखा जायगा; पर वह दिन अभी बहुत दूर दिखाई देता है। यह कार्य हमारे लिए तो, अल्पज्ञता के कारण, दुस्तर है; पर इसका संपादन तभी संभव होगा जब संस्कृत के अद्वितीय वैयाकरण हिंदी को एक स्वतंत्र और उन्नत भाषा समझकर इसके व्याकरण का अनुशीलन करेंगे। जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक इसी व्याकरण से इस विषय के अभाव की पूर्ति होने की आशा की जा सकती है। यहाँ यह कह देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि इस पुस्तक में सभी जगह अँगरेजी व्याकरण का अनुकरण नहीं किया गया। इसमें यथा-संभव संस्कृत-प्रणाली का भी अनुसरण किया गया है और यथा-स्थान अँगरेजी-व्याकरण के कुछ दोष भी दिखाये गये हैं।

हमारा विचार था कि इस पुस्तक में हम विशेष-कर 'कारको' और 'कालो' का विवेचन संस्कृत की शुद्ध प्रणाली के अनुसार करते; पर हिंदी में इन विषयों की रूढ़ि, अँगरेजी के नमागम से, अभी तक इतनी प्रबल है कि हमें सहसा इस प्रकार का परिवर्तन करना उचित न जान पड़ा। हिंदी में व्याकरण का पठन-पाठन अभी बाल्यावस्था ही में है; इसलिए इस नई प्रणाली के कारण इस रूखे विषय के और भी रूखे हो जाने की आशका थी। इसी कारण हमने 'विभक्तियों' और 'आख्यातों' के बदले 'कारको' और 'कालो' का नामोल्लेख तथा विचार किया है। यदि आवश्यकता जान पड़ेगी तो ये विषय किसी अगले संस्करण में परिवर्तित कर दिये जावेंगे। तब तक संभवतः विभक्तियों को मूल शब्द में मिलाकर लिखने के विषय में भी कुछ सर्व-सम्मत निश्चय हो जायगा।

इस पुस्तक में, जैसा कि ग्रंथ में अन्यत्र (पृ० ७७-७८) कहा है, अधिकांश में वही पारिभाषिक शब्द रक्खे गये हैं जो हिंदी में 'भाषा-भास्कर' के द्वारा प्रचलित हो गये हैं। यथार्थ में ये सब शब्द संस्कृत व्याकरण के हैं जिससे हमने और भी कुछ शब्द लिये हैं। थोड़े-बहुत आवश्यक शब्द मराठी तथा बँगला भाषाओं के व्याकरणों से लिये गये हैं और उपयुक्त शब्दों के अभाव में कुछ शब्दों की रचना हमने स्वयं की है।

व्याकरण की उपयोगिता और आवश्यकता इस पुस्तक में यथा-स्थान दर्शाई गई है, तथापि यहाँ इतना कहना उचित जान पडता है कि किसी भी भाषा के व्याकरण का निर्माण उसके साहित्य की पूर्ति का कारण होता है और उसकी प्रगति में सहायता देता है। भाषा की सत्ता स्वतंत्र होने पर भी, व्याकरण उसका सहायक अनुयायी बनकर उसे समय-समय और स्थान-स्थान पर जो आवश्यक सूचनाएँ देता है उससे भाषा को लाभ होता है। जिस प्रकार किसी संस्था के संतोष-पूर्वक चलने के लिए सर्व-सम्मत नियमों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा की चंचलता दूर करने और उसे व्यवस्थित रूप में रखने के लिए व्याकरण ही प्रधान और सर्वोत्तम साधन है। हिंदी-भाषा के लिए यह नियंत्रण और भी आवश्यक है, क्योंकि इसका स्वरूप / उपभाषाओं की खींचातानी में अनिश्चित सा हो रहा है।

हिंदी-व्याकरण का प्रारंभिक इतिहास अंधकार में पड़ा हुआ है। हिंदी-भाषा के पूर्व रूप 'अपभ्रंश' का व्याकरण हेमचंद्र ने बारहवीं शताब्दी में लिखा है, पर हिंदी-व्याकरण के प्रथम आचार्य का पता नहीं लगता। इसमें संदेह नहीं कि हिंदी के प्रारंभ-काल में व्याकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तो स्वयं भाषा ही उस समय अपूर्णावस्था में थी; और दूसरे, लेखकों को अपनी मातृभाषा

के ज्ञान और प्रयोग के लिए उस समय व्याकरण की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। उस समय लेखों में गद्य का अधिक प्रचार न होने के कारण भाषा के सिद्धांतों की ओर संभवतः लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था। जो हो, हिंदी के आदि-वैयाकरण का पता लगाना स्वतंत्र खोज का विषय है। हमें जहाँ तक पुस्तकों से पता लगा है, हिंदी-व्याकरण के आदि-निर्माता वे अँगरेज थे जिन्हें ईश्वी सन् की उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में इस भाषा के विधिवत् अध्ययन की आवश्यकता हुई थी। उस समय कलकत्ते के फोर्ट-विलियम कालेज के अध्यक्ष डा० गिलक्राइस्ट ने अँगरेजी में हिंदी का एक व्याकरण लिखा था। उन्हीं के समय में प्रेम-सागर के रचयिता लल्लूजी लाल ने “कवायद-हिंदी” के नाम से हिंदी-व्याकरण की एक छोटी पुस्तक रची थी। हमें इन दोनों पुस्तकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, पर इनका उल्लेख अँगरेजों के लिखे हिंदी व्याकरणों में तथा हिंदी-साहित्य के इतिहास में पाया जाता है।

लल्लूजी लाल के व्याकरण के लगभग २५ वर्ष पश्चात् कलकत्ते के पादरी आदम साहव ने हिंदी-व्याकरण की एक छोटी-सी पुस्तक लिखी जो कई वर्षों तक स्कूलों में प्रचलित रही। इस पुस्तक में अँगरेजी-व्याकरण के ढंग पर हिंदी-व्याकरण के कुछ साधारण नियम दिये गये हैं। पुस्तक की भाषा पुरानी, पंडिताऊ और विदेशी लेखक की स्वाभाविक भूलों से भरी हुई है। इसके पारिभाषिक शब्द बँगला व्याकरण से लिये गये जान पड़ते हैं और हिंदी में उन्हें समझते समय विषय की कई भूलें भी हो गई हैं।

सिपाही विद्रोह के पीछे शिक्षा-विभाग की स्थापना होने पर पं० रामजसज की भाषा-तत्व-बोधिनी प्रकाशित हुई जो एक साधारण पुस्तक है और जिसमें कहीं-कहीं हिंदी और संस्कृत की मिश्रित

प्रणालियों का उपयोग किया गया है। इसके पीछे पं० श्रीलाल का “भाषा-चंद्रोदय” प्रकाशित हुआ जिसमें हिंदी व्याकरण के कुछ अधिक नियम पाये जाते हैं। फिर सन् १८६६ ईसवी में बाबू नवीनचंद्र राय कृत “नवीन-चंद्रोदय” निकला। राय महाशय पंजाब-निवासी बंगाली और वहाँ के शिक्षा-विभाग के उच्च कर्मचारी थे। आपने अपनी पुस्तक में “भाषा-चंद्रोदय” का उल्लेख कर उसके विषय में जो कुछ लिखा है उससे आपकी कृति का पता लगता है। आप लिखते हैं—“भाषा-चंद्रोदय” की रीति स्वाभाविक है, पर इसमें सामान्य वा अनावश्यक विषयों का विस्तार किया गया है, और जो अत्यंत आवश्यक था अर्थात् संस्कृत शब्द जो भाषा में व्यवहृत होते हैं उनके नियम यहाँ नहीं दिये गये”। “नवीन-चंद्रोदय” में भी संस्कृत-प्रणाली का आशिक अनुसरण पाया जाता है। इसके पश्चात् पं० हरिगोपाल पाध्ये ने अपनी “भाषा-तत्त्व-दीपिका” लिखी। पाध्ये महाशय महाराष्ट्र थे, अतएव उन्होंने मराठी-व्याकरण के अनुसार, कारक और विभक्ति का विवेचन, संस्कृत की रीति पर, किया है और कई एक पारिभाषिक शब्द मराठी-व्याकरण से लिये हैं। पुस्तक की भाषा में स्वभावतः मराठीपन पाया जाता है। यह पुस्तक बहुत-कुछ अँगरेजी ढँग पर लिखी गई है।

लगभग इसी समय (सन् १८७५ ई० में) राजा शिवप्रसाद का हिंदी-व्याकरण निकला। इस पुस्तक में दो विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता यह है कि पुस्तक अँगरेजी ढँग की होने पर भी इसमें संस्कृत व्याकरण के सूत्रों का अनुकरण किया गया है; और दूसरी यह कि हिंदी के व्याकरण के साथ-साथ, नागरी अक्षरों में, उर्दू का भी व्याकरण दिया गया है। इस समय हिंदी और उर्दू के स्वरूप के विषय में वाद-विवाद उपस्थित हो गया था, और राजा साहब दोनों बोलियों को एक बनाने के प्रयत्न में अगुआ थे, इस-

लिए आपको ऐसा दोहरा व्याकरण बनाने की आवश्यकता हुई। इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्रजी ने बच्चों के लिए एक छोटा सा हिंदी व्याकरण लिखकर इस विषय की उपयोगिता और आवश्यकता सिद्ध कर दी।

इसके पीछे पादरी एथरिंगटन साहब का प्रसिद्ध व्याकरण "भाषा-भास्कर" प्रकाशित हुआ जिसकी सत्ता ४० वर्ष से आज तक एक सी अटल बनी हुई है। अधिकांश में दूषित होने पर भी इस पुस्तक के आधार और अनुकरण पर हिंदी के कई छोटे-मोटे व्याकरण बने और बनते जाते हैं। यह पुस्तक अँगरेजी ढंग पर लिखी गई है और जिन पुस्तकों में इसका आधार पाया जाता है उनमें भी इसका ढंग लिया गया है। हिंदी में यह अँगरेजी-प्रणाली इतनी प्रिय हो गई है कि इसे छोड़ने का पूरा प्रयत्न आज तक नहीं किया गया। मराठी, गुजराती, वँगला, आदि भाषाओं के व्याकरणों में भी बहुधा इसी प्रणाली का अनुकरण पाया जाता है।

इधर गत २५ वर्षों के भीतर हिंदी के छोटे-मोटे कई एक व्याकरण छपे हैं जिनमें विशेष उल्लेख-योग्य पं० केशवराम-भट्ट-कृत "हिंदी-व्याकरण", ठाकुर रामचरणसिंह-कृत "भाषा-प्रभाकर", पं० रामावतार शर्मा का "हिंदी-व्याकरण", पं० विश्वेश्वरदत्त शर्मा का "भाषा-तत्व-प्रकाश" और पं० रामदहिन मिश्र का प्रवेशिका-हिंदी-व्याकरण है। इन वैयाकरणों में किसी ने प्रायः देशी, किसी ने पूर्णतया विदेशी और किसी ने मिश्रित प्रणाली का अनुसरण किया है। पं० गोविंदनारायण मिश्र ने "विभक्ति-विवार" लिखकर हिंदी-विभक्तियों की व्युत्पत्ति के विषय में गवेषणा-पूर्ण समालोचना की है और हिंदी-व्याकरण के इतिहास में एक नवीनता का समावेश किया है।

हमने अपने व्याकरण में पूर्वोक्त प्रायः सभी पुस्तकों के अधिकांश विवदमान विषयों की, यथा-स्थान, कुछ चर्चा और परीक्षा की

है। इस पुस्तक का प्रकाशन आरम्भ होने के पश्चात् पं० अंबिकाप्रसाद वाजपेयी की “हिंदी-कौमुदी” प्रकाशित हुई; इसलिए अन्यान्य पुस्तकों के समान इस पुस्तक के किसी विवेचन का विचार हमारे ग्रंथ में न हो सका। “हिंदी-कौमुदी” अन्यान्य सभी व्याकरणों की अपेक्षा अधिक व्यापक, प्रामाणिक और शुद्ध है।

कैलाश, ओब्ज़, पिकाट आदि विदेशी लेखकों ने हिंदी-व्याकरण की उत्तम पुस्तकें, अँगरेजों के लाभार्थ, अँगरेजी में लिखी हैं, पर इनके ग्रंथों में किये गये विवेचनों की परीक्षा हमने अपने ग्रंथ में नहीं की, क्योंकि भाषा की शुद्धता की दृष्टि से विदेशी लेखक पूर्णतया प्रामाणिक नहीं माने जा सकते।

ऊपर, हिंदी-व्याकरण का, गत प्रायः सौ वर्षों का, संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। इससे जाना जाता है कि हिंदी-भाषा के जितने व्याकरण आज तक हिंदी में लिखे गये हैं वे विशेष-कर पाठशालाओं के छोटे-छोटे विद्यार्थियों के लिए निर्मित हुए हैं। उनमें बहुधा साधारण (स्थूल) नियम ही पाये जाते हैं जिनसे भाषा की व्यापकता पर पूरा प्रकाश नहीं पड सकता। शिक्षित समाज ने उनमें से किसी भी व्याकरण को अभी तक विशेष रूप से प्रामाणिक नहीं माना है। हिंदी-व्याकरण के इतिहास में एक विशेषता यह भी है कि अन्य-भाषा-भाषी भारतीयों ने भी इस भाषा का व्याकरण लिखने का उद्योग किया है जिससे हमारी भाषा की व्यापकता, इसके प्रामाणिक व्याकरण की आवश्यकता और साथ ही हिंदी-भाषी व्याकरणों का अभाव अथवा उनकी उदासीनता ध्वनित होती है। आजकल हिंदी-भाषा के लिए यह एक शुभ चिह्न है कि कुछ दिनों से हिंदी-भाषी लेखकों (विशेष-कर शिक्षकों) का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट हो रहा है।

हिंदी में अनेक उपभाषाओं के होने तथा उर्दू के साथ अनेक वर्षों से इसका संपर्क रहने के कारण हमारी भाषा की रचना-शैली

अभी तक बहुधा इतनी अस्थिर है कि इस भाषा के वैयाकरण को व्यापक नियम बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ भाषा के स्वाभाविक संगठन से भी उत्पन्न होती हैं; पर निरंकुश लेखक इन्हे और भी बढ़ा देते हैं। हिंदी के स्वराज्य में अहमन्य लेखक बहुधा स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया करते हैं और व्याकरण के शासन का अभ्यास न होने के कारण इस विषय के उचित आदेशों को भी पराधीनता मान लेंते हैं। प्रायः लोग इस बात को भूल जाते हैं कि साहित्यिक भाषा सभी देशों और कालों में लेखकों की मातृ-भाषा अथवा बोल-चाल की भाषा से थोड़ी बहुत भिन्न रहती है और वह, मातृ-भाषा के समान, अभ्यास ही से आती है। ऐसी अवस्था में, केवल स्वतंत्रता के आवेश के वशीभूत होकर, शिष्ट भाषा पर विदेशी भाषाओं अथवा प्रांतीय बोलियों का अधिकार चलाना एक प्रकार की राष्ट्रीय अराजकता है। यदि स्वयं लेखक-गण अपनी साहित्यिक भाषा को योग्य अध्ययन और अनुकरण से शिष्ट, स्पष्ट और प्रामाणिक बनाने की चेष्टा न करेंगे तो वैयाकरण "प्रयोग-शरण" का सिद्धांत कहाँ तक मान सकेगा? हमने अपने व्याकरण में प्रसंगानुरोध से प्रांतीय बोलियों का थोड़ा-बहुत विचार करके, केवल साहित्यिक हिंदी का विवेचन किया है। पुस्तक में विषय-विस्तार के द्वारा यह प्रयत्न भी किया गया है कि हिंदी-पाठकों की रुचि व्याकरण की ओर प्रवृत्त हो। इन सब प्रयत्नों की सफलता का निर्णय विज्ञ पाठक ही कर सकते हैं।

इस पुस्तक में एक विशेष त्रुटि रह गई है जो कालांतर ही में दूर हो सकती है, जब हिंदी भाषा की पूरी और वैज्ञानिक सौज की जायगी। हमारी समझ में किसी भी भाषा के सर्वांग-पूर्ण व्याकरण में उस भाषा के रूपांतरों और प्रयोगों का इतिहास लिखना आवश्यक है। यह विषय हमारे व्याकरण में न आ सका, क्योंकि

हिंदी-भाषा के आरम्भ-काल में, समय समय पर (प्रायः एक एक शताब्दि में) बदलनेवाले रूपों और प्रयोगों के प्रामाणिक उदाहरण, जहाँ तक हमें पता लगा है, उपलब्ध नहीं हैं। फिर इस विषय के योग्य प्रतिपादन के लिए शब्द-शास्त्र की विशेष योग्यता की भी आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में हमने "हिंदी-व्याकरण" में हिंदी-भाषा के इतिहास के बदले हिंदी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास देने का प्रयत्न किया है। यथार्थ में यह बात अनुचित और अनावश्यक प्रतीत होती है कि भाषा के संपूर्ण रूपों और प्रयोगों की नामावली के स्थान में कवियों और लेखकों तथा उनके ग्रंथों की शुष्क नामावली दी जाय। हमने यह विचार केवल इसीलिए लिखा है कि पाठको को, प्रस्तावना के रूप में, हिंदी भाषा की महत्ता का थोड़ा-बहुत अनुमान हो जाय।

हिंदी के व्याकरण का सर्व-सम्मत होना परम आवश्यक है इस विचार से काशी की सभा ने इस पुस्तक को छद्म-संस्कृत के लिए एक सशोधन-समिति निर्वाचित की थी। छद्म-संस्कृत के छुट्टियों में अपनी बैठक की, और आवश्यक (केन्द्रीय) परिवर्तन के साथ, इस व्याकरण को सर्व-सम्मत के रूप में स्वीकार कर लिया। यह बात लेखक, हिंदी-भाषा और हिन्दू-साहित्य के लिए अत्यंत लाभदायक और महत्त्व-पूर्ण है। इस समिति के निम्न-लिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लेकर छद्म-संस्कृत के संशोधन-कार्यों में अमूल्य सहायता दी है—

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ।

साहित्याचार्य पंडित रामावरर ~~...~~ ।

पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लोट, ~~...~~ ।

रा० सा० पंडित लज्जाशंकर ~~...~~ ।

पंडित रामनारायण ~~...~~ ।

बाबू जगन्नाथदास (रत्नाकर), बी० ए० ।

बाबू श्यामसुंदरदास, बी० ए० ।

पंडित रामचंद्र शुक्ल ।

इन सब सज्जनों के प्रति हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के हम विशेषतया कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपने हस्त-लिखित प्रति का अधिकांश भाग पढ़कर अनेक उपयोगी सूचनाएँ देने की कृपा और परिश्रम किया है । खेद है कि पं० गोविंद-नारायणजी मिश्र तथा पं० अंबिकाप्रसादजी वाजपेयी समयभाव के कारण समिति की बैठक में योग न दे सके जिससे हमें आप लोगों की विद्वत्ता और सम्मति का लाभ प्राप्त न हुआ । व्याकरण-संशोधन-समिति की सम्मति अन्यत्र दी गई है ।

अंत में, हम विद्वान् पाठकों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग कृपा कर हमें इस पुस्तक के दोषों की सूचना अवश्य दें । यदि ईश्वरेच्छा से पुस्तक को द्वितीयावृत्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा तो उसमें इन दोषों को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न किया जायगा । तब तक 'पाठक-गण कृपा कर "हिंदी-व्याकरण" के सार को उसी प्रकार ग्रहण करें जिस प्रकार—

संत-हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि-विकार ।

गढ़ा-फाटक,
जबलपुर;
वसंत-पंचमी,
सं० १८७७

निवेदक—
कामताप्रसाद गुप्त

व्याकरण-संशोधन-समिति की सम्मति ।

श्रीयुत मंत्री,

नागरीप्रचारिणी सभा,

काशी ।

महाशय,

सभा के निश्चय के अनुसार व्याकरण-संशोधन-समिति का कार्य वृहस्पतिवार आश्विन शुक्ल ३ सवत् १-६७७ (ता० १४ अक्टूबर १-६२०) को सभा-भवन में यथासमय आरंभ हुआ । हम लोगो ने व्याकरण के मुख्य-मुख्य सभी अंगों पर विचार किया । हमारी सम्मति है कि सभा ने जो व्याकरण विचार के लिए छपवाकर प्रस्तुत किया है वह आज तक प्रकाशित व्याकरणों से सभी बातों में उत्तम है । वह बड़े विस्तार से लिखा गया है । प्रायः कोई अंश छूटने नहीं पाया । इसमें संदेह नहीं कि व्याकरण बड़ी गवेषणा से लिखा गया है । हम इस व्याकरण को प्रकाशन-योग्य समझते हैं और अपने सहयोगी पंडित कामताप्रसादजी गुरु को साधुवाद देते हैं । उन्होने ऐसे अच्छे व्याकरण का प्रणयन करके हिंदी साहित्य के एक महत्व-पूर्ण अंश की पूर्ति कर दी ।

जहाँ-जहाँ परिवर्तन करना आवश्यक है उसके विषय में हम लोगों ने सिद्धांत स्थिर कर दिये हैं । उनके अनुसार सुधार करके पुस्तक छपवाने का भार निम्न-लिखित महाशयों को दिया गया है—

(१) पंडित कामताप्रसाद गुरु,

असिस्टेंट मास्टर, माडल हाई स्कूल, जबलपुर ।

- (२) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी,
जुही-कला, कानपुर ।
- (३) पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी० ए०,
जयपुर-भवन, मेयो कालेज, अजमेर ।

निवेदन-कर्त्ता—

महावीरप्रसाद द्विवेदी
रामावतार शर्मा
लजाशंकर भा
रामनारायण मिश्र
जगन्नाथदाम
श्रीचंद्रधर शर्मा
रामचंद्र शुक्ल
श्यामसुंदरदास
कामताप्रसाद गुरु

विषय-सूची

१-प्रस्तावना-

(१) भाषा	१
(२) भाषा और व्याकरण	४
(३) व्याकरण की सीमा	६
(४) व्याकरण से लाभ	६
(५) व्याकरण के विभाग	८

२-हिंदी की उत्पत्ति-

(१) आदिम भाषा	१०
(२) आर्य-भाषाएँ	११
(३) सस्कृत और प्राकृत	१२
(४) हिंदी	१७
(५) हिंदी और उर्दू	२४
(६) तत्सम और तद्भव शब्द	२६
(७) देशज और अनुकरण-वाचक शब्द	३१
(८) विदेशी शब्द	३१

पहला भाग

वर्ण-विचार ।

पहला अध्याय—वर्णमाला	३३
दूसरा "—लिपि	.	.	.	३६
तीसरा "—वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण	}			४०
चौथा अध्याय—स्वराघात	४६
पाँचवाँ "—संधि	५१

दूसरा भाग

शब्द-साधन ।

पहला परिच्छेद—शब्द-भेद ।

पहला अध्याय—शब्द-विचार	६१
दूसरा " —शब्दों का वर्गीकरण	६४

पहला खंड—विकारी शब्द ।

पहला अध्याय—संज्ञा	७३
दूसरा " —सर्वनाम	८४
तीसरा " —विशेषण	११५
चौथा " —क्रिया	१४१

दूसरा खंड—अव्यय ।

पहला अध्याय—क्रिया-विशेषण	१५६
दूसरा " —संबंध-सूचक	१७८
तीसरा " —समुच्चय-बोधक	१८३
चौथा " —विस्मयादि-बोधक	२१३

दूसरा परिच्छेद—रूपांतर

पहला अध्याय—लिंग	२१६
दूसरा " —वचन	२३६
तीसरा " —कारक	२४८
चौथा " —सर्वनाम	२७४
पाँचवाँ " —विशेषण	२८४
छठा " —क्रिया	२९३
सातवाँ " —संयुक्त क्रियाएँ	३५३
आठवाँ " —विकृत अव्यय	३७१

तीसरा परिच्छेद—व्युत्पत्ति ।

पहला अध्याय—विषयारंभ...	३७४
दूसरा " —वपसर्ग	३७८
तीसरा " —संस्कृत-प्रत्यय	३८६
चौथा " —हिंदी-प्रत्यय	४०५
पाँचवाँ " —उर्दू-प्रत्यय	४२८
छठा " —समास	४४२
सातवाँ " —पुनरुक्त शब्द	४६६

तीसरा भाग ।

वाक्य-विन्यास ।

पहिला परिच्छेद—वाक्य-रचना ।

पहला अध्याय—प्रस्तावना...	४७८
दूसरा " —कारको के अर्थ और प्रयोग	.	.	४८२
तीसरा " —समानाधिकरण शब्द	५०५
चौथा " —उद्देश्य, कर्म और क्रिया का अन्वय			५०८
पाँचवाँ " —सर्वनाम	५१६
छठा " —विशेषण और संबंध कारक	५२०
सातवाँ " —कालों के अर्थ और प्रयोग	५२४
आठवाँ " —क्रियार्थक संज्ञा	५३८
नवाँ " —कृदंत	५४१
दसवाँ " —संयुक्त क्रियाएँ	५५०
ग्यारहवाँ " —अव्यय	५५३
बारहवाँ " —अध्याहार	५५६
तेरहवाँ " —पदक्रम	५६१
चौदहवाँ " —पद-परिचय	५६६

दूसरा परिच्छेद—वाक्य-पृथक्करण ।

पहला अध्याय—विषयारंभ	५८१
दूसरा " —वाक्य और वाक्यों से भेद	५८३
तीसरा " —साधारण वाक्य	५८५
चौथा " —मिश्र वाक्य...	५८६
पाँचवाँ " —संयुक्त वाक्य	६२१
छठा " —संक्षिप्त वाक्य	६२६
सातवाँ " —कुछ विशेष प्रकार के वाक्य	६२८
आठवाँ " —विराम-चिह्न	६३१
परिशिष्ट (क)—कविता की भाषा	६४४
(ख)—काव्य-स्वतंत्रता	६६०



१-प्रस्तावना ।



(१) भाषा ।

भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप समझ सकता है । मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार प्रकट करने पड़ते हैं । जगत का अधिकांश व्यवहार बोल-चाल अथवा लिखा-पढ़ी से चलता है, इसलिए **भाषा** जगत के व्यवहार का मूल है ।

वहरे और गूंगे मनुष्य अपने विचार संकेतों से प्रकट करते हैं । बच्चा केवल रोकर अपनी इच्छा जनाता है । कभी कभी केवल मुख की चेष्टा से मनुष्य के विचार प्रकट हो जाते हैं । कोई कोई जंगली लोग बिना बोले ही संकेतों के द्वारा बात-चीत करते हैं । इन सब संकेतों को लोग ठीक ठीक नहीं समझ सकते और न इनसे सब विचार ठीक ठीक प्रकट हो सकते हैं । इस प्रकार की सांकेतिक भाषाओं से शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकता । पशु-पक्षी जो बोली बोलते हैं उससे दुःख, सुख, भय आदि मनोविकारों के सिवा और कोई बात नहीं जानी जाती । मनुष्य की **भाषा** से उसके सब विचार भली भाँति प्रकट होते हैं, इसलिए वह **व्यक्त** भाषा कहलाती है, दूसरी सब भाषाएँ या बोलियाँ **अव्यक्त** कहाती हैं ।

व्यक्त भाषा के द्वारा मनुष्य एक-दूसरे के विचार ही नहीं जान लेते, वरन उसकी सहायता से नये विचार भी उत्पन्न होते हैं । किसी

विषय को सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करते हैं, जिससे हमारे विचार भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। इसके सिवा भाषा से धारणा-शक्ति को सहायता मिलती है। यदि हम अपने विचारों को एकत्र करके लिख ले तों आवश्यकता पड़ने पर हम लेख-रूप में उन्हें देख सकते हैं और बहुत समय बीत जाने पर भी हमें उनका स्मरण हो सकता है। भाषा की उन्नत या अवनत अवस्था राष्ट्रीय उन्नति या अवनति का प्रतिबिम्ब है। प्रत्येक नया शब्द एक नये विचार का चित्र है और भाषा का इतिहास मानो उसके बोलनेवालों का इतिहास है।

भाषा स्थिर नहीं रहती, उसमें सदा परिवर्तन हुआ करते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि कोई भी प्रचलित भाषा एक हजार वर्ष से अधिक समय तक एकसी नहीं रह सकती। जो हिंदी हम लोग आजकल बोलते हैं वह प्रपितामह आदि हमारे पूर्वजों के समय में इसी रूप में न बोली जाती थी, और न उन लोगों की हिंदी वैसी थी जैसी वह महाराज पृथ्वीराज के समय में बोली जाती थी। अपने पूर्वजों की भाषा की खोज करते करते हमें अंत में एक ऐसी हिंदी भाषा का पता लगेगा जो हमारे लिये एक अपरिचित भाषा के समान कठिन होगी। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है— इतना धीरे धीरे कि वह हमको मालूम नहीं होता, पर, अंत में, इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा पर स्थान, जल-वायु और सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत से शब्द जो एक देश के लोग बोल सकते हैं, दूसरे देश के लोग तद्वत् नहीं बोल सकते। जल-वायु में हेर-फेर होने से लोगों के उच्चारण में अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण नये नये विचारों के लिए नये नये शब्द बनाने पड़ते हैं, जिससे भाषा का शब्द-कोष बढ़ता जाता है। इसके साथही बहुतसी

जातियाँ अवनत होती जाती हैं और उच्च भावों के अभाव में उच्च वाचक शब्द लुप्त होते जाते हैं।

विद्वान् और ग्रामीण मनुष्यों की भाषा में कुछ अंतर रहता है। किसी शब्द का जैसा शुद्ध उच्चारण विद्वान् पंडित करते हैं वैसा सर्व-साधारण लोग नहीं कर सकते। इससे प्रधान भाषा बिगड़कर उसकी शाखा-रूप नई नई बोलियाँ बन जाती हैं। भिन्न भिन्न दो भाषाओं के पास पास बोले जाने के कारण भी उन दोनों के मेल से एक नई बोली उत्पन्न हो जाती है।

भाषागत विचार प्रकट करने में एक विचार के प्रायः कई अंश प्रकट करने पड़ते हैं। उन सभी अंशों के प्रकट करने पर उस समग्र विचार का मतलब अच्छी तरह समझ में आता है। प्रत्येक पूरी वात को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में प्रायः कई शब्द रहते हैं। प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है जो कई मूल ध्वनियों के योग से बनती है। जब हम बोलते हैं तब शब्दों का उपयोग करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को काम में लाते हैं। यदि हम शब्द का ठीक ठीक उपयोग न करें तो हमारी भाषा में बड़ी गड़बड़ पड़ जाय और संभवतः कोई हमारी वात न समझ सके। यद्यपि भाषा में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वे किसी न किसी कारण से कल्पित किये गये हैं, तो भी जो शब्द जिस वस्तु का सूचक है उसका इससे, प्रत्यक्ष में, कोई संबंध नहीं। परंतु शब्दों ने अपने वाच्य पदार्थादि की भावना को अपने में बाँध सा लिया है जिससे शब्दों का उच्चारण करते ही उन उन पदार्थों का बोध तत्काल हो जाता है। कोई कोई शब्द केवल अनुकरण-वाचक है, पर जिन सार्थक शब्दों से भाषा बनी है उनके आगे ये शब्द बहुत थोड़े हैं।

जब हम उपस्थित लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं तब

बहुधा कथित भाषा काम में लाते हैं; पर जब हमें अपने विचार दूरवर्ती मनुष्यों के पास पहुँचाने का काम पड़ता है, अथवा भावी संतति के लिए उनके संग्रह की आवश्यकता होती है, तब हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। लिखी हुई भाषा में शब्द की एक एक मूल-ध्वनि को पहचानने के लिए एक एक चिह्न नियत कर लिया जाता है जिसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि कानों का विषय है, पर वर्ण आँखों का, और यह ध्वनि का प्रतिनिधि है। पहले पहल केवल बोली हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछे से विचारों को स्थायी रूप देने के लिए कई प्रकार की लिपियाँ निकाली गईं। वर्ण-लिपि निकलने के बहुत समय पहले तक लोगों में चित्र-लिपि का प्रचार था, जो आजकल भी पृथ्वी के कई भागों के जंगली लोगों में प्रचलित है। इस देश में भी कहीं कहीं ऐसी पुरानी वस्तुएँ मिली हैं जिनपर चित्र-लिपि के चिह्न मालूम पड़ते हैं। मिसर के पुराने खंडहरों और गुफाओं आदि में पुरानी चित्र-लिपि के अनेक नमूने पाये गये हैं और इन्हींसे वहाँ की वर्णमाला निकली है। कोई कोई यह अनुमान करते हैं कि प्राचीन समय के चित्र-लेख के किसी किसी अवयव के कुछ लक्षण वर्तमान वर्णों के आकार में मिलते हैं, जैसे “ह” में हाथ और “ग” में गाय के आकार का कुछ न कुछ अनुकरण पाया जाता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विचार के लिए बहुधा भिन्न भिन्न शब्द होते हैं उसी प्रकार एक ही मूल-ध्वनि के लिए उनमें भिन्न भिन्न अक्षर भी होते हैं।

(२) भाषा और व्याकरण ।

किसी भाषा की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयोग होता है उतने सभी भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं और अपने उपयोग के

अनुसार कोई अधिक और कोई कम आवश्यक होते हैं । फिर, एक ही विचार को कई रूपों में प्रकट करने के लिए शब्दों के भी कई रूपांतर हो जाते हैं । भाषा में यह भी देखा जाता है कि कई शब्द दूसरे शब्दों से बनते हैं और उनसे एक नया ही अर्थ पाया जाता है । वाक्य में शब्दों का उपयोग किसी विशेष क्रम से होता है और उनमें रूप अथवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध रहता है । इस अवस्था में यह आवश्यक है कि पूर्णता और स्पष्टतापूर्वक विचार प्रकट करने के लिए शब्दों के रूपों तथा प्रयोग में **स्थिरता** और **समानता** हो । जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे **व्याकरण** कहते हैं । व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किये जाते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है । व्याकरण (वि + आ + करण) शब्द का अर्थ “भली भाँति समझाना” है । व्याकरण में वे नियम समझाये जाते हैं जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोग में दिखाई देते हैं ।

व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के अनुसार बदलता रहता है । व्याकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी ओर से नये नियम बनाकर भाषा को बदल दे । वह इतना ही कह सकता है कि अमुक प्रयोग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता से किया जाता है, पर उसकी सम्मति मानना या न मानना लोगों की इच्छा पर है । व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता, वरन् भाषा पहले बोली जाती है और उसके आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है । व्याकरण और छंदःशास्त्र का निर्माण करने के बरसों पहले से भाषा बोली जाती है और कविता रची जाती है ।

(३) व्याकरण की सीमा ।

लोग बहुधा यह समझते हैं कि व्याकरण पढ़कर वे शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने की रीति सीख लेते हैं । ऐसा समझना पूर्ण रूप से ठीक नहीं । यह सच है कि शब्दों की बनावट और उनके संबंध की खोज करने से भाषा के प्रयोग में शुद्धता आ जाती है, पर यह बात गौण है । व्याकरण न पढ़कर भी लोग शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीख सकते हैं । हिंदी के कई अच्छे लेखक व्याकरण नहीं जानते अथवा व्याकरण जानकर भी लेख लिखने में उसका उपयोग नहीं करते । उन्होंने अपनी मातृभाषा का लिखना अभ्यास से सीखा है । शिक्षित लोगों के लड़के, विना व्याकरण जाने, शुद्ध भाषा सुनकर ही, शुद्ध शुद्ध बोलना सीख लेते हैं; पर अशिक्षित लोगों के लड़के व्याकरण पढ़ लेने पर भी प्रायः अशुद्ध ही बोलते हैं, यदि छोटा लड़का कोई वाक्य शुद्ध नहीं बोल सकता तो उसकी माँ उसे व्याकरण का नियम नहीं समझाती, वरन शुद्ध वाक्य बता देती है और लड़का वैसा ही बोलने लगता है ।

व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता । विचारों की सत्यता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं । भाषा में व्याकरण की भूले न होने पर भी विचारों की भूले हो सकती हैं और रोचकता का अभाव रह सकता है । व्याकरण की सहायता से हम केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, जिससे किसी भी विचारवान् मनुष्य को उनके समझने में कठिनाई अथवा संदेह न हो ।

(४) व्याकरण से लाभ ।

यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा व्याकरण के आश्रित नहीं और यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा शुद्ध, रोचक और प्रामाणिक नहीं हो सकती, तो उसका निर्माण

करने और उसे पढ़ने से क्या लाभ ? कुछ लोगों का यह भी आक्षेप है कि व्याकरण शुष्क और निरुपयोगी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि भाषा से व्याकरण का प्रायः वही संबंध है जो प्राकृतिक विकारों से विज्ञान का है। वैज्ञानिक लोग ध्यानपूर्वक सृष्टि-क्रम का निरीक्षण करते हैं और जिन नियमों का प्रभाव वे प्राकृतिक विकारों में देखते हैं उन्हींको वे बहुधा सिद्धांतवत् ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार ससार में कोई भी प्राकृतिक घटना नियम-विरुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी नियम-विरुद्ध नहीं बोली जाती। व्याकरण इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते है। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, और स्पष्टतापूर्वक विचार प्रकट करने के लिए, उनका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है, जिनको जानकर हम अपनी भाषा के नियम जान सकते हैं और उन भूलों का कारण समझ सकते हैं, जो कभी कभी नियमों का ज्ञान न होने के कारण बोलने या लिखने में हो जाती है। किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरण जानना भी आवश्यक है। कभी कभी कठिन भाषा का अर्थ केवल व्याकरण की सहायता से जाना जा सकता है। इसके सिवा व्याकरण के ज्ञान से विदेशी भाषा सीखना भी सहज हो जाता है।

कोई कोई व्याकरण व्याकरण को शास्त्र मानते हैं और कोई कोई उसे कला समझते हैं। शास्त्र से हमको किसी विषय का ज्ञान विधिपूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं। व्याकरण को शास्त्र इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा हम भाषा के उन नियमों की खोज करते हैं जिनपर शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलंबित है, और वह कला इसलिए है कि हम शुद्ध भाषा बोलने के लिए उन नियमों का पालन करते हैं।

विचारों में शुद्धता **तर्क-शास्त्र** के ज्ञान से और भाषा की रोचकता **साहित्य-शास्त्र** के ज्ञान से आती है।

हिंदी-व्याकरण में प्रचलित साहित्यिक हिंदी के रूपांतर और रचना के बहु-जन-मान्य नियमों का क्रमपूर्ण संग्रह रहता है। इसमें प्रसंग-वश प्रांतीय और प्राचीन भाषाओं का भी यत्र तत्र विचार किया जाता है; पर वह केवल गौण रूप और तुलना की दृष्टि से।

(५) व्याकरण के विभाग ।

व्याकरण भाषा-संबंधी शास्त्र है और भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द प्रायः मूल-ध्वनियों से। लिखी हुई भाषा में एक मूल-ध्वनि के लिए प्रायः एक चिह्न रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य तीन विभाग होते हैं—(१) वर्णविचार, (२) शब्द-साधन, (३) वाक्य-विन्यास।

(१) **वर्ण-विचार** व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम दिये जाते हैं।

(२) **शब्द-साधन** व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, रूपांतर और व्युत्पत्ति का वर्णन रहता है।

(३) **वाक्य-विन्यास** व्याकरण के उस विभाग का नाम है जिसमें वाक्यों के अवयवों का परस्पर संबंध बताया जाता है और शब्दों से वाक्य बनाने के नियम दिये जाते हैं।

सू०—कोई कोई लेखक गद्य के समान पद्य को भाषा का एक भेद मानकर व्याकरण में उसके अंग—छंद, रस और अलंकार—का विवेचन करते हैं। पर ये विषय यथार्थ में साहित्य शास्त्र के अंग हैं, जो भाषा को रोचक और प्रभावशालिनी बनाने के काम आते हैं।

व्याकरण से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस पुस्तक में इनका विवेचन न किया जायगा। इसी प्रकार कहावतें और मुहावरे भी जो बहुधा व्याकरण की पुस्तकों में लिख दिये जाते हैं, व्याकरण के विषय नहीं हैं। केवल कविता की भाषा और काव्य-स्वतंत्रता का परोक्ष संबंध व्याकरण से है, अतएव ये विषय प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट में दिये जायेंगे।

२—हिंदी की उत्पत्ति ।

(१) आदिम भाषा ।

भिन्न भिन्न देशों में रहनेवाली मनुष्य-जातियों के आकार, स्वभाव आदि की परस्पर तुलना करने से ज्ञात होता है कि उनमें आश्चर्य-जनक और अद्भुत समानता है। इससे विदित होता है कि सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों के पूर्वज एकही थे। वे एकही स्थान पर रहते थे और एकही-से आचार-व्यवहार करते थे। इसी प्रकार, यदि भिन्न भिन्न भाषाओं के मुख्य मुख्य नियमों और शब्दों की परस्पर तुलना की जाय तो उनमें भी विचित्र सादृश्य दिखाई देता है। इससे यह प्रकट होता है कि हम सबके पूर्वज पहले एकही भाषा बोलते थे। जिस प्रकार आदिम स्थान से पृथक् होकर लोग जहाँ तहाँ चले गये और भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त हो गये उसी प्रकार उस आदिम भाषा से भी कितनीही भिन्न भिन्न भाषाएँ उत्पन्न हो गईं।

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मनुष्य पहले पहल एशिया-खंड के मध्य भाग में रहता था। जैसे जैसे उसकी संतति बढ़ती गई क्रम क्रम से लोग अपना मूल स्थान छोड़ अन्य देशों में जा बसे। इसी प्रकार यह भी एक अनुमान है कि नाना प्रकार की भाषाएँ एकही भाषा से निकली हैं। पाश्चात्य विद्वान् पहले यह समझते थे कि इब्रानी भाषा से, जिसमें यहूदी लोगों के धर्मग्रंथ हैं, सब भाषाएँ निकली हैं, परंतु उनमें संस्कृत का ज्ञान बढ़ने और शब्दों के मूल रूपों का पता लगने से यह सिद्ध हुआ है कि एक ऐसी आदिम भाषा से, जिसका अब पता लगना कठिन है, संसार की सब भाषाएँ निकली हैं और वे तीन भागों में बाँटी जा सकती हैं—

(१) आर्य-भाषाएँ—इस भाग में संस्कृत, प्राकृत (और उससे निकली हुई भारतवर्ष की प्रचलित आर्य-भाषाएँ), अँगरेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन, आदि भाषाएँ हैं ।

(२) शामी भाषाएँ—इसमें इब्रानी, अरबी और हूशी भाषाएँ हैं ।

(३) तूरानी भाषाएँ—इस वर्ग में मुगली, चीनी, जापानी, द्राविड़ी (दक्षिणी हिंदुस्थान की भाषाएँ), तुर्की, आदि भाषाएँ हैं ।

(२) आर्य-भाषाएँ ।

इस बात का अभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ है कि संपूर्ण आर्य-भाषाएँ—फारसी, यूनानी, लैटिन, रूसी, आदि—वैदिक संस्कृत से निकली हैं अथवा और और भाषाओं के साथ साथ यह पिछली भाषा भी किसी आदिम आर्य-भाषा से निकली है । जो हो यह बात अवश्य निश्चित हुई है कि आर्य-लोग, जिनके नाम से उनकी भाषाएँ प्रख्यात हैं, आदिम स्थान से इधर उधर गये और भिन्न भिन्न देशों में उन्होंने अपनी भाषाओं की नींव डाली । जो लोग पश्चिम को गये उनसे ग्रीक, लैटिन, अँगरेजी, आदि आर्य-भाषाएँ बोलनेवाली जातियों की उत्पत्ति हुई । जो लोग पूर्व को आये उनके दो भाग हो गये । एक भाग फारस को गया और दूसरा हिंदूकुश को लॉघ कर काबुल की तराई में होता हुआ हिंदुस्थान पहुँचा । पहले भाग के लोगों ने ईरान में मीडी (मादी) भाषा के द्वारा फारसी को जन्म दिया और दूसरे भाग के लोगों ने संस्कृत का प्रचार किया जिससे प्राकृत के द्वारा इस देश की प्रचलित आर्य-भाषाएँ निकली हैं । प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हुई इन्हीं भाषाओं में से हिंदी भी है । भिन्न भिन्न आर्य-भाषाओं की समानता दिखाने के लिए कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं—

संस्कृत	मीडी	फारसी	यूनानी	लैटिन	अंगरेजी	हिंदी
पितृ	पतर	पिदर	पाटेर	पेटर	फादर	पिता
मातृ	मतृ	मादर	माटेर	मेटर	मदर	माता
भ्रातृ	ब्रतर	ब्रादर	फ्राटेर	फ्रेटर	ब्रदर	भाई
दुहितृ	दुग्धर	दुख्तर	थिगाटेर	०	डाटर	धी
एक	यक	यक	हैन	अन	वन	एक
द्वि, द्वौ	द्व	दू	डुओ	डुओ	दू	दो
तृ	थृ	०	टृ	टृ	थ्री	तीन
नाम	नाम	नाम	ओनोमा	नामेन	नेम	नाम
अस्मि	अह्मि	अम	ऐमी	सम	ऐम	हूँ
ददामि	दधामि	दिहम	डिडोमी	डो	०	देऊँ

इस तालिका से जान पड़ता है कि निकटवर्ती देशों की भाषाओं में अधिक समानता है और दूरवर्ती देशों की भाषाओं में अधिक भिन्नता। यह भिन्नता इस बात की भी सूचक है कि यह भेद वास्तविक नहीं है और न आदि में था, किंतु वह पीछे से हो गया है।

(३) संस्कृत और प्राकृत ।

जब आर्य-लोग पहले पहल भारतवर्ष में आये तब उनकी भाषा प्राचीन (वैदिक) संस्कृत थी। इसे देववाणी भी कहते हैं। वेदों की अधिकांश भाषा यही है। रामायण, महाभारत और कालिदास आदि के काव्य जिस परिमार्जित भाषा में हैं वह बहुत पीछे की है। अष्टाध्यायी आदि व्याकरणों में “वैदिक” और “लौकिक” नामों से दो प्रकार की भाषाओं का उल्लेख पाया जाता है और दोनों के नियमों में बहुत कुछ अंतर है। इन दोनों प्रकार की भाषाओं में विशेषताएँ ये हैं कि एक तो संज्ञा के कारकों की

विभक्तियों संयोगात्मक हैं, अर्थात् कारकों में भेद करने के लिए शब्दों के अंत में अन्य शब्द नहीं आते; जैसे, मनुष्य शब्द का संबंध-कारक संस्कृत में “मनुष्यस्य” होता है, हिंदी की तरह “मनुष्य का” नहीं होता। दूसरे, क्रिया के पुरुष और वचन में भेद करने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ क्रिया के ही रूप से प्रकट होता है, चाहे उसके साथ सर्वनाम लगा हो या न लगा हो, जैसे, “गच्छति” का अर्थ “स गच्छति” होता है। यह संयोगात्मकता वर्तमान हिंदी के कुछ सर्वनामों में और संभाव्य-भविष्यत्काल में पाई जाती है, जैसे, मुझे, किसे, रहूँ, इत्यादि। इस विशेषता की कोई कोई बात वंगाली भाषा में भी अब तक पाई जाती है, जैसे “मनुष्येर” संबंधकारक में और “कहिलाम” उत्तम पुरुष में। आगे चलकर संस्कृत की यह संयोगात्मकता बदलकर व्यवच्छेदकता हो गई।

अशोक के शिलालेखों और पतंजलि के ग्रन्थों से जान पड़ता है कि ईसवी सन के कोई तीन सौ बरस पहले उत्तरी भारत में एक ऐसी भाषा प्रचलित थी जिसमें भिन्न भिन्न कई बोलियाँ शामिल थीं। स्त्रियों, बालकों और शूद्रों से आर्य-भाषा का उच्चारण ठीक ठीक न बनने के कारण इस नई भाषा का जन्म हुआ था और इसका नाम “प्राकृत” पड़ा। “प्राकृत” शब्द “प्रकृति” (मूल) शब्द से बना है और उसका अर्थ “स्वाभाविक” वा “गँवारी” है। वेदों में गाथा नाम से जो छंद पाये जाते हैं उनकी भाषा पुरानी संस्कृत से कुछ भिन्न है, जिससे जान पड़ता है कि वेदों के समय में भी प्राकृत भाषा थी। सुभीते के लिए वैदिक काल की इस प्राकृत को हम पहली प्राकृत कहेंगे और ऊपर जिस प्राकृत का उल्लेख हुआ है उसे दूसरी प्राकृत। पहली प्राकृत ही ने कई शताब्दियों के पीछे दूसरी प्राकृत का रूप धारण किया।

प्राकृत का जो सबसे पुराना व्याकरण मिलता है वह वररुचि का बनाया है। वररुचि ईसवी सन् के पूर्व पहली सदी में हो गये हैं। वैदिक काल के विद्वानों ने देववाणी को प्राकृत-भाषा की भ्रष्टता से बचाने के लिए उसका संस्कार करके व्याकरण के नियमों से उसे नियंत्रित कर दिया। इस परिमार्जित भाषा का नाम 'संस्कृत, हुआ जिसका अर्थ "सुधारा हुआ" अथवा "बनावटी" है। यह संस्कृत भी पहली प्राकृत की किसी शाखा से शुद्ध होकर उत्पन्न हुई है। संस्कृत को नियमित करने के लिए कितने ही व्याकरण बने जिनमें से पाणिनि का व्याकरण सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है। विद्वान् लोग पाणिनि का समय ई० सन् के पूर्व सातवीं सदी में स्थिर करते हैं और संस्कृत को उनसे सौ वर्ष पीछे तक प्रचलित मानते हैं।

पहली प्राकृत में संस्कृत की संयोगात्मकता तो वैसी ही थी, परंतु व्यंजनों के अधिक प्रयोग के कारण उसकी कर्ण-कटुता बहुत बढ़ गई थी। पहली और दूसरी प्राकृत में अन्य भेदों के-सिवा यह भी एक भेद हो गया था कि कर्ण-कटु व्यंजनों के स्थान पर स्वरो की मधुरता आ गई, जैसे 'रघु' का 'रहु' और 'जीवलोक' का 'जीअलोअ' हो गया।

बौद्ध-धर्म के प्रचार से दूसरी प्राकृत की बड़ी उन्नति हुई। आजकल यह दूसरी प्राकृत **पाली-भाषा** के नाम से प्रसिद्ध है। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास धीरे धीरे होता गया और कुछ समय बाद उसकी तीन शाखाएँ हो गई, अर्थात् **मागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री**। शौरसेनी-भाषा प्रायः उस देश में बोली जाती थी जिसे आजकल संयुक्त-प्रदेश कहते हैं। मागधी मगध-देश वा बिहार की भाषा थी और महाराष्ट्री का प्रचार दक्षिण के वंई, वरार आदि प्रांतों में था। बिहार और संयुक्त-

प्रदेश के मध्य भाग में एक और भाषा थी जिसको **अर्द्धमागधी** कहते थे । वह शौरसेनी और मागधी के मेल से बनी थी । कहते हैं कि जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी इसी अर्द्धमागधी में जैन-धर्म का उपदेश देते थे । पुराने जैन ग्रन्थ भी इसी भाषा में हैं । बौद्ध और जैन-धर्म के सस्थापकों ने अपने धर्मों के सिद्धांत सर्व-प्रिय बनाने के लिए अपने ग्रन्थ बोलचाल की भाषा अर्थात् प्राकृत में रचे थे । फिर काव्यों और नाटकों में भी उसका प्रयोग हुआ ।


थोड़े दिनों पीछे दूसरी प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया । लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित अर्थात् परिवर्तित होती गई । लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकाशपूर्ण भाषा का उल्लेख **अपभ्रंश** नाम से किया है । “अपभ्रंश” शब्द का अर्थ “विगड़ी हुई” भाषा है । ये अपभ्रंश-भाषाएँ भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न प्रकार की थीं । इनके प्रचार के समय का ठीक ठीक पता नहीं लगता, पर जो प्रमाण मिलते हैं उनसे जाना जाता है कि ईसवी सन के ग्यारहवें शतक तक अपभ्रंश भाषा में कविता होती थी । प्राकृत के अंतिम वैयाकरण हेमचंद्र ने, जो बारहवें शतक में हुए हैं, अपने व्याकरण में अपभ्रंश का उल्लेख किया है ।

अपभ्रंशों में संस्कृत और दोनों प्राकृतों से यह भेद हो गया कि उसकी संयोगात्मकता जाती रही और उसमें व्यवच्छेदकता आ गई, अर्थात् कारकों का अर्थ प्रकट करने के लिए शब्दों में विभक्तियों के बदले अन्य शब्द मिलने लगे और क्रिया के रूप से सर्वनामों का बोध होना मिट गया ।

हर प्राकृत के अपभ्रंश पृथक् पृथक् थे और वे भिन्न भिन्न प्रांतों में प्रचलित थे । भारत की प्रचलित आर्य-भाषाएँ न संस्कृत से निकली हैं, न प्राकृत से, किंतु अपभ्रंशों से । लिखित साहित्य

में केवल एक-ही अपभ्रंश भाषा का नमूना मिलता है जिस **नागर-अपभ्रंश** कहते हैं । इसका प्रचार बहुत करके पश्चिमी भारत में था । इस अपभ्रंश में कई बोलियाँ शामिल थीं, जो दक्षिणी भारत के उत्तर की तरफ प्रायः समग्र पश्चिमी भाग में बोली जाती थीं । हमारी हिंदी भाषा दो अपभ्रंशों के मेल से बनी है; प्रथम **नागर-अपभ्रंश** जिससे पश्चिमी हिंदी और पंजाबी निकली हैं; द्वितीय, **अर्द्धमागधी** का अपभ्रंश जिससे पूर्वी हिंदी निकली है, जो अवध, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है ।

नीचे लिखे वृक्ष से हिंदी-भाषा की उत्पत्ति ठीक ठीक मालूम हो जायगी ।



(४) हिंदी ।

प्राकृत भाषाएँ ईसवी सन् के कोई आठ-नौ सौ वर्ष तक और अपभ्रंश-भाषाएँ ग्यारहवें शतक तक प्रचलित थीं। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में हिंदी की प्राचीन कविता के उदाहरण ॐ पाये जाते हैं। जिस भाषा में मूल “पृथ्वीराज रासो” लिखा गया है उसमें “षट् भाषा” का मेल है। इस “काव्य” में हिंदी का पुराना रूप पाया जाता है। इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हमारी वर्तमान हिंदी का विकास ईसवी सन् की बारहवीं सदी से हुआ है। “शिवसिंह सरोज” में पुण्य नाम के एक कवि का उल्लेख है जो “भाखा की जड़” कहा गया है और जिसका समय सन् ७१३ ई० दिया गया है। पर न तो इस कवि की कोई रचना मिली है और न यह अनुमान हो सकता है कि उस समय हिंदी-भाषा प्राकृत अथवा अपभ्रंश से पृथक् हो गई थी। बारहवें शतक में भी यह भाषा अधवनी अवस्था में थी। तथापि, अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत-प्रवेश के समय

ॐ “भला हुआ जु मारिया, बहिणि महारा कतु ।

लज्जेजंतु वयसिअहु जइ भगा घर एतु ॥”

(हे बहिन, भला हुआ जो मेरा पति मर गया। यदि भागा हुआ घर आता तो मैं सखियों में लज्जित होती ।)

† संस्कृतं प्राकृत चैव शौरसेनी तदुद्भवा ।

ततोऽपि मागधी तद्वत् पैशाची देशजेति यत् ॥

‡ उच्चिष्ट छद् चंदह वयन सुनत सु जपिय नारि ।

तनु पवित्र पावन कविय उक्ति अनूठ उधारि ॥

‘छद् (कविता) उच्छिष्ट है’ छद् का यह वचन सुनकर स्त्री ने कहा—
पावन कवियों की अनूठी उक्ति का उद्धार करने से शरीर पवित्र हो जाता है ।

से होने लगा था। यह प्रचार यहाँ तक बढ़ा कि पीछे से भाषा के लक्षण में 'पारसी' भी रक्खी गई*।

विद्वान् लोग हिंदी-भाषा और साहित्य के विकास को नीचे लिखे चार भागों में बाँटते हैं—

१—आदि-हिंदी—यह उस हिंदी का नमूना है जो अपभ्रंश से पृथक् होकर साहित्य-कार्य के लिये बन रही थी। यह भाषा दो कालों में बाँटी जा सकती है—(१.) वीर-काल (१२००—१४००) और धर्म-काल (१४००—१६००)

वीर-काल में यह भाषा पूर्ण रूप से विकसित न हुई थी और इसकी कविता का प्रचार अधिकतर राजपूताने में था। इससे बाहर के साहित्य की कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। उसी समय महोबे में जगनिक कवि हुआ, जिसके किसी ग्रंथ के आधार पर "आल्हा" की रचना हुई। आजकल इस काव्य की मूल-भाषा का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतों के लेखकों और गवैयों ने इसे अपनी अपनी बोलियों का रूप दे दिया है। विद्वानों का अनुमान है कि इसकी मूल-भाषा बुंदेलखंडी थी और यह बात कवि की जन्मभूमि बुंदेलखंड में होने से पुष्ट होती है।

प्राचीन हिंदी का समय बतानेवाली दूसरी रचना भक्तों के साहित्य में पाई जाती है जिसका समय, अनुमान से, १४००-१६०० है। इस काल के जिन जिन कवियों के ग्रंथ आज तक लोगों में प्रचलित हैं उनमें से बहुतेरे वैष्णव थे और उन्हीं के मार्ग-प्रदर्शन से पुरानी हिंदी के उस रूप में, जिसे ब्रज-भाषा कहते हैं, कविता रची गई। वैष्णव-सिद्धांतों के प्रचार का आरंभ रामानुज से माना

* ब्रज-भाषा भाषा रुचिर कहैं सुमति सब कोय ।

मिलै सस्कृत पारस्यौ पै अति सुगम जु होय ॥ (काव्य-निर्णय)

जाता है, जो दक्षिण के रहनेवाले थे और अनुमान से बारहवीं सदी में हुए हैं। उत्तर भारत में यह धर्म रामानंद स्वामी ने फैलाया, जो इस संप्रदाय के चौथे प्रचारक थे। इनका समय सन् १४०० ईसवी के लगभग माना जाता है। इनकी लिखी कुछ कविता सिक्खों के आदि-ग्रंथ में मिलती है और इनके रचे हुए भजन पूर्व में मिथिला तक प्रचलित हैं। रामानंद के चेलों में कबीर थे, जिनका समय १५१२ ईसवी के लगभग है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें “साखी,” “शब्द,” “रेखा” और “बीजक” अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषाओं में ब्रज-भाषा और हिंदी के उस रूपान्तर का मेल है जिसे लल्लूजी लाल ने (सन् १८०३ ई० में) “खड़ी बोली” नाम दिया है। कबीर ने जो कुछ लिखा है वह धर्म-सुधारक की दृष्टि से लिखा है, लेखक की दृष्टि से नहीं। इसलिए उनकी भाषा बहुधा साधारण और सहज है। लगभग इसी समय मीराबाई हुई जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में बहुतसी कविताएं कीं। इनकी भाषा कहीं मेवाड़ी और कहीं ब्रज-भाषा है। इन्होंने “राग-गोविंद,” “गीत-गोविंद की टीका” आदि ग्रंथ लिखे। सन् १४६६ ई० से १५३८ तक वावा नानक का समय है। ये नानक-पंथी संप्रदाय के प्रचारक और “आदि-ग्रंथ” के लेखक हैं। इस ग्रंथ की भाषा पुरानी पंजाबी होने के बदले पुरानी हिंदी है। शेरशाह (१५४०) के आश्रय में मलिक मुहम्मद जायसी ने “पद्मावत” लिखी, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन के चित्तौर का किला लेने पर वहाँ के राजा रतनसेन की रानी पद्मा-

❀ मनका फेरत जुग गया गया न मन का फेर ।

कर का मनका छाँडि दे मन का मनका फेर ॥

नव द्वारे को पींजरा तामें पंछी पौन ।

रहिवे को भाचर्ज है गये अचभा कौन ॥

वती के आत्मघात की ऐतिहासिक कथा ❀ है। इस पुस्तक की भाषा अवधी है।

वैष्णव धर्म का एक और भेद है जिसमें लोग श्रीकृष्ण को अपना इष्ट-देव मानते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक बल्लभस्वामी थे जिनके पूर्वज दक्षिण के रहनेवाले थे। बल्लभस्वामी ने सोलहवीं सदी के आदि में उत्तर भारत में अपने मत का प्रचार किया। इनके आठ शिष्य थे, जो “अष्टछाप” के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आठों कवि ब्रज में रहते थे और ब्रजभाषा में कविता करते थे। इनमें सूरदास मुख्य हैं, जिनका समय सन् १५५० ई० के लगभग है। कहते हैं, इन्होंने सवा लाख पद लिखे हैं, जिनका संग्रह “सूर-सागर” नामक ग्रंथ में है। इस ग्रंथ के चौरासी गुरुओं का वर्णन “चौरासी-वार्त्ता” नामक ग्रंथ में पाया जाता है, जो ब्रजभाषा के गद्य में लिखा गया है, पर इस ग्रंथ का समय निश्चित नहीं है।

अकबर (१५५६-१६०५ ई०) के समय में ब्रजभाषा की कविता की अच्छी उन्नति हुई। अकबर स्वयं ब्रजभाषा में कविता करते थे और उनके दरबार में हिंदू कवियों के साथ रहीम, फैजी, फहीम आदि मुसलमान कवि भी इस भाषा में रचना करते थे। हिंदू कवियों में टोडरमल, वीरबल, नरहरि, हरिनाथ, करनेश और गंग आदि अधिक प्रसिद्ध थे।

२—मध्य-हिंदी—यह हिंदी-कविता के सत्ययुग का नमूना

❀ यह एक अन्योक्ति भी है जिसमें सत्य ज्ञान के लिए आत्मा की खोज का और उस खोज में आनेवाले विघ्नों का वर्णन है।

+ संभवतः सूरदासजी के पदों की संख्या सवा लाख अनुष्टुप् छोकों के बराबर होगी। इससे अमवश लोगो ने सवा लाख पदों की बात प्रचलित कर दी। ग्रंथ का विस्तार बताने के लिए प्राचीन काल से अनुष्टुप् छंद एक प्रकार की नाप मान लिया गया है।

है जो अनुमान से सन् १६०० से लेकर १८०० ई० तक रहा। इस काल में केवल कविता और भाषा ही की उन्नति नहीं हुई बरन साहित्य-विषय के भी अनेक उत्तम और उपयोगी ग्रंथ लिखे गये। मध्य-हिंदी के कवियों में सब से प्रसिद्ध गोसाईं तुलसीदास जी हुए, जिनका समय सन् १५७३ से १६२४ ई० तक है। उन्होंने हिंदी में एक महाकाव्य लिखकर भाषा का गौरव बढ़ाया और सर्व-साधारण में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। राम के अनन्य भक्त होने पर भी गोसाईं-जी ने शिव और राम में भेद नहीं माना और मतमतांतर का विवाद नहीं बढ़ाया। वैराग्य-वृत्ति के कारण उन्होंने श्रीकृष्ण की भक्ति पर बहुत नहीं लिखा, तथापि, सुनते हैं, वृन्दावन में जाकर और वहाँ एक मंदिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने कहा—

“ कहा कहाँ छवि आज की भले बने हौ नाथ ।

तुलसी मस्तक जब नवै धनुष बान हो हाथ ॥ ”

तुलसीदास ने ऐसे समय में रामायण की रचना की जब मुगल राज्य दृढ़ हो रहा था और हिंदू समाज के बंधन अनीति के कारण ढीले हो रहे थे। मनुष्य के मानसिक विकारों का जैसा अच्छा चित्र तुलसीदास ने खींचा है वैसा और कोई नहीं खींच सका।

रामायण की भाषा अवधी है, पर वह बैसवाड़ी से विशेष मिलती जुलती है। गोसाईंजी के और ग्रंथों में अधिकांश ब्रज-भाषा है।

इस काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि केशवदास, बिहारीलाल, भूपण, मतिराम और नाभादास हैं।

केशवदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने साहित्य विषयक ग्रंथ रचे। इस विषय के इनके ग्रंथ “ कविप्रिया ” “ रसिक-प्रिया ” और “ रामालंकृत-मंजरी ” हैं। “ रामचंद्रिका ” और “ विज्ञान-गीता ”

भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी भाषा में संस्कृत-शब्दों की बहु-तायत है। इनकी योग्यता की तुलना सूरदास और तुलसीदास से की जाती है। इनका मरण काल अनुमान से सन् १६१२ ईसवी है। बिहारीलाल ने १६५० ईसवी के लगभग “सतसई” समाप्त की। इस ग्रंथ-रत्न में काव्य के प्रायः सब गुण विद्यमान हैं। इसकी भाषा शुद्ध ब्रज-भाषा है। “बिहारी-सतसई” पर कई कवियों ने टीकाएँ लिखी हैं। भूषण ने १६७३ ईसवी में “शिवराज-भूषण” बनाया और फिर अन्य ग्रंथ लिखे। इनके ग्रंथों में देश-भक्ति और धर्माभिमान खूब दिखाई देता है। इनकी कुछ कविता खड़ी बोली में भी है और अधिकांश कविता वीर-रस से भरी हुई है। चिंतामणि और मतिराम इनके भाई थे, जो भाषा-साहित्य के आचार्य माने जाते हैं। नाभादास जाति के डोम थे और तुलसीदास के सम-कालीन थे। इन्होंने ब्रजभाषा में “भक्त-माल” नामक पुस्तक लिखी जिसमें अनेक वैष्णव भक्तों का संक्षिप्त वर्णन है।

इस काल के उत्तरार्द्ध (१७००—१८०० ईसवी) में राज्य-क्रांति के कारण कविता की विशेष उन्नति नहीं हुई। इस काल के प्रसिद्ध कवि प्रियादास, कृष्णकवि, भिखारीदास, ब्रजवासीदास, और सूरति मिश्र हैं। प्रियादास ने सन् १७१२ ईसवी में “भक्त-माल” पर एक (पद्य) टीका लिखी। कृष्णकवि ने “बिहारी-सतसई” पर सन् १७२० के लगभग एक टीका रची। भिखारीदास सन् १७२३ के लगभग हुए और साहित्य के अच्छे लेखक समझे जाते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ “छंदोऽर्णव” और “काव्य-निर्णय” हैं। ब्रजवासीदास ने सन् १७७० ई० में “ब्रज-विलास” लिखा, जो विशेष लोक-प्रिय है। सूरति मिश्र ने इसी समय में ब्रजभाषा के गद्य में “बैताल-पचीसी” नामक एक ग्रंथ लिखा। यही कवि गद्य के प्रथम लेखक हैं।

३—आधुनिक हिंदी—यह काल सन् १८०० से १९०० ईसवी तक है। इसमें हिंदी-गद्य की उत्पत्ति और उन्नति हुई। अंगरेजी राज की स्थापना और छापे के प्रचार से इस शताब्दी में हिंदी गद्य और पद्य की अनेक पुस्तकें बनीं और छपीं। साहित्य के सिवा इतिहास, भूगोल, व्याकरण, पदार्थ-विज्ञान और धर्म पर इस काल में कई पुस्तकें लिखी गईं। सन् १८५७ ई० के बलवे के पीछे देश में शांति-स्थापना होने पर समाचार-पत्र, मासिक-पत्र, नाटक, उपन्यास और समालोचना का आरंभ हुआ। हिंदी की उन्नति का एक विशेष चिह्न इस समय यह है कि इसमें खड़ी-बोली (बोलचाल की भाषा) की कविता लिखी जाती है। इसके साथ ही हिंदी में संस्कृत शब्दों का निरंकुश प्रयोग भी बढ़ता जाता है। इस काल में शिक्षा के प्रचार से हिंदी की विशेष उन्नति हुई।

पादरी गिलक्राइस्ट के उत्तेजन से लल्लू जी लाल ने सन् १८०४ ई० में “प्रेमसागर” लिखा, जो आधुनिक हिंदी-गद्य का प्रथम ग्रंथ है। इनके बनाये और प्रसिद्ध ग्रंथ “राजनीति” (ब्रज-भाषा के गद्य में), “सभा-विलास,” “लाल-चंद्रिका” (“बिहारी-सतसई” पर टीका), “सिंहासन-बत्तीसी” और “बैताल-पचीसी” हैं। इस काल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर (१८१५), ग्वालकवि (१८१५), पजनेश (१८१६), रघुराजसिंह (१८३४), दीनदयालगिरि (१८५५) और हरिश्चंद्र (१८८०) हैं।

गद्य लेखकों में लल्लूजीलाल के पश्चात् पादरी लोगों ने कई विषयों की पुस्तकें अंगरेजी से अनुवाद कराकर छपवाईं। इसी समय से हिंदी में क्रिस्तानी धर्म की पुस्तकों का छपना आरंभ हुआ। शिक्षा-विभाग के लेखकों में पं० श्रीलाल, पं० वशीधर वाजपेयी और राजा शिवप्रसाद हैं। शिवप्रसाद ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसे हिंदू-मुसलमान दोनों समझ सकें। इनकी रचना

प्रायः उर्दू-ढंग की होती थी। आर्य-समाज की स्थापना से साधारण लोगों में वैदिक विषयों की चर्चा और धर्म-संबंधी हिंदी की अच्छी उन्नति हुई। काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी की विशेष उन्नति की है।

इस काल के और प्रसिद्ध लेखक राजा लक्ष्मणसिंह, पं० अंबिकादत्त व्यास और भारतेन्दु हरिश्चंद्र हैं। इन सब में भारतेन्दु जी का आसन ऊँचा है। उन्होंने केवल ३५ वर्ष की आयु में कई विषयों की अनेक पुस्तकें लिखकर हिंदी का उपकार किया और भावी-लेखकों को अपनी मातृ-भाषा की उन्नति का मार्ग बताया।

(५) हिंदी और उर्दू ।

‘हिंदी’ नाम से जो भाषा हिंदुस्थान में प्रसिद्ध और प्रचलित है उसके नाम, रूप और विस्तार के विषय में विद्वानों का मत-भेद है। कई लोगों की राय में हिंदी और उर्दू एकही भाषा हैं और कई लोगों की राय में ये दोनों अलग अलग दो बोलियाँ हैं। राजा शिवप्रसाद सदृश महाशयों को युक्ति यह है कि शहरों और पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान कुछ सामाजिक तथा धर्म-संबंधी और वैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर प्रायः एकही भाषा में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के विचार पूर्णतया समझ लेते हैं। इसके विरुद्ध राजा लक्ष्मणसिंह सदृश विद्वानों का पक्ष यह है कि जिन दो जातियों का धर्म, व्यवहार, विचार, सभ्यता और उद्देश्य एक नहीं हैं उनकी भाषा एक कैसे हो सकती है ? जो हो; साधारण लोगों में आजकल हिंदुस्थानियों की भाषा हिंदी और मुसलमानों की भाषा उर्दू प्रसिद्ध है। भाषा का मुसलमानी रूपांतर केवल हिंदी ही में नहीं पाया जाता, वरन बंगला, गुजराती, आदि भाषाओं में भी ऐसे उपभेद हो गये हैं। “हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति” नामक पुस्तक के अनुसार हिंदी और उर्दू हिंदुस्तानी की शाखाएँ हैं जो पश्चिमी हिंदी का एक

भेद है। इस भाषा का “हिंदुस्तानी” नाम अंगरेजों का रक्खा हुआ है और उससे बहुधा उर्दू का बोध होता है। हिंदू लोग इस शब्द को “हिन्दुस्थानी” कहते हैं और इससे बहुधा “हिंदी बोलने-वाली जाति” के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं।

हिंदी कई नामों से प्रसिद्ध है, जैसे, भाषा, हिंदवी (हिंदुई), हिंदी, खड़ीबोली और नागरी। इसी प्रकार मुसलमानों की भाषा के भी कई नाम हैं। वह हिंदुस्तानी, उर्दू, रेख्ता और दक्खिनी कह-लाती है। इनमें से बहुतसे नाम दोनों भाषाओं का यथार्थ रूप निश्चित न होने के कारण दिये गये हैं।

हमारी भाषा का सबसे पुराना नाम केवल “भाषा” है। म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी के अनुसार यह नाम भास्वती की टीका में आया है जिसका समय सं० १४८५ है। तुलसीदास ने रामायण में “भाषा” शब्द लिखा है, पर अपने फारसी पंचनामों में “हिंदवी” शब्द का प्रयोग किया है। बहुधा पुस्तकों के नामों में और टीकाओं में यह शब्द आज तक प्रचलित है, जैसे, “भाषा भास्कर,” “भाषा-टीका-सहित,” इत्यादि। पादरी आदम साहब की लिखी और सन् १८३७ में दूसरी बार छपी “उपदेश-कथा” में इस भाषा का नाम “हिंदुवी” लिखा है। इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हमारी भाषा का “हिंदी” नाम आधुनिक है। इसके पहले हिंदू लोग इसे “भाषा” और मुसलमान लोग “हिंदुई” या “हिंदवी” कहते थे। लल्लूजी लाल ने प्रेम-सागर में (सन् १८०४ में) इस भाषा का नाम “खड़ी-बोली” लिखा है जिसे

⊛ सन् १८४६ में दूसरी बार छपी “पदार्थविद्यासार” नामक पुस्तक में “हिंदी-भाषा” नाम आया है।

† व्रज-भाषा के ओकारात रूपों से मिलान करने पर हिंदी के आकारांत-रूप ‘खड़े’ जान पड़ते हैं। बुँदेलखंड में इस भाषा को ‘ठाढ़ बोली,’ या ‘तुर्की’ कहते हैं।

आजकल कुछ लोग न जानें क्यों “खरी बोली” कहने लगे हैं। आजकल “खड़ी-बोली” शब्द केवल कविता की भाषा के लिए आता है, यद्यपि गद्य की भाषा भी “खड़ी-बोली” है। लल्लूजी लाल ने एक जगह अपनी भाषा का नाम “रेखते की बोली” भी लिखा है। “रेखता” शब्द कबीर के एक ग्रंथ में भी आया है, पर वहाँ उसका अर्थ “भापा” नहीं है, किंतु एक प्रकार का “छंद” है। जान पड़ता है कि फारसी-अरबी शब्द मिलाकर भाषा में जो फारसी छंद रचे गये उनका नाम रेखता (अर्थात् मिला हुआ) रक्खा गया और फिर पीछे से यह शब्द मुसलमानों की कविता की बोली के लिये प्रयुक्त होने लगा। यह भी एक अनुमान है कि मुसलमानों में रेखता का प्रचार बढ़ने के कारण हिंदुओं की भाषा का नाम “हिंदुई” या (हिंदवी) रक्खा गया। इस “हिंदवी” में जिसे आजकल “खड़ी-बोली” कहते हैं, कबीर, भूषण, नागरीदास आदि कुछ कवियों ने कविता की है; पर अधिकांश हिंदू कवियों ने श्रीकृष्ण की उपासना और भाषा की मधुरता के कारण ब्रज-भाषा का ही उपयोग किया है।

आरंभ में हिंदुई और रेखता में थोड़ा ही अंतर था। अमीर खुसरो जिसकी मृत्यु सन् १३२५ ई० में हुई, मुसलमानों में सर्वप्रथम और प्रधान कवि माना जाता है। उसकी भाषा से जान पड़ता है कि उस समय तक हिंदी में मुसलमानी शब्दों और फारसी ढंग की रचना की भरमार न हुई थी और मुसलमान लोग शुद्ध हिंदी लिखते-पढ़ते थे। जब देहली के बाजार में तुर्क, अफगान और

✽ तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने खूब रिभाया।

बाप का उसके नाम जो पूछा, आधा नाम बताया ॥

आधा नाम पिता पर वाका, अपना नाम निबोरी।

अमीर खुसरो यों कहें, बूझ पहली मोरी ॥

फारसवालों का संपर्क हिंदुओं से होने लगा और वे लोग हिंदी शब्दों के बदले अरबी, फारसी के शब्द बहुतायत ये मिलाने लगे तब रेस्ता ने दूसरा ही रूप धारण किया और उसका नाम “उर्दू” पड़ा। “उर्दू” शब्द का अर्थ “लश्कर” है। शाहजहाँ के समय में उर्दू की बहुत उन्नति हुई जिससे “खड़ी-वोली” की उन्नति में बाधा पड़ गई।

हिंदी और उर्दू मूल में एक ही भाषा हैं। उर्दू हिंदी का केवल मुसलमानी रूप है। आज भी कई शतक बीत जाने पर इन दोनों में विशेष अंतर नहीं, पर इनके अनुयायी लोग इस नाम-मात्र के अंतर को वृथा ही बढ़ा रहे हैं। यदि हम लोग हिंदी में संस्कृत के और मुसलमान उर्दू में अरबी-फारसी के शब्द कम लिखे तो दोनों भाषाओं में बहुत थोड़ा भेद रह जाय और संभव है, किसी दिन, दोनों समुदायों की लिपि और भाषा एक हो जायें। धर्म-भेद के कारण पिछली शताब्दि में हिंदी और उर्दू के प्रचारकों में परस्पर खैचातानी शुरू हो गई। मुसलमान हिंदी से घृणा करने लगे और हिंदुओं ने हिंदी के प्रचार पर जोर दिया। परिणाम यह हुआ कि हिंदी में संस्कृत शब्द और उर्दू में अरबी-फारसी के शब्द बहुत मिल गये और दोनों भाषाएँ क्लिष्ट हो गईं।

आरंभ ही से उर्दू और हिंदी में कई बातों का अंतर भी रहा है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और उसमें अरबी-फारसी शब्दों की विशेष भरमार रहती है। उसकी वाक्य-रचना में बहुधा विशेष्य विशेषण के पहले आता है और (कविता में) फारसी के संबोधन कारक का रूप प्रयुक्त होता है। हिंदी के संबंध-वाचक सर्वनाम के बदले उसमें कभी कभी फारसी का संबंध-वाचक सर्वनाम आता है। इसके सिवा रचना में और भी दो एक बातों का अंतर है। कोई-कोई उर्दू लेखक इन विदेशी शब्दों के लिखने

में सीमा के बाहर चले जाते हैं। उर्दू और हिंदी की छंद-रचना में भी भेद है। मुसलमान लोग फारसी-अरबी के छंदों का उपयोग करते हैं। फिर उनके साहित्य में मुसलमानी इतिहास और दंत-कथाओं के उल्लेख बहुत रहते हैं। शेष बातों में दोनों भाषाएँ प्रायः एक हैं।

कुछ लोग समझते हैं कि वर्तमान हिंदी की उत्पत्ति लल्लूजी लाल ने उर्दू की सहायता से की है। पर यह भूल है। 'प्रेमसागर' की भाषा दो-आब में पहले ही से बोली जाती थी। उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग "प्रेमसागर" में किया और आवश्यकतानुसार उसमें संस्कृत के शब्द भी मिलाये। मेरठ के आसपास और उसके कुछ उत्तर में यह भाषा अब भी अपने विशुद्ध रूप में बोली जाती है। वहाँ इसका वही रूप है जिसके अनुसार हिंदी का व्याकरण बना है। यद्यपि इस भाषा का नाम "उर्दू" या "खड़ी बोली" नया है तो भी उसका यह रूप नया नहीं, किंतु उतना ही पुराना है जितने उसके दूसरे रूप—ब्रजभाषा, वैसवाड़ी, बुंदेलखंडी आदि, हैं। देहली में मुसलमानों के संयोग से हिंदी-भाषा का विकास जरूर बढ़ा और इसके प्रचार में भी वृद्धि हुई। इस देश में जहाँ जहाँ मुगल बादशाहों के अधिकारी गये वहाँ वहाँ अपने साथ वे इस भाषा को भी लेते गये।

कोई कोई लोग हिंदी भाषा को "नागरी" कहते हैं। यह नाम अभी हाल का है और देव-नागरी लिपि के आधार पर रक्खा गया जान पड़ता है। इस भाषा के तीन नाम और प्रसिद्ध हैं—(१) ठेठ हिंदी (२) शुद्ध हिंदी और (३) उच्च हिंदी। "ठेठ हिंदी" हमारी भाषा के उस रूप को कहते हैं जिसमें "हिंदवी छुट् और किसी बोली की पुट् न मिले।" इसमें बहुधा तद्भव ❀ शब्द आते हैं। "शुद्ध हिंदी"

मे तद्भव शब्दों के साथ तत्सम ❀ शब्दों का भी प्रयोग होता है, पर उसमें विदेशी शब्द नहीं आते। “उच्च हिंदी” शब्द कई अर्थों का बोधक है। कभी कभी प्रांतिक भाषाओं से हिंदी का भेद बताने के लिये इस भाषा को “उच्च हिंदी” कहते हैं। अंगरेज लोग इस नाम का प्रयोग बहुधा इसी अर्थ में करते हैं। कभी कभी “उच्च हिंदी” से वह भाषा समझी जाती है जिसमें अनावश्यक संस्कृत-शब्दों की भरमार की जाती है और कभी कभी यह नाम केवल “शुद्ध हिंदी” के पर्याय में आता है।

(६) तत्सम और तद्भव शब्द ।

उन शब्दों को छोड़कर जो फारसी, अरबी, तुर्की, अंगरेजी आदि विदेशी भाषाओं के हैं (और जिनकी संख्या बहुत थोड़ी—केवल दशमांश—है) अन्य शब्द हिंदी में मुख्य तीन प्रकार के हैं—

(१) तत्सम

(२) तद्भव

(३) अर्द्ध-तत्सम

तत्सम वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, जैसे, राजा, पिता, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता, इत्यादि † ।

तद्भव वे शब्द हैं जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी-भाषा में आ गये हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं, जैसे, राय, खेत, दाहिना, किसान ।

❀ इसका अर्थ आगामी प्रकरण में लिखा जायगा ।

† इस प्रकार के कई शब्द कई सदियों से भाषा में प्रचलित हैं। कोई कोई साहित्य के बहुत पुराने नमूनों में भी मिलते हैं, परंतु बहुतसे वर्तमान शताब्दि में आये हैं। यह भरती अभी तक जारी है। जिस रूप में ये शब्द आते हैं वह बहुधा संस्कृत की प्रथमा के एकवचन का है।

अर्द्ध-तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत-भाषा बोलनेवालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गये हैं, जैसे, बच्छ, अग्यां, मुँह, बंस, इत्यादि ।

बहुतसे शब्द तीनों रूपों में मिलते हैं; परंतु कई शब्दों के सब रूप नहीं पाये जाते । हिन्दी के क्रियाशब्द प्रायः सब के सब तद्भव हैं । यही अवस्था सर्वनामों की है । बहुत से संज्ञा शब्द तत्सम वा तद्भव हैं और कुछ अर्द्ध-तत्सम हो गये हैं ।

तत्सम और तद्भव शब्दों में रूप की भिन्नता के साथ साथ बहुधा अर्थ की भिन्नता भी होती है । तत्सम शब्द प्रायः सामान्य अर्थ में आता है, और तद्भव शब्द विशेष अर्थ में; जैसे “स्थान” सामान्य नाम है, पर “थाना” एक विशेष स्थान का नाम है । कभी कभी तत्सम शब्द से गुरुता का अर्थ निकलता है और तद्भव से लघुता का, जैसे “देखना” साधारण लोगों के लिए आता है, पर “दर्शन” किसी बड़े आदमी या देवता के लिए । कभी कभी तत्सम के दो अर्थों में से तद्भव से केवल एक ही अर्थ सूचित होता है, जैसे “वंश” का अर्थ “कुटुंब” भी है और “बाँस” भी है; पर तद्भव “बाँस” से केवल एकही अर्थ निकलता है ।

यहाँ तत्सम, तद्भव और अर्द्ध-तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

तत्सम	अर्द्ध-तत्सम	तद्भव
आज्ञा	अग्यां	आन
राजा	०	राय
वत्स	बच्छ	बचा
अग्नि	अगिन	आग
स्वामी	०	साई
कर्ण	०	कान

तत्सम	अर्द्धतत्सम	तद्भव
कार्य	कारज	काज
पत्र	०	पंख, पाख
वायु	०	बयार
अक्षर	अच्छर	अक्खर, आखर
रात्रि	रात	०
सर्व	०	सब
दैव	दई	०

(७) देशज और अनुकरणवाचक शब्द ।

हिंदी में और भी दो प्रकार के शब्द पाये जाते हैं—

(१) देशज (२) अनुकरण वाचक ।

देशज वे शब्द हैं जो किसी सस्कृत (या प्राकृत) मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता, जैसे—तेंदुआ, खिड़की, घूआ, ठेस इत्यादि ।

ऐसे शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी है और संभव है कि आधुनिक आर्य-भाषाओं की वढती के नियमों की अधिक खोज और पहचान होने से अंत में इनकी संख्या बहुत कम हो जायगी ।

पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाये गये हैं वे अनुकरण-वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे—खटखटाना, धड़ाम, चट, आदि ।

(८) विदेशी शब्द ।

फारसी, अरबी, तुर्की, अँगरेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आये हैं वे विदेशी कहाते हैं । अँगरेजी से आजकल भी शब्दों की भरती जारी है । विदेशी शब्द हिंदी में ध्वनि के अनुसार अथवा बिगड़े हुए उच्चारण के अनुसार लिखे जाते हैं । इस विषय का पता लगाना कठिन है कि हिंदी में किस किस समय पर कौन

कौन से विदेशी शब्द आये हैं; पर ये शब्द भाषा में मिल गये हैं और इनमें कोई कोई शब्द ऐसे हैं—जिनके समानार्थी हिंदी शब्द बहुत समय से अप्रचलित हो गये हैं। भारतवर्ष की और और प्रचलित भाषाओं—विशेष कर मराठी और बँगला से भी—कुछ शब्द हिंदी में आये हैं। कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जाती है—

(१) फारसी ।

आदमी, उम्मेदवार, कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दूकान, बाग, मोजा, इत्यादि ।

(२) अरबी ।

अदालत, इम्तिहान, ऐतराज, औरत, तनखाह, तारीख, मुकद्दमा, सिफारिश, हाल, इत्यादि ।

(३) तुर्की ।

कोतल, क़चकमक, क़तगमा, तोप, लाश, इत्यादि ।

(४) पोर्चुगीज ।

कमरा, क़नीलाम, पादरी, क़मारतौल, पेरू ।

(५) अँगरेजी ।

अपील, इंच, क़कलक्टर, क़कमेटी, कोट, क़गिलास, क़टिकट, क़टीन, नोटिस, डाक्टर, डिगरी, क़पतलून, फंड, फीस, फुट, क़मील, रेल, क़लाट, क़लालटैन, समन, स्कूल, इत्यादि ।

(६) मराठी ।

प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू, (ओर, तरफ), इत्यादि ।

(७) बँगला ।

उपन्यास, प्राणपण, चूड़ांत, भद्रलोग (= भले आदमी), गल्प, नितांत, इत्यादि ।

हिंदी व्याकरण ।

पहला भाग ।

वर्णविचार ।

पहला अध्याय ।

वर्णमाला ।

१—वर्णविचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है ।

२—वर्ण उस मूल-ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सकें; जैसे, अ, इ, क्, ख्, इत्यादि ।

“सवेरा हुआ” इस वाक्य में दो शब्द हैं, “सवेरा” और “हुआ” । “सवेरा” शब्द में साधारण रूप से तीन ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं—स, वे, रा । इन तीन ध्वनियों में से प्रत्येक ध्वनि के खंड हो सकते हैं, इसलिए वह मूल-ध्वनि नहीं है । ‘स’ में दो ध्वनियाँ हैं, स् + अ, और इनके कोई और खंड नहीं हो सकते, इसलिए ‘स्’ और ‘अ’ मूल-ध्वनि है । येही मूल-ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं । “सवेरा” शब्द में स्, अ, व्, ए, र्, आ—ये छ. मूल-ध्वनियाँ हैं । इसी प्रकार “हुआ” शब्द में ह्, उ, आ—ये तीन मूलध्वनियाँ वा वर्ण हैं ।

३—वर्णों के समुदाय को वर्णमाला* कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ४६ वर्ण हैं। इनके दो भेद हैं, (१) स्वर (२)-व्यंजन ॥

४—स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं; जैसे—अ, इ, उ, ए, इत्यादि। हिंदी में स्वर ११ † हैं—

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

५—व्यंजन वे वर्ण हैं, जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन ३३ ‡ हैं—

क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ।

ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न।

प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व।

श, ष, स, ह।

इन व्यंजनों में उच्चारण की सुगमता के लिए 'अ' मिला दिया गया है। जब व्यंजनों में कोई स्वर नहीं मिला रहता तब उनका अस्पष्ट

* फारसी, अंगरेजी, यूनानी आदि भाषाओं में वर्णों के नाम और उच्चारण एकसे नहीं हैं, इसलिए विद्यार्थियों को उन्हें पहचानने में कठिनाई होती है। इन भाषाओं में जिन (अलिफ, ए, डेल्टा, आदि) को वर्ण कहते हैं उनके खंड हो सकते हैं। ये यथार्थ में वर्ण नहीं, किंतु शब्द हैं। यद्यपि व्यंजन के उच्चारण के लिए उसके साथ स्वर लगाने की आवश्यकता होती है, तो भी उसमें केवल छोटे से छोटा स्वर अर्थात् अकार मिलाना चाहिए, जैसा हिंदी में होता है।

॥ संस्कृत-व्याकरण में स्वरों को अच् और व्यंजनों को हल् कहते हैं।

† संस्कृत में ऋ, लृ, ॠ, ये तीन स्वर और हैं; पर हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता। ऋ (ह्रस्व) भी केवल हिंदी में आनेवाले तत्सम शब्दों ही में आती है; जैसे, ऋषि, ऋण, ऋतु, कृपा, नृत्य, मृत्यु, इत्यादि।

‡ इनके सिवा वर्णमाला में तीन व्यंजन और मिला दिये जाते हैं—क्ष, त्र, ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन हैं और इस प्रकार मिलकर बने हैं—क + प = क्ष, त + र = त्र, ज् + ञ = ज्ञ। (देखो २१ वाँ अंक।)

उच्चारण दिखाने के लिए उनके नीचे एक तिरछी रेखा () कर देते हैं जिसे हिंदी में हल् कहते हैं; जैसे, क्, थ्, म्, इत्यादि।

६—व्यंजनों में दो वर्ण और हैं जो अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार का चिह्न स्वर के ऊपर एक बिंदी और विसर्ग का चिह्न स्वर के आगे दो बिंदियाँ हैं, जैसे, अं, अर्। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता होती है, पर इनमें और दूसरे व्यंजनों में यह अंतर है कि स्वर इनके पहले आता है और दूसरे व्यंजनों के पीछे, जैसे, अ + ँ, क् + अर्*।

७—हिंदी वर्णमाला के वर्णों के प्रयोग के संबंध में कुछ नियम ध्यान देने योग्य हैं—

(अ) कुछ वर्ण केवल संस्कृत (तत्सम) शब्दों में आते हैं, जैसे, ऋ, ए, ष्। उदाहरण—ऋतु, ऋषि, पुरुष, गण, रामायण।

(आ) ड् और ब् पृथक् रूप से केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं, जैसे पराङ्मुख, नब् तत्पुरुष।

(इ) संयुक्त व्यंजनों में से च् और ज्ञ केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं, जैसे मोक्ष, संज्ञा।

(ई) ड्, ब्, ए हिंदी में शब्दों के आदि में नहीं आते। अनुस्वार और विसर्ग भी शब्दों के आदि में प्रयुक्त नहीं होते।

(उ) विसर्ग केवल थोड़े से हिंदी शब्दों में आता है, जैसे, छः, छिः, इत्यादि।

* अनुस्वार और विसर्ग के नाम और उच्चारण एक नहीं हैं। इनके रूप और उच्चारण की विशेषता के कारण कोई कोई वैयाकरण इन्हें अं और अः के रूप में स्वरों के साथ लिखते हैं।

दूसरा अध्याय ।

लिपि ।

८—लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्न मान लिये गये हैं, वे भी **वर्ण** कहलाते हैं । जिस रूप में ये वर्ण लिखे जाते हैं; उसे **लिपि** कहते हैं । हिंदी-भाषा देवनागरी लिपि † में लिखी जाती है ।

[सूचना—देवनागरी के सिवा कैथी, महाजनी आदि लिपियों में भी हिंदी-भाषा लिखी जाती है; पर उनका प्रचार सर्वत्र नहीं है । ग्रंथ लेखन और छापने के काम में बहुधा देवनागरी लिपि का ही उपयोग होता है ।]

९—व्यंजनों के अनेक उच्चारण दिखाने के लिए उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं । व्यंजनों में मिलने से बदलकर स्वर का जो रूप हो जाता है उसे **मात्रा** कहते हैं । प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे लिखी जाती है—

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

। ि ि ु ू ृ ै ो ौ

१०—अ की कोई मात्रा नहीं है । जब वह व्यंजन में मिलता है, तब व्यंजन के नीचे का चिह्न (_)-नहीं लिखा जाता; जैसे, क्+अ=क ।

† 'देवनागरी' नाम की उत्पत्ति के विषय में मत-भेद है । श्याम शास्त्री के मतानुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिह्नों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे । ये यंत्र 'देवनागर' कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालांतर में वर्ण माने जाने लगे । इसीसे उनका नाम 'देवनागरी' हुआ ।

११—आ, ई, ओ और औ की मात्राएँ व्यंजन के आगे लगाई जाती हैं; जैसे, का, की, को, कौ। इ, की मात्रा व्यंजन के पहले, ए और ऐ की मात्राएँ ऊपर और उ, ऊ, ऋ, की मात्राएँ नीचे लगाई जाती हैं; जैसे, कि, के, कै, कु, कू, कृ।

१२—अनुस्वार स्वर के ऊपर और विसर्ग स्वर के पीछे आता है; जैसे, कं, किं, कः, काः।

१३—उ और ऊ की मात्राएँ जब र् में मिलती हैं तब उनका आकार कुछ निराला-हो जाता है, जैसे, रु, रू। र् के साथ ऋ को मात्रा का संयोग व्यंजनों के समान होता है, जैसे, र + ऋ = ऀ। (देखो २५ वाँ अंक)।

१४—ऋ की मात्रा को छोड़कर और अं, अ. को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को बारहखड़ी कहते हैं। स्वर अथवा स्वरांत व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। क् की बारहखड़ी नीचे दी जाती है—

क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः।

१५—व्यंजन दो प्रकार से लिखे जाते हैं (१) खड़ी पाई समेत, (२) विना खड़ी पाई के। ड, ङ, ट, ठ, ड, ढ, द, र को छोड़कर शेष व्यंजन पहले प्रकार के हैं। सब वर्णों के सिरे पर एक एक आड़ी रेखा रहती है जो घ, ङ और भ में कुछ तोड़ दी जाती है।

१६—नीचे लिखे वर्णों के दो दो रूप पाये जाते हैं—

अ और अ; ऋ और ऀ; ए और ए; ऋ और ऀ; ऌ और ऍ; इ और इ।

१७—देवनागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण और नाम तुल्य होने के कारण, जब कभी उनका नाम लेने का काम पड़ता है; तब अक्षर के आगे 'कार' जोड़कर उसका नाम सूचित करते हैं, जैसे

अकार, ककार, मकार, सकार से अ, क, म, स का बोध होता है। 'रकार' को कोई कोई 'रेफ' भी कहते हैं।

१८—जब दो वा अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता तब उनको संयोगी वा संयुक्त व्यंजन कहते हैं; जैसे, क्य, स्म, त्र। संयुक्त व्यंजन बहुधा मिलाकर लिखे जाते हैं। हिंदी में प्रायः तीन से अधिक व्यंजनों का संयोग नहीं होता, जैसे, स्तम्भ, मत्स्य, माहात्म्य।

१९—जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, तब वह संयोग द्वित्व कहलाता है। जैसे, अन्न, सत्ता।

२०—संयोग में जिस क्रम से व्यंजनों का उच्चारण होता है, उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं, जैसे, अन्त, यत्न, अशक्त, सत्कार।

२१—क्ष, त्र, ज्ञ, जिन व्यंजनों के मेल से बने हैं, उनका कुछ भी रूप संयोग में नहीं दिखाई देता; इसलिए कोई कोई उन्हें व्यंजनों के साथ वर्णमाला के अंत में लिख देते हैं। क् और ष के मेल से क्ष, त् और र के मेल से त्र और ज् और ब के मेल से ज्ञ बनता है।

२२—पाई (।) वाले आद्य वर्णों की पाई संयोग में गिर जाती है, जैसे, प् + य = प्य, त् + थ = त्थ, त् + म् + य = त्म्य।

२३—ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, ये सात व्यंजन संयोग के आदि में भी पूरे लिखे जाते हैं और इनके अंत का (संयुक्त) व्यंजन पूर्व वर्ण के नीचे बिना सिरे के लिखा जाता है, जैसे, अङ्कुर, उच्छ्वास, टट्टी, गड्ढा, हड्डी, प्रह्लाद, सहायि।

२४—कई संयुक्त अक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे, क् + क = क्क, क्क; व् + व = व्व, व्व, ल् + ल = ल्ल, ल्ल, क् + ल् = क्ल क्ल; श् + व = श्व, श्व।

२५—यदि रकार के पीछे कोई व्यंजन हो तो रकार उस व्यंजन के ऊपर यह रूप (°) धारण करता है जिसे रेफ कहते हैं;

जैसे, धर्म, सर्व, अर्थ, । यदि रकार किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसका रूप दो प्रकार का होता है—

(अ) खड़ी पाई वाले व्यंजनों के नीचे रकार इस रूप (-) से लिखा जाता है, जैसे चक्र, भद्र, ह्रस्व, वज्र ।

(आ) दूसरे व्यंजनों के नीचे उसका यह रूप (ॾ) होता है; जैसे, राष्ट्र, त्रिपुंड्र, कृच्छ्र ।

[सूचना—व्रजभाषा में बहुधा र् + य का रूप र्य होता है । जैसे, मारयो, हारयो ।]

२६—क् और त मिलकर क्त और त् और त मिलकर त्त होता है ।

२७—ड्, ब्, ण्, न्, म्, अपने ही वर्ग के व्यंजनों से मिल सकते हैं, पर उनके बदले में विकल्प से अनुस्वारः आ सकता है, जैसे, गङ्गा = गंगा, चञ्चल = चंचल, पण्डित = पंडित, दन्त = दंत, कम्प = कंप ।

कई शब्दों में इस नियम का भंग होता है, जैसे, वाङ्मय, मृगमय, धन्वन्तरि, सम्राट्, उन्हें, तुम्हें ।

२८—हकार से मिलनेवाले व्यंजन, कभी कभी, भूल से उसके पूर्व लिख दिये जाते हैं, जैसे, चिन्ह (चिह्न), ब्रम्ह (ब्रह्म), आब्हान (आह्वान), आल्हाद (आह्लाद) इत्यादि ।

२९—साधारण व्यंजनों के समान संयुक्त व्यंजनों में भी स्वर जोड़कर वारहखड़ी बनाते हैं, जैसे, क्र, क्रा, क्रि, क्री, क्रु, क्रू, क्रे, क्रै, क्रो, क्रौ, क्रं, क्रः । (देखो १४ वां अंक)



⊗ हिंदी में बहुधा अनुनासिक (°) के बदले में भी अनुस्वार आता है, जैसे, हँसना = हंसना, पाँच = पांच । (देखो ५०वां अंक) ।

तीसरा अध्याय ।

वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण ।

३०—मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है, उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं ।

३१—स्थानभेद से वर्णों के नीचे लिखे अनुसार वर्ग होते हैं—

कंठ्य—जिनका उच्चारण कंठ से होता है; अर्थात् अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग ।

तालव्य—जिनका उच्चारण तालु से होता है, अर्थात् इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श ।

मूर्द्धन्य—जिनका उच्चारण मूर्द्धा से होता है, अर्थात्, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, और प ।

दंत्य—त, थ, द, ध, न, ल और स । इनका उच्चारण ऊपर के दाँतों पर जीभ लगाने से होता है ।

ओष्ठ्य—इनका उच्चारण ओठों से होता है; जैसे, उ, ऊ, फ, ब, भ, म ।

अनुनासिक—इनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, अर्थात् ङ, ञ, ण, न, म और अनुस्वार । (देखो ३६वाँ और ४६वाँ अंक) ।

[सूचना—स्वर भी अनुनासिक होते हैं । (देखो ३९ वाँ अंक)]

कंठ-तालव्य—जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है; अर्थात् ए, ऐ ।

कंठोष्ठ्य—जिनका उच्चारण कंठ और ओठों से होता है, अर्थात् ओ, औ ।

दंत्योष्ठ्य—जिनका उच्चारण दाँत और ओठों से होता है; अर्थात् व ।

३२—वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिन्द्रिय की क्रिया को **आभ्यंतर प्रयत्न** कहते हैं और ध्वनि के अंत की क्रिया को **बाह्य प्रयत्न** कहते हैं।

३३—**आभ्यंतर प्रयत्न** के अनुसार वर्णों के मुख्य चार भेद हैं—

(१) **विवृत**—इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है। स्वरों का प्रयत्न विवृत कहाता है।

(२) **स्पृष्ट**—इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय का द्वार बंद रहता है। 'क' से लेकर 'म' तक २५ व्यंजनों को **स्पर्श वर्ण** कहते हैं।

(३) **ईषत्-विवृत**—इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय कुछ खुली रहती है। इस भेद में य, र, ल, व, हैं। इनको **अंतस्थ वर्ण** भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर व्यंजनों का मध्यवर्ती है।

(४) **ईषत्-स्पृष्ट**—इनका उच्चारण वागिन्द्रिय के कुछ बंद रहने से होता है—श, ष, स, ह, । इन वर्णों के उच्चारण मे एक प्रकार का घर्षण होता है, इसलिए इन्हें **ऊष्म वर्ण** भी कहते हैं।

३४—**बाह्य-प्रयत्न** के अनुसार वर्णों के मुख्य दो भेद हैं—(१) **अघोष** (२) **घोष** ।

(१) **अघोष**, वर्णों के उच्चारण मे केवल श्वास का उपयोग होता है, उनके उच्चारण में घोप अर्थात् नाद नहीं होता ।

(२) **घोष** वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है।
अघोप वर्ण—क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, ष, स ।
घोप वर्ण—शेष व्यंजन और सब स्वर ।

[सूचना—बाह्य प्रयत्न के अनुसार केवल व्यंजनों के जो भेद हैं वे आगे दिये जायँगे । (देखो ४४वाँ अंक) ।]

स्वर ।

३५—उत्पत्ति के अनुसार स्वरो के दो भेद हैं—(१) मूलस्वर, (२) संधि-स्वर ।

(१) जिन स्वरो की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरो से नहीं है, उन्हें मूलस्वर (वा ह्रस्व) कहते हैं । वे चार हैं—अ, इ, उ, और ऋ ।

(२) मूल-स्वरो के मेल से बने हुए स्वर संधि-स्वर कहलाते हैं, जैसे, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ ।

३६—संधि-स्वरो के दो उपभेद हैं—

(१) दीर्घ और (२) संयुक्त ।

(१) किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है, उसे दीर्घ कहते हैं; जैसे, अ + अ = आ, इ + इ = ई, उ + उ = ऊ, अर्थात् आ, ई, ऊ, दीर्घ स्वर हैं ।

[सूचना—ऋ + ऋ = ऋ, यह दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है ।]

(२) भिन्न-भिन्न स्वरो के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं; जैसे, अ + इ = ए, अ + उ = ओ, आ + ए = ऐ, आ + ओ = औ ।

३७—उच्चारण के काल-मान के अनुसार स्वरो के दो भेद किये जाते हैं—लघु और गुरु । उच्चारण के काल-मान को मात्रा कहते हैं । जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं; जैसे, अ, इ, उ, ऋ, । जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएँ लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं; जैसे, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ ।

[सूचना १—सब मूल स्वर लघु और सब संधि-स्वर गुरु हैं ।]

[सूचना २—संस्कृत में प्लुत नाम से स्वरो का एक तीसरा भेद माना जाता है; पर हिंदी में उसका उपयोग नहीं होता । 'प्लुत' शब्द का अर्थ है

हिंदी में 'मात्रा' शब्द के दो अर्थ हैं—एक, स्वरो का रूप (देखो ९ वाँ अंक), दूसरा काल-मान ।

“बँछला हुआ” । प्लुत में तीन मात्राएँ होती है । वह बहुधा दूर से पुकारने रोने, गाने और चिल्लाने में आता है । उमकी पहचान दीर्घ स्वर के आगे तीन का अंक लिख देने से होती है, जैसे, लड़के ३ ।]

३८—जाति के अनुसार स्वरो के दो भेद और हैं—**सवर्ण** और **असवर्ण** अर्थात् सजातीय और विजातीय । समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाले स्वरो को **सवर्ण** कहते हैं । जिन स्वरो के स्थान और प्रयत्न एकसे नहीं होते वे **असवर्ण** कहलाते हैं । अ, आ परस्पर सवर्ण हैं । इसी प्रकार इ, ई तथा उ, ऊ सवर्ण हैं ।

अ, इ वा अ, ऊ अथवा इ, ऊ असवर्ण स्वर हैं ।

सूचना—ए, ऐ, ओ, औ, इन सयुक्त स्वरो में परस्पर सवर्णता नहीं है क्योंकि ये असवर्ण स्वरो से उत्पन्न हैं ।]

३९—उच्चारण के अनुसार स्वरो के दो भेद और हैं—

(१) सानुनासिक (२) निरनुनासिक ।

यदि मुँह से पूरा पूरा श्वास निकाला जाय तो शुद्ध—निरनुनासिक—ध्वनि निकलती है, पर यदि श्वास का कुछ भी अंश नाक से निकाला जाय तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है । अनुनासिक स्वर का चिह्न (~) चंद्रबिंदु कहलाता है, जैसे गाँव, ऊँचा । अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजनों के समान चंद्रबिंदु कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, वह केवल अनुनासिक स्वर का चिह्न है । अनुनासिक व्यंजनों को कोई कोई “नासिक्य” और अनुनासिक स्वरो को केवल “अनुनासिक” कहते हैं । कभी कभी यह शब्द चंद्रबिंदु का पर्यायवाचक भी होता है । (देखो ४६ वाँ अंक) ।

४०—(क) हिंदी में अंत्य अ का उच्चारण प्रायः हल् के समान होता है, जैसे, गुण, रात, घन, इत्यादि । इस नियम के कई अपवाद हैं—

(१) यदि अकारांत शब्द का अंत्याक्षर, संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है; जैसे, सत्य, इंद्र, गुरुत्व, सन्न, धर्म, अशक्त, इत्यादि ।

(२) इ, ई, वा ऊ के आगे य हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूर्ण होता है; जैसे, प्रिय, सीय, राजसूय, इत्यादि ।

(३) एकाक्षरी अकारांत शब्दों के अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है; जैसे, न, व, र, इत्यादि ।

(४) (क) कविता में अंत्य अ का पूर्ण उच्चारण होता है; जैसे, “समाचार जब लक्ष्मण पाये” । परंतु जब इस वर्ण पर यतिष्क होती है, तब इसका उच्चारण बहुधा अपूर्ण होता है; जैसे, “कुंद-इंदु-सम देह, उमा-रमन करुणा-अयन ।”

(ख) दीर्घ-स्वरांत त्र्यक्षरी शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अकारांत हो तो उसका उच्चारण अपूर्ण होता है; जैसे, बकरा, कपड़े, करना, बोलना, तानना ।

(ग) चार अक्षरों के ह्रस्व-स्वरांत शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अकारांत हो तो उसके अ का उच्चारण अपूर्ण होता है, जैसे, गड़बड़, देवधन, मानसिक, सुरलोक, कामरूप, बलहीन ।

अपवाद—यदि दूसरा अक्षर संयुक्त हो अथवा पहला अक्षर कोई उपसर्ग हो तो दूसरे अक्षर के अ का उच्चारण पूर्ण होता है, जैसे पुत्रलाभ, धर्महीन, आचरण, प्रचलित ।

(घ) दीर्घ-स्वरांत चार-अक्षरी शब्दों में तीसरे अक्षर के अ का उच्चारण अपूर्ण होता है, जैसे, समझना, निकलता, सुनहरी, कचहरी, प्रबलता ।

(ङ) यौगिक शब्दों में मूल अवयव के अंत्य अ का उच्चारण आधा होता है । यह बात ऊपर के उदाहरणों में भी पाई जाती है;

जैसे, देव-धन, सुर-लोक, अन्न-दाता, सुख-दायक, शीतल-ता, मन-मोहन, लड़क-पन ।

४१—हिंदी में ऐ और औ का उच्चारण संस्कृत से भिन्न होता है। तत्सम शब्दों में इनका उच्चारण संस्कृत के ही अनुसार होता है, पर हिंदी में ऐ बहुधा अय् और औ बहुधा अव् के समान बोला जाता है, जैसे—

संस्कृत—मैनाक, सदैव, ऐश्वर्य्य, पौत्र, कौतुक, इत्यादि ।

हिंदी—है, कै, मैल, सुनै, और, चौथा, इत्यादि ।

४२—उर्दू और अंगरेजी के कुछ अक्षरों का उच्चारण दिखाने के लिए अ, आ, इ, उ आदि स्वरों के साथ बिंदी और अर्द्ध-चंद्र लगाते हैं, जैसे, मअलूम, इल्म, उअम्र, लॉर्ड । इन चिह्नों का प्रचार सार्वदेशिक नहीं है, और विदेशी उच्चारण पूर्ण रूप से प्रकट करना कठिन भी होता है ।

व्यंजन ।

४३—स्पर्श-व्यंजनों के पाँच वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में पाँच पाँच व्यंजन हैं । प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है, जैसे—

क-वर्ग—क, ख, ग, घ, ङ ।

च-वर्ग—च, छ, ज, झ, ञ ।

ट-वर्ग—ट, ठ, ड, ढ, ण ।

त-वर्ग—त, थ, द, ध, न ।

प-वर्ग—प, फ, ब, भ, म ।

४४—बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के दो भेद हैं—

(१) अल्पप्राण, (२) महाप्राण ।

जिन व्यंजनों में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उनको महाप्राण और शेष व्यंजनों को अल्पप्राण कहते हैं ।

स्पर्शव्यंजनों में प्रत्येक वर्ग-का दूसरा और चौथा अक्षर तथा ऊष्म महाप्राण हैं, जैसे,—ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, ष, स, ह ।

शेष व्यंजन अल्पप्राण हैं ।

सब स्वर अल्पप्राण हैं ।

[सूचना—अल्पप्राण अक्षरों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है । ख, घ, छ, आदि व्यंजनों के उच्चारण में उनके पूर्व-वर्ती व्यंजनों के साथ हकार की ध्वनि मिली हुई सुनाई पड़ती है, अर्थात् ख = क् + ह, छ = च् + ह । उर्दू, अँगरेजी आदि भाषाओं में महा-प्राण अक्षर ह मिलाकर बनाये गये हैं ।]

४५—हिंदी में ड और ढ के दो दो उच्चारण होते हैं—(१) मूर्द्धन्य (२), द्विस्पृष्ट ।

(१) मूर्द्धन्य उच्चारण नीचे लिखे स्थानों में होते हैं—

(क) शब्द के आदि में; जैसे, डाक, डमरू, डग, ढम, ढिग, ढंग, ढोल, इत्यादि ।

(ख) द्वित्व में, जैसे, अड्डा, लड्डू, खड्डा ।

(ग) ह्रस्व स्वर के पश्चात् अनुनासिक व्यंजन के संयोग में, जैसे, डंड, पिंडी, चंडू, मंडप, इत्यादि ।

(२) द्विस्पृष्ट उच्चारण जिह्वा का अग्र भाग उलटाकर मूर्द्धा में लगाने से होता है । इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है । द्विस्पृष्ट उच्चारण बहुधा नीचे लिखे स्थानों में होता है—

(क) शब्द के मध्य अथवा अंत में; जैसे, सड़क, पकड़ना, आड़, गढ़, चढ़ाना, इत्यादि ।

(ख) दीर्घ स्वर के पश्चात् अनुनासिक व्यंजन के संयोग में दोनों उच्चारण बहुधा विकल्प से होते हैं; जैसे, मँडना, मँड़ना, खाँड, खाँड़; मेढा, मेंढा, इत्यादि ।

४६—ड, ङ, ण, न, म, का उच्चारण अपने अपने स्थान और नासिका से किया जाता है। विशिष्ट स्थान से श्वास उत्पन्न कर उसे नाक के द्वारा निकालने से इन अक्षरों का उच्चारण होता है। केवल स्पर्श-व्यंजनों के एक एक वर्ग के लिये एक एक अनुनासिक व्यंजन है, अंतस्थ और ऊष्म के साथ अनुनासिक व्यंजन का कार्य अनुस्वार से निकलता है। अनुनासिक व्यंजनों के बदले में भी विकल्प से अनुस्वार आता है, जैसे, अङ्ग = अंग, कण्ठ = कंठ, अंश, इत्यादि।

४७—अनुस्वार के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन अथवा-ह हो तो उसका उच्चारण दंत-तालव्य अर्थात् वँ के समान होता है, परंतु श, ष, स के साथ उसका उच्चारण बहुधा न् के समान होता है; जैसे, संवाद, संरक्षा, सिंह, अंश, हंस इत्यादि।

४८—अनुस्वार (') और अनुनासिक (^) के उच्चारण में अंतर है, यद्यपि लिपि में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार ही का उपयोग किया जाता है (देखो ३६ वाँ अंक)। अनुस्वार दूसरे स्वरों अथवा व्यंजनों के समान एक अलग ध्वनि है; परंतु अनुनासिक स्वर की ध्वनि केवल नासिक्य है। अनुस्वार के उच्चारण में (देखो ४६ वाँ अंक) श्वास केवल नाक से निकलता है, पर अनुनासिक के उच्चारण में वह मुख और नासिका से एक ही साथ निकाला जाता है। अनुस्वार तीव्र और अनुनासिक धीमी ध्वनि है, परंतु दोनों के उच्चारण के लिये पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता होती है, जैसे, रंग, रंग; कंवल, कँवल, वेदांत, वेदाँत, हंस, हँसना, इत्यादि।

४९—संस्कृत-शब्दों में अंत्य अनुस्वार का उच्चारण म् के समान होता है, जैसे, वरं, स्वयं, एवं।

५०—हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है, इसलिए अनुस्वार का अनुनासिक उच्चारण जानने के लिए कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं—

(१) ठेठ हिंदी शब्दों के अंत में जो अनुस्वार आता है उसका उच्चारण अनुनासिक होता है; जैसे, मैं, में, गेहूं, जूं, क्यों ।

(२) पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आनेवाले अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक होता है; जैसे, करूं, लड़कों, लड़कियां, हूं, हैं, इत्यादि ।

(३) दीर्घ स्वर के पश्चात् आनेवाला अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है; जैसे, आंख, पाँच, ईधन, उंट, सांभर, सौंपना, इत्यादि ।

५० (क)—लिखने में बहुधा अनुनासिक अ, आ, उ और ऊ में ही चंद्र-बिंदु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके कारण अक्षर के ऊपरी भाग में कोई मात्रा नहीं लगती; जैसे, अँधेरा, हँसना, आँख, दाँत, उँचाई, कुँदरू, उँट, करूँ, इत्यादि । जब इ और ए अकेले आते हैं, तब उनमें चंद्र-बिंदु और जब व्यंजन में मिलते हैं तब चंद्र-बिंदु के बदले अनुस्वार ही लगाया जाता है; जैसे, ईदारा, सिंचाई, संज्ञाएँ, ढेकी, इत्यादि ।

[सूचना—जहाँ उच्चारण में अम होने की संभावना हो वहाँ अनुस्वार और चंद्र-बिंदु पृथक् पृथक् लिखे जायँ; जैसे अंधेर (अन्धेर), अँधेरा, इत्यादि ।]

५१—विसर्ग (:) कंठ्य वर्ण है । इसके उच्चारण में ह् के उच्चारण को एक झटका सा देकर श्वास को मुँह से एक दम छोड़ते हैं । अनुस्वार वा अनुनासिक के समान विसर्ग का उच्चारण भी किसी स्वर के पश्चात् होता है । यह हकार की अपेक्षा कुछ धीमा बोला जाता है; जैसे, दुःख, अंतःकरण, छिः, हः, इत्यादि ।

[सूचना—किसी किसी वैयाकरण के मतानुसार विसर्ग का उच्चारण केवल हृदय में होता है और मुख के अवयवों से उसका कोई संबंध नहीं रहता ।]

५२—संयुक्त व्यंजन के पूर्व ह्रस्व स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ होता है, जिससे दोनों व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट हो जाता

है, जैसे, सत्य, अद्वा, पत्थर, इत्यादि। हिंदी में म्ह, न्ह, आदि का उच्चारण इसके विरुद्ध होता है; जैसे, तुम्हारा, उन्हें, कुल्हाड़ी, सह्यो।

५३—दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए उनके संयोग में पूर्व वर्ण अल्पप्राण ही रहता है, जैसे, रक्खा, अच्छा, पत्थर, इत्यादि।

५४—उर्दू के प्रभाव से ज और फ का एक एक और उच्चारण होता है। ज का दूसरा उच्चारण दंत-तालव्य और फ का दंतोष्ठ्य है। इन उच्चारणों के लिए अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाते हैं, जैसे, फुरसत, जरूरत, इत्यादि। ज और फ से अंगरेजी के भी कुछ अक्षरों का उच्चारण प्रकट होता है, जैसे, फीस, स्वेज, इत्यादि।

५५—हिंदी में झ का उच्चारण बहुधा 'ग्यँ' के सदृश होता है। महाराष्ट्र लोग इसका उच्चारण 'द्वन्यँ' के समान करते हैं। पर इसका शुद्ध उच्चारण प्रायः 'ज्यँ' के समान है।

चौथा अध्याय ।

स्वराघात ।

५६—शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर (धक्का) लगता है उसे **स्वराघात** कहते हैं। हिंदी में अपूर्णोच्चरित अ (४० वाँ अंक) जिस अक्षर में आता है उसके पूर्ववर्ती अक्षर के स्वर का उच्चारण कुछ लंबा होता है, जैसे 'घर' शब्द में अत्य 'अ' का उच्चारण अपूर्ण है, इसलिए उसके पूर्ववर्ती 'घ' के स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ करना पड़ता है। इसी तरह संयुक्त व्यंजन के पहले के अक्षर पर (५२ वाँ अंक) जोर पड़ता है, जैसे (गर्जना) शब्द में (र्) के अक्षर के संयोग के कारण 'ग' का

उच्चारण आघात के साथ होता है। स्वराघात-संबंधी कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं—

- (क) यदि शब्द के अंत में अपूर्णोच्चरित अ आवे तो उपांत्य अक्षर पर जोर पड़ता है; जैसे, घर, झाड़, सड़क, इत्यादि ।
- (ख) यदि शब्द के मध्य-भाग में अपूर्णोच्चरित अ आवे तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर आघात होता है, जैसे, अनबन, बोलकर, दिनभर ।
- (ग) संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर पड़ता है; जैसे, हल्ला, आज्ञा, चिता, इत्यादि ।
- (घ) विसर्ग-युक्त अक्षर का उच्चारण झटके के साथ होता है; जैसे, दुःख, अंतःकरण ।
- (च) यौगिक शब्दों में मूल अवयवों के अक्षरों का जोर जैसा का तैसा रहता है; जैसे, गुणवान्, जलमय, प्रेमसागर, इत्यादि ।
- (छ) शब्द के आरंभ का अ कभी अपूर्णोच्चरित नहीं होता; जैसे घर, सड़क, कपड़ा, तलवार, इत्यादि ।

५७—संस्कृत (वा हिंदी) शब्दों में इ, उ वा ऋ के पूर्ववर्ती स्वर का उच्चारण कुछ लंबा होता है; जैसे, हरि, साधु, समुदाय, धातु, पितृ, मातृ, इत्यादि ।

५८—यदि शब्द के एकही रूप से कई अर्थ निकलते हैं तो इन अर्थों का अंतर केवल स्वराघात से जाना जाता है; जैसे, 'बढ़ा' शब्द विधिकाल और सामान्य भूतकाल, दोनों में आता है, इसलिए विधिकाल के अर्थ में 'बढ़ा' के अंत्य 'आ' पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार 'की' संबंधकारक की स्त्रीलिंग-विभक्ति और सामान्य भूतकाल का स्त्रीलिंग एकवचन रूप है, इसलिए क्रिया के अर्थ में 'की' का उच्चारण आघात के साथ होता है ।

[सूचना—हिंदी में संस्कृत के समान स्वराघात सूचित करने के लिए चिह्नों का उपयोग भी नहीं होता ।]

देवनागरी वर्णमाला का कोष्ठक ।

स्थान	अघोष			घोष							
	स्पर्श		ऊष्म	ऊष्म	स्पर्श			अंतस्थ	स्वर		
	अल्प प्राण	महाप्राण	महाप्राण	महाप्राण	अल्पप्राण	महाप्राण	+ अल्पप्राण (अनुनासिक)		ह्रस्व	दीर्घ	संयुक्त
कंठ	क	ख		ह	ग	घ	ङ		अ	आ	ए ^२ ऐ ^२ ओ ^३ औ ^३
तालु	च	छ	श		ज	झ	ञ	य	इ	ई	
मूर्द्धा	ट	ठ	प		ड	ढ	ण	र	ऋ	ॠ	
दंत	त	थ	स		द	ध	न	ल	ॠ	ॡ	
ओष्ठ	प	फ			ब	भ	म	व ^१	उ	ऊ	
ङ, ढ = द्विस्पृष्ट, ज = दंत-तालव्य, फ = दतोष्ठ्य ।							स्थान + नासिका	१ दंत + ओष्ठ	२ कंठ + तालु ३ कंठ + ओष्ठ		

पाँचवाँ अध्याय ।

संधि ।

५६—दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि और संयोग में (१८ वाँ अंक) यह अंतर है कि संयोग में अक्षर जैसे के तैसे रहते हैं, परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो अक्षरों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न अक्षर हो जाता है।

[सचना—संधि का विषय संस्कृत व्याकरण से संबंध रखता है। संस्कृत-

भाषा में पदसिद्धि, समास और वाक्यों में संधि का प्रयोजन पड़ता है, परंतु हिंदी में संधि के नियमों से मिले हुए संस्कृत के जो समासिक शब्द आते हैं, केवल उन्हींके संबंध से इस विषय के निरूपण की आवश्यकता होती है।]

६०—संधि तीन प्रकार की है—(१) स्वर-संधि (२) व्यंजन-संधि और (३) विसर्ग-संधि।

(१) दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे **स्वर-संधि** कहते हैं; जैसे, राम + अवतार = राम् + अ + अ + वतार = राम् + आ + वतार = रामावतार।

(२) जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो उनकी संधि को **व्यंजन-संधि** कहते हैं; जैसे, जगत् + ईश = जगदीश, जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

(३) विसर्ग के साथ स्वर वा व्यंजन की संधि को **विसर्ग-संधि** कहते हैं; जैसे, तपः + वन = तपोवन, निः + अंतर = निरंतर।

स्वर-संधि।

६१—यदि दो सवर्ण (सजातीय) स्वर पास पास आवे तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर होता है; जैसे—

(क) अ और आ की संधि—

अ + अ = आ—कल्प + अंत = कल्पांत; परम + अर्थ = परमार्थ।

अ + आ = आ—रत्न + आकर = रत्नाकर; कुश + आसन =

कुशासन।

आ + अ = आ—रेखा + अंश = रेखांश, विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास।

आ + आ = आ—महा + आशय = महाशय; वार्त्ता + आलाप = वार्त्तालाप।

(ख) इ और ई की संधि—

इ + इ = ई—गिरि + इंद्र = गिरींद्र,

इ + ई = ई—कपि + ईश्वर = कपीश्वर ।

ई + ई = ई—जानकी + ईश = जानकीश ।

ई + इ = ई—मही + इंद्र = महींद्र ।

(ग) उ, ऊ की संधि—

उ + उ = ऊ—भानु + उदय = भानूदय ।

उ + ऊ = ऊ—लघु + ऊर्मि = लघूर्मि ।

ऊ + ऊ = ऊ—भू + ऊर्द्ध = भूर्द्ध ।

ऊ + उ = ऊ—वधू + उत्सव = वधूत्सव ।

(घ) ऋ, ॠ की संधि—

ऋ के संबंध से संस्कृत व्याकरणों में बहुधा मातृ + ऋण = मातृण, यह उदाहरण दिया जाता है, पर इस उदाहरण में भी विकल्प से 'मातृण' रूप होता है। इससे प्रकट है कि दीर्घ ऋ की आवश्यकता नहीं है।

६२—यदि अ वा आ के आगे इ वा ई रहे तो दोनों मिलकर ए, उ वा ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ, और ऋ रहे तो अर् हो जाता है। इस विकार को गुण कहते हैं।

उदाहरण ।

अ + इ = ए—देव + इंद्र = देवेद्र ।

अ + ई = ए—सुर + ईश = सुरेश ।

आ + इ = ए—महा + इंद्र = महेंद्र ।

आ + ई = ए—रमा + ईश = रमेश ।

अ + उ = ओ—चंद्र + उदय = चंद्रोदय ।

अ + ऊ = ओ—समुद्र + ऊर्मि = समुद्रोर्मि ।

आ + उ = ओ—महा + उत्सव = महोत्सव ।

आ + ऊ = ओ—महा + ऊरु = महोरु ।

अ + ऋ = अर्—सप्त + ऋषि = सप्तर्षि ।

आ + ऋ = अर्—महा + ऋषि = महर्षि ।

अपवाद—स्व + ईर = स्वैर; अक्ष + ऊहिनी = अक्षौहिणी;
-उद् = प्रौद्; सुख + ऋत = सुखार्त; दश + ऋण = दशार्ण;
दि ।

६३—अकार वा आकार के आगे ए वा ऐ हो तो दोनों लकर ऐ, और ओ वा औ रहे तो दोनों मिलकर औ होता है ।

३ विकार को वृद्धि कहते हैं । यथा—

अ + ए = ऐ—एक + एक = एकैक ।

अ + ऐ = ऐ—मत + ऐक्य = मतैक्य ।

आ + ए = ऐ—सदा + एव = सदैव ।

आ + ऐ = ऐ—महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य ।

अ + ओ = औ—जल + ओघ = जलौघ ।

आ + ओ = औ—महा + ओज = महौज ।

अ + औ = औ—परम + औपध = परमौपध ।

आ + औ = औ—महा + औदार्य = महौदार्य ।

अपवाद—अ अथवा आ के आगे ओष्ठ शब्द आवे तो विकल्प से ओ अथवा औ होता है; जैसे, विव + ओष्ठ = विवोष्ठ वा विवौष्ठ;

अधर + ओष्ठ = अधरोष्ठ वा अधरौष्ठ ।

६४—ह्रस्व वा दीर्घ इकार, उकार वा ऋकार के आगे कोई असवर्ण (विजातीय) स्वर आवे तो इ ई के बदले य्, उ ऊ के बदले व्, और ऋ के बदले र् होता है । इस विकार को यण कहते हैं । जैसे,

(क) इ + अ = य—यदि + अपि = यद्यपि ।

इ + आ = या—इति + आदि = इत्यादि ।

इ + उ = यु—प्रति + उपकार = प्रत्युपकार ।

इ + ऊ = यू—नि + ऊन = न्यून ।

इ + ए = ये—प्रति + एक = प्रत्येक ।

ई + अ = य—नदी + अर्पण = नद्यर्पण ।

ई + आ = या—देवी + आगम = देव्यागम ।

ई + उ = यु—सखी + उचित = सख्युचित ।

ई + ऊ = यू—नदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि ।

ई + ऐ = यै—देवी + ऐश्वर्य = देव्यैश्वर्य ।

(ख) उ + अ = व—मनु + अंतर = मन्वंतर ।

उ + आ = वा—सु + आगत = स्वागत ।

ऊ + इ = वि—अनु + इत = अन्वित ।

ऊ + ए = वे—अनु + एषण = अन्वेषण ।

(ग) ऋ + अ = र—पितृ + अनुमति = पित्रनुमति ।

ऋ + आ = रा—मातृ + आनंद = मात्रानंद ।

६५—ए, ऐ, ओ वा औ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अय्, आय्, अव् वा आव् होता है, जैसे—

ने + अन = न् + ए + अ + न = न् + अय् + अन = नयन ।

गौ + अन = ग् + ऐ + अ + न = ग् + आय् + अ + न
= गायन ।

गो + ईश = ग् + ओ + ई + श = ग् + अव् + ई + श =
गवीश ।

नौ + इक = न् + औ + इ + क = न् + आव् + इ + क =
नाविक ।

६६—ए वा ओ के आगे अ आवे तो अ का लोप हो जाता है और उसके स्थान में लुप्त अकार (ऽ) का चिह्न कर देते हैं;

जैसे, ते + अपि = तेऽपि (रामा०); सो + अनुमानै = सोऽनुमानै
(हिं० प्र०); यो + असि = योऽसि (रामा०)

[सूचना—हिंदी में इस संधि का प्रचार नहीं है ।]

व्यंजन-संधि ।

६७—क्, च्, ट्, प् के आगे अनुनासिक को छोड़कर कोई घोष वर्ण हो तो उनके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है; जैसे—

दिक् + गज = दिग्गज; वाक् + ईश = वागीश ।

षट् + रिपु = षड्रिपु; पट् + आनन = पडानन ।

अप् + ज = अब्ज; अच् + अंत = अजंत ।

६८—किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है; जैसे—

वाक् + मय = वाङ्मय; पट् + मास = पणमास ।

अप + मय = अम्मय; जगत् + नाथ = जगन्नाथ ।

६९—त् के आगे कोई स्वर, ग, घ, द, ध, व, भ, अथवा य, र, व रहे तो त् के स्थान में ट् होगा; जैसे—

सत् + आनंद = सदानंद; जगत् + ईश = जगदीश ।

उत् + गम = उट्टम; सत् + धर्म = सट्टर्म ।

भगवत् + भक्ति = भगवत्भक्ति; तत् + रूप = तट्टूप ।

७०—त् वा ट् के आगे च वा छ हो तो त् वा ट् के स्थान में च् होता है; ज वा झ हो तो ज्; ट वा ठ हो तो ट्; ड वा ढ हो तो ड्; और ल हो तो ल् होता है; जैसे—

उत् + चारण = उच्चारण; शरट् + चंद्र = शरच्चंद्र ।

महत् + छत्र = महच्छत्र; सत् + जन = सज्जन ।

विपट् + जाल = विपज्जाल; तत् + लीन = तल्लीन ।

७१—त् वा द् के आगे श हो तो त् वा द् के बदले च् और श के बदले छ होता है, और त् वा द् के आगे ह हो तो त् वा द् के स्थान मे द् और ह के स्थान मे घ होता है; जैसे—

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र, उत् + हार = उद्धार ।

७२—छ के पूर्व स्वर हो तो छ के बदले च्छ होता है; जैसे—

आ + छादन = आच्छादन, परि + छेद = परिच्छेद ।

७३—म् के आगे स्पर्श-वर्ण हो तो म् के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण आता है, जैसे—

सम् + कल्प = सकल्प वा सङ्कल्प ।

किम् + चित् = किञ्चित् वा किञ्चित् ।

सन् + तोष = संतोष वा सन्तोष ।

सम् + पूर्ण = संपूर्ण वा सम्पूर्ण ।

७४—म् के आगे अंतस्थ वा ऊष्म वर्ण हो तो म् अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे—

किम् + वा = किवा, सम् + हार = संहार ।

सम् + योग = संयोग, सम् + वाद = संवाद ।

अपवाद—सम् + राज = सम्राज

७५—ऋ, र वा ष के आगे न हो और इनके बीच में चाहे कोई स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार य, व, ह आवे तो न का ण हो जाता है, जैसे—

भर् + अन = भरण, भूष् + अन = भूषण ।

प्र + मान = प्रमाण, राम + अयन = रामायण ।

तृष् + ना = तृष्णा; ऋ + न = ऋण ।

७६—यदि किसी शब्द के आद्य स के पूर्व अ, आ को छोड़ कोई स्वर आवे तो स के स्थान में ष होता है, जैसे—

अभि + सेक = अभिषेक, नि + सिद्ध = निषिद्ध ।

वि + सम = विषम ; सु + सुप्ति = सुषुप्ति ।

(अ) जिस संस्कृत धातु में पहले स हो और उसके पश्चात् ऋ वा र, उससे बने हुए शब्द का स पूर्वोक्त वर्णों के पीछे आने पर ष नहीं होता ; जैसे—

वि + स्मरण (स्मृ—धातु) = विस्मरण ।

अनु + सरण (स्तृ—धातु) अनुसरण ।

वि + सर्ग (सृज्—धातु) = विसर्ग ।

७७—यौगिक शब्दों में यदि प्रथम शब्द के अंत में न् हो तो उसका लोप होता है ; जैसे—

राजन् + आज्ञा = राजाज्ञा ; हस्तिन् + दंत = हस्तिदंत ।

प्राणिन् + मात्र = प्राणिमात्र, धनिन् + त्व = धनित्व ।

(अ) अहन् शब्द के आगे कोई भी वर्ण आवे तो अंत्य न् के बदले र होता है, पर रात्रि, रूप शब्दों के आने से न का उ होता है, और संधि के नियमानुसार अ + उ मिल कर ओ हो जाता है, जैसे—

अहन् + गण = अहर्गण ; अहन् = मुख = अहर्मुख ।

अहन् + रात्र = अहोरात्र, अहन् + रूप = अहोरूप ।

विसर्ग संधि ।

७८—यदि विसर्ग के आगे च वा छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है ; ट वा ठ हो तो ष ; और त वा थ हो तो स् होता है ; जैसे—

निः + चल = निश्चल ; धनुः + टंकार = धनुष्टंकार ।

निः + छिद्र = निश्छिद्र, मन. + ताप = मनस्ताप ।

७९—विसर्ग के पश्चात् श्, ष् वा स् आवे तो विसर्ग जैसा का तैसा रहता है अथवा उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता है, जैसे—

दुः + शासन = दुःशासन वा दुश्शासन ।

निः + संदेह = निःसंदेह वा निस्संदेह ।

८०—विसर्ग के आगे क, ख वा प, फ आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता; जैसे—

रजः + कण = रजःकण, पयः + पान = पयःपान (हिं०—पयपान) ।

(अ) यदि विसर्ग के पूर्व इ वा उ हो तो क, ख वा प, फ के पहले विसर्ग के बदले ष् होता है, जैसे—

निः + कपट = निष्कपट; दुः + कर्म = दुष्कर्म ।

निः = फल = निष्फल, दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति ।

अपवाद—दुः + ख = दुःख, निः + पक्ष = निःपक्ष वा निष्पक्ष ।

(आ) कुछ शब्दों में विसर्ग के बदले स् आता है, जैसे—

नम + कार = नमस्कार, पुरः + कार = पुरस्कार ।

भा. + कर = भास्कर, भा' + पति = भास्पति ।

८१—यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे घोष-व्यंजन हो तो अ और विसर्ग (अः) के बदले ओ हो जाता है, जैसे—

अधः + गति = अधोगति, मन' + योग = मनोयोग ।

तेज' + राशि = तेजोराशि, वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध ।

[सूचना—वनोवास और मनोकामना शब्द अशुद्ध हैं ।]

(अ) यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे भी अ हो तो ओ के पश्चात् दूसरे अ का लोप हो जाता है और उसके बदले लुप्त अकार का चिन्ह ऽ कर देते हैं (६६ वाँ अंक), जैसे—

प्रथम' + अध्याय = प्रथमोऽध्याय ।

मनः + अनुसार = मनोऽनुसार ।

८२—यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और आगे कोई घोष-वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में र् होता है; जैसे—

नि. + आशा = निराशा. दः + उपयोग = दरूपयोग ।

निःगुण = निर्गुण; बहिः + मुख = बहिर्मुख ।

(अ) यदि र् के आगे र हो तो र् का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे—

निः + रस = नीरस; निः + रोग = नीरोग;

पुनर् + रचना = पुनारचना ।

८३—यदि अकार के आगे विसर्ग हो और उसके आगे अ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाना है और पास पास आये हुए स्वरों की फिर संधि नहीं होती; जैसे—

अतः + एव = अतएव ।

८४—अंत्य स् के बदले विसर्ग हो जाता है; इसलिए विसर्ग-संबंधी पूर्वोक्त नियम स के विषय में भी काम देता है। ऊपर दिये हुए विसर्ग के उदाहरणों में ही कहीं कहीं मूल स् है; जैसे—

अधस् + गति = अधः + गति = अधोगति ।

निस् + गुण = निः + गुण = निर्गुण ।

तेजस् + पुंज = तेजः + पुंज = तेजोपुंज ।

यशस् + दा = यशः + दा = यशोदा ।

८५—अंत्य र् के बदले भी विसर्ग होता है। यदि र् के आगे अघोष-वर्ण आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता (७६ वाँ अंक); और उसके आगे घोष-वर्ण आवे तो र् ज्यों का त्यों रहता है (८२ वाँ अंक); जैसे—

प्रातर् + काल = प्रातःकाल ।

अंतर् + करण = अंतःकरण ।

अंतर् + पुर = अंतःपुर ।

पुनर् + उक्ति = पुनरुक्ति ।

पुनर् + जन्म = पुनर्जन्म ।

दूसरा भाग ।

शब्द-साधन ।

पहला परिच्छेद ।

शब्द-भेद ।

पहला अध्याय ।

शब्द-विचार ।

८६—शब्द-साधन व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद (तथा उनके प्रयोग) रूपांतर और व्युत्पत्ति का निरूपण किया जाता है ।

८७—एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे, लड़का, जा, छोटा, मैं, धीरे, परंतु, इत्यादि ।

(अ) शब्द अक्षरों से बनते हैं । 'न' और 'थ' के मेल से 'नथ' और 'थन' शब्द बनते हैं, और यदि इनमें 'आ' का योग कर दिया जाय तो 'नाथ', 'थान', 'नथा', 'थाना', आदि शब्द बन जायेंगे ।

(आ) सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों, पदार्थों, धर्मों, और उनके सब प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग होता है । एक शब्द से (एक समय में) प्रायः एक ही भावना प्रकट होती है, इसलिए कोई भी पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए एक से अधिक शब्दों का काम पड़ता है । 'आज तुम्हें क्या सूझी है ?'—

यह एक पूर्ण विचार अर्थात् वाक्य है और इसमें पाँच शब्द हैं— आज, तुम्हें, क्या, सूझी, है। इनमें से प्रत्येक शब्द एक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है और उसमें कोई एक भावना प्रकट होती है।

(इ) ल, ड, का अलग अलग शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनसे किसी प्राणी, पदार्थ, धर्म वा उनके परस्पर संबंध का कोई बोध नहीं होता। 'ल, ड, का,' अक्षर कहते हैं—इस वाक्य में ल, ड, का, अक्षरों का प्रयोग शब्दों के समान हुआ है, परंतु इनसे इन अक्षरों के सिवा और कोई भावना प्रकट नहीं होती। इन्हें केवल एक विशेष (पर तुच्छ) अर्थ में शब्द कह सकते हैं, पर साधारण अर्थ में इनकी गणना शब्दों में नहीं हो सकती। ऐसे ही विशेष अर्थ में निरर्थक ध्वनि भी शब्द कही जाती है, जैसे, लड़का, 'वा' कहता है। पागल 'अल्लबल्ल' बकता था।

(ई) शब्द के लक्षण में 'स्वतंत्र' शब्द रखने का कारण यह है कि भाषा में कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो स्वयं सार्थक नहीं होतीं, पर जब वे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं तब सार्थक होती हैं। ऐसी परतंत्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं; जैसे, ता, पन, वाला, ने, को, इत्यादि। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दांश शब्द के पीछे जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहाता है, जैसे, 'अशुद्धता' शब्द में 'अ' उपसर्ग और 'ता' प्रत्यय है।

[सूचना—हिंदी में 'शब्द' का अर्थ बहुत ही सदिग्ध है। "अब तो तुम्हारी मनस्कामना पूरी हुई"—इस वाक्य में 'तुम्हारी' भी शब्द कहलाता है और जिस 'तुम' से यह शब्द बना है वह 'तुम' भी शब्द कहाता है। इसी प्रकार 'मन' और 'कामना' दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों मिलकर 'मनस्कामना' एक शब्द बना है। इन उदाहरणों में 'शब्द' का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है; इसलिए शब्द का ठीक अर्थ जानना आवश्यक है। जिन प्रत्ययों के पश्चात् दूसरे प्रत्यय नहीं लगते उन्हें चरम

प्रत्यय कहते हैं और चरम प्रत्यय लगने के पहले शब्द का जो मूल रूप होता है यथार्थ में वही शब्द है। उदाहरण के लिए, 'दीनता से' शब्द को लो। इसमें मूल शब्द अर्थात् प्रकृति 'दीन' है और प्रकृति में 'ता' और 'से', दो प्रत्यय लगे हैं। 'ता' प्रत्यय के पश्चात् 'से' प्रत्यय आया है; परन्तु 'से' के पश्चात् कोई दूसरा प्रत्यय नहीं लग सकता, इसलिए 'से' के पहले 'दीनता' मूल रूप है और इसीको शब्द कहेंगे। चरम प्रत्यय लगने से शब्द का जो रूपांतर होता है वही इसकी यथार्थ विकृति है और इसे पद कहते हैं। व्याकरण में शब्द और पद का अंतर बड़े महत्त्व का है और शब्द-साधन में इन्हीं शब्दों और पदों का विचार किया जाता है।]

८८—व्याकरण में शब्द और वस्तु ❀ के अंतर पर ध्यान रखना आवश्यक है। यद्यपि व्याकरण का प्रधान विषय शब्द है तथापि कभी कभी यह भेद बताना कठिन हो जाता है कि हम केवल शब्दों का विचार कर रहे हैं अथवा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के विषय में कह रहे हैं। मान लो कि हम सृष्टि में एक घटना देखते हैं और तत्संबंधी अपने विचार वाक्यों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं—माली फूल तोड़ता है। इस घटना में तोड़ने की क्रिया करनेवाला (कर्त्ता) माली है, परन्तु वाक्य में 'माली' (शब्द) को कर्त्ता कहते हैं, यद्यपि 'माली' (शब्द) कोई क्रिया नहीं कर सकता। इसी प्रकार तोड़ना क्रिया का फल फूल (वस्तु) पर पड़ता है, परन्तु बहुधा व्याकरण के अनुसार वह फल 'फूल' (शब्द) पर अवलंबित माना जाता है। व्याकरण में वस्तु और उसके वाचक शब्द के संबंध का विचार शब्दों के रूप, अर्थ, प्रयोग और उनके परस्पर संबंध से किया जाता है।

८९—परस्पर संबंध रखनेवाले दो या अधिक शब्दों को जिनसे

❀ वस्तु शब्द से यहा प्राणी, पदार्थ, धर्म और उनके परस्पर संबंध का अर्थ लेना चाहिए।

पूरी बात नहीं जानी जाती वाक्यांश कहते हैं; जैसे, 'घर का घर,' 'सच बोलना,' 'दूर से आया हुआ,' इत्यादि।

(अ) एक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्द-समूह वाक्य कहाता है; जैसे, लड़के फूल बीन रहे हैं; विद्या से नम्रता प्राप्त होती है, इत्यादि।

दूसरा अध्याय ।

शब्दों का वर्गीकरण ।

६०—किसी वस्तु के विषय में मनुष्य की भावनाएँ जितने प्रकार की होती हैं उन्हें सूचित करने के लिए शब्दों के उतने ही भेद होते हैं और उनके उतने ही रूपांतर भी होते हैं।

मान लो कि हम पानी के विषय में विचार करते हैं तो हम 'पानी' या उसके और किसी समानार्थ-वाची शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर यदि हम पानी के संबंध में कुछ कहना चाहें तो हमें 'गिरा' या कोई दूसरा शब्द कहना पड़ेगा 'पानी' और 'गिरा' दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, क्योंकि उनका प्रयोग अलग अलग है। 'पानी' शब्द एक पदार्थ का नाम सूचित करता है और 'गिरा' शब्द से हम उस पदार्थ के विषय में कुछ विधान करते हैं। व्याकरण में पदार्थ का नाम सूचित करनेवाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और उस पदार्थ के विषय में विधान करनेवाले शब्द को क्रिया कहते हैं। 'पानी' शब्द संज्ञा और 'गिरा' शब्द क्रिया है।

'पानी' शब्द के साथ हम दूसरे शब्द लगाकर एक दूसरा ही विचार प्रकट कर सकते हैं, जैसे, 'मैला पानी बहा'। इस वाक्य में 'बहा' शब्द तो पानी के विषय में विधान करता है; परंतु 'मैला' शब्द न तो किसी पदार्थ का नाम सूचित करता है और न किसी

पदार्थ के विषय में विधान ही करता है। 'मैला' शब्द पानी की विशेषता बताता है, इसलिए वह एक अलग ही जाति का शब्द है। पदार्थ की विशेषता बतानेवाले शब्द को व्याकरण में **विशेषण** कहते हैं। 'मैला' शब्द **विशेषण** है। "मैला पानी अभी बहा"— इस वाक्य में 'अभी' शब्द 'बहा' क्रिया की विशेषता बतलाता है; इसलिए वह एक दूसरी ही जाति का शब्द है, और उसे **क्रिया-विशेषण** कहते हैं। इसी तरह वाक्य में **प्रयोग** के अनुसार शब्दों के और भी भेद होते हैं।

प्रयोग के अनुसार शब्दों की भिन्न भिन्न जातियों को **शब्द-भेद** कहते हैं। शब्दों की भिन्न भिन्न जातियाँ बताना उनका **वर्गीकरण** कहलाता है।

६१—अपने विचार प्रकट करने के लिए हमें भिन्न भिन्न भावनाओं के अनुसार एक शब्द को बहुधा कई रूपों में कहना पड़ता है।

मान लो कि हमें 'घोड़ा' शब्द का प्रयोग करके उसके वाच्य प्राणी की **संख्या** का बोध कराना है तो हम यह घुमाव की बात न कहेंगे कि "घोड़ा नाम के दो या अधिक जानवर" किंतु 'घोड़ा' शब्द के अंत्य 'आ' के बदले 'ए' करके 'घोड़े' शब्द का प्रयोग करेंगे। 'पानी गिरा' इस वाक्य में यदि हम 'गिरा' शब्द से किसी और **काल** (समय) का बोध कराना चाहें तो हमें 'गिरा' के बदले 'गिरेगा' या 'गिरता है' कहना पड़ेगा। इसी प्रकार और और शब्दों के भी **रूपांतर** होते हैं।

शब्द के **अर्थ** में हेरफेर करने के लिए उस (शब्द) के रूप में जो हेरफेर होता है उसे **रूपांतर** कहते हैं।

६२—एक पदार्थ के नाम के संबन्ध से बहुधा दूसरे पदार्थों के नाम रक्खे जाते हैं, इसलिए एक शब्द से कई नये शब्द बनते

हैं; जैसे, 'दूध' से 'दूधवाला', 'दुधार' 'दूधियां', इत्यादि। कभी कभी दो या अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है; जैसे, गंगा-जल, चौकोन, रामपुर, त्रिकालदर्शी, इत्यादि।

एक शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं।

६३—वाक्य में, प्रयोग के अनुसार, शब्दों के आठ भेद होते हैं—

- (१) वस्तुओं के नाम बतानेवाले शब्द संज्ञा।
 - (२) वस्तुओं के विषय में विधान करनेवाले शब्द..... क्रिया।
 - (३) वस्तुओं की विशेषता बतानेवाले शब्द.. . . . विशेषण।
 - (४) विधान करनेवाले शब्दों की विशेषता बतानेवाले शब्द. क्रिया-विशेषण।
 - (५) संज्ञा के बदले आनेवाले शब्द. सर्वनाम।
 - (६) क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करनेवाले शब्द..... संबंध-सूचक।
 - (७) दो शब्दों वा वाक्यों को मिलानेवाले शब्द..... समुच्चय-बोधक।
 - (८) मनोविकार सूचित करनेवाले शब्द... विस्मयादि-बोधक।
- (क) नीचे लिखे वाक्यों में आठों शब्द-भेदों के उदाहरण दिये जाते हैं—

अरे ! सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गाँव के पास फिर रहे हो !

अरे !—विस्मयादि-बोधक है। यह शब्द केवल मनोविकार सूचित करता है। यदि हम इस शब्द को वाक्य से निकाल दें तो वाक्य के अर्थ में कुछ भी अंतर न पड़ेगा।

सूरज—संज्ञा है; क्योंकि यह शब्द एक वस्तु का नाम सूचित करता है।

डूब गया—क्रिया है, क्योंकि इस शब्द से हम सूरज के विषय में विधान करते हैं ।

और—समुच्चय-बोधक है । यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है—

(१) सूरज डूब गया ।

(२) तुम अभी इसी गाँव के पास फिर रहे हो ।

तुम—सर्वनाम है, क्योंकि वह नाम के बदले आया है ।

अभी—क्रिया-विशेषण है और 'फिर रहे हो' क्रिया की विशेषता बतलाता है ।

इसी—विशेषण है, क्योंकि वह गाँव की विशेषता बतलाता है ।

गाँव—संज्ञा है ।

के—शब्दांश (प्रत्यय) है, क्योंकि वह 'गाँव' शब्द के साथ आकर सार्थक होता है ।

पास—संबंध-सूचक है । यह शब्द 'गाँव' का संबंध 'फिर रहे हो' क्रिया से मिलाता है ।

फिर रहे हो—क्रिया है ।

६४—**रूपांतर** के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं—(१) विकारी, (२) अविकारी । अविकारी शब्दों को बहुधा अव्यय कहते हैं ।

(१) जिस शब्द के रूप में कोई विकार होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं; जैसे,

लड़का—लड़के, लड़कों, लड़की, इत्यादि ।

देख—देखना, देखा, देखूँ, देखकर, इत्यादि ।

(२) जिस शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता उसे अविकारी शब्द वा अव्यय कहते हैं, जैसे, परंतु, अचानक, बिना, बहुधा, हाय, इत्यादि ।

६५—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं;

और क्रिया-विशेषण, संबन्ध-सूचक, समुच्चय-बोधक और विस्मयादि-बोधक अविकारी शब्द वा अव्यय हैं ।

[टी०—हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में संस्कृत की चाल पर शब्दों के तीन भेद माने गये हैं—(१) संज्ञा, (२) क्रिया, (३) अव्यय । संस्कृत में प्रातिपदिक, धातु और अव्यय के नाम से शब्दों के तीन भेद माने गये हैं; और ये भेद शब्दों के रूपांतर के आधार पर किये गये हैं । व्याकरण में मुख्यतः रूपांतर ही का विचार किया जाता है; परंतु जहां शब्दों के केवल रूपांतर से उनका परस्पर संबंध प्रकट नहीं होता वहाँ उनके प्रयोग वा अर्थ का भी विचार किया जाता है । संस्कृत रूपांतर-शील भाषा है; इसलिए उसमें शब्दों का प्रयोग वा अर्थ बहुधा उनके रूपांतर ही से जाना जाता है । यही कारण है जो संस्कृत में शब्दों के उतने भेद नहीं माने गये जितने अंगरेजी में और उसके अनुसार हिंदी, मराठी, गुजराती, आदि भाषाओं में माने जाते हैं । हिंदी में शब्द के रूप से उसका अर्थ वा प्रयोग सदा प्रकट नहीं होता; क्योंकि वह सरकृत के समान पूर्णतया रूपांतर-शील भाषा नहीं है । हिंदी में कभी कभी बिना रूपांतर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न शब्द-भेदों में होता है; जैसे, वे लड़के साथ खेलते हैं । (क्रिया-विशेषण) । लड़का बाप के साथ गया । (संबन्ध-सूचक) । विपत्ति में कोई साथ नहीं देता । (संज्ञा) । इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हिंदी में संस्कृत के समान केवल रूप के आधार पर शब्द-भेद मानने से उनका ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सकता । हिंदी के कोई कोई व्याकरण शब्दों के केवल पांच भेद मानते हैं—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय । वे लोग अव्ययों के भेद नहीं मानते और उनमें भी विस्मयादि-बोधक को शामिल नहीं करते । जो लोग शब्दों के केवल तीन भेद (संज्ञा, क्रिया और अव्यय) मानते हैं उनमें से कोई कोई भेदों के उपभेद मानकर शब्द-भेदों की संख्या तीन से अधिक कर देते हैं । किसी किसी के मत में, उपसर्ग और प्रत्यय भी शब्द हैं और वे इनकी गणना अव्ययों में करते हैं । इस प्रकार शब्द-भेदों की संख्या में बहुत मत-भेद है ।

अंगरेजी में भी (जिसके अनुसार हिंदी में आठ शब्द-भेद मानने की

ॐ विभक्ति (प्रत्यय) लगने के पूर्व संज्ञा, सर्वनाम वा विशेषण का

चाल पड़ी है) इनके विषय में वैयाकरण एक-मत नहीं हैं । उन लोगों में किसी ने दो, किसी ने चार, किसी ने आठ और किसी किसी ने नौ तक भेद माने हैं । इस मत-भेद का कारण यह है कि ये वर्गीकरण पूर्णतया शास्त्रीय आधार पर नहीं किये गये । कुछ विद्वानों ने इन शब्द-भेदों को न्याय-सम्मत आधार देने की चेष्टा की है, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है—

(१) भावनात्मक शब्द

- (१) वाक्य में उद्देश होनेवाले शब्दसंज्ञा ।
- (२) विधेय होनेवाले शब्द क्रिया ।
- (३) संज्ञा का धर्म बतानेवाले शब्द ... विशेषण ।
- (४) क्रिया का धर्म बतानेवाले शब्द क्रिया-विशेषण ।

(२) संबन्धात्मक शब्द

- (५) संज्ञा का संबन्ध वाक्य से
बतानेवाले शब्द.....संबन्ध-सूचक
- (६) वाक्य का संबन्ध वाक्य से
बतानेवाले शब्द..... समुच्चय-बोधक ।
- (७) अप्रधान (परंतु उपयोगी)
शब्द-भेद... .. सर्वनाम ।
- (८) अव्याकरणी उद्गार विस्मयादि-बोधक ।

शब्दों के जो आठ भेद अँगरेजी भाषा के वैयाकरणों ने किये हैं वे निर अनुमान-मूलक नहीं हैं । भाषा में उन अर्थों के शब्दों की आवश्यकता होती है और प्रायः प्रत्येक उन्नत भाषा में आपही आप उनकी उत्पत्ति होती है । भाषा-शास्त्रियों में यह सिद्धांत सर्वसम्मत है कि किसी भी भाषा में शब्दों के आठ भेद होते ही हैं । यद्यपि इन भेदों में न्याय-सम्मत वर्गीकरण के नियमों का पूरा पालन नहीं हो सकता और इनके लक्षण पूर्णतया निर्दोष नहीं हो सकते, तथापि व्याकरण के ज्ञान के लिए इन्हें जानने की आवश्यकता होती है । व्याकरण के द्वारा विदेशी भाषा सीखने में इन भेदों के ज्ञान से बड़ी सहायता मिलती है । वर्गीकरण का उद्देश यही है कि किसी भी विषय की बातें जानने में स्मरण-शक्ति को सहायता मिले । इसीलिए विशेष धर्मों के आधार पर पदार्थों के वर्ग किये जाते हैं ।

किसी किसी का मत है कि हिंदी में अँगरेजी व्याकरण को 'छूत' न चुभनी चाहिये । ऐसे लोगों को सोचना चाहिये कि जिस प्रकार हिंदी से संस्कृत

का संबन्ध नहीं टूट सकता उसी प्रकार अँगरेजी से उसका वर्तमान संबन्ध टूटना इष्ट होने पर भी, शक्य नहीं। अँगरेज लोगों ने अपने सूक्ष्म विचार और दीर्घ उद्योग से ज्ञान में प्रत्येक शाखा में जो समुन्नति की है उसे हम लोग सहज ही नहीं भूल सकते। यदि संस्कृत में शब्दों के आठ भेद नहीं माने गये हैं तो हिंदी में उन्हें उपयोगिता की दृष्टि से मानने में कोई हानि नहीं, किंतु लाभ ही है।

यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब हम संस्कृत के अनुसार शब्द-भेद नहीं मानते तब फिर संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग क्यों करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि ये शब्द हिंदी में बहुत दिनों से प्रचलित हैं और हम लोगों को इनका हिंदी अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए बिना किसी विशेष कारण के प्रचलित शब्दों का त्याग उचित नहीं। किसी किसी पुस्तक में 'संज्ञा' के लिए 'नाम' और 'सर्वनाम' के लिए 'संज्ञा-प्रतिनिधि' शब्द आये हैं और कोई कोई लोग 'अव्यय' के लिए 'निपात' शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु प्रचलित शब्दों को इस प्रकार बदलने से गड़बड़ के सिवा कोई लाभ नहीं। इस पुस्तक में अधिकांश पारिभाषिक शब्द 'भाषा-भास्कर' से लिये गये हैं; क्योंकि निर्दोष न होने पर भी वह पुस्तक बहुत दिनों से प्रचलित है और उसके पारिभाषिक शब्द हम लोगों के लिए नये नहीं हैं।]

६६—व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं—(१)

रूढ़, (२) यौगिक।

(१) रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने; जैसे, नाक, कान, पीला, भट, पर, इत्यादि।

(२) जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं; जैसे, कतर-नी, पीला-पन, दूध-वाला, भट-पट, घुड़-साल, इत्यादि।

यौगिक शब्दों में ही सामासिक शब्दों का समावेश होता है।

अर्थ के अनुसार यौगिक शब्दों का एक भेद योगरूढ़ कहाता है जिससे कोई विशेष अर्थ पाया जाता है; जैसे, लंबोदर, गिरि-धारी, पंकज, जलद, इत्यादि। 'पंकज' शब्द के खंडों (पंक + ज)

का अर्थ 'कीचड़ से उत्पन्न' है, पर उससे केवल कमल का विशेष अर्थ लिया जाता है ।

[सूचना—हिंदी व्याकरण में कई पुस्तकों में ये सब भेद केवल संज्ञाओं के माने गये हैं और उनमें उपसर्ग-युक्त संज्ञाओं के उदाहरण नहीं दिये गये हैं । हिंदी में यौगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं और उनमें संज्ञाओं के सिवा दूसरे शब्द-भेद भी रहते हैं (१९८ वाँ अंक) ।]

इस विषय का सविस्तर विवेचन शब्द-साधन के व्युत्पत्ति-प्रकरण में किया जायगा ।

पहला खंड ।

विकारी शब्द ।

पहला अध्याय ।

संज्ञा ।

६७—संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो, जैसे, घर, आकाश, गंगा, देवता, अक्षर, बल, जादू, इत्यादि ।

(क) इस लक्षण में 'वस्तु' शब्द का उपयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया गया है । वह केवल प्राणी और पदार्थ ही का वाचक नहीं है किंतु उनके धर्मों का भी वाचक है । साधारण भाषा में 'वस्तु' शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं होता; परंतु शास्त्रीय ग्रंथों में व्यवहृत शब्दों का अर्थ कुछ घटा-बढ़ाकर निश्चित कर लेना चाहिये जिससे उसमें कोई संदेह न रहे ।

[टी०—हिंदी व्याकरणों में दिये हुए सब लक्षण न्याय-सम्मत रीति से किये हुए नहीं जान पड़ते; इसलिए यहाँ न्याय-सम्मत लक्षणों के विषय में सक्षेपत कुछ कहने की आवश्यकता है । किसी भी पद का लक्षण कहने में दो बातें बतानी पड़ती हैं—(१) जिस जाति में उस पद का समावेश होता है वह जाति; और (२) लक्ष्य पद का असाधारण धर्म, अर्थात् लक्ष्य पद के अर्थ को उस जाति की अन्य उपजातियों के अर्थ से अलग करनेवाला धर्म । किसी शब्द का अर्थ समझाने के कई उपाय हो सकते हैं; पर उन सबको लक्षण नहीं कह सकते । लक्षण=जाति + असाधारण धर्म । जिस लक्षण में लक्ष्य पद स्पष्ट अथवा गुप्त रीति से आता है वह शुद्ध लक्षण नहीं है । इसी प्रकार एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के द्वारा बताना (अर्थात् उसका पर्यायवाची शब्द

कहना) भी उस शब्द का लक्षण नहीं। यदि हम संज्ञा का न्यायोक्त लक्षण कहना चाहें तो हमें उसकी जाति और असाधारण धर्म बताना चाहिये। जिस अधिक व्यापक वर्ग में संज्ञा का समावेश होता है वही उसकी जाति है, और उस जाति की दूसरी उपजातियों से संज्ञा के अर्थ में जो भिन्नता है वही उसका असाधारण धर्म है। संज्ञा का समावेश विकारी शब्दों में है; इसलिए 'विकारी शब्द' संज्ञा की जाति है और 'प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित करना' उसका असाधारण धर्म है जो विकारी शब्द की उपजातियों, अर्थात् सर्वनाम, विशेषण, आदि में नहीं पाया जाता। इसलिए उपर कही हुई संज्ञा की परिभाषा, न्याय-दृष्टि से स्वीकरणीय है। लक्षण में अव्याप्ति और अति-व्याप्ति-दोष न होने चाहिये। जब लक्ष्य पद के असाधारण धर्म के बदले किसी ऐसे धर्म का उल्लेख किया जाता है जो उसकी जाति के सब व्यक्तियों में नहीं पाया जाता, तब लक्षण में अव्याप्ति-दोष होता है, जैसे यदि मनुष्य के लक्षण में यह कहा जाय कि "मनुष्य वह विवेकी प्राणी है जो व्यक्त भाषा बोलता है" तो इस लक्षण में अव्याप्ति-दोष है, क्योंकि व्यक्त भाषा बोलने का धर्म गूँगे मनुष्यों में नहीं पाया जाता। इसके विरुद्ध जब लक्ष्य पद का धर्म उसकी जाति से भिन्न जातियों के व्यक्तियों में भी घटित होता है तब लक्षण में अति-व्याप्ति दोष होता है, जैसे वन का लक्षण करने में यह कहना अति-व्याप्ति-दोष है कि 'वन स्थल का वह भाग है जो सघन वृक्षों से ढँका रहता है', क्योंकि सघन वृक्षों से ढँके रहने का धर्म पर्वत और बगीचे में भी पाया जाता है।

हिदी-न्याकरणों में दिये गये, संज्ञा के लक्षणों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

(१) संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। (भा०-त०-बो०)।

(२) संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। (भा०-भा०)।

(३) पदार्थ-मात्र की संज्ञा को नाम कहते हैं। (भा०-त०-दी०)।

(४) वस्तु के नाम-मात्र को संज्ञा कहते हैं। (हि०-भा०-व्या०)।

ये लक्षण देखने में सहज जान पड़ते हैं और छोटे छोटे विद्यार्थियों के बोध के लिए न्याय-सम्मत लक्षणों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं, परन्तु ये ठीक या निर्दोष लक्षण नहीं हैं। इनसे केवल यही जाना जाता है कि 'संज्ञा' का पर्यायवाची शब्द 'नाम' है अथवा 'नाम' का पर्यायवाची शब्द 'संज्ञा' है। इसके सिवा इन लक्षणों में कल्पित सृष्टि का कोई उल्लेख नहीं है। बैताल-

पच्चीसी, शुक्रबहत्तरी, हितोपदेश, आदि कल्पित विषयों, की पुस्तकों में तथा कल्पित नाटकों और उपन्यासों में जिस सृष्टि का वर्णन रहता है उस सृष्टि के प्राणियों, पदार्थों और धर्मों के नाम भी व्याकरण के संज्ञा-वर्ग में आ सकते हैं। इस दृष्टि से ऊपर लिखे लक्षणों में अव्याप्ति दोष भी है।]

(ख) 'संज्ञा' शब्द का उपयोग **वस्तु** के लिए नहीं होता, किंतु **वस्तु** के **नाम** के लिए होता है। जिस कागज पर यह पुस्तक छपी है वह कागज संज्ञा नहीं है, किंतु पदार्थ है। पर 'कागज' शब्द जिसके द्वारा हम उस पदार्थ का नाम सूचित करते हैं, संज्ञा है।

६८—संज्ञा दो प्रकार की होती है—(१) पदार्थवाचक, (२) भाववाचक।

६९—जिस संज्ञा से किसी पदार्थ वा पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे, राम, राजा, घोड़ा, कागज, काशी, सभा, भीड़, इत्यादि।

[सूचना—इन लक्षणों में 'पदार्थ' शब्द का प्रयोग जड़ और चेतन, दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए किया गया है।]

१००—पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद हैं—(१) व्यक्तिवाचक (२) जातिवाचक।

१०१—जिस संज्ञा से एक ही पदार्थ वा पदार्थों के एक ही समूह का बोध होता है उसे **व्यक्तिवाचक** संज्ञा कहते हैं, जैसे, राम, काशी, गंगा, महामंडल, हितकारिणी, इत्यादि।

'राम' कहने से केवल एक ही व्यक्ति (अकेले मनुष्य) का बोध होता है; प्रत्येक मनुष्य को 'राम' नहीं कह सकते। यदि हम 'राम' को देवता माने तो भी 'राम' एक ही देवता का नाम है। उसी प्रकार 'काशी' कहने से इस नाम के एक ही नगर का बोध होता है। यदि 'काशी' किसी स्त्री का नाम हो तो भी इस नाम से उस एक ही स्त्री का बोध होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहे जिस

प्राणी वा पदार्थ का नाम हों वह उस एक ही प्राणी वा पदार्थ को छोड़कर दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं हो सकती। नदियों में 'गंगा' एक ही व्यक्ति (अकेली नदी) का नाम है; यह नाम किसी दूसरी नदी का नहीं हो सकता। संसार में एक ही राम, एक ही काशी और एक ही गंगा है। 'महामंडल' लोगों के एक ही समूह (सभा) का नाम है; इस नाम से कोई दूसरा समूह सूचित नहीं होता। इसी प्रकार 'हितकारिणी' कहने से एक अकेले समूह (व्यक्ति) का बोध होता है। इसलिए राम, काशी, गंगा, महामंडल, हितकारिणी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं।

व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ बहुधा अर्थ-हीन होती हैं। इनके प्रयोग से जिस व्यक्ति का बोध होता है उसका प्रायः कोई भी धर्म इनसे सूचित नहीं होता। नर्मदा नाम से एक ही नदी का अथवा एक ही स्त्री का या और किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो सकता है, पर इस नाम के व्यक्ति का प्रायः कोई भी धर्म इस शब्द से सूचित नहीं होता। 'नर्मदा' शब्द आदि में अर्थवान् (नर्म ददातीति 'नर्मदा') रहा हो, तथापि व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसका वह अर्थ अप्रेचलित हो गया और अब वह नाम पहचानने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति की पहचान या सूचना के लिए केवल एक संकेत है और यह संकेत इच्छानुसार बदला जा सकता है। यदि किसी घर में मालिक और नौकर का नाम एक ही हो तो बहुत करके नौकर अपना नाम बदलने को राजी हो जायगा। एक ही नाम के कई मनुष्यों की एक दूसरे से भिन्नता सूचित करने के लिए प्रत्येक नाम के साथ बहुधा कोई संज्ञा या विशेषण लगा देते हैं, जैसे, देवदत्त, बाबू देवदत्त, इत्यादि। यदि एक ही मनुष्य के दो नाम हों तो व्यवहारी वा सरकारी कागज-पत्रों में उसे दोनों लिखने पड़ते हैं, जिसमें उसे अपने किसी एक नाम की

आड़ में घोखा देने का अवसर न मिले, जैसे, मोहन उर्फ बिहारी, इत्यादि ।

कुछ संज्ञाएँ व्यक्ति-वाचक होने पर भी अर्थवान् हैं, जैसे, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मांड, परब्रह्म, प्रकृति, इत्यादि ।

१०२—जिस संज्ञा से संपूर्ण पदार्थों वा उनके समूहों का बोध होता है उसे **जातिवाचक** संज्ञा कहते हैं, जैसे, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, सभा, इत्यादि ।

हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरि और आबू एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि वे अलग अलग व्यक्ति हैं, परंतु वे एक मुख्य धर्म में समान हैं, अर्थात् वे धरती के बहुत ऊँचे भाग हैं । इस साधर्म्य के कारण उनकी गिनती एक ही जाति में होती है और इस जाति का नाम 'पहाड़' है । हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरि, आबू और इस जाति के दूसरे सब व्यक्तियों के लिये 'पहाड़' नाम आता है । 'हिमालय' कहने से (इस नाम के) केवल एक ही पहाड़ का बोध होता है, पर 'पहाड़' कहने से हिमालय, नीलगिरि, विंध्याचल, आबू और इस जाति के दूसरे सब पदार्थ सूचित होते हैं । इसलिए 'पहाड़' जातिवाचक संज्ञा है । इसी प्रकार गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इस जाति के दूसरे सब व्यक्तियों के लिए 'नदी' नाम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 'नदी' शब्द जातिवाचक संज्ञा है । लोगों के समूह का नाम 'सभा' है । ऐसे समूह कई हैं; जैसे, 'नागरी-प्रचारिणी', 'कान्यकुब्ज', 'महाजन', 'हितकारिणी', इत्यादि । इन सब समूहों को सूचित करने के लिए 'सभा' शब्द का प्रयोग होता है, इसलिये 'सभा' जातिवाचक संज्ञा है ।

जातिवाचक संज्ञाएँ अर्थवान् होती हैं । यदि हम किसी स्थान का नाम 'प्रयाग' के बदले 'इलाहाबाद' रख दे तो लोग उसे इसी नाम से पुकारने लेंगे, परंतु यदि हम 'शहर' को 'नदी' कहें तो

कोई हमारी बात न समझेगा। 'प्रयाग' और 'इलाहाबाद' में केवल नाम का अंतर है, परंतु 'शहर' और 'नदी' शब्दों में अर्थ का अंतर है। 'प्रयाग' शब्द से उसके वाच्य पदार्थ का कोई भी धर्म सूचित नहीं होता; परंतु 'शहर' शब्द से हमारे मन में बड़े बड़े घरों के समूह की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 'सभा' शब्द सुनने से हमें उसका अर्थ-ज्ञान (मनुष्यों के समूह का बोध) सहज ही हो जाता है; परंतु 'हितकारिणी' कहने से वैसा कोई धर्म प्रकट नहीं होता।

[सूचना—यद्यपि पहचान के सुभीते के लिए मनुष्यों और स्थानों को विशेष नाम देना आवश्यक है, तथापि इस बात की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक प्राणी या पदार्थ को कोई विशेष नाम दिया जाय। स्याही से लिखने के काम में आनेवाले प्रत्येक पदार्थ को हम 'कलम' शब्द से सूचित कर सकते हैं; इसलिए 'कलम' नाम के प्रत्येक अकेले पदार्थ को अलग अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रत्येक अकेले पदार्थ (जैसे, प्रत्येक सुई) का एक अलग विशेष नाम रक्खा जाय तो भाषा बहुत ही जटिल हो जायगी। इसलिए अधिकांश पदार्थों का बोध जातिवाचक संज्ञाओं से हो जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल भूल या गड़बड़ मिटाने के विचार से किया जाता है।]

१०३—जिस संज्ञा से पदार्थ में पाये जानेवाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, इत्यादि।

प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई धर्म होता ही है। पानी में शीतलता, आग में उष्णता, सोने में भारीपन, मनुष्य में विवेक और पशु में अविवेक रहता है। जब हम कहते हैं कि अमुक पदार्थ पानी है तब हमारे मन में उसके एक वा अधिक धर्मों की भावना रहती है और इन्हीं धर्मों की भावना से हम उस पदार्थ को पानी के बदले कोई दूसरा पदार्थ नहीं समझते। पदार्थ मानो कुछ विशेष धर्मों के मेल से बनी हुई एक मूर्ति है। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ

के सभी धर्मों का ज्ञान होना कठिन है, परंतु जिस पदार्थ को वह जानता है उसके एक न एक धर्म का परिचय उसे अवश्य रहता है। कोई कोई धर्म एक से अधिक पदार्थों में भी पाये जाते हैं, जैसे, लंबाई, चौड़ाई, मुटाई, वजन, आकार, इत्यादि।

य पदार्थ का धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता; अर्थात् हम यह नहीं कह सकते कि यह घोड़ा है और वह उसका बल या रूप है। तो भी हम अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा परस्पर संबंध रखने वाली भावनाओं को अलग कर सकते हैं। हम घोड़े के और और धर्मों की भावना न करके केवल उसके बल की भावना मन में ला सकते हैं और आवश्यकता होने पर इस भावना को किसी दूसरे प्राणी (जैसे हाथी) के बल की भावना के साथ मिला सकते हैं।

जिस प्रकार जातिवाचक संज्ञाएँ अर्थवान् होती हैं उसी प्रकार भाववाचक संज्ञाएँ भी अर्थवान् होती हैं, क्योंकि उनके समान इनसे भी धर्म का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान भाववाचक संज्ञा से भी एक ही भाव का बोध होता है।

‘धर्म’, ‘गुण’ और ‘भाव’ प्रायः पर्यायवाचक शब्द हैं। ‘भाव’ शब्द का उपयोग (व्याकरण में) नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(क) धर्म वा गुण के अर्थ में, जैसे, ठढाई, शीतलता, धीरज, मिठास, बल, बुद्धि, क्रोध, इत्यादि।

(ख) अवस्था—नींद, रोग, उजेला, अधेरा, पीड़ा, दरिद्रता, सफाई, इत्यादि।

(ग) व्यापार—चढ़ाई, वहाव, दान, भजन, बोलचाल, दौड़, पढ़ना, इत्यादि।

१०४—भाववाचक संज्ञाएँ बहुधा तीन प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं—

(क) जातिवाचक संज्ञा से—जैसे, बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, दासत्व, पंडिताई, राज्य, मौन, इत्यादि ।

(ख) विशेषण से—जैसे, गरमी, सरदी, कठोरता, मिठास, बड़प्पन, चतुराई, धैर्य, इत्यादि ।

(ग) क्रिया से—जैसे, घबराहट, सजावट, चढ़ाई, बहाव, मार, दौड़, चलन, इत्यादि ।

१०५—जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए अथवा किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित करने के लिए किया जाता है तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है; जैसे, “कहु रावण, रावण-जग केते” । (राम०) । “राम तीन हैं” । “यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है” । “कलियुग के भीम” । इत्यादि ।

पहले उदाहरण में पहला ‘रावण’ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और दूसरा ‘रावण’ शब्द जातिवाचक संज्ञा है । तीसरे उदाहरण में ‘लक्ष्मी’ संज्ञा जातिवाचक है, क्योंकि उससे विष्णु की स्त्री का बोध नहीं होता, किंतु लक्ष्मी के समान एक गुणवती स्त्री का बोध होता है । इसी प्रकार ‘राम’ और ‘भीम’ भी जातिवाचक संज्ञाएँ हैं । “गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतंत्र हो गया था” । (सर०)—इस वाक्य में “गुप्तों” शब्द से अनेक व्यक्तियों का बोध होने पर भी वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के विशेष धर्म का बोध नहीं होता, किंतु कुछ व्यक्तियों के एक विशेष समूह का बोध होता है ।

१०६—कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के समान होता है, जैसे, पुरी=जगन्नाथ, देवी=दुर्गा, दाऊ=बलदेव, संवत्=विक्रमी संवत्, इत्यादि । इसी वर्ग में वे शब्द शामिल हैं जो मुख्य नामों के बदले उपनाम के रूप में आते

हैं, जैसे, सितारे-हिंद = राजा शिवप्रसाद, भारतेन्दु = भाव हिन्द, गुसाईजी = गोस्वामी तुलसीदास, दक्षिण = दक्षिणी हिंदुस्थान, इत्यादि ।

बहुतसी योगरूढ़ संज्ञाएँ, जैसे, गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल, इत्यादि मूल में जातिवाचक संज्ञाएँ हैं, परंतु अब इनका प्रयोग जातिवाचक अर्थ में प्रायः नहीं होता ।

१०७—कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, जैसे, “उसके आगे सब रूपवती स्त्रियाँ निरादर हैं” । (शकु०) । इस वाक्य में, “निरादर” शब्द से “निरादर-योग्य स्त्री” का बोध होता है । “ये सब कैसे अच्छे पहिरावे हैं” । (सर०) । यहाँ “पहिरावे” का अर्थ बहुत करके “पहिनाने के वस्त्र” है ।

संज्ञा के स्थान में आनेवाले शब्द ।

१०८—सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान में होता है, जैसे, मैं (सारथी) रास खींचता हूँ । (शकु०) यह (शकुंतला) वन में पड़ी मिली थी । (शकु०) ।

१०९—विशेषण कभी कभी संज्ञा के स्थान में आता है, जैसे, “इसके बड़ों का यह संकल्प है” । (शकु०) । “छोटे बड़े न हैं सकें” । (सत०) ।

११०—कोई कोई क्रियाविशेषण संज्ञाओं के समान उपयोग में आते हैं, जैसे, “जिसका भीतर-बाहर एकसा हो” । (सत्य०) । “हाँ में हाँ मिलाना” । “यहाँ की भूमि अच्छी है” । (भाषा०) ।

१११—कभी कभी विस्मयादि-बोधक शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है, जैसे, “वहाँ हाय-हाय मची है” । “उनकी बड़ी वाह-वाह हुई ।”

११२—कोई भी शब्द वा अक्षर केवल उसी शब्द वा अक्षर के

अर्थ में संज्ञा के समान उपयोग में आ सकता है; जैसे “मैं” सर्वनाम है। तुम्हारे लेख में कई बार “फिर” आया है। “का” में “आ” की मात्रा मिली है। “क्ष” संयुक्त अक्षर है।

[टी०—संज्ञा के भेदों के विषय में हिंदी-वैयाकरणों का एकमत नहीं है। अधिकांश हिंदी-व्याकरणों में संज्ञा के पाँच भेद माने गये हैं—जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और सर्वनाम। ये भेद कुछ तो संस्कृत के व्याकरण के अनुसार और कुछ अंगरेजी के व्याकरण के अनुसार हैं, तथा कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार हैं। संस्कृत के ‘प्रातिपदिक’ नामक शब्द-भेद में संज्ञा, गुणवाचक (विशेषण) और सर्वनाम का समावेश होता है; क्योंकि उस भाषा में इन तीनों शब्द-भेदों का रूपांतर प्रायः एक ही से प्रत्ययों के प्रयोग द्वारा होता है। कदाचित् इसी आधार पर हिंदी-वैयाकरण तीनों शब्द-भेदों को संज्ञा मानते हैं। दूसरा कारण यह जान पड़ता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों ही से वस्तुओं का प्रत्यक्ष वा परोक्ष बोध होता है। सर्वनाम और विशेषण को संज्ञा के अंतर्गत मानना चाहिये अथवा उससे भिन्न अलग अलग वर्गों में रखना चाहिये, इस विषय का विवेचन आगे चलकर सर्वनाम और विशेषण-संबंधी अध्यायों में किया जायगा। यहाँ केवल संज्ञा के उप-भेदों पर विचार किया जाता है।

संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक उपभेद संस्कृत व्याकरण में नहीं हैं। ये उपभेद अंगरेजी-व्याकरण में, दो अलग अलग आधारों पर, अर्थ के अनुसार किये गये हैं। पहले आधार में इस बात का विचार किया गया है कि संपूर्ण संज्ञाओं से या तो वस्तुओं का बोध होता है या धर्मों का, और इस दृष्टि से संज्ञाओं के दो भेद माने गये हैं—(१) पदार्थवाचक, (२) भाववाचक। दूसरे आधार में केवल पदार्थवाचक संज्ञाओं के अर्थ का विचार किया गया है कि उनसे या तो व्यक्ति (अकेले पदार्थ) का बोध होता है या जाति (अनेक पदार्थों) का, और इस दृष्टि में पदार्थवाचक संज्ञाओं के दो भेद किये गये हैं—(१) व्यक्तिवाचक, (२) जातिवाचक। दोनों आधारों को मिलाकर संज्ञा के तीन भेद होते हैं—(१) व्यक्तिवाचक, (२) जातिवाचक और (३) भाववाचक। (सर्वनाम और विशेषण को छोड़कर) संज्ञाओं के ये तीन भेद हिंदी के कई व्याकरणों में पाये जाते हैं; परंतु उनमें इन वर्गीकरण के किये भी आधार

का उल्लेख नहीं मिलता। हिंदी के सब से पुराने (आदम साहब के लिखे हुए एक छोटे से) व्याकरण में संज्ञा का एक और भेद 'क्रियावाचक' के नाम से दिया गया है। हमने क्रियावाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के लक्षण में क्रियावाचक संज्ञा भी आ जाती है। भाषा-भास्कर में यह संज्ञा "क्रिया का साधारण रूप" वा "क्रियार्थक संज्ञा" कही गई है। उसमें यह भी लिखा है कि यह धातु से बनती है। (-अंक १८८-अ.)। यह भेद व्युत्पत्ति के अनुसार है और यदि इस प्रकार एक ही समय एक से अधिक आधारों पर वर्गीकरण किया जाय तो कई संकीर्ण विभाग हो जायेंगे।

यहाँ अब मुख्य विचार यह है कि जब संज्ञा के ऊपर कहे हुए तीन भेद संस्कृत में नहीं हैं तब उन्हें हिंदी में मानने की क्या आवश्यकता है? यथार्थ में अर्थ के अनुसार शब्दों के भेद करना न्यायशास्त्र का काम है, इसलिए व्याकरण में इन भेदों को केवल उनकी आवश्यकता होने पर मानना चाहिये। हिंदी में इन भेदों का काम रूपांतर और व्युत्पत्ति में पड़ता है; इसलिए ये भेद संस्कृत में न होने पर भी हिंदी में आवश्यक हैं। संस्कृत में भी परोक्ष रूप से भाववाचक संज्ञा मानी गई है। केशवराम-भट्ट-कृत "हिंदी-व्याकरण" में संज्ञा के भेदों में (संस्कृत की चाल पर) भाववाचक संज्ञा का नाम नहीं है, पर लिंग-निर्णय में यह नाम आया है। जब व्याकरण में संज्ञा के इस भेद का काम पड़ता है तब इसको स्वीकार करने में क्या हानि है?

किसी किसी हिंदी-व्याकरण में संज्ञा के समुदायवाचक और द्रव्यवाचक नाम के और दो भेद माने गये हैं, पर अँगरेजी के समान हिंदी में इनकी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके सिवा समुदायवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है।]

❖ जो पदार्थ केवल ढेर के रूप में तौला या नापा जाता है उसे द्रव्य कहते हैं; जैसे अनाज, घी, शक्कर, सोना, इत्यादि।

दूसरा अध्याय ।

सर्वनाम ।

११३—सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले उपयोग में आता है; मैं (बोलने-वाला), तू (सुननेवाला), यह (निकटवर्ती वस्तु), वह (दूरवर्ती वस्तु), इत्यादि ।

[टी०—हिंदी के प्रायः सभी वैयाकरण सर्वनाम को संज्ञा का एक भेद मानते हैं । संस्कृत में “सर्व” (प्रातिपदिक) के समान जिन नामों (संज्ञाओं) का रूपांतर होता है उनका एक अलग वर्ग मानकर उसका नाम ‘सर्वनाम’ रक्खा गया है । ‘सर्वनाम’ शब्द एक और अर्थ में भी आता है । वह यह है कि सर्व (सब) नामों (संज्ञाओं) के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं । हिंदी में ‘सर्वनाम’ शब्द से यही (पिछला) अर्थ लिया जाता है और इसीके अनुसार वैयाकरण सर्वनाम को संज्ञा का एक भेद मानते हैं । यथार्थ में सर्वनाम एक प्रकार का नाम अर्थात् संज्ञा ही है । जिस प्रकार संज्ञाओं के उपभेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है उसी प्रकार सर्वनाम भी एक उपभेद हो सकता है । पर सर्वनाम में एक विशेष विलक्षणता है जो संज्ञा में नहीं पाई जाती । संज्ञा से सदा उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह (संज्ञा) नाम है; परंतु सर्वनाम से, पूर्वापर संबंध के अनुसार, किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है । ‘लड़का’ शब्द से लड़के ही का बोध होता है, घर, सड़क, आदि का बोध नहीं हो सकता, परंतु ‘वह’ कहने से पूर्वापर संबंध के अनुसार, लड़का, घर, सड़क, हाथी, घोड़ा, आदि किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है । “मैं” बोलनेवाले के नाम के बदले आता है; इसलिए जब बोलनेवाला मोहन है तब “मैं” का अर्थ मोहन है; परंतु जब बोलनेवाला खरहा है (जैसा बहुधा कथा-कहानियों में होता है) तब “मैं” का अर्थ खरहा होता है । सर्वनाम की इसी विलक्षणता के कारण उसे हिंदी में एक अलग शब्द-भेद मानते हैं । “भाषातत्त्वदीपिका” में भी सर्वनाम संज्ञा से भिन्न माना गया है; परंतु उसमें सर्वनाम का जो लक्षण दिया गया है वह निर्दोष नहीं है । “नाम को एक बार कहकर फिर उसकी जगह जो शब्द आता है उसे

सर्वनाम कहते हैं ।” यह लक्षण “मैं”, “तू”, “कौन” आदि सर्वनामों में घटित नहीं होता; इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष है, और कहीं कहीं यह मज्ञाओं में भी घटित हो सकता है; इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष भी है । एक ही संज्ञा का उपयोग बार बार करने से भाषा की दरिद्रता सूचित होती है, इसलिए एक संज्ञा के बदले उसी अर्थ की दूसरी संज्ञा का उपयोग करने की चाल है । यह बात छंद के विचार से कविता में बहुधा होती है, जैसे ‘मनुष्य’ के बदले ‘मनुज’, ‘मानव’, ‘नर’ आदि शब्द लिखे जाते हैं । सर्वनाम के पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार इन सब पर्यायवाची शब्दों को भी सर्वनाम कहना पड़ेगा । यद्यपि सर्वनाम के कारण संज्ञा को बार बार नहीं दुहराना पड़ता, तथापि सर्वनाम का यह उपयोग उसका असाधारण धर्म नहीं है ।

भाषाचन्द्रोदय में “सर्वनाम” के लिए “सज्ञाप्रतिनिधि” शब्द का उपयोग किया गया है और सज्ञाप्रतिनिधि के कई भेदों में एक का नाम “सर्वनाम” रखा गया है । सर्वनाम के भेदों की मीमांसा इस अध्याय के अंत में की जायगी, परंतु “सज्ञाप्रतिनिधि” शब्द के विषय में केवल यही कहा जा सकता है कि हिंदी में “सर्वनाम” शब्द इतना रूढ़ हो गया है कि उसे बदलने से कोई लाभ नहीं है ।]

११४—हिंदी में सब मिलाकर ११ सर्वनाम हैं—मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या ।

११५—प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के छ भेद हैं—

(१) पुरुषवाचक—मैं, तू, आप (आदरसूचक) ।

(२) निजवाचक—आप ।

(३) निश्चयवाचक—यह, वह, सो ।

(४) संबंधवाचक—जो ।

(५) प्रश्नवाचक—कौन, क्या ।

(६) अनिश्चयवाचक—कोई, कुछ ।

११६—वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि के तीन भाग किये जाते हैं—पहला,—स्वयं वक्ता वा लेखक, दूसरा,—श्रोता किंवा पाठक, और तीसरा,—कथाविषय अर्थात् वक्ता और श्रोता को

छोड़कर और सब । सृष्टि के इन तीनों रूपों को व्याकरण में पुरुष कहते हैं और ये क्रमशः उत्तम, मध्यम और अन्यपुरुष कहाते हैं । इन तीन पुरुषों में उत्तम और मध्यमपुरुष ही प्रधान हैं, क्योंकि इनका अर्थ निश्चित रहता है । अन्यपुरुष का अर्थ अनिश्चित होने के कारण उसमें बाकी की सृष्टि के अर्थ का समावेश होता है । उत्तम-पुरुष “मै” और मध्यमपुरुष “तू” को छोड़कर शेष सर्वनाम और सब संज्ञाएँ अन्यपुरुष में आती हैं । इस अनिश्चित वस्तु-समूह को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए ‘वह’ सर्वनाम को अन्यपुरुष के उदाहरण के लिए ले लेते हैं ।

सर्वनामों के तीनों पुरुषों के उदाहरण ये हैं—उत्तमपुरुष—मै, मध्यमपुरुष—तू, आप (आदरसूचक), अन्यपुरुष—यह, वह, आप (आदरसूचक), सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ । (सब संज्ञाएँ अन्यपुरुष हैं ।) सर्व-पुरुष-वाचक—आप (निजवाचक) ।

[सूचना—(१) भाषा-भास्कर और दूसरे हिंदी व्याकरणों में “आप” शब्द “आदर-सूचक” नाम से एक अलग वर्ग में गिना गया है ; परंतु व्युत्पत्ति के अनुसार, सं०—आत्मन्, प्रा०—अप्य) “आप”, यथार्थ में निजवाचक है, और आदर-सूचकत्व उसका एक विशेष प्रयोग है । आदरसूचक “आप” मध्यम और अन्यपुरुष सर्वनामों के लिए आता है । इसलिए उसकी गिनती पुरुषवाचक सर्वनामों में ही होनी चाहिए । निजवाचक “आप” अलग अलग स्थानों में अलग अलग पुरुषों के बदले आ सकता है, इसलिए ऊपर सर्वनामों के वर्गीकरण में यही निजवाचक “आप” “सर्व-पुरुष-वाचक” कहा गया है ।

(२) “मै”, “तू” और “आप” (म० पु०) को छोड़कर सर्वनामों के जो और भेद हैं वे सब अन्यपुरुष सर्वनाम के ही भेद हैं । मै, तू और आप (म० पु०) सर्वनामों के दूसरे भेदों में नहीं आते, इसलिए येही तीन सर्वनाम विशेषकर पुरुषवाचक हैं । वैसे तो प्रायः सभी सर्वनाम पुरुषवाचक कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनसे पुरुषों का बोध होता है ; परंतु दूसरे सर्वनामों में उत्तम और मध्यमपुरुष नहीं होते, इसलिए उत्तम और मध्यम पुरुष ही प्रधान पुरुष वाचक हैं और बाकी सब सर्वनाम अप्रधान पुरुषवाचक हैं । सर्वनामों के अर्थ

और प्रयोग का विचार करने में कहीं कहीं उनके रूपांतरों का (जो दूसरे प्रकरण का विषय है) उल्लेख करना आवश्यक होगा]]

११७—**मैं**—उ० पु० (एकवचन) ।

(अ) जब वक्ता या लेखक केवल अपनेही संबंध में कुछ विधान करता है तब वह इस सर्वनाम का प्रयोग करता है । जैसे भाषा-बद्ध करव **मैं** सोई । (राम०) । जो **मैं** ही कृतकार्य नहीं तो फिर और कौन हो सकता है ? (गुटका) । “यह थैली **मुझे** मिली है ।”

(आ) अपने से बड़े लोगों के साथ बोलने में अथवा देवता से प्रार्थना करने में ; जैसे, “सारथी—अब **मैंने** भी तपोवन के चिन्ह देखे” । (शकु०) । “ह०—पित, **मैं** सावधान हूँ ।” (सत्य०) ।

(इ) स्त्री अपने लिए बहुधा “**मैं**” का ही प्रयोग करती है, जैसे, शकुंतला—**मैं** सब्धी क्या कहूँ । (शकु०) । रा०—अरी ! आज **मैंने** ऐसे बुरे बुरे सपने देखे हैं कि जब से सोके उठी हूँ कलेजा काँप रहा है । (सत्य०) । (अं०-११८ उ) ।

११८—**हम**—उ० पु० (बहुवचन) ।

इस बहुवचन का अर्थ संज्ञा के बहुवचन से भिन्न है । ‘लड़के’ शब्द एक से अधिक लड़कों का सूचक है, परंतु ‘हम’ शब्द एक से अधिक मैं (बोलनेवालों) का सूचक नहीं है, क्योंकि एक-साथ गाने या प्रार्थना करने के सिवा (अथवा सबकी ओर से लिखे हुए लेख में हस्ताक्षर करने के सिवा) एक से अधिक लोग मिलकर प्रायः कभी नहीं बोल सकते । ऐसी अवस्था में “हम” का ठीक अर्थ यही है कि वक्ता अपने साथियों की ओर से प्रतिनिधि होकर अपने तथा अपने साथियों के विचार एक-साथ प्रकट करता है ।

(अ) संपादक और ग्रंथकार लोग अपने लिए, बहुधा उत्तमपुरुष

बहुवचन का प्रयोग करते हैं; जैसे, “हमने एकही बात को दो दो तीन तीन तरह से लिखा है।” (स्वा०) “हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं।” (इति०)।

(आ) बड़े बड़े अधिकारी और राजा-महाराजा; जैसे, “इसलिए अब हम इशतिहार देते हैं।” (इति०)। “ना०—यही तो हम भी कहते हैं।” (सत्य०)। “दुष्यंत—तुम्हारे देखने ही से हमारा सत्कार हो गया।” (शकु०)।

(इ) अपने कुटुंब, देश अथवा मनुष्य-जाति के संबंध में; जैसे, “हम योग पाकर भी उसे उपयोग में लाते नहीं।” (भारत०)। “हम बनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे थे।” (शकु०)। “हवा के बिना हम पल भर भी नहीं जी सकते।”

(ई) कभी कभी अभिमान अथवा क्रोध में; जैसे, “वि०—हम आधी दक्षिणा लेके क्या करे।” (सत्य०)। “माढव्य—इस सृगया-शील राजा की मित्रता से हम तो बड़े दुखी हैं।” (शकु०)।

[सूचना—हिंदी में “मैं” और “हम” के प्रयोग का बहुतसा अंतर भाषुनिक है। देहाती लोग बहुधा ‘हम’ ही बोलते हैं, ‘मैं’ नहीं बोलते। प्रेमसागर और रामचरितमानस में ‘हम’ के सब प्रयोग नहीं मिलते। अंगरेजी में “मैं” के बदले ‘हम’ का उपयोग करना भूल समझा जाता है; परंतु हिंदी में “मैं” के बदले “हम” बहुधा आता है।

“मैं” और “हम” के प्रयोग में इतनी अस्थिरता है कि, एक बार जिसके लिए “मैं” आता है, उसीके लिए उसी अर्थ में फिर “हम” का उपयोग होता है। जैसे, “ना०—राम राम! भला, आपके आने से हम क्यों जायँगे? मैं तो जाने ही को था कि इतने में आप आ गये।” (सत्य०)। “दुष्यंत—अच्छा, हमारा सदेसा यथार्थ भुंगता दीजो। मैं तपस्वियों की रक्षा को जाता हूँ।” (शकु०)।—यह न होना चाहिये।]

(उ) कभी कभी एकही वाक्य में “मैं” और “हम” एकही पुरुष

के लिए क्रमशः व्यक्ति और प्रतिनिधि के अर्थ में आते हैं; जैसे, “कुंभलिक—**मुझे** क्या दोष है, यह तो **हमारा** कुल-धर्म है।” (शकु०)। “**मैं** चाहता हूँ कि आगे को ऐसी सूरत न हो और **हम** सब एक-चित्त होकर रहें।” (परी०)।

(ऊ) स्त्री अपने ही लिए ‘हम’ का उपयोग बहुत कम करती है। (अं-११७ इ)। स्त्रीलिंग “हम” के साथ कभी कभी पुल्लिंग क्रिया आती है, जैसे, “गौतमी—लो अब निधड़क बात-चीत करो, **हम** जाते हैं।” (शकु०)। ‘रानी—महाराज, अब **हम** महल में जाते हैं।’ (कर्पूर०)।

(ऋ) साधु-संत अपने लिए ‘मैं’ वा ‘हम’ का प्रयोग न करके बहुधा “अपने राम” बोलते हैं; जैसे—अब अपने राम जानेवाले हैं।

(ॠ) ‘हम’ से बहुत्व का बोध कराने के लिए उसके साथ बहुधा ‘लोग’ शब्द लगा देते हैं, जैसे, ह०—आर्य, **हम** लोग तो क्षत्रिय हैं, **हम** दो बात कहाँ से जाने। (सत्य०)।

११६—**तू**-मध्यमपुरुष (एकवचन)। (ग्राम्य-तै)।

“**तू**” शब्द से निरादर वा हलकापन प्रकट होता है, इसलिए हिंदी में बहुधा एक व्यक्ति के लिए भी “तुम” का प्रयोग करते हैं।

“**तू**” का प्रयोग प्रायः नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(अ) देवता के लिए, जैसे, “देव, **तू** दयालु, दीन हौं, **तू** दानि, हौं भिखारी।” (विनय)। दीनबंधु, (तू) मुझ डूबते हुए को बचा। (गुटका०)।

(आ) छोटे लड़के अथवा चले के लिए (प्यार में), जैसे,—एक तपस्विनी—अरे हठीले बालक, **तू** इस वन के पशुओं को क्यों सताता है ?” (शकु०)। “उ०—तो चल, आगे आगे भीड़ हटाता चल।” (सत्य०)।

(इ) परम मित्र के लिए, जैसे, “अनसूया—सखी **तू** क्या कहती

है ?” (शकु०) । “दुष्यंत—सखा, तुमसे भी तो माता पुत्र कहकर बोली हैं” । (तथा) ।

[सूचना—छोटी अवस्था के भाई-बहिन आपस में “तू” का प्रयोग करते हैं । कहीं कहीं छोटे लड़के प्यार में मां से “तू” कहते हैं ।]

(ई) अवस्था और अधिकार में अपने से छोटे के लिए (परिचय में) ;

जैसे, “रानी-मालती, यह रक्षा-बंधन तू सम्राज्यके अपने पास रख ।” (सत्य०) । “दुष्यंत—(द्वारपाल से) पर्वतायन,

तू अपने काम में असावधानी मत करियो ।” (शकु०)

(उ) तिरस्कार अथवा क्रोध में किसीसे; जैसे, “जरासंध श्रीकृष्ण-चंद्र से अति अभिमान कर कहने लगा, अरे—तू मेरे सौही भाग जा, मैं तुम्हें क्या मारूँ ।” (प्रेम०) । वि०—“बोल, अभी तैने मुझे पहचाना कि नहीं !” (सत्य०) ।

१२०—तुम—मध्यमपुरुष (बहुवचन) ।

यद्यपि ‘हम’ के समान ‘तुम’ बहुवचन है, तथापि शिष्टाचार के अनुरोध से इसका प्रयोग एक ही मनुष्य से बोलने में होता है । बहुत्व के लिए ‘तुम’ के साथ बहुधा ‘लोग’ शब्द लगा देते हैं; जैसे;

“मित्र, तुम बड़े निठुर हो ।” (परी०) । “तुम लोग अभी तक कहाँ थे ?”

(अ) तिरस्कार और क्रोध को छोड़कर शेष अर्थों में “तू” के बदले बहुधा “तुम” का उपयोग होता है, जैसे, “दुष्यंत—हे रैवतक,

तुम सेनापति को बुलाओ ।” (शकु०) । “आशुतोष तुम अ-

ठर दानी ।” (राम०) । “उ०—पुत्री, कहो तुम कौन कौन सेवा करोगी ।” (सत्य०) ।

(आ) ‘हम’ के साथ ‘तू’ के बदले ‘तुम’ आता है, जैसे, “दोनों प्यादे—तो तू हमारा मित्र है । हम तुम साथ ही साथ हाट को चलेंगे ।” (शकु०) ।

(इ) आदर के लिए 'तुम' के बदले 'आप' आता है। (अ०-१२३)
१२१—वह—अन्यपुरुष (एकवचन) ।

(यह, जो, कोई, कौन, इत्यादि सब सर्वनाम और सब संज्ञाएँ अन्यपुरुष हैं। यहाँ अन्यपुरुष के उदाहरण के लिए केवल 'वह' लिया गया है।)

हिंदी में आदर के लिए बहुधा बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। आदर का विचार छोड़कर 'वह' का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(अ) किसी एक प्राणी, पदार्थ वा धर्म के विषय में बोलने के लिए, जैसे, "ना०—निस्संदेह हरिश्चंद्र महाशय हैं। उसके आशय बहुत उदार हैं।" (सत्य०) । "जैसी दुर्दशा उसकी हुई वह सब को विदित है।" (गुटका०) ।

(आ) बड़े दर्जे के आदमी के विषय में तिरस्कार दिखाने के लिए, जैसे, "वह (श्रीकृष्ण) तो गँवार ग्वाल है।" (प्रेम०) । "इ०—राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग निकला था सो उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की।" (सत्य०) ।

(इ) आदर और बहुत्व के लिए (अ०-१२२) ।

१२२—वे—अन्यपुरुष (बहुवचन) ।

कोई कोई इसे "वह" लिखते हैं। कवायद-उर्दू में इसका रूप "वे" लिखा है जिससे यह अनुमान नहीं होता कि इसका प्रयोग उर्दू की नकल है। पुस्तकों में भी बहुधा "वे" पाया जाता है। इस लिए बहुवचन का शुद्ध रूप "वे" है, "वह" नहीं।

(अ) एक से अधिक प्राणियों, पदार्थों वा धर्मों के विषय में बोलने के लिए "वे" (वा "वह") आता है; जैसे, "लड़की तो रघु-वंशियों के भी होती है; पर वे जिलाते कदापि नहीं।" (गुटका०) । "ऐसी बातें वे हैं।" (स्वा०) । "वह सौदागर

की सब दूकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं ।” (परी०) ।
 (आ) एक ही व्यक्ति के विषय में आदर प्रकट करने के लिए; जैसे,
 “वे (कालिदास) असामान्य वैयाकरण थे ।” (-रघु०) ।
 “क्या अच्छा होता जो वह इस काम को कर जाते ।” (रत्ना०) ।
 “जो बातें मुनि के पीछे हुईं सो उनसे किसने कह दी ?”
 (शकु०) ।

[सूचना—ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति आदर प्रकट करने के संबंध में हिंदी में बड़ी गड़बड़ है । श्रीधरभाषा-कोश में कई कवियों के संक्षिप्त चरित दिये गये हैं । उनमें कबीर के लिए एकवचन का और शेष के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है । राजा शिवप्रसाद ने इतिहास-तिमिरनाशक में राम, शंकराचार्य और टॉड साहब के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है और बुद्ध, अंकवर, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के लिए एकवचन लिखा है । इन उदाहरणों से कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता । तथापि यह बात जान पड़ती है कि आदर के लिए पात्र की जाति, गुण, पद और शील का विचार अवश्य किया जाता है । ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति आजकल पहले की अपेक्षा अधिक आदर दिखाया जाता है; और यह आदर-बुद्धि विदेशी ऐतिहासिक पुरुषों के लिए भी कई अंशों में पाई जाती है । आदर का प्रश्न छोड़कर, मृत ऐतिहासिक पुरुषों के लिए एकवचन ही का प्रयोग करना चाहिये ।]

११३—आप (‘तुम’ वा ‘वे’ के बदले)—मध्यम वा अन्य-पुरुष (बहुवचन) ।

यह पुरुषवाचक “आप” प्रयोग में निजवाचक “आप” (अं०—१२५) से भिन्न है । इसका प्रयोग मध्यम और अन्यपुरुष बहुवचन में आदर के लिए होता है* । प्राचीन कविता में आदरसूचक “आप” का प्रयोग बहुधा नहीं पाया जाता ।

(अ) अपने से बड़े दरजेवाले मनुष्य के लिए “तुम” के बदले “आप” का प्रयोग शिष्ट और आवश्यक समझा जाता है, जैसे, “स०—

* संस्कृत में आदर-सूचक “आप” के अर्थ में ‘भवान्’ शब्द आता है; पर उसका प्रयोग केवल अन्यपुरुष एकवचन में होता है ।

भला **आपने** इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है ?” (सत्य०) । “तपस्वी—हे पुरुकुलदीपक; **आपको** यही उचित है ।” (शकु०) ।

(आ) बराबरवाले और अपने से कुछ छोटे दर्जे के मनुष्य के लिए “तुम” के बदले बहुधा “आप” कहने की प्रथा है; जैसे, “इं०—भला **आप** उदार वा महाराज किसे कहते हैं ?” (सत्य०) । “जब **आप** पूरी बात ही न सुनें तो मैं क्या जबाब दूँ” । (परी०) ।

(इ) आदर के साथ बहुत्व के बोध के लिए “आप” के साथ बहुधा ‘लोग’ लगा देते हैं, जैसे “ह०—**आप लोग** मेरे सिर-आँखों पर हैं ।” (सत्य०) । “इस विषय मे **आप लोगों** की क्या राय है ?”

(ई) “आप” शब्द की अपेक्षा अधिक आदर सूचित करने के लिए बड़े पदाधिकारियों के प्रति श्रीमान्, महाराज, सरकार, हुजूर आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे, “सार०—मैं रास खींचता हूँ । **महाराज** उतर ले ।” (शकु०) । “मुझे **श्रीमान** के दर्शनों की लालसा थी सो आज पूरी हुई ।” “जो **हुजूर** की राय सो मेरी राय ।”

स्त्रियों के प्रति अतिशय आदर प्रदर्शित करने के लिए बहुधा “श्रीमती”, “देवी”, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे— “तब से श्रीमती के शिक्षा-क्रम में विघ्न पड़ने लगा ।” (हि० को०)

[सूचना—जहाँ “आप” का प्रयोग होना चाहिये वहाँ “तुम” या “हुजूर” कहना और जहाँ “तुम” कहना चाहिये वहाँ “आप” या “तू” कहना अनुचित है, क्योंकि इससे श्रोता का अपमान होता है ।]

एक ही प्रसंग में “आप” और “तुम”, “महाराज” और “आप” कहना असंगत है, जैसे, ‘जिस बात की चिंता महाराज को है सो कभी न हुई होगी, क्योंकि तपोवन के विघ्न तो केवल **आपके**

धनुष की टंकार ही से मिट जाते हैं ।” (शकु०) । “**आपने** बड़े प्यार से कहा कि, आ बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले। उसने तुम्हें विदेशी जान **तुम्हारे** हाथ से जल न पिया ।” (तथा-) ।

(७) आदर की पराकाष्ठा सूचित करने के लिए वक्ता थां लेखक अपने लिए दास, सेवक, फिदवी (कचहरी की भाषा में), कमतरनीन, (उर्दू), आदि शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करता है; जैसे, “सि०—कहिए यह **दास** आपके कौन काम आ सकता है ?” (मुद्रा०) । “हुजूर से **फिदवी** की यह अर्ज है ।”

(८) मध्यमपुरुष “आप” के साथ अन्यपुरुष बहुवचन क्रिया आती है; परंतु कहीं कहीं परिचय, बराबरी अथवा लघुता के विचार से मध्यमपुरुष बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग होता है; जैसे, “ह०—**आप** मोल **लोगे** ?” (सत्य०) । “ऐसे समय में **आप** साथ न **दोगे** तो और कौन देगा ?” (परी०) । “दो० ब्राह्मण—**आप** अगलों की रीति पर **चलते हो** ।” (शकु०) । यह प्रयोग शिष्ट नहीं है ।

(९) अन्यपुरुष में आदर के लिए “वे” के बदले कभी कभी “आप आता है । अन्यपुरुष “आप” के साथ क्रिया सदा अन्यपुरुष बहुवचन में रहती है । उदा०—“श्रीमान् राजा कीर्तिशाह बहादुर का देहांत हो गया । अभी आपकी उम्र केवल उंतालिस वर्ष की थी ।” (सर०) ।

१२४—अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे लिखे पाँच भेद हैं—

- (१) निजवाचक—आप ।
- (२) निश्चयवाचक—यह, वह, सो ।
- (३) अनिश्चयवाचक—कोई, कुछ ।
- (४) संबंधवाचक—जो ।
- (५) प्रश्नवाचक—कौन, क्या ।

१२५—आप (निजवाचक) ।

प्रयोग में निजवाचक “आप” पुरुषवाचक (आदरसूचक) “आप” से भिन्न है । पुरुषवाचक “आप” एक का वाचक होकर भी नित्य बहुवचन में आता है ; पर निजवाचक “आप” एकही रूप से दोनों वचनों में आता है । पुरुषवाचक “आप” केवल मध्यम और अन्यपुरुष में आता है, परंतु निजवाचक “आप” का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है । आदरसूचक “आप” वाक्य में अकेला आता है ; किंतु निजवाचक “आप” दूसरे सर्वनामों के संबंध से आता है । “आप” के दोनों प्रयोगों में रूपांतर का भी भेद है । (अ०—३२४) ।

निजवाचक “आप” का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है—

- (अ) किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के लिए, जैसे “मैं आप वहीं से आया हूँ ।” (परी०) । “बनते कभी हम आप योगी ।” । (भारत०) ।
- (आ) दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे,—“श्रीकृष्णजी ने ब्राह्मण को विदा किया और आप चलने का विचार करने लगे ।” (प्रेम०) । “वह अपनेको सुधार रहा है ।”
- (इ) अवधारण के अर्थ में “आप” के साथ कभी कभी “ही” जोड़ देते हैं, जैसे, “नटी—मैं तो आपही आती थी ।” (सत्य०) । “देत चाप आपहि चढ़ि गयऊ ।” (राम०) । “वह अपने पात्र के सपूर्ण गुण अपने ही में भरे हुए अनुमान करने लगता है ।” (सर०) ।
- (ई) कभी-कभी “आप” के साथ उसका रूप “अपना” जोड़ देते हैं, जैसे, “किसी दिन मैं न आप अपनेको भूल जाऊँ ।” (शकु०) । “क्या वह अपने आप भुका है ?” (तथा) “राजपूत वीर अपने आपको भूल गये ।”

- (उ) “आप” शब्द कभी कभी वाक्य में अकेला आता है और अन्य-पुरुष का बोधक होता है; जैसे “आप कुछ उपार्जन किया ही नहीं, जो था वह नाश हो गया।” (सत्य०)। “होम करने लगे मुनि भारी। आप रहे मख की रखवारी ॥” (राम०)।
- (ऊ) सर्व-साधारण के अर्थ में भी “आप” आता है; जैसे “आप भला तो जग भला।” (कहा०)। अपनेसे बड़े का आदर करना उचित है !”
- (ऋ) “आप” के बदले वा उसके साथ बहुधा “खुद” (उर्दू), “स्वयं” वा “स्वतः” (संस्कृत) का प्रयोग होता है। स्वयं स्वतः और खुद हिंदी में अव्यय हैं और इनका प्रयोग बहुधा क्रियाविशेषण के समान होता है। आदरसूचक ‘आप’ के साथ द्विरुक्ति के निवारण के लिए इनमें से किसी एक का प्रयोग करना आवश्यक है; जैसे, “आप खुद यह बात समझ सकते हैं।” “हम आज अपने आपको भी हैं स्वयं भूले हुए।” (भारत०)। “सुल्तान स्वतः वहाँ गये थे।” (हित०)। “हर आदमी खुद अपने ही को प्रचलित रीति-रस्मों का कारण बतलावे।” (स्वा०)।
- (ए) कभी कभी “आप” के साथ निज (विशेषण) संज्ञा के समान आता है; पर इसका प्रयोग केवल संबंध-कारक में होता है। जैसे, “हम तुम्हें एक अपने निज के काम से भेजा चाहते हैं।” (मुद्रा०)।
- (ऐ) “आप” शब्द का रूप “आपस”, “परस्पर” के अर्थ में आता है। इसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकरण-कारकों में होता है; जैसे, “एक दूसरे की राय आपस में नहीं मिलती।” (स्वा०)। आपस की फूट बुरी होती है।”
- (ओ) “आपही”, “अपने आप”, “आपसे आप” और “आपही

आप” का अर्थ “मन सं” वा “स्वभाव से” होता है और इनका प्रयोग क्रियाविशेषण-वाक्यांशो के समान होता है, जैसे, “ये मानवी यंत्र आपही आप घर बनाने लगे ।” (स्वा०) । “इं०—(आपही आप) नारदजी सारी पृथ्वी पर इधर उधर फिरा करते हैं ।” (सत्य०) । “मेरा दिल आपसे आप उमड़ा आता है ।” (परी०) ।

१२६—जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे **निश्चयवाचक** सर्वनाम कहते हैं । निश्चयवाचक सर्वनाम तीन हैं—यह, वह, सो ।

१२७—**यह**—एकवचन ।

इसका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है—

(अ) पास की किसी वस्तु के विषय में बोलने के लिए, जैसे, “यह किसका पराक्रमी बालक है ?” (शकु०) । “यह कोई नया नियम नहीं है ।” (स्वा०) ।

(आ) पहले कही हुई सज्ञा या सज्ञा-वाक्यांश के बदले; जैसे, “माधवीलता तो मेरी बहिन है, इसे क्यों न सींचती !” (शकु०) । “भला, सत्य धर्म पालना क्या हँसी खेल है ! यह आप ऐसे महात्माओं ही का काम है ।” (सत्य०) ।

(इ) पहले कहे हुए वाक्य के स्थान में; जैसे, “सिंह को मार मणि ले कोई जतु एक अति डरावनी औँड़ी गुफा में गया, यह हम सब अपनी आँखों देख आये ।” (प्रेम०) । “मुझको आपके कहने का कभी कुछ रंज नहीं होता । इसके सिवाय मुझे इस अवसर पर आपकी कुछ सेवा करनी चाहिये थी ।” (परी०) ।

(ई) पीछे आनेवाले वाक्य के स्थान में, जैसे, “उन्होंने अब यह चाहा कि अधिकारियों को प्रजा ही नियत किया करे ।”

(स्वा०) । “मुझे **इससे** बड़ा आनंद है कि भारतेंदु जी की सब से पहले छेड़ी हुई यह पुस्तक आज पूरी हो गई ।” (रत्ना०) ।

[सू०—ऊपर के दूसरे वाक्य में जो ‘यह’ शब्द आया है, वह यहाँ सर्वनाम नहीं, किंतु विशेषण है; क्योंकि वह ‘पुस्तक’ संज्ञा की विशेषता बताता है । सर्वनामों के विशेषणीभूत प्रयोगों का विचार आगे (तीसरे अध्याय में) किया जायगा ।]

(उ) कभी कभी संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश कहकर तुरंत ही उसके बदले निश्चय के अर्थ में “यह” का प्रयोग होता है, जैसे, “राम, **यह** व्यक्तिवाचक संज्ञा है ।” “अधिकार पाकर कष्ट देना, **यह** बड़ो को शोभा नहीं देता ।” (सत्य०) । “शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना, **यह** भी धर्म के विरुद्ध है ।” (इति०) ।

[सू०—इस प्रकार की रचना का प्रचार अब घट रहा है ।]

(ऊ) कभी कभी “यह” क्रियाविशेषण के समान आता है और तब उस का अर्थ “अभी” वा “अब” होता है जैसे, ‘लीजिये महाराज, **यह** मैं चला ।” (मुद्रा०) । “**यह** तो आप मुझको लज्जित करते हैं ।” (परी०) ।

(अ) आदर और बहुत्व के लिए, (अ०—१२८) ।

१२८—**ये**—बहुवचन ।

‘ये’ ‘यह’ का बहुवचन है । कोई कोई लेखक बहुवचन में भी ‘यह’ लिखते हैं । (अ०—१२२) । “ये” (और कभी कभी “यह”) का प्रयोग बहुत्व और आदर के लिए होता है, जैसे, “**यह** भी तो उसीका गुण गाते हैं ।” (सत्य०) । “**यह** तेरे तप के फल कदापि नहीं; **इनको** तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगाया है ।” (गुटका०) । “**ये** वेही हैं जिनसे इंद्र और वावन्-अवतार उत्पन्न हुए ।” (शकु०) । “**ये** हमारे यहाँ भेज दो ।” (परी०) ।

(अ) “ये” के बदले आदर के लिए ‘आप’ का प्रयोग केवल बोलने में होता है और इसके लिए आदर-पात्र की आर हाथ बढ़ाकर सकत करते हैं ।

१२६— वह (एकवचन), वे (बहुवचन) ।

हिंदी में कोई विशेष अन्यपुरुष सर्वनाम नहीं है । उसके बदले दूरवर्ती निश्चयवाचक “वह” आता है । इस सर्वनाम के प्रयोग अन्यपुरुष के विवेचन में बता दियं गये हैं । (अं०—१२१—१२२) । इससे दूर की वस्तु का बोध होता है ।

(अ) “यह” और “ये” तथा “वह” और “वे” के प्रयोग में बहुधा स्थिरता नहीं पाई जाती । एक बार आदर वा बहुत्व के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करके लेखक लोग फिर उसी अर्थ में उस शब्द का दूसरा रूप लाते हैं, जैसे, “यह टिड्डी-दल की तरह इतने दाग कहाँ से आये ? ये दाग वे दुर्वचन हैं जो तेरे मुख से निकला किये हैं । वह सब लाल लाल फल भरे दान से लगे हैं ।” (गुटका०) । “ये सब बातें हरिश्चंद्र में सहज हैं ।” (सत्य०) । “अरे ! यह कौन देवता बड़े प्रसन्न होकर श्मशान पर एकत्र हो रहे हैं ।” (सत्य०) ।

[सू०—हमारी समझ में पहला रूप केवल आदर के लिए और दूसरा रूप बहुत्व के लिए लाना ठीक होगा ।]

(आ) पहले कही हुई दो वस्तुओं में से पहली के लिए “वह” और पिछली के लिए “यह” आता है, जैसे, “महात्मा और दुरात्मा में इतना ही भेद है कि उनके मन, वचन और कर्म एक रहते हैं, इनके भिन्न भिन्न ।” (सत्य०) ।

कनक कनक तैं सौगुनी मादकता अधिकाय ।

वह खायें वौरात है यह पाये वौराय ॥—(सत०) ।

(इ) जिस वस्तु के संबंध में एक बार “यह” आता है उसीके

लिए कभी कभी लेखक लोग असावधानी से तुरंतही “वह” लाते हैं, जैसे, “भला, महाराज, जब यह ऐसे दानी हैं तो **उनकी** लक्ष्मी कैसे स्थिर है ?” (सत्य०) । “जब मैं इन पेड़ों के पास से आया था तब तो **उनमें** फल-फूल कुछ भी नहीं था ।” (गुटका०)

[सू०—शब्दों के प्रयोग में ऐसी अस्थिरता से आशय समझने में कठिनाई होती है, और यह प्रयोग दूषित भी है ।]

१३०—**सो**—(दोनों वचन) ।

यह सर्वनाम बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम “जो” के साथ आता है (अं०—१३४), और इसका अर्थ संज्ञा के वचन के अनुसार “वह” वा “वे” होता है, जैसे, जिस बात की चिंता महाराज को है **सो** (वह) कभी न हुई होगी ।” (शकु०) । “जिन पौधों को तू सींच चुकी है **सो** (वे) तो इसी ग्रीष्म ऋतु में फूलेंगे ।” (तथा) । “आप जो न करो **सो** थोड़ा है ।” (मुद्रा०) ।

(अ) “वह” वा “वे” के समान “सो” अलग वाक्य में नहीं आता और न उसका प्रयोग “जो” के पहले होता है, परंतु कविता में बहुधा इन नियमों का उल्लंघन हो जाता है; जैसे,
“**सो** ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाय ।” (सत०) ।
“**सो** सुनि भयड भूप उर सोचू ।” (राम०) ।

(आ) “सो” कभी कभी समुच्चय-बोधक के समान उपयोग में आता है और उसका अर्थ “इसलिए” या “तब” होता है; जैसे,
“तैंने भी कभी उसका नाम नहीं लिया, **सो** क्या तू भी उसे मेरी ही भाँति भूल गया ?” (शकु०) । “मलयकेतु हम लोगो से लड़ने के लिए उद्यत हो रहा है, **सो** यह लड़ाई के उद्योग का समय है ।” (मुद्रा०) ।

१३१—जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं

होता उसे **अनिश्चयवाचक** सर्वनाम कहते हैं । अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं—कोई, कुछ । “कोई” और “कुछ” में साधारण अंतर यह है कि “कोई” पुरुष के लिए और “कुछ” पदार्थ वा धर्म के लिए आता है ।

१३२—**कोई**—(दोनों वचन) ।

इसका प्रयोग एकवचन में बहुधा नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(अ) किसी अज्ञात पुरुष या बड़े जतु के लिये, जैसे, “ऐसा न हो कि **कोई** आ जाय ।” (सत्य०) । “दरवाजे पर **कोई** खड़ा है ।” “नाली में **कोई** बोलता है ।”

(आ) बहुत से ज्ञात पुरुषों में से किसी अनिश्चित पुरुष के लिए, जैसे, “हे रे । **कोई** यहाँ ?” (शकु०) ।

“रघुवशिन मँहँ जँहँ **कोऊ** होई ।

तेहि समाज अस कहहि न **कोई** ॥” —(राम०) ।

(ई) निपेधवाचक वाक्य में “कोई” का अर्थ “सब” होता है, जैसे, “बड़ा पद मिलने से **कोई** बड़ा नहीं होता ।” (सत्य०) ।

“तू **किसीको** मत सता ।”

(ई) “कोई” के साथ “सब” और “हर” (विशेषण) आते हैं ।

“सब **कोई**” का अर्थ “सब लोग” और “हर **कोई**” का अर्थ “हर आदमी” होता है । उदा०—“**सब कोऊ** कहत राम सुठि साधू ।” (राम०) । “यह काम **हर कोई** नहीं कर सकता ।”

(उ) अधिक अनिश्चय में “कोई” के साथ “एक” जोड़ देते हैं, जैसे, “**कोई एक** यह बात कहता था ।”

(ऊ) किसी ज्ञात पुरुष को छोड़ दूसरे अज्ञात पुरुष का बाध कराने के लिए “कोई” के साथ “और” या “दूसरा” लगा देते हैं, जैसे, “यह भेद **कोई और** न जाने ।” “**कोई दूसरा** होता तो मैं उसे न छोड़ता ।”

(ऋ) आदर और बहुत्व के लिए भी “कोई” आता है। पिछले अर्थ में बहुधा “कोई” की द्विरुक्ति होती है : जैसे, “मेरे घर कोई आये हैं।” “कोई कोई पाप के अनुयायियों ही को नहीं देख सकते।” (स्वा०)। “किसी किसी की राय में विदेशी शब्दों का उपयोग मूर्खता है।” (मर०)।

(ए) अवधारण के लिए “कोई कोई” के बीच में “न” लगा दिया जाता है ; जैसे, “यह काम कोई न कोई अवश्य करेगा।”

(ऐ) कोई कोई। इन दुहरे शब्दों से विचित्रता सूचित होती है, जैसे, “कोई कहती थी यह उचका है, कोई कहती थी एक पक्का है।” (गुटका०)। इसी अर्थ में “एक एक” आता है ; जैसे—

“इक प्रविशहि इक निर्गमहि, भीर भूप दरवार।”—(राम०)।

(ओ) संख्या-वाचक विशेषण के पहले “कोई” परिमाण-वाचक क्रियाविशेषण के समान आता है। और उसका अर्थ “लगभग” होता है ; जैसे, “इसमें कोई ४०० पृष्ठ हैं।” (मर०)।

१३३—कुछ—(एकवचन)।

दूसरे सर्वनामों के समान “कुछ” का रूपांतर नहीं होता। इसका प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है। जब इसका प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है तब यह नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(अ) किसी अज्ञात पदार्थ वा धर्म के लिए : जैसे “वो में कुछ मिला है।” “मेरे मन में आती है कि इनसे कुछ पृच्छूँ।” (शकु०)।

(आ) छोटे जंतु वा पदार्थ के लिए : “जैसे पानी में कुछ है।”

(इ) कभी कभी कुछ परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण के समान आता है। इस अर्थ में कभी कभी उगर्क द्विरुक्ति भी होती है। उदा०—“तेरे शरीर का ताप कुछ घटा कि नहीं ?”

- (शकु०) । ‘उसने उसके कुछ खिलाफ कार्रवाई की ।’
(स्वा०) । “लडकी कुछ छोटी है ।” “दोनों की आकृति कुछ कुछ मिलती है ।”
- (ई) आश्चर्य, आनंद वा तिरस्कार के अर्थ में भी “कुछ” क्रिया-विशेषण होता है, जैसे, “हिंदी कुछ संस्कृत तो है नहीं ।” (सर०) । “हम लोग कुछ लडते नहीं हैं ।” “मेरा हाल कुछ न पूछो ।”
- (उ) अवधारण के लिए “कुछ न कुछ” आता है, जैसे, “आर्य-जाति ने दिशाओ का नाम कुछ न कुछ रख लिया होगा ।” (सर०) ।
- (ऊ) किसी ज्ञात पदार्थ वा धर्म को छोडकर दूसरे अज्ञात पदार्थ वा धर्म का बोध कराने के लिए “कुछ” के साथ “और” आता है, जैसे, “तेरे मन में कुछ और ही है ।” (शकु०) ।
- (ऋ) भिन्नता या विपरीतता सूचित करने के लिए ‘कुछ का कुछ’ आता है, जैसे, “आपने कुछ का कुछ समझ लिया ।” “जिनसे यं कुछ के कुछ हो गयं ।” (इति०) ।
- (ॠ) “कुछ” के साथ “सब” और “बहुत” आते हैं । “सब कुछ” का अर्थ “सब पदार्थ वा धर्म” है, और “बहुत कुछ” का अर्थ “बहुतसे पदार्थ वा धर्म” अथवा “अधिकता से” है । उदा०—“हम समझते सब कुछ हैं ।” (सत्य०) । “लडका बहुत कुछ दौडता है ।” “यो भी बहुत कुछ हो रहेगा ।” (सत्य०) ।
- (ए) कुछ कुछ । ये दुहरे शब्द विचित्रता सूचित करते हैं, जैसे, “एक कुछ कहता है और दूसरा कुछ ।” (इति०) । “कुछ तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं ।” (मुद्रा०) । “कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे ।” (कहा०) ।

(ए) “कुछ कुछ” कभी कभी समुच्चय-बोधक के समान आकर दो वाक्यों को जोड़ते हैं; जैसे, “छापे की भूले कुछ प्रेस की असावधानी से और कुछ लेखकों के आलस से होती हैं।”

(सर०) । “कुछ हम खुले, कुछ वह खुले।”

(ओ) “कुछ कुछ” से कभी कभी “अयोग्यता” का अर्थ पाया जाता है; जैसे, “कुछ तुमने कमाया, कुछ तुम्हारा भाई कमावेगा।”

१३४—**जो**—(दोनों वचन) ।

हिंदी में संबंध-वाचक सर्वनाम एक ही है; इसलिए न्याय-शास्त्र के अनुसार इसका लक्षण नहीं बनाया जा सकता। भाषा-भास्कर को छोड़कर प्रायः सभी व्याकरणों में संबंध-वाचक सर्वनाम का लक्षण नहीं दिया गया। भाषा-भास्कर में जो लक्षण है वह भी स्पष्ट नहीं है। लक्षण के अभाव में यहाँ इस सर्वनाम के केवल विशेष धर्म लिखे जाते हैं।

(अ) “जो” के साथ “सो” वा “वह” का नित्य संबंध रहता है। “सो” वा “वह” निश्चयवाचक सर्वनाम है; परंतु संबंध-वाचक सर्वनाम के साथ आने पर इस नित्य-संबंधी सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्य में संबंध-वाचक सर्वनाम आता है उसका संबंध एक दूसरे वाक्य से रहता है जिसमें नित्य-संबंधी सर्वनाम आता है; जैसे, “जो बोले सो धी को जाय।” (कथा०) । “जो हरिश्चंद्र ने किया वह तो अब कोई भी भारतवासी न करेगा।” (सत्य०) ।

(आ) संबंध-वाचक और नित्य-संबंधी सर्वनाम एक ही संज्ञा के बदले आते हैं। जब इस संज्ञा का प्रयोग होता है तब यह

“संबंध-वाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो कही हुई संज्ञा से कुछ वर्णन मिलता है।” (भा० भा०) ।

बहुधा पहले वाक्य में आती है और संबंध-वाचक सर्वनाम दूसरे वाक्य में आता है, जैसे, “राजा भीष्मक का बड़ा बेटा **जिसका** नाम रुक्म था निपट भुँझलायके बोलता ।” (प्रेम०) । “यह नारी कौन है **जिसका** रूप वखों में झलक रहा है ।” (शकु०) ।

(इ) जिस सज्ञा के बदले संबंध-वाचक और नित्य-सबधी सर्वनाम आते हैं उसके अर्थ की स्पष्टता के लिए बहुधा दोनो सर्वनामों में से किसी एक का प्रयोग विशेषण के समान होता है, जैसे, “क्या आप फिर **उस परदे** को डाला चाहते हैं **जो** सत्य ने मेरे साम्हने से हटाया ?” (गुटका०) । “श्रीकृष्ण ने **उन** लकीरों को गिना **जो** उसने खँची थीं ।” (प्रेम०) । “**जिस हरिश्चंद्र** ने उदय से अस्त तक की पृथ्वी के लिए धर्म न छोड़ा, **उसका** धर्म आध गज कपड के वास्ते मत छुडाओ ।” (सत्य०) ।

(ई) नित्य-सबधी “सो” की अपेक्षा “वह” का प्रचार अधिक है । कभी कभी उसके बदले “यह, ” “ऐसा, ” “सब” और “कौन” आते हैं, जैसे, “**जिस** शकुंतला ने तुम्हारे बिना सींचे कभी जल भी नहीं पिया **उसको** तुम पति के घर जाने की आज्ञा दो ।” (शकु०) । “ससार में **ऐसी** कोई चीज न थी **जो** उस राजा के लिए अलभ्य होती ।” (रघु०) । “वह **कौनसा** उपाय है **जिससे** यह पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पावे ?” (गुटका०) । “सब लोग **जो** यह तमाशा देख रहे थे अचरज करने लगे ।”

(उ) कभी कभी संबंध-वाचक सर्वनाम अकेला पहले वाक्य में आता है और उसकी सज्ञा दूसरे वाक्य में बहुधा “ऐसा” वा “वह” के साथ आती है, जैसे, “**जिसने** कभी कोई पाप-कर्म

नहीं किया था ऐसे राजा रघु ने यह उत्तर दिया ।”
 (रघु०) । “प्रभु जो दीन्ह सो वर मैं पावा ।”
 (राम०) ।

(उ) “जो” कभी कभी एक वाक्य के बदले (बहुधा उसके पीछे)
 आता है, जैसे, “आ, वेग वेग चली आ, जिससे सब एक
 संग जेम-कुशल से कुटी मे पहुँचे ।” (शकु०) । “लोहे
 के बदले उसमे सोना काम मे आवे जिसमें भगवान भी
 उसे देखकर प्रसन्न हो जावें ।” (गुटका०) ।

(ऋ) आदर और बहुत्व के लिए भी “जो” आता है; जैसे, “यह
 चारो कवित्त श्री बाबू गोपालचंद्र के बनाए हैं जो कविता
 मे अपना नाम गिरिधरदास रखते थे ।” (सत्य०) ।
 “यहाँ तो वे ही बडे हैं जो दूसरे को दोष लगाना पडे
 हैं ।” (शकु०) ।

(ए) “जो” के साथ कभी कभी फारसी का संबंध-वाचक सर्व-
 नाम “कि” आता है (पर अब उसका प्रचार घट रहा है) ।
 जैसे, “किसी समय राजा हरिश्चंद्र बडा दानी हो गया है
 कि जिसकी कीर्ति संसार मे अब तक छाया रही है ।”
 (प्रेम०) । “कौन कौन से समय के फेरफार इन्हे भूलने पडे
 कि जिनसे ये कुछ कं कुछ हो गए !” (इति०) ।

(ऋ) कभी कभी संबंध-वाचक वा नित्य-संबंधो सर्वनाम का
 लोप होता है: जैसे, “हुआ सो हुआ ।” (शकु०) । “जो
 पानी पीता है आपका असीस देता है ।” (गुटका०) ।
 कभी कभी दूसरे वाक्य ही का लोप होता है; जैसे “जो
 आजा ।” “जो हो ।”

(औ) समूह के अर्थ मे संबंध-वाचक और नित्य-संबंधो सर्व-
 नामों की बहुधा द्विकृति होती है; जैसे, “ल्यो हरिश्चंद्र ज

जो जो कह्यो सो कियो चुप द्वै करि कोटि उपाई ।”
(सुंदरी०) । “कन्या के विवाह मे हमे जो जो वस्तु चाहिए
सो सो सब इकट्ठी करो ।” (प्रेम०) ।

- (औ) “जो” कभी कभी समुच्चय-बोधक के समान आता है,
और उसका अर्थ “यदि” वा “कि” होता है, जैसे, “क्या
हुआ जो अब की लड़ाई मे हारे ।” (प्रेम०) । “हर किसी
की सामर्थ नहीं जो उसका साम्हना करे ।” (तथा) ।
“जो सच पृछो तो इतनी भी बहुत हुई ।” (गुटका०) ।
(क) “जो” के साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी जोड़े जाते हैं ।
“कोई” और “कुछ” के अर्थों मे जो अंतर है वही “जो
कोई” और “जो कुछ” के अर्थों मे भी है, जैसे “जो
कोई नल को घर में घुसने देगा, जान से हाथ धोएगा ।”
(गुटका०) । “महाराज जो कुछ कहो बहुत समझ वृम्भ-
कर कहियो ।” (शकु०) ।

१३५—प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामो का उपयोग होता है
उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं । ये दो हैं—कौन और क्या ।

१३६—“कौन” और “क्या” के प्रयोगो मे साधारण अंतर
वही है जो “कोई” और “कुछ” के प्रयोगों मे है । (अ०—१३२-
१३३) । “कौन” प्राणियों के लिए और विशेषकर मनुष्यों के
लिए और “क्या” चुद्र प्राणी, पदार्थ वा धर्म के लिए आता है,
जैसे, “हे महाराज, आप कौन है ?” (गुटका०) । “यह आशीर्वाद
किसने दिया ?” (शकु०) । “तुम क्या कर सकते हो ?” “क्या
समझते हो ?” (सत्य०) । “क्या है ?” “क्या हुआ ?”

१३७—“कौन” का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों मे होता है—

- (अ) निर्धारण के अर्थ मे “कौन” प्राणी, पदार्थ और धर्म, तीनों
के लिए आता है, जैसे,—

“ह०—तो हम एक नियम पर विकेंगे ।”

“ध०—वह कौन ?” (सत्य०) ।

“इसमे पाप कौन है और पुण्य कौन है ।” (गुटका०) ।

“यह कौन है जो मेरे अंचल को नहीं छोड़ता । ” (शकु०) ;
इसी अर्थ मे “कौन” के साथ बहुधा “सा” प्रत्यय लगाया
जाता है, जैसे, “मेरे ध्यान मे नहीं आता कि महारानी शकुंतला
कौनसी है ।” (शकु०) । “ तुम्हारा घर कौनसा है ?”

आ) तिरस्कार के लिए; जैसे, “ रोकनेवाली तुम कौन हो ।”

(शकु०) । “ कौन जाने !” “स्वर्ग कौन कहे, आपने

अपने सत्यवल से ब्रह्म-पद पाया ।” (सत्य०) ।

(इ) आश्चर्य अथवा दुःख मे; जैसे, “इसमे क्रोध की बात
कौनसी है ।” “ अरे ! हमारी बात का यह उत्तर कौन
देता है ?” (सत्य०) । “अरे ! आज मुझं किसने लूट
लिया । ” (तथा) ।

(ई) “ कौन ” कभी कभी क्रियाविशेषण होता है; जैसे, “आपको
सत्संग कौन दुर्लभ है ।” (सत्य०) ।

(उ) वस्तुओं की भिन्नता, असंख्यता और तत्संबंधी आश्चर्य
दिखाने के लिए “कौन” की द्विरुक्ति होती है; जैसे, “सभा
में कौन कौन आयें थे ?” “मैं किस किसको
बुलाऊँ ।” “ तूने पुण्यकर्म कौन कौनसे किये हैं ? ”
(गुटका०) ।

१३८—“क्या” नीचे लिखे अर्थों मे आता है—

(अ) किसी वस्तु का लक्षण जानने के लिए: जैसे, “मनुष्य क्या
हैं ?” “ आत्मा क्या है ?” “धर्म क्या है ?”

इसी अर्थ से कौन का रूप “किसे” या “किसको”
“कहना” क्रिया के साथ आता है. जैसे, “नदी किसे कहते हैं ?”

(आ) किसी वस्तु के लिए तिरस्कार वा अनादर सूचित करने में, जैसे, “वह आदमी **क्या** राक्षस है ।” “**क्या** हुआ जो अब की लड़ाई में हारें ।” (प्रेम०) । “भला हम दास लेके **क्या** करेगे ?” (सत्य०) । “धन तो **क्या** इस काम में तन भी लगाना चाहिये ।”
“**क्या** जाने ।”

(इ) आश्चर्य में, जैसे, “ऊषा **क्या** देखती है कि चहुँ ओर विजली चमकने लगी ।” (प्रेम०) । “**क्या** हुआ ।” “वाह । **क्या** कहना है ।”

इसी अर्थ में “**क्या**” बहुधा क्रियाविशेषण के समान आता है, जैसे, “घोड़े दौड़े **क्या** हैं, उड आये हैं ।” (शकु०) । “**क्या** अच्छी बात है ।”

(ई) धमकी में, जैसे, “तुम यह **क्या** करते हो ।” “तुम यहाँ **क्या** बैठे हो ।”

(उ) किसी वस्तु की दशा बताने में, जैसे, “हम कौन थे **क्या** हो गये हैं और **क्या** होगे अभी ।” (भारत०) ।

(ऊ) कभी कभी “**क्या**” का प्रयोग विस्मयादि-बोधक के समान होता है—

(१) प्रश्न करने के लिए, जैसे, “**क्या** गाडी चली गई ?”

(२) आश्चर्य सूचित करने के लिए, जैसे, “**क्या** तुमको चिह्न दिखाई नहीं देते ।” (शकु०) ।

(ऋ) अशक्यता के अर्थ में भी “**क्या**” क्रियाविशेषण होता है, जैसे, “हिंसक जीव मुझे **क्या** मारेगे ।” (रघु०) । “उसके मारने से परलोक **क्या** विगडेगा ।” (गुटका०) ।

(ॣ) निश्चय कराने में भी “**क्या**” क्रियाविशेषण के समान आता है, जैसे, “सरोजिनी—माँ । मैं यह **क्या** बैठी हूँ ।”

(सरो०) । “सिपाही वहाँ **क्या** जा रहा है ।” इन वाक्यों में “क्या” का अर्थ “अवश्य” वा “निस्संदेह” है ।

(ए) बहुत्व वा आश्चर्य में “क्या” की द्विरुक्ति होती है; जैसे, “विष देनेवाले लोगों ने **क्या क्या** किया ?” (मुद्रा०) ।
“मैं **क्या क्या** कहूँ । ”

(ऐ) **क्या क्या** । इन दुहरे शब्दों का प्रयोग समुच्चय-बोधक के समान होता है, जैसे, “**क्या** मनुष्य और **क्या** जीवजतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीका भला करने में गँवाया ।” (गुटका०) । (अं०—२४४)

१३६—दशांतर सूचित करने के लिए “क्या से क्या” आता है, जैसे, “हम आज **क्या से क्या** हुए ।” (भारत०) ।

१४०—पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनामों में अवधारण के लिए “ही” “ही” वा “ई” प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे, मैं = मैंही, तू = तूही; हम = हमी, तुम = तुम्ही; आप = आपही, वह = वही, सो = सोई, यह = यही; वे = वेही; ये = येही ।

(क) अनिश्चय-वाचक सर्वनामों में “भी” अव्यय जोड़ा जाता है, जैसे, “कोई भी,” “कुछ भी ।”

[टी०—हिंदी के भिन्न भिन्न व्याकरणों में सर्वनामों की संख्या और वर्गीकरण के संबन्ध में बहुत कुछ मत-भेद है । हिंदी के जो व्याकरण (ऐधरिंगटन, कैलाश, श्रीवज़, आदि) अंगरेज विद्वानों ने लिखे हैं और जिनकी सहायता प्रायः सभी हिंदी व्याकरणों में पाई जाती है उनका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है; क्योंकि किसी भी भाषा के संबन्ध में केवल वही लोग प्रमाण माने जा सकते हैं जिनकी वह भाषा है, चाहे उन्होंने अपनी भाषा का व्याकरण विदेशियों ही की सहायता से लिखा वा लिखा हो । इसके विवा यह व्याकरण हिंदी में लिखा गया है; इसलिए हमें केवल हिंदी में लिखे हुए व्याकरणों पर विचार करना चाहिए, यद्यपि उनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनके

लेखकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। पहले हम इन व्याकरणों में दी हुई सर्वनामों की संख्या का विचार करेंगे।

सर्वनामों की संख्या “भाषा-प्रभाकर” में आठ, “हिंदी व्याकरण” में सात और “हिंदी बाल-बोध व्याकरण” में कोई सत्रह है। ये तीनों व्याकरण औरों से पीछे के हैं, इसलिए हमें समालोचना के निमित्त इन्हींकी बातों पर विचार करना है। इनके सिवा अधिक पुस्तकों के गुण-दोष दिखाने के लिए हम पुस्तक में स्थान की संकीर्णता है।

(१) भाषा-प्रभाकर—मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन।

(२) हिंदी-व्याकरण—मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कौन।

(३) हिंदी-बालबोध-व्याकरण—मैं, तू, वह, जो, सो, कौन, क्या, यह, कोई, सब, कुछ, एक, दूसरा, दोनों, एक दूसरा, कई एक, आप।

“भाषा-प्रभाकर” में “क्या”, “कुछ” और “आप” अलग अलग सर्वनाम नहीं माने गये हैं, यद्यपि सर्वनामों के वर्णन में इनका अर्थ दिया गया है। इसमें भी “आप” का केवल आदर-सूचक प्रयोग बताया गया है। फिर आगे अन्यत्रों में “क्या” और “कुछ” का उल्लेख किया गया है, परंतु वहाँ भी इनके संबन्ध में कोई बात स्पष्टता से नहीं लिखी गई। ऐसी अवस्था में समालोचना करना वृथा है।

“हिंदी-व्याकरण” में “सो”, “कोई”, “क्या” और “कुछ” सर्वनाम नहीं माने गये हैं। पर लेखक ने पुस्तक में सर्वनाम का जो लक्षण* दिया है उसमें इन शब्दों का अंतर्भाव होता है, और उन्होंने स्वयं एक स्थान में (पृ- ८८) “कोई” को सर्वनाम के समान लिखा है, फिर न जाने क्यों यह शब्द भी सर्वनामों की सूची में नहीं रखा गया? “क्या” और “कुछ” के विषय में अव्यय होने की संभावना हो भी सकती है, पर “सो” और “कोई” के विषय में किसीको भी संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि इनके रूप और प्रयोग “वह”, “जो”, “कौन” के समूह पर होते हैं। जान पड़ता है कि मराठी में “कोण” शब्द प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक दोनों होने के कारण लेखक ने “कोई” को “कौन” के अंतर्गत माना है, परंतु हिंदी में “कौन” और “कोई” के रूप और प्रयोग अलग अलग है। लेखक ने कोई १५० अन्यत्रों की सूची में “कुछ”, “क्या” और “सो” लिखे हैं, पर इन बहुत-से शब्दों में केवल दो या तीन के प्रयोग बताये गये हैं, और उनमें भी “कुछ”,

* “सर्वनाम उसे कहते हैं जो नाम के बदले में आया हो।”

“क्या” और “सो” का नाम तक नहीं है। बिना किसी वर्गीकरण के (चाहे वह पूर्णतया न्याय-सम्मत न हो) केवल वर्णमाला के क्रम से १२० अव्ययों की सूची दे देने से उनका स्मरण कैसे रह सकता है और उनके प्रयोग का क्या ज्ञान हो सकता है? यदि किसी शब्द को केवल “अव्यय” कहने से काम चल सकता है तो फिर “विकारी” शब्दों के जो भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया लेखक ने माने हैं, उन सबकी भी क्या आवश्यकता है?

“हिंदी-बाल-बोध व्याकरण” में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। लेखक ने “कोई” और “कुछ” के साथ “सब” को अनिश्चय-वाचक सर्वनाम माना है; और “एक”, “दूसरा”, “दोनों”, “एक दूसरा” “कई एक” आदि को निश्चयवाचक सर्वनामों में लिखा है। ये सब शब्द यथार्थ में विशेषण हैं, क्योंकि इनके रूप और प्रयोग विशेषणों के समान होते हैं। “एक लडका”, “दस लडके” और “सब लडके”, इन वाक्यांशों में संज्ञा के अर्थ के संबंध से “एक”, “दस” और “सब” का प्रयोग व्याकरण में एक ही सा है—अर्थात् तीनों शब्द “लडका” संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। इसलिए यदि “दस” विशेषण है तो “सब” भी विशेषण है। हाँ, कभीकभी विशेष्य के लोप होने पर ऊपर लिखे शब्दों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है, पर प्रयोग की भिन्नता और भी कई शब्द-भेदों में पाई जाती है। हमने इन सब शब्दों को विशेषण मानकर एक अलग ही वर्ग में रखा है। जिन शब्दों को बाल-बोध-व्याकरण के कर्त्ताने निश्चयवाचक सर्वनाम माना है वे सर्वनाम माने जाने पर भी निश्चय-वाचक नहीं है। उदाहरण के लिए “एक” और “दूसरा” शब्द लीजिये। इनका प्रयोग “कोई” के समान होता है जो अनिश्चय-वाचक है। पर जब “एक” वा “दूसरा” केवल संख्या वा क्रम का बोधक होता है तब वह अवश्य निश्चय-वाचक विशेषण (वा सर्वनाम) होता है; परंतु समालोचित पुस्तक में इन सर्वनामों के प्रयोगों के उदाहरण नहीं हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक ने किस अर्थ में इन्हें निश्चय-वाचक माना है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऊपर कहीं हुई तीनों पुस्तकों में जो कई शब्द सर्वनामों की सूची में टिये गये हैं अथवा छोड़ दिये गये हैं उनके लिए कोई प्रबल कारण नहीं है। अथ सर्वनामों के वर्गीकरण का कुछ विचार करना चाहिए।

“भाषा-प्रभाकर” और “हिंदी-बाल-बोध व्याकरण” में सर्वनामों के

पाँच पाँच भेद माने गये हैं, पर दोनों में निजवाचक सर्वनाम न अलग माना गया है और न किसी भेद के अतर्गत लिखा गया है। यद्यपि सर्वनामों के विवेचन में इसका कुछ उल्लेख हुआ है, पर वहाँ भी “आदर-सूचक” के अन्यपुरुष का प्रयोग नहीं बताया गया। हम इस अध्याय में बता चुके हैं कि हिंदी में “आप” एक अलग सर्वनाम है जो मूल में निजवाचक है और उसका एक प्रयोग आदर के लिए होता है। दोनों पुस्तकों में “सो” संबंध वाचक लिखा गया है; पर यह सर्वनाम “वह” का पर्यायवाची होने के कारण यथार्थ में निश्चय-वाचक है और कभी कभी यह संबंध-वाचक सर्वनाम “जो” के बिना भी आता है।

“हिंदी-व्याकरण” में संस्कृत की देखादेखी सर्वनामों के भेद ही नहीं किये गये हैं, पर एक दो स्थानों में (पृ० ६०—६१) “निज सूचक आप” शब्द का उपयोग हुआ है जिससे सर्वनामों के किसी न किसी वर्गीकरण की आवश्यकता जान पड़ती है। फिर न जाने लेखक ने इसका वर्गीकरण क्यों अनावश्यक समझा ?]

१४१—“यह,” “वह,” “सो,” “जो” और “कौन” के रूप “इस,” “उस,” “तिस,” जिस” और किस” के अंत्य “स” के स्थान में “तना” आदेश करने से परिमाण-वाचक विशेषण और “इ” को “ऐ” तथा “उ” को “वै” करके “सा” आदेश करने से गुणवाचक विशेषण बनते हैं। दूसरे सार्वनामिक विशेषणों के समान ये शब्द भी प्रयोग में कभी सर्वनाम और कभी विशेषण होते हैं। कभी कभी ये क्रिया-विशेषण भी होते हैं। इनके प्रयोग आगे विशेषण के अध्याय में लिखे जायँगे।

नीचे के कोठे में इनकी व्युत्पत्ति समझाई जाती है—

सर्वनाम	रूप	परिमाणवाचक विशेषण	गुणवाचक विशेषण
यह	इस	इतना	ऐसा
वह	उस	उतना	वैसा
सो	तिस	तितना	तैसा
जो	जिस	जितना	जैसा
कौन	किस	कितना	कैसा

सर्वनामों की व्युत्पत्ति ।

१४२—हिंदी के सब सर्वनाम प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं; जैसे,

संस्कृत	प्राकृत	हिंदी
अहम्	अम्ह	मैं, हम
त्वम्	तुम्ह	तू, तुम
एषः	एअ	यह, ये
सः	सो	सो, वह, वे
यः	जो	जो
कः	को	कौन
किम्	किम्	क्या
कोऽपि	कांवि	कोई

संस्कृत	प्राकृत	हिंदी
आत्मन्	अप्प	आप
किञ्चित्	किञ्चि	कुछ

तीसरा अध्याय ।

विशेषण ।

१४३—जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे, बड़ा, काला, दयालु, भारी, एक, दो, सब, इत्यादि ।

[टी.—“हिंदी व्याकरण” में संज्ञा के तीन भेद किए गये हैं—नाम, सर्वनाम और विशेषण । दूसरे व्याकरणों में भी विशेषण संज्ञा का एक उपभेद माना गया है । इसलिए यहाँ यह प्रश्न है कि विशेषण एक प्रकार की संज्ञा है अथवा एक अलग शब्द-भेद है । हम शंका का समाधान यह है कि सर्वनाम के समान विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा ही है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम है । पर इसको अलग शब्द भेद मानने का यह कारण है कि हमका उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता और इससे संज्ञा का केवल धर्म सूचित होता है, “काला” कहने से घोडा, कपड़ा, दाग, आदि किसी भी वस्तु के धर्म की भावना मन में उत्पन्न हो सकती है, परंतु उस धर्म का नाम “काला” नहीं है, किंतु “कालापन” है । जब विशेषण अकेला आता है तब उससे पदार्थ का बोध होता है और उसे संज्ञा कहते हैं । उस समय उसमें संज्ञा के समान विकार भी होते हैं, जैसे, “हमके बड़ों का यह संकल्प है ।” (शकु०) ।

सब विशेषण विकारी शब्द नहीं है, परंतु विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान हो सकता है, और उस समय इनमें रूपांतर भी होता है । इसलिए विशेषण को “विकारी शब्द” कहना उचित है । इसका सिद्धांत कोई कोई लेखक संस्कृत की चाल पर विशेषण के अनुसार विशेषण का ही रूपांतर करते हैं; जैसे, “मूर्तिमती यह सुदरता है ।” (क० क०) । “पुरवासिनी स्त्रिया ।” (रघु०) ।

विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है—इस उक्ति का अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का बोध होता है उनकी संख्या विशेषण के योग से कम हो जाती है। “घोड़ा” शब्द से जितने प्राणियों का बोध होता है उन्ने प्राणियों का बोध “काला घोड़ा,” शब्दों से नहीं होता। “घोड़ा” शब्द जितना व्यापक है उतना “काला घोड़ा” शब्द नहीं है। “घोड़ा” शब्द की व्याप्ति (विस्तार) “काला” शब्द से मर्यादित (संकुचित) होती है ; अर्थात् “घोड़ा” शब्द अधिक प्राणियों का बोधक है और “काला घोड़ा” शब्द उससे कम प्राणियों का बोधक है।

“हिंदी-माल-बोध-व्याकरण” में विशेषण का यह लक्षण दिया हुआ है—“संज्ञावाचक शब्द के गुणों को जतानेवाले शब्द को गुणवाचक शब्द कहते हैं।” इस परिभाषा में अव्याप्ति दोष है; क्योंकि कोई कोई विशेषण केवल संख्या और कोई कोई केवल दशा प्रगट करते हैं। फिर “गुण” शब्द से इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष भी आ सकता है; क्योंकि भाववाचक संज्ञा भी “गुण” जतानेवाली है। इसके सिवा इस लक्षण में “संज्ञा” के लिए व्यर्थ ही “संज्ञा-वाचक शब्द” और “विशेषण” वा “गुणवाचक” के लिए “गुणवाचक शब्द” लाया गया है।]

१४४—व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण आता है वह उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, जैसे, पतिव्रता सीता, प्रतापी भोज, दयालु ईश्वर, इत्यादि। इन उदाहरणों में विशेषण संज्ञा के अर्थ को केवल स्पष्ट करते हैं। “पतिव्रता सीता” वही व्यक्ति है जो ‘सीता’ है। इसी प्रकार “भोज” और “प्रतापी भोज” एकही व्यक्ति के नाम हैं। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिये जो शब्द आते हैं वे समानाधिकरण कहाते हैं (अ०-५६१)। ऊपर के वाक्यों में “पतिव्रता,” “प्रतापी” और “दयालु” समानाधिकरण विशेषण हैं।

१४५—जातिवाचक संज्ञा के साथ उसका साधारण धर्म सूचित करनेवाला विशेषण समानाधिकरण होता है; जैसे, मूक पशु, अबोध बच्चा, काला कौआ, ठंडी बर्फ, इत्यादि। इन उदाहरणों में विशेषणों के कारण संज्ञा की व्यापकता कम नहीं होती।

१४६—विशेषण के योग से जिस सज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उस सज्ञा को **विशेष्य** कहते हैं; जैसे, “ठंडी हवा चली” —इस वाक्य में ‘ठंडी’ विशेषण और ‘हवा’ विशेष्य है ।

(क) विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है—
 (१) संज्ञा के साथ, (२) क्रिया के साथ । पहले प्रयोग को विशेष्य-विशेषण और दूसरे को विधेय-विशेषण कहते हैं । विशेष्य-विशेषण विशेष्य के साथ और विधेय-विशेषण क्रिया के साथ आता है, जैसे, “**ऐसी सुडौल चीज कहीं नहीं बन सकती ।**” (परी०) । “हमे तो ससार **सूना** देख पडता है ।” (सत्य०) । “**यह बात सच है ।**”

(ख) विधेय-विशेषण समानाधिकरण होता है, जैसे, “यह ब्राह्मण **चपल** है ।” इस वाक्य में ‘यह’ शब्द के कारण “ब्राह्मण” सज्ञा की व्यापकता घटती है, परंतु “चपल” शब्द उस व्यापकता को और कम नहीं करता । उससे ब्राह्मण के विषय में केवल एक नई बात—चपलता—जानी जाती है ।

१४७—विशेषण के मुख्य तीन भेद किये जाते हैं—(१) सार्वनामिक विशेषण, (२) गुणवाचक विशेषण और (३) संख्यावाचक विशेषण ।

[सूचना—यह वर्गीकरण न्याय-दृष्टि से नहीं, किंतु उपयोगिता की दृष्टि से किया गया है । सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों से बने हैं, इसलिये दूसरे विशेषणों से उनका एक अलग वर्ग मानना उचित है । फिर, व्यवहार में गुण और संख्या भिन्न भिन्न धर्म हैं, इसलिये इन दोनों के विचार से विशेषण के और दो भेद—गुणवाचक और संख्यावाचक किए गये हैं ।]

(१) सार्वनामिक विशेषण ।

१४८—पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है । जब ये शब्द

अकेले आते हैं, तब सर्वनाम होते हैं और जब इनके साथ संज्ञा आती है तब ये विशेषण होते हैं; जैसे “नौकर आया है ; वह बाहर खड़ा है ।” इस वाक्य में ‘वह’ सर्वनाम है; क्योंकि वह “नौकर” संज्ञा के बदले आया है । “वह नौकर नहीं आया”—यहाँ “वह” विशेषण है; क्योंकि “वह” “नौकर” संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है; अर्थात् उसका निश्चय बताता है । इसी तरह “किसीको बुलाओ” और “किसी ब्राह्मण को बुलाओ”—इन वाक्यों में “किसी” क्रमशः सर्वनाम और विशेषण है ।

१४६—पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम (मैं, तू, आप) संज्ञा के साथ आकर उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करते, जैसे, “मैं मोहनलाल इकरार करता हूँ ।” इस वाक्य में ‘मैं’ शब्द विशेषण के समान “मोहनलाल” संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, किंतु यहाँ मोहनलाल शब्द “मैं” के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये आया है । कोई कोई यहाँ “मैं” को विशेषण कहेंगे; परंतु यहाँ मुख्य विधान ‘मैं’ के विषय में है और क्रिया भी उसीके अनुसार है । जो विशेषण विशेष्य के साथ आता है उस विशेषण के विषय में विधान नहीं किया जा सकता । इसलिए यहाँ “मैं” और “मोहनलाल” समानाधिकरण शब्द हैं; विशेषण और विशेष्य नहीं हैं । इसी तरह “लड़का आप आया था”—इस वाक्य में “आप” शब्द विशेषण नहीं है; किंतु “लड़का” संज्ञा का समानाधिकरण शब्द है ।

१५०—सार्वनामिक विशेषण व्युत्पत्ति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं—

(१) मूल सर्वनाम, जो विना किसी रूपांतर के संज्ञा के साथ आते हैं; जैसे, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, कुछ काम, इत्यादि ।
(अं०—११४) ।

(२) यौगिक सर्वनाम (अं०—१४१), जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं और सज्ञा के साथ आते हैं, जैसे—ऐसा आदमी, कैसा घर, उतना काम, जैसा देश वैसा भेष, इत्यादि ।

१५१—मूल सार्वनामिक विशेषणों का अर्थ बहुधा सर्वनामों ही के समान होता है, परन्तु कहीं कहीं उनमें कुछ विशेषता पाई जाती है ।

(अ) “वह” “एक” के साथ आकर अनिश्चय-वाचक होता है; जैसे, “वह एक मनिहारिन आ गई थी ।” (सत्य०) ।

[सूचना—गद्य में ‘सो’ का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान नहीं होता ।]

(आ) “कौन” और “कोई” प्राणी, पदार्थ वा धर्म के नाम के साथ आते हैं, जैसे, कौन मनुष्य ? कौन जानवर ? कौन कपड़ा ? कौन बात ? कोई मनुष्य ? कोई जानवर ? कोई कपड़ा ? कोई बात ? इत्यादि ।

(इ) आश्चर्य में “क्या” प्राणी, पदार्थ वा धर्म तीनों के नाम के साथ आता है, जैसे, “तुम भी क्या आदमी हो ।” “यह क्या लकड़ी है ।” “क्या बात है !” इत्यादि ।

(ई) प्रश्न में “क्या” बहुधा भाववाचक संज्ञाओं के साथ आता है, जैसे, क्या काम ? क्या नाम ? क्या दशा ? क्या सहायता ? क्या कारण ? इत्यादि ।

(उ) “कुछ” सख्या, परिमाण और अनिश्चय का बोधक है । सख्या और परिमाण के प्रयोग आगे लिखे जायँगे । अनिश्चय के अर्थ में “क्या” के समान “कुछ” बहुधा भाववाचक संज्ञाओं के साथ आता है, जैसे, कुछ बात, कुछ डर, कुछ विचार, कुछ उपाय, इत्यादि ।

१५२—यौगिक सार्वनामिक विशेषणों के साथ जब विशेष्य नहीं रहता तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है; जैसे,

“इतने मे ऐसा हुआ;” “जैसा करोगे वैसा पाओगं;” “जैसे को तैसा मिले ।”

(अ) “ऐसा” का प्रयोग कभी कभी “यह” के समान वाक्य के बदले मे होता है, जैसे, “ऐसा कब हो सकता है कि मुझे भी दोष लगे ।” (गुटका०) ।

(आ) “ऐसा वैसा” तिरस्कार के अर्थ मे आता है; जैसे, “मैं ऐसे वैसे को कुछ नहीं समझता ।” “राजा दिलीप कुछ ऐसा वैसा न था ।” (रघु०) । “ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए ।”

१५३—(१) यौगिक संबंध-वाचक (सार्वनामिक) विशेषणों के साथ बहुधा उनके नित्य-संबंधी विशेषण आते हैं, जैसे, “जैसा देश वैसा भेष ।” “जितनी चादर देखो उतना पैर फैलाओ ।”

(अ) कभी कभी किसी एक विशेषण के विशेष्य का लोप होता है; जैसे, “जितना मैंने दान दिया उतना तो कभी किसीके ध्यान मे न आया होगा ।” (गुटका०) । “जैसी बात आप कहते हैं वैसी कोई न कहेगा ।” “हमारे ऐसे पदाधिकारियों को शत्रु उतना संताप नहीं देते जितना दूसरों की सम्पत्ति और कीर्ति ।” (सत्य०) ।

(आ) दोनों विशेषणों की द्विरुक्ति से उत्तरोत्तर घटती बढ़ती का बोध होता है, जैसे, जितना जितना नाम बढ़ता है उतना उतना मान बढ़ता है ।” “जैसा जैसा काम करोगे वैसे वैसे दाम मिलेंगे ।”

(इ) कभी कभी “जैसा” और “ऐसा” का उपयोग “समान” (संबंध-सूचक) के सदृश होता है; जैसे, “प्रवाह उन्हें तान्नाब का जैसा रूप दे देता है ।” (सर०) । “यह आप ऐसे महात्माओं का काम है ।” (सत्य०) ।

(ई) “जैसा का तैसा”—यह विशेषण-वाक्यांश “पूर्ववत्” के अर्थ में आता है, जैसे, “वे **जैसे के तैसे** बने रहे ।”

(२) यौगिक प्रश्न-वाचक (सार्वनामिक) विशेषण (**कैसा और कितना**) नीचे लिखे अर्थों में आते हैं—

(अ) आश्चर्य में, जैसे “मनुष्य **कितना** धन देगा और याचक **कितना** लेगे ।” (सत्य०) ; “विद्या पाने पर **कैसा** आनंद होता है ।”

(आ) “ही” (भी) के साथ अनिश्चय के अर्थ में, जैसे, “**कैसी** ही सुशीलता से रहे, फिर भी लोग चबाव करते हैं ।” (शकु०) । “(वह) **कितना** भी दे, पर सतोष नहीं होता ।” (सत्य०) ।

१५४—परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण बहुवचन में संख्यावाचक होते हैं, जैसे, “**इतने** गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं ।” (सत्य०) । “**मेरे जितने** प्रजा-जन हैं उनमें से किसीको अकाल मृत्यु नहीं आती ।” (रघु०) ।

(अ) “कितने ही” का प्रयोग “कई” के अर्थ में होता है, जैसे, “पृथ्वी के **कितनेही** अश धीरे धीरे उठते जाते हैं ।” (सर०) । “कितने” के साथ कभी कभी “एक” जोड़ा जाता है, जैसे, “**कितने एक** दिन पीछे फिर जरासंध उतनी ही सेना ले चढ़ आया ।” (प्रेम०) ।

१५५—यौगिक सार्वनामिक विशेषण कभी कभी क्रिया-विशेषण होते हैं, जैसे, “तू मरने से **इतना** क्यों डरता है ?” “वैदिक लोग **कितना** भी अच्छा लिखें तौ भी उनके अक्षर अच्छे नहीं होते ।” (मुद्रा०) । “मुनि **ऐसे** क्रोधी हैं कि बिना दक्षिणा मिले शाप देने को तैयार होंगे ।” (सत्य०) । “मृग-छाने **कैसे** निधड़क चर रहे हैं ।” (शकु०) ।

- (अ) “इतने मे” क्रिया-विशेषण—वाक्यांश है; और उसका अर्थ “इस समय मे” होता है, जैसे, “इतने में ऐसा हुआ ।”
- (आ) “वैसे ही” का अर्थ “स्वभाव से” या “संतमेत” होता है; जैसे, “सूर्यकांति मणि का स्वभाव है कि वैसे तो छूने में टंढी लगती है ।” (शकु०) । “यह कित्ताव मुझे वैसे ही मिली ।”

१५६—“निज” और “पराया” भी सार्वनामिक विशेषण हैं; क्योंकि इनका भी प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है, ये दोनों अर्थ मे एक दूसरे के उलट्टे हैं । “निज” का अर्थ “अपना” और “पराया” का अर्थ “दूसरे का” है, जैसे, निज देश, निज भाषा, निज गृह (राम०), पराया घर, पराया माल, इत्यादि ।

(२) गुणवाचक विशेषण ।

१५७—गुणवाचक विशेषणों की संख्या और सब विशेषणों की अपेक्षा अधिक रहती है । इनके कुछ मुख्य अर्थ नीचे दिये जाते हैं—

काल—नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्त्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, इत्यादि ।

स्थान—लंबा, चौड़ा, ऊँचा, नीचा, गहरा, सीधा, सकरा, तिरछा, भीतरी, बाहरी, ऊजड़, स्थानीय, इत्यादि ।

आकार—गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पोला, सुंदर, नुकीला, इत्यादि ।

रंग—लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरी, चमकीला, धुँधला, फीका, इत्यादि ।

दशा—दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, इत्यादि ।

गुण—भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच, झूठ, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, इत्यादि ।

१५८—गुणवाचक विशेषणों के साथ हीनता के अर्थ में “सा” प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे, “बड़ासा पेड़,” “जँचीसी दीवार,” “यह चादी खोटीसी दिखती है ।” “उसका सिर कुछ भारीसा हो गया ।”

[सूचना—सा = प्राकृत, सरिसो, संस्कृत, सदृश ।]

१५९—“नाम” (वा “नामक”), “संबंधी” और “रूपी” संज्ञा के साथ मिलकर विशेषण होते हैं, जैसे, “बाहुक-नाम सारथी,” “परतप-नामक राजा,” “घर-संबंधी काम,” “तृष्णा-रूपी नदी,” इत्यादि ।

१६०—“सरीखा” संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध-सूचक होकर आता है, जैसे, “हरिश्चंद्र सरीखा दानी,” “मुझ सरीखे लोग” इत्यादि । इसका प्रयोग कुछ कम हो चला है ।

१६१—“समान” (सदृश) और “तुल्य” (बराबर) का प्रयोग कभी कभी संबंध-सूचक के समान होता है । जैसे, “उसका ऐन घड़े के समान बड़ा था ।” (रघु०) । “लडका आदमी के बराबर दौड़ा ।”

(आ) “योग्य” (लायक) संबंध-सूचक के समान आकर भी बहुधा विशेषण ही रहता है, जैसे, मेरे योग्य काम काज लिखियेगा ।”

१६२—गुणवाचक विशेषण के बदले बहुधा संज्ञा का संबन्ध-कारक आता है; जैसे, “घरू भगड़ा” = घर का भगड़ा, “जंगली जानवर” = जंगल का जानवर, इत्यादि ।

१६३—जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है (अ०—१०६), जैसे, “बड़ों ने सच कहा है ।” (सत्य०) । “दीनों को मत सताओ ।” “सहज में,” “ठंडे में” इत्यादि ।

(अ) कभी कभी विशेषण अकेला आता है और उसका लुप्त विशेष्य अनुमान से समझ लिया जाता है; जैसे—“महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी ।” (शिव०) । “बापुरे बटोही पर बड़ी कड़ी बीती ।” (ठेठ०) । “जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकन्दर की चली ।” (भारत०) ।

(३) संख्यावाचक विशेषण ।

१६४—संख्यावाचक विशेषण के मुख्य तीन भेद हैं—(१) निश्चित संख्यावाचक, (२) अनिश्चित संख्यावाचक और (३) परिणाम-बोधक ।

(१) निश्चित संख्या-वाचक विशेषण ।

१६५—निश्चित संख्यावाचक विशेषणों से वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है; जैसे, एक लड़का, पच्चीस रुपये, दसवाँ भाग, दूना मोल, पाँचों इंद्रियाँ, हर आदमी, इत्यादि ।

१६६—निश्चित संख्या-वाचक विशेषणों के पाँच भेद हैं—(१) गणनावाचक, (२) क्रमवाचक, (३) आवृत्तिवाचक, (४) समुदाय-वाचक और (५) प्रत्येक बोधक ।

१६७—गणनावाचक विशेषणों के दो भेद हैं—

(अ) पूर्णांक-बोधक ; जैसे, एक, दो, चार, सौ, हजार ।

(आ) अपूर्णांक-बोधक; जैसे, पाव, आधा, पौन, सवा ।

(अ) पूर्णांक-बोधक ।

१६८—पूर्णांक-बोधक विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं —(१) शब्दों में, (२) अंकों में । बड़ी बड़ी संख्याएँ अंकों में लिखी जाती हैं; परंतु छोटी छोटी संख्याएँ और अनिश्चित बड़ी संख्याएँ बहुधा शब्दों में लिखी जाती हैं । तिथि और संवत् को अंकों ही में लिखते हैं । उदा०—“सन् १६०० तक तोले भर सोने की दस ताले चाँदी मिलती थी । सन् १७०० में अर्थात् सौ बरस बाद तोले भर सोने की चौदह ताले मिलने लगी ।” (इति०) । “सात वर्ष के अंदर १२ करोड़

रुपये सात जंगी जहाजों और छः जंगी कूजर्स के बनाने में और खर्च किये जायेंगे ।” (सर०) ।

१६६—पूर्णांक-बोधक विशेषणों के नाम और अंक नीचे दिये जाते हैं—

एक	१	छब्बीस	२६	इक्यावन	२१	छिहत्तर	७६
दो	२	सत्ताईस	२७	बावन	२२	सतहत्तर	७७
तीन	३	अट्ठाईस	२८	तिरपन	२३	अठहत्तर	७८
चार	४	उतीस	२९	चौवन	२४	उनासी	७९
पाँच	५	तीस	३०	पचपन	२५	अस्सी	८०
छः	६	इकतीस	३१	छप्पन	२६	इक्यासी	८१
सात	७	बत्तीस	३२	सत्तावन	२७	बयासी	८२
आठ	८	तेँतीस	३३	अट्ठावन	२८	तिरासी	८३
नौ	९	चौँतीस	३४	उनसठ	२९	चौरासी	८४
दस	१०	पैंतीस	३५	साठ	३०	पचासी	८५
ग्यारह	११	छत्तीस	३६	इकसठ	३१	छियासी	८६
बारह	१२	सैंतीस	३७	बासठ	३२	सतासी	८७
तेरह	१३	अडतीस	३८	तिरसठ	३३	अठासी	८८
चौदह	१४	उतालीस	३९	चौँसठ	३४	नवासी	८९
पंद्रह	१५	चालीस	४०	पैंसठ	३५	नव्वे	९०
सोळह	१६	इकतालीस	४१	छियासठ	३६	इक्यानवे	९१
सत्रह	१७	बयालीस	४२	सढसठ	३७	बानवे	९२
अठारह	१८	तेँतालीस	४३	अडसठ	३८	तिरानवे	९३
उन्नीस	१९	चौवालीस	४४	उनहत्तर	३९	चौरानवे	९४
बीस	२०	पैंतालीस	४५	सत्तर	४०	पंचानवे	९५
इक्कीस	२१	छियालीस	४६	इकहत्तर	४१	छियानवे	९६
बाईस	२२	सैंतालीस	४७	बहत्तर	४२	सत्तानवे	९७
तेईस	२३	अडतालीस	४८	तिहत्तर	४३	अट्टानवे	९८
चौबीस	२४	उनचास	४९	चौहत्तर	४४	निन्नानवे	९९
पच्चीस	२५	पचास	५०	पचहत्तर	४५	सौ	१००

१७०—दहाई की सख्याओं में एक से लेकर आठ तक अंकों

का उच्चारण दहाइयों के पहले होता है; जैसे, “चौ-दह,” चौ-बीस,” “पैं-तीस,” “पैं-तालीस” इत्यादि ।

(क) दहाई की संख्या सूचित करने में इकाई और दहाई के अंकों का उच्चारण कुछ बदल जाता है, जैसे,

एक = इक ।	दस = रह ।
दो = बा, ब ।	बीस = ईस ।
तीन = ते, तिर, ति ।	तीस = तीस ।
चार = चौ, चाँ ।	चालीस = तालीस ।
पाँच = पंद, पच, पैं, पच ।	पचास = वन, पन ।
छः = सो, छ ।	साठ = सठ ।
सात = सत, सैं, सड ।	सत्तर = इत्तर ।
आठ = अठ, अड ।	अस्सी = आसी ।
	नव्वे = नवे ।

१७१—बोस से लेकर अस्सी तक प्रत्येक दहाई के पहले की संख्या सूचित करने के लिये उस दहाई के नाम के पहले “उन” शब्द का उपयोग होता है, जैसे, उन्नीस,” “उंतीस,” “उनसठ,” इत्यादि । यह शब्द संस्कृत के “ऊन” शब्द का अपभ्रंश है । “नवासी” और “निन्नानवे” में क्रमशः और “नव” और “निन्ना” जोड़े जाते हैं । संस्कृत में इन संख्याओं के रूप “नवाशीति” और “नवनवति” हैं ।

१७२—सौ से ऊपर की संख्या जताने के लिये एक से अधिक शब्दों का उपयोग किया जाता है; जैसे, १२५ = “एक सौ पच्चीस,” २७५ = “दो सौ पचहत्तर” इत्यादि ।

(अ) सौ और दो सौ के बीच की संख्याएँ प्रगट करने के लिये कभी कभी छोटी संख्या को पहले कहकर फिर बड़ी संख्या बोलते हैं । इकाई के साथ “ओत्तर” (सं०—उत्तर = अधिक) और दहाई के साथ “आ” जोड़ा जाता है, जैसे, “अटोत्तर सौ” =

१०८, “चालीसा सौ” = १४०, इत्यादि । इनका प्रयोग बहुधा गणित और पहाड़ों में होता है ।

१७३—नीचे लिखी संख्याओं के लिए अलग अलग नाम हैं—

१००० = हजार (स० सहस्र) ।

१०० हजार = लाख ।

१०० लाख = करोड़ ।

१०० करोड़ = अर्ब ।

१०० अर्ब = खर्व ।

(अ) खर्व से उत्तरोत्तर सौ सौ गुनी संख्याओं के लिये क्रमशः नील, पद्म, शंख आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है । इन संख्याओं से बहुधा असख्यता का बोध होता है ।

(आ) अपूर्णक-बोधक विशेषण ।

१७४—अपूर्णक-बोधक विशेषण से पूर्ण-संख्या के किसी भाग का बोध होता है, जैसे, पाव = चौथाई भाग, पौन = तीन भाग, सवा = एक पूर्णक और चौथाई भाग, अढाई = दो पूर्णक और आधा, इत्यादि ।

(अ) दूसरे अपूर्णक-बोधक शब्द अंश (सं०), भाग वा हिस्सा (फ़ा०) शब्द के उपयोग से सूचित होते हैं, जैसे, तृतीयांश वा तीसरा हिस्सा वा तीसरा भाग, दो पंचमाश (पाँच भागों में से दो भाग), इत्यादि । तीसरे हिस्से को “तिहाई” और चौथे हिस्से को “चौथाई” भी कहते हैं ।

१७५—अपूर्णक-बोधक विशेषणों के नाम और अंक नीचे लिखे जाते हैं—

पाव = १, $\frac{१}{४}$

सवा = ११, $१\frac{१}{४}$

आधा = ११, $\frac{१}{२}$

ढेढ = १११, $१\frac{१}{२}$

पौन = १११, $\frac{१}{३}$

पौन दो = ११११, $१\frac{१}{३}$

अढ़ाई या ढाई = २॥, २½ साढ़े तीन = ३॥, ३½

(अ) एक से अधिक संख्याओं के साथ पाव और पौन सूचित करने के लिये पूर्णांक-बोधक शब्द के पहले क्रमगः “सवा” (सं० सपाद) और “पौने” (सं० पादीन) शब्दों का उपयोग किया जाता है; जैसे, “सवा दो” = २½; “पौने तीन” = २¾; इत्यादि ।

(आ) तीन और उससे ऊपर की संख्याओं में आधे की अधिकता सूचित करने के लिये ‘साढ़े’ (सं०-सार्ध) का उपयोग होता है; जैसे, ‘साढ़े चार’ = ४½; ‘साढ़े दस’ = १०½; इत्यादि ।

[सूचना—“पौने” और “साढ़े” शब्द कभी अकेले नहीं आते । “सवा अकेला १½ के लिए आता है ।]

१७६—सौ, हजार, लाख, इत्यादि संख्याओं में भी अपूर्णांक-बोधक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे, “सवा सौ” = १२५; ढाई सौ = २५०; “साढ़े तीन हजार” = ३५००; “पौने पाँच लाख” = ४७५०००; इत्यादि ।

१७७—अपूर्णांक-बोधक शब्द माप-तौल-वाचक संज्ञाओं के साथ भी आते हैं; जैसे, “सवा सेर,” “ढेढ़ गज,” “पौने तीन कोस,” इत्यादि ।

१७८—कभी कभी अपूर्णांक-बोधक संज्ञा आना के हिसाब में भी सूचित की जाती है; जैसे, “इस साल चौदह आने फसल हुई है ।” “इस व्यापार में मेरा चार आने हिस्सा है ।” इत्यादि ।

१७९—गणनावाचक विशेषणों के प्रयोग में नीचे लिखी विशेषताएँ हैं—

(अ) पूर्णांक-बोधक विशेषण के साथ एक लगाने से “लगभग” का अर्थ पाया जाता है, जैसे, “दस एक आदमी,” “चालीस एक गायें,” इत्यादि ।

“सौ एक” का अर्थ “सौ के लगभग” है; परंतु “एक सौ एक” का अर्थ “सौ और एक” है ।

अनिश्चय अथवा अनादर के अर्थ में “ठो” जोड़ा जाता है; जैसे दांठो रोटियाँ, पचासठों आदमी ।

[सूचना—कविता में “एक” के बदले बहुधा ‘क’ जोड़ा जाता है, जैसे, चली छ-सातक हाथ, “दिन दूक तें” । (सत०) ।]

(आ) एक के अनिश्चय के लिये उसके साथ आद या आध लगाते हैं; जैसे एक आद टोपी, एक-आध कवित्त ।

एक और आद (आव) में बहुधा सधि भी हो जाती है; जैसे, एकाद, एकाध ।

(इ) अनिश्चय के लिए कोई भी दो पूर्णांक-बोधक विशेषण साथ साथ आते हैं, जैसे, “दो-चार दिन में,” “दस-बीस रुपये,” “सौ-दो-सौ आदमी,” इत्यादि ।

“डेढ़ दो,” “अढ़ाई-तीन” आदि भी बोलते हैं । “उन्नीस-बीस” कहने से कुछ कमी समझी जाती है; जैसे, ‘बीमारी अब उन्नीस-बीस है’ । “तीन-पाँच” का अर्थ “लड़ाई” है और “तीन-तेरह” का अर्थ “तितर-वितर” है ।

(ई) “बीस,” “पचास,” “सैकड़ा,” “हजार,” “लाख” और “करोड़” में ओं जोड़ने से अनिश्चय का बोध होता है, जैसे “बीसों आदमी,” “पचासों घर,” “सैकड़ों रुपये,” “हजारों बरस” “करोड़ों पंडित,” इत्यादि ।

[सूचना—एक लेखक हिंदी “करोड़” शब्द के साथ “ओं” के बदले फ़ारसी का “हा” प्रत्यय जोड़कर “करोडहा” लिखते हैं, जो अशुद्ध है ।]

१८०—**क्रम-वाचक** विशेषणसे किसी वस्तु की क्रमानुसार गणना का बोध होता है; जैसे, पहला, दूसरा, पाँचवाँ, बीसवाँ, इत्यादि ।

(अ) क्रम-वाचक विशेषण पूर्णांक-बोधक विशेषणों से बनते हैं ।

पहले चार क्रम-वाचक विशेषण नियम-रहित हैं; जैसे,

एक = पहला

तीन = तीसरा

दो = दूसरा

चार = चौथा

(आ) पाँच से लेकर आगे के शब्दों में “वाँ” जोड़ने से क्रम-वाचक विशेषण बनते हैं; जैसे,

पाँच = पाँचवाँ

दस = दसवाँ

छः = (छठवाँ) छठा

पंद्रह = पंद्रहवाँ

आठ = आठवाँ

पचास = पचासवाँ

(इ) सौ से ऊपर की संख्याओं में पिछले शब्द के अंत में वाँ लगाते हैं; जैसे, एक सौ तीनवाँ, दो सौ आठवाँ, इत्यादि ।

(ई) कभी कभी संस्कृत क्रम-वाचक विशेषणों का भी उपयोग होता है; जैसे प्रथम (पहला), द्वितीय (दूसरा), तृतीय (तीसरा), चतुर्थ (चौथा), पंचम (पाँचवाँ), षष्ठ (छठा), दशम (दसवाँ) ।

(उ) तिथियों के नामों में हिंदी शब्दों के सिवा कभी कभी संस्कृत शब्दों का भी उपयोग होता है; जैसे, हिंदी—दूज, तीज चौथ, पाँचें, छठ, इत्यादि । संस्कृत—द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पचमी, षष्ठी, इत्यादि ।

१८१—आवृत्तिवाचक विशेषण से जाना जाता है कि उसके विशेष्य का वाच्य पदार्थ कौ गुना है; जैसे, दुगुना, चौगुना, दसगुना, सौगुना, इत्यादि ।

(अ) पूर्णांक-बोधक विशेषण के आगे “गुना” शब्द लगाने से आवृत्ति-वाचक विशेषण बनते हैं । “गुना” शब्द लगाने के पहले दो से लेकर आठ तक संख्याओं के शब्दों में आद्य स्वर का कुछ विकार होता है; जैसे,

दो = दुगुना वा दूना

छः = छगुना

तीन = तिगुना

सात = सतगुना

चार = चौगुना

आठ = अठगुना

पाँच = पचगुना

नौ = नौगुना

(आ) परत वा प्रकार के अर्थ में 'हरा' जोड़ा जाता है, जैसे, इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा, इत्यादि ।

(इ) कभी कभी संस्कृत के आवृत्ति-वाचक विशेषणों का भी उपयोग होता है; जैसे, द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण, इत्यादि ।

(ई) पहाड़ों में आवृत्ति-वाचक और अपूर्ण-संख्या-बोधक विशेषणों के रूपों में कुछ अंतर हो जाता है, जैसे,

दूना—दूने, दूनी ।

सवा—सवाम ।

तिगुना—तिया, तिरिक ।

डेढ़—डेवढे ।

चौगुना—चौक ।

अढाई—अढाम ।

पंचगुना—पंचे ।

छगुना—छक ।

सतगुना—सत्ते ।

अठगुना—अठे ।

नौगुना—नवाँ, नवें ।

दसगुना—दहाम ।

[सूचना—इन शब्दों का उच्चारण भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है ।]

१८२—समुदाय-वाचक विशेषणों से किसी पूर्णांक-बोधक संख्या के समुदाय का बोध होता है; जैसे, दोनों हाथ, चारों पाँव, आठों लड़के, चालीसों चोर, इत्यादि ।

(अ) पूर्णांक-बोधक विशेषणों के आगे 'ओ', जोड़ने से समुदाय-वाचक विशेषण बनते हैं, जैसे, चार-चारों, दस-दसों, सोलह-सोलहों, इत्यादि । छः का रूप 'छअँ' होता है ।

(आ) "दो" से "दोनो" बनता है । 'एक' का समुदाय-वाचक रूप "अकेला" है । "दोनों" का प्रयोग बहुधा सर्वनाम के

समान होता है; जैसे, “दुविधा में **दोनों** गये, माया मिली न राम।” “अकेला” कभी कभी क्रिया-विशेषण के समान आता है; जैसे, “विपिन **अकेलि** फिरहु कोहि हेतू।” (राम०)।

[सूचना—“ओं” प्रत्यय अनिश्चय में भी आता है (अ०-१७६-ई)।]

(इ) कभी कभी समुदायवाचक विशेषण की द्विरुक्ति भी होती है, जैसे, “**पाँचों के पाँचों** आदमी चले गये।” “**दोनों के दोनों** लड़के मूर्ख निकले।”

(ई) समुदाय के अर्थ में कुछ संज्ञाएँ भी आती हैं; जैसे,
 जोड़ा, जोड़ी = दो। गंडा = चार या पाँच।
 दहाई = दस। गाही = पाँच।
 कोड़ी, बीसा, बीसी = बीस। चालीसा = चालीस।
 बत्तीसी = बत्तीस। सैकड़ा = सौ।
 छक्का = छः। दर्जन (अ०) = बारह।

(उ) युग्म (दो), पंचक (पाँच), अष्टक (आठ) आदि संस्कृत समुदाय-वाचक संज्ञाएँ भी प्रचार में हैं।

१८३—प्रत्येक-बोधक विशेषण से कई वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध होता है; जैसे “हर घड़ी”, “हर एक आदमी”, “प्रति-जन्म”, “प्रत्येक बालक”, “हर आठवें दिन”, इत्यादि।

“हर” के बदले कभी कभी उर्दू “फ़ी” आता है, जैसे, कीमत फ़ी जिल्द (—)।

(अ) गणना-वाचक विशेषणों की द्विरुक्ति से भी यही अर्थ निकलता है, जैसे, “**एक-एक** लड़के को **आधा-आधा** फल मिला।”
 “**दवा दो-दो** घंटे के बाद दो जात्रे।”

(आ) अपूर्णाक-बोधक विशेषणों में मुख्य शब्द की द्विरुक्ति होती है; जैसे “**सवा-सवा** गज”, “**ढाई-ढाई** सौ रुपय”, “**पौने दो-दो** मन”, “**साढ़े पाँच-पाँच** हजार”, इत्यादि

(२) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ।

१८४—जिस संख्या-वाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे, एक, दूसरा, (अन्य, और) सब (सर्व, सकल, समस्त, कुल) बहुत (अनेक, कई, नाना) अधिक (.ज्यादा), कम, कुछ, आदि, (इत्यादि, वगैरह), अमुक, (फलाना), कै ।

अनिश्चित संख्या के अर्थ में इनका प्रयोग बहुवचन में होता है । और और विशेषणों के समान ये विशेषण भी संज्ञा के समान उपयोग में आते हैं, और इनमें से कोई कोई परिमाण-बोधक विशेषण भी होते हैं ।

(१) “एक” पूर्णाक बोधक विशेषण है; परंतु इसका प्रयोग बहुधा अनिश्चय के लिए होता है ।

(अ) ‘एक’ से कभी कभी “कोई” का अर्थ पाया जाता है; जैसे, “एक दिन ऐसा हुआ” । “हमने एक बात सुनी है ।”

(आ) जब “एक” (विशेष्य के बिना) संज्ञा के समान आता है तब उसका प्रयोग कभी कभी बहुवचन के अर्थ में होता है; और दूसरे वाक्य में उसकी द्विरुक्ति भी होती है; जैसे, “इक प्रविशहिँ इक निर्गमहिँ ।” (राम०) । “एक रोता है और एक हँसता है ।”

(इ) “एक” कभी कभी ‘केवल’ के अर्थ में क्रिया-विशेषण होता है; जैसे, “एक आधा सेर आटा चाहिए” । “एक तुम्हारे ही दुख से हम दुखी हैं ।”

(ई) “एक” के साथ “सा” प्रत्यय लगाने से “समान” का अर्थ पाया जाता है, जैसे, “दोनों का रूप एकसा है ।”

(उ) अनिश्चय के अर्थ में “एक” कुछ सर्वनामों और विशेषणों में जोड़ा जाता है; जैसे, कोई एक, कुछ एक, दस एक, कई एक, कितने एक, इत्यादि ।

(ऊ) “एक—एक” कभी कभी “यह—वह” के अर्थ में निश्चय-वाचक सर्वनाम के समान आता है; जैसे,

“पुनि बंदौ शारद सुर-सरिता ।

युगल पुनीत मनोहर चरिता ॥

मज्जन पान पापहर एका ।

कहत सुनत इक हर अविवेका ॥”—(राम०) ।

(२) “दूसरा” “दो” का क्रम-वाचक विशेषण है । यह “प्रकृत प्राणी या पदार्थ से भिन्न” के अर्थ में आता है; जैसे, “यह दूसरी घात है ।” “द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर ।” (तु० स०) । “दूसरा” के पर्यायवाची “अन्य” और “और” हैं; जैसे, “अन्य पदार्थ”, “और जाति ।”

(अ) कभी कभी “दूसरा” “एक” के साथ विचित्रता (तुलना) के अर्थ में संज्ञा के समान आता है; जैसे “एक जलता मांस मारे लृष्णा के मुँह में रख लेता है..... और दूसरा उसीको फिर भट से खा जाता है ।” (सत्य०) ।

(आ) “एक—एक” के समान “एक—दूसरा” अथवा “पहला—दूसरा” पहले कही हुई दो वस्तुओं का क्रमानुसार निश्चय सूचित करता है; जैसे, “प्रतिष्ठा के लिये दो विद्याएँ हैं, एक शास्त्रविद्या और दूसरी शास्त्रविद्या । पहली बुढ़ापे में हँसी कराती है, परंतु दूसरी का सदा आदर होता है ।”

(इ) “एक—दूसरा” यौगिक शब्द है और इसका प्रयोग “आपस” के अर्थ में होता है । यह बहुधा सर्वनाम के समान (संज्ञा के बदले में) आता है, जैसे, “लड़के एक-दूसरे से लड़ते हैं ।”

(ई) “और” कभी कभी “अधिक संख्या” के अर्थ में भी आता है; जैसे, “मैं और आम लूंगा ।”

(उ) “और का और” विशेषण-वाक्यांश है और उसका अर्थ ‘भिन्न’ होता है, जैसे, उमने और का और काम कर दिया ।

(ऊ) “और” समुच्चय बोधक भी होता है, जैसे, “हवा चली और पानी गिरा ।” (अ०—२४४) ।

(ऋ) “कोई”, “कुछ”, “कौन” और “क्या” के साथ भी “और” आता है, जैसे, “असल चोर कोई और है ।” “मैं कुछ और कहूँगा ।” “तुम्हारे साथ और कौन है ?” “मरने के सिवा और क्या होगा ।”

(३) “सब” पूरी संख्या सूचित करता है, परंतु अनिश्चित रूप से । “सब” में पाँच भी शामिल है और पचास भी । इसका प्रयोग बहुधा बहुवचन संज्ञा के साथ होता है, जैसे, “सब लड़के ।” “सब फपड़े ।” “सब भीड़ ।” “सब प्रकार ।”

(अ) संज्ञा-रूप में इसका प्रयोग “संपूर्ण प्राणी वा पदार्थ” के अर्थ में आता है, जैसे, “सब यही बात कहते हैं ।” “रुब के दाता राम ।” “आत्मा सब में व्याप्त है ।” “मैं रुब जानता हूँ ।”

(आ) “सब” के साथ “कोई” और “कुछ” आते हैं । “सब कोई” और “सब कुछ” के अर्थ का अंतर “कोई” और “कुछ” (सर्वनामों) के ही समान है; जैसे, “सब कोई अपनी बड़ाई चाहते हैं ।” (शकु०) “हम समझते सब कुछ हैं ।” (सत्य०) ।

(इ) “सब का सब” विशेषण वाक्यांश है, और इसका प्रयोग “समस्तता” के अर्थ में होता है, जैसे, “सब के सब लड़के लौट आये ।”

(ई) “सब” के ग्यार्यायवाची “सर्व”, “सकल”, “समस्त” और “कुल” हैं । इन शब्दों का उपयोग बहुधा विशेषण ही के समान होता है ।

(४) “बहुत” “थोड़ा” का उलटा है । “जैसे मुसलमान थे बहुत और हिंदू थे थोड़े ।” (सर०) ।

(अ) “बहुत” के साथ “से” और “सारे” जोड़ने से कुछ अधिक संख्या का बोध होता है; जैसे, “बहुतसे लोग ऐसा समझते हैं ।” “बहुत-सारे लड़के ।” यह पिछला प्रयोग प्रांतीय है ।

(आ) “बहुत” के साथ “कुछ” भी आता है । “बहुत कुछ” का अर्थ प्रायः “बहुतसे” के समान है, जैसे, “बहुत कुछ आदमी आये थे ।”

(इ) “अनेक” (अन् + एक) “एक” का उलटा है । इसका प्रयोग कम अनिश्चित संख्या के लिए होता है । “अनेक” और “कई” प्रायः समानार्थी हैं । उदा०—“अनेक जन्म”, “कई रंग”, इत्यादि । “अनेक” में विचित्रता के अर्थ में बहुधा “ओं” जोड़ देते हैं; जैसे, “अनेकों रोग”, “अनेकों” मनुष्य, इत्यादि ।

(ई) “कई” के साथ बहुधा “एक” आता है । “कई एक” का अर्थ प्रायः “कई प्रकार का” है और उसका पर्यायवाची “नाना” है; जैसे, “कई एक ब्राह्मण”, “नाना वृत्त”, इत्यादि ।

(५) “अधिक” और “ज्यादा” तुलना में आते हैं; जैसे, “अधिक रुपया”, “ज्यादा दिन”, इत्यादि ।

(६) “कम” “ज्यादा” का उलटा है और इसीके समान तुलना में आता है; जैसे, “हम यह कपड़ा कम दामों में बेचते हैं ।”

(७) “कुछ” अनिश्चय-वाचक सर्वनाम होने के सिवा (अं०— १३३, १५१-उ) संख्या का भी द्योतक है । यह “बहुत” का उलटा है; जैसे, “कुछ लोग”, “कुछ फल”, “कुछ तारे”, इत्यादि ।

(८) “आदि” का अर्थ “और ऐसे ही दूसरे” है । इसका प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों के समान होता है; जैसे, “आप

मेरी दैवी और मानुषी आदि सभी आपत्तियों के नाश करनेवाले हैं ।” (रघु०) । “विद्यानुरागिता, उपकारप्रियता, आदि गुण जिसमें सहज हों ।” (सत्य०) । “इस युक्ति से उसको टोपी, रुमाल, घड़ी, छड़ी, आदि का बहुधा फायदा हो जाता था ।” (परी०) । “आदि” के पर्याय-वाचक “इत्यादि” और “वगैरह” हैं । “वगैरह” उर्दू (अरबी) शब्द है, हिंदी में इसका प्रयोग क्वचित् होता है । “इत्यादि” का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात् होता है, जैसे, “खबरदार इत्यादि कहता हुआ ।” (सत्य०) । “छोपन इत्यादि देहा पढता है ।” (रत्ना०) । “क्या हुआ, क्या देखा, इत्यादि ।” (भाषा-सार०) । पठन, मनन, घोषणा, इत्यादि सब शब्द यही गवाही देते हैं ।” (इति०) ।

[सूचना—“आदि”, “इत्यादि” और “वगैरह” शब्दों का उपयोग बार बार करने से लेखक की असावधानी और अर्थ का अनिश्चय सूचित होता है । एक उदाहरण के पश्चात् आदि, और एक से अधिक के बाद इत्यादि लाना चाहिए, जैसे, घर आदि की व्यवस्था, कपड़े, भोजन, इत्यादि का प्रबंध ।

(८) “अमुक” का प्रयोग “कोई एक” (अं०-१३२-उ) के अर्थ में होता है, जैसे, “आदमी यह नहीं कहते कि अमुक बात, अमुक राय या अमुक सम्मति निर्दोष है ।” (स्वा०) । “अमुक” का पर्यायवाची ‘ फलाना’ (उर्दू—फ़लाँ) है ।

(१०) “कै” का अर्थ प्रश्नवाचक विशेषण “कितने” के समान है । इसका प्रयोग सज्ञा की नाई क्वचित् होता है, जैसे, “कै लड़के”, “कै आम”, इत्यादि ।

(३) परिमाण बोधक विशेषण ।

१-५—परिमाण-बोधक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है, जैसे, और, सब, सारा, समूचा, अधिक

(ज्यादा), बहुत, बहुतेरा, कुछ (अल्प, किंचित्, ज़रा), कम, थोड़ा, पूरा, अधूरा, यथेष्ट, इत्यादि ।

(अ) इन शब्दों से केवल अनिश्चित परिमाण का बोध होता है; जैसे, “और घी लाओ”, “सब धान”, “सारा कुटुंब”, “बहुतेरा काम”, “थोड़ी बात”, इत्यादि ।

(आ) ये विशेषण एकवचन संज्ञा के साथ परिमाण-बोधक और बहुवचन संज्ञा के साथ अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं; जैसे,

परिमाण-बोधक	अनिश्चित संख्यावाचक
बहुत दूध	बहुत आदमी
सब जंगल	सब पेड़
सारा देश	सारे देश
बहुतेरा काम	बहुतेरे उपाय
पूरा आनंद	पूरे टुकड़े

“अल्प”, “किंचित्” और “ज़रा” केवल परिमाण-वाचक हैं ।

(इ) निश्चित परिमाण बताने के लिए संख्यावाचक विशेषण के साथ परिमाण-बोधक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है; जैसे, “दो सेर घी”, “चार गज़ मलमल”, “दस हाथ जगह”, इत्यादि ।

(ई) परिमाण-बोधक संज्ञाओं में “ओं” जोड़ने से उनका प्रयोग अनिश्चित-परिमाण-बोधक विशेषणों के समान होता है; जैसे ढेरो इलायची, मनों घी, गाड़ियों फल, इत्यादि ।

(उ) एक का परिमाण सूचित करने के लिए परिमाण-बोधक संज्ञा के साथ “भर” प्रत्यय जोड़ देते हैं; जैसे,

एक गज़ कपड़ा = गज़-भर कपड़ा ।

एक तोला सोना = तोले-भर सोना ।

एक हाथ जगह = हाथ-भर जगह ।

(ऊ) कोई कोई परिमाणबोधक विशेषण एक दूसरे से मिलकर आते हैं; जैसे,

“बहुत-सारा काम”, “बहुत-कुछ आशा”

“थोड़ा-बहुत लाभ”, “कम-ज़्यादा आमदनी” ।

(ऋ) “बहुत”, “थोड़ा”, “जरा”, “अधिक” (ज़्यादा) के साथ निश्चय के अर्थ में “सा” प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे, “बहुतसा लाभ”, “थोड़ीसी विद्या”, “जरासी बात” “अधिकसा बल” । इत्यादि ।

(ए) कोई कोई परिमाणवाचक विशेषण क्रियाविशेषण भी होते हैं, जैसे, “नल ने दमयती को बहुत समझाया ।” (गुटका०) । “यह बात तो कुछ ऐसी बड़ी न थी ।” (शकु०) । “जिनको और सारे पदार्थों की अपेक्षा यश ही अधिक प्यारा है ।” (रघु०) । “लकीर और सीधी करो ।” “यह सोना थोड़ा खोटा है ।” “थोड़े” का अर्थ प्रायः “नहीं” के बराबर होता है; जैसे, “हम लडते थोड़े हैं ।”

संख्या-वाचक विशेषणों की व्युत्पत्ति ।

१८६—हिंदी के सब संख्यावाचक विशेषण प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं; जैसे,


सं०	प्रा०	हि०	सं०	प्रा०	हि०
एक	एक	एक	विंशति	वीसई	बीस
द्वि	दुवे	दो	त्रिंशत्	तीसआ	तीस
त्रि	तिण्ण	तीन	चत्वारिंशत्	चत्तालीसा	चालीस
चतुर्	चत्तारि	चार	पञ्चाशत्	पण्णासा	पचास
पञ्चम्	पञ्च	पांच	षष्टि	सट्ठि	साठ
षट्	छ	छः	सप्तति	सत्तरी	सत्तर
सप्तम्	सत्त	सात	अशीति	आसीई	अस्सी

अष्टम्	अट्ठ	आठ	नवति	नउए	नव्वे
नवम्	नअ	नौ	शत	सअ	सौ
दशम्	दस	दस	सहस्र	सहस	सहस्र

प्रथम	पठमो	पहला	चतुर्थ	चउथे	चौथा
द्वितीय	दुइअ	दूसरा	पञ्चम	पंचमो	पांचवाँ
तृतीय	तइअ	तीसरा	षष्ठ	छट्ठो	छठा

[टी०—हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में विशेषणों के भेद और उपभेद नहीं किये गये। इसका कारण ऋदाचित् वर्गीकरण के न्याय-सम्मत आधार का अभाव हो। विशेषणों के वर्गीकरण का कारण हम हम अध्याय के आरंभ में लिख आये हैं। इनका वर्गीकरण केवल “भाषातत्त्वदीपिका” में पाया जाता है। इसलिए हम अपने किये हुए भेदों का मिलान इसी पुस्तक में दिये गए भेदों से करते हैं। इस पुस्तक में “संख्या-विशेषण” के पाँच भेद किये गये हैं—(१) संख्यावाचक (२) समूहवाचक (३) क्रमवाचक (४) आवृत्ति-वाचक और (५) सख्याशवाचक। इनमें “संख्या-विशेषण” और “संख्या-वाचक” एक ही अर्थ के दो नाम हैं जो क्रमशः जाति और उपजाति को दिये गये हैं। इससे नामों की गड़बड़ के सिवा कोई लाभ नहीं है। फिर “संख्याश-वाचक” नाम का जो एक भेद है उसका समावेश “संख्या-वाचक” में हो जाता है, क्योंकि दोनों भेदों के प्रयोग समान हैं। जिन प्रकार एक, दो, तीन, आदि शब्द वस्तुओं की संख्या सूचित करते हैं उसी प्रकार आधा, पौन, सवा, आदि भी संख्या सूचित करनेवाले हैं। इसके सिवा अनिश्चित संख्या-वाचक विशेषण “भाषा-तत्त्व दीपिका” में स्वीकार ही नहीं किया गया। उसके कुछ उदाहरण इस पुस्तक में ‘सामान्य सर्वनाम’ के नाम से आये हैं, परंतु उनके विशेषणीभूत प्रयोग का कहीं उल्लेख ही नहीं है। प्रत्येक-बोधक विशेषण के विषय में भी “भाषा-तत्त्व-दीपिका” में कुछ नहीं कहा गया। हमने संख्या-वाचक विशेषण के सब मिलाकर सात भेद नीचे लिखे अनुसार किये हैं—

संख्यावाचक



यह वर्गीकरण भी बिल्कुल निर्दोष नहीं है, परंतु इसमें प्रायः सभी संख्या-वाचक विशेषण आ गये हैं, और रूढ़ तथा अर्थ में एक वर्ग दूसरे से बहुधा भिन्न है।]

चौथा अध्याय ।

क्रिया ।

१८७—जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे **क्रिया** कहते हैं, जैसे, “हरिण भागा,” “राजा नगर में आये” “मैं जाऊँगा,” “घास हरी होती है” । पहले वाक्य में हरिण के विषय में “भागा” शब्द के द्वारा विधान किया गया है, इसलिए “भागा” शब्द क्रिया है । इसी प्रकार दूसरे वाक्य में “आये”, तीसरे वाक्य में “जाऊँगा” और चौथे वाक्य में “होती है” शब्द से विधान किया गया है, इसलिए “आये” “जाऊँगा” और “होती है” शब्द क्रिया हैं ।

१८८—जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे **धातु** कहते हैं, जैसे, “भागा” क्रिया में “आ” प्रत्यय है जो “भाग” मूल शब्द में लगा है ; इसलिए “भागा” क्रिया का धातु “भाग” है । इसी तरह “आये” क्रिया का धातु “आ”, “जाऊँगा”

क्रिया का धातु “जा”, और “होती है” क्रिया का धातु “हो” है ;
 (अ) धातु के अंत में “ना” जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे
क्रिया का साधारण रूप कहते हैं ; जैसे “भाग-ना, आ-ना,
 जा-ना, हो-ना,” इत्यादि । कोई कोई भूल से इसी साधारण
 रूप को धातु कहते हैं । कोश में भाग, आ, जा, हो, इत्यादि
 धातुओं के बदले क्रिया के साधारण रूप, भागना, आना, जाना,
 होना, इत्यादि लिखने की चाल है ।

(आ) क्रिया का साधारण रूप क्रिया नहीं है ; क्योंकि उसको
 उपयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान नहीं कर सकते ।
 विधि-काल के रूप को छोड़कर क्रिया के **साधारण रूप** का
 प्रयोग संज्ञा के समान होता है । कोई कोई इसे क्रियार्थक
 संज्ञा कहते हैं ; परंतु यह क्रियार्थक संज्ञा भाव-वाचक संज्ञा के
 अंतर्गत है । उदा०—“**पढ़ना एक गुण है ।**” “**मैं पढ़ना**
सीखता हूँ ।” “**छुट्टी में अपना पाठ पढ़ना ।**” अंतिम वाक्य
 में “पढ़ना” क्रिया (विधि-काल में) है ।

(इ) कई एक धातुओं का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा के समान
 होता है , जैसे, “हम **नाच** नहीं देखते । ” “आज घोड़ों की
दौड़ हुई ।” “तुम्हारी **जाँच** ठीक नहीं निकली ।”

(ई) किसी वस्तु के विषय में विधान करनेवाले शब्दों को क्रिया
 इसलिए कहते हैं कि अधिकांश धातु जिनसे ये शब्द बनते हैं
 क्रियावाचक हैं ; जैसे, पढ़, लिख, उठ, बैठ, चल, फेंक, काट,
 इत्यादि । कोई कोई धातु स्थिति-दर्शक हैं, जैसे, सो, गिर, मर,
 हो, इत्यादि और कोई कोई विकारदर्शक हैं ; जैसे, बन, दिख,
 निकल, इत्यादि ।

[टी०—क्रिया के जो लक्षण हिंदी व्याकरणों में दिये गये हैं उनमें से
 प्रायः सभी लक्षणों में क्रिया के अर्थ का विचार किया गया है ; जैसे,—“क्रिया

काम को कहते हैं ।” अर्थात् “जिस शब्द से करने अथवा होने का अर्थ किसी काल, पुरुष और वचन के साथ पाया जाय ।” (भाषा-प्रभाकर) । व्याकरण में शब्दों के लक्षण और वर्गीकरण के लिए उनके रूप और प्रयोग के साथ कभी कभी अर्थ का भी विचार किया जाता है, परंतु केवल अर्थ के अनुसार लक्षण करने से विवेचन में गड़बड़ होती है । यदि क्रिया के लक्षण में केवल “करना” या “होना” का विचार किया जाय तो “जाना”, “जाता हुआ”, “जानेवाला” आदि शब्दों को भी ‘क्रिया’ कहना पड़ेगा । भाषा-प्रभाकर में दिये हुए लक्षण में जो काल, पुरुष और वचन की विशेषता बताई गई है वह क्रिया का असाधारण धर्म नहीं है और वह लक्षण एक प्रकार का वर्णन है ।

क्रिया का जो लक्षण यहाँ लिखा गया है उस पर भी यह आक्षेप हो सकता है कि कोई कोई क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतीं—जैसे, “राजा दयालु हैं ।” “पत्नी घोंसले बनाते हैं ।” इन उदाहरणों में “हैं” और “बनाते हैं” क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतीं । इनके साथ क्रमशः “दयालु” और “घोंसले” शब्द रखने की आवश्यकता हुई है । इस आक्षेप का उत्तर यह है कि इन वाक्यों में “हैं” और “बनाते हैं” विधान करनेवाले मुख्य शब्द हैं और उनके बिना काम नहीं चल सकता, चाहे उनके साथ कोई शब्द रहे या न रहे । क्रिया के साथ किसी दूसरे शब्द का रहना या न रहना उसके अर्थ की विशेषता है ।]

१८६—धातु मुख्य दो प्रकार के होते हैं—(१) सकर्मक और (२) अकर्मक ।

१८७—जिस धातु से सूचित होनेवाले व्यापार का फल कर्त्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक धातु कहते हैं । जैसे, “सिपाही चोर को पकड़ता है ।” “नौकर चिट्ठी लाया ।” इत्यादि । पहले वाक्य में “पकड़ता है” क्रिया के व्यापार का फल “सिपाही” कर्त्ता से निकलकर चोर पर पड़ता है, इसलिए “पकड़ता है” क्रिया (अथवा “पकड़” धातु) सकर्मक है । दूसरे वाक्य में “लाया” क्रिया (अथवा “ला” धातु) सकर्मक है, क्योंकि उसका फल “नौकर” कर्त्ता से निकलकर “चिट्ठी” कर्म पर पड़ता है ।

(अ) कर्त्ता का अर्थ है “करनेवाला” । क्रिया के व्यापार का करनेवाला (प्राणी वा पदार्थ) “कर्त्ता” कहलाता है । जिस शब्द से इस करनेवाले का बोध होता है उसे भी (व्याकरण में) बहुधा “कर्त्ता” कहते हैं ; पर यथार्थ में शब्द कर्त्ता नहीं हो सकता । शब्द को कर्त्ता कारक अथवा कर्तृपद कहना चाहिए । जिन क्रियाओं से स्थिति वा विकार का बोध होता है उनका कर्त्ता वह पदार्थ है जिसकी स्थिति वा विकार के विषय में विधान किया जाता है ; जैसे, “स्त्री चतुर है ।” “मंत्री राजा हो गया ।” इत्यादि ।

(आ) धातु से सूचित होनेवाले व्यापार का फल कर्त्ता से निकलकर जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं ; जैसे, “सिपाही चोर को पकड़ता है ।” “नौकर चिट्ठी लाया ।” पहले वाक्य में “पकड़ता है” क्रिया का फल कर्त्ता से निकलकर चोर पर पड़ता है ; इसलिए “चोर” कर्म है । दूसरे वाक्य में “लाया” क्रिया का फल चिट्ठी पर पड़ता है ; इसलिए “चिट्ठी” कर्म है । “सकर्मक” शब्द का अर्थ है “कर्म के सहित” और कर्म के साथ आने ही से क्रिया “सकर्मक” कहलाती है ।

१८१—जिस धातु से सूचित होनेवाला व्यापार और उसका फल कर्त्ता ही पर पड़े उसे अकर्मक धातु कहते हैं ; जैसे, “गाड़ी चली ।” “लड़का सोता है ।” पहले वाक्य में “चली” क्रिया का व्यापार और उसका फल “गाड़ी” कर्त्ता ही पर पड़ता है ; इसलिए “चली” क्रिया अकर्मक है । दूसरे वाक्य में “सोता है” क्रिया भी अकर्मक है, क्योंकि उसका व्यापार और फल “लड़का” कर्त्ता ही पर पड़ता है । “अकर्मक” शब्द का अर्थ है “कर्म-रहित” और कर्म के न होने ही से क्रिया “अकर्मक” कहाती है ।

(अ) “लड़का अपने को सुधार रहा है” — इस वाक्य में यद्यपि क्रिया के व्यापार का फल कर्त्ता ही पर पड़ता है, तथापि “सुधार रहा है” क्रिया सकर्मक है, क्योंकि इस क्रिया के कर्त्ता और कर्म एक ही व्यक्ति के वाचक होने पर भी अलग अलग शब्द हैं। इस वाक्य में “लड़का” कर्त्ता और “अपने को” कर्म है, यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के वाचक हैं।

१-६२—कोई कोई धातु प्रयोग के अनुसार सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं, जैसे, खुजलाना, भरना, लजाना, भूलना, घिसना, बदलना, ऐठना, ललचाना, घबराना, इत्यादि। उदा०— “मेरे हाथ खुजलाते हैं।” (अ०)। (शकु०)। “उसका बदन खुजलाकर उसकी सेवा करने में उसने कोई कसर नहीं की।” (स०)। (रघु०)। “खेल-तमाशों की चीजें देखकर भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है।” (अ०)। (परी०)। “ब्राइट अपने असबाब की खरीदारी के लिये मदनमोहन को ललचाता है।” (स०)। (तथा)। “बूँद बूँद करके तालाब भरता है।” (अ०)। (कहा०)। “प्यारी ने आँखें भरके कहा।” (स०)। (शकु०)। इनको उभय-विध धातु कहते हैं।

१-६३—जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न पड़कर सभी पदार्थों पर पड़ता है तब उसका कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती; जैसे “ईश्वर की कृपा से वहरा सुनता है और गूँगा बोलता है।” “इस पाठशाला में कितने लड़के पढ़ते हैं ?”

१-६४—कुछ अकर्मक धातु ऐसे हैं जिनका आशय कभी कभी अकेले कर्त्ता से पूर्णतया प्रकट नहीं होता। कर्त्ता के विषय में पूर्ण विधान होने के लिए इन धातुओं के साथ कोई संज्ञा या विशेष-

षण आता है। इन क्रियाओं को अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं और जो शब्द इनका आशय पूरा करने के लिए आते हैं उन्हें पूर्ति कहते हैं। “होना,” “रहना,” “बनना,” “दिखना,” “निकलना,” “ठहरना” इत्यादि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं। उदा०—“लड़का चतुर है।” “साधु चोर निकला।” “नौकर बीमार रहा।” “आप मेरे मित्र ठहरे।” “यह मनुष्य विदेशी दिखता है।” इन वाक्यों में “चतुर”, “चोर”, “बीमार” आदि शब्द पूर्ति हैं।

(अ) पदार्थों के स्वाभाविक धर्म और प्रकृति के नियमों का प्रकट करने के लिए बहुधा “है” या “होता है” क्रिया के साथ संज्ञा या विशेषण का उपयोग किया जाता है, जैसे “सोना भारी धातु है।” “घोड़ा चौपाया है।” “चांदी सफेद होती है।” “हाथी के कान बड़े होते हैं।”

(आ) अपूर्ण क्रियाओं से साधारण अर्थ में पूरा आशय भी पाया जाता है, जैसे, “ईश्वर है”, “सबेरा हुआ”, “सूरज निकला”, “गाड़ी दिखाई देती है”, इत्यादि।

(इ) सकर्मक क्रियाएँ भी एक प्रकार की अपूर्ण क्रियाएँ हैं; क्योंकि उनसे कर्म के बिना पूरा आशय नहीं पाया जाता। तथापि अपूर्ण अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में यह अंतर है कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया की पूर्ति से उसके कर्ता ही की स्थिति वा विकार सूचित होता है और सकर्मक क्रिया की पूर्ति (कर्म) कर्ता से भिन्न होती है, जैसे, “मंत्री राजा बन गया”, “मंत्रो ने राजा को बुलाया।” सकर्मक क्रिया की पूर्ति (कर्म) को बहुधा पूरक कहते हैं।

१८५—देना, बतलाना. कहना, सुनाना और इन्हीं अर्थों के दूसरे कई सकर्मक धातुओं के साथ दो दो कर्म रहते हैं। एक कर्म से बहुधा पदार्थ का बोध होता है और उसे मुख्य कर्म कहते

हैं; और दूसरा **कर्म** जो बहुधा प्राणि-वाचक होता है, **गौण कर्म** कहलाता है, जैसे, “गुरु ने **शिष्य को** (गौण कर्म) **पायी** (मुख्य कर्म) दी।” “मैं **तुम्हें उपाय** बताता हूँ।” इत्यादि।

(अ) गौण कर्म कभी कभी लुप्त रहता है; जैसे “राजा ने **दान** दिया।” “पंडित **कथा** सुनाते हैं।”

१८६—कभी कभी करना, बनाना, समझना, पाना, मानना, आदि धातुओं का आशय कर्म के रहते भी पूरा नहीं होता, इसलिए उनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण **पूर्ति** के रूप में आता है, जैसे, “अहल्याबाई ने गंगाधर को अपना **दीवान** बनाया।” “मैंने चोर को **साधु** समझा।” इन क्रियाओं को अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ कहते हैं और इनकी पूर्ति **कर्म-पूर्ति** कहलाती है। इससे भिन्न अकर्मक अपूर्ण क्रिया की पूर्ति को **उद्देश्य-पूर्ति** कहते हैं।

(अ) साधारण अर्थ में सकर्मक अपूर्ण क्रियाओं को भी **पूर्ति** की आवश्यकता नहीं होती, जैसे, “कुम्हार घड़ा **बनाता** है।” “लड़के पाठ **समझते** हैं।” इत्यादि।

१८७—किसी किसी अकर्मक और किसी किसी सकर्मक धातु के साथ उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा **कर्म** के समान प्रयुक्त होती है, जैसे, “लड़का अच्छी **चाल** चलता है।” “सिपाही कई **लड़ाइयाँ** लड़ा।” “लड़कियाँ **खेल** खेल रही हैं।” “पत्नी अनाखी **बोली** बोलते हैं।” “किसान ने चोर को बड़ी **मार** मारी।” इत्यादि। इस कर्म को बहुधा **सजातीय कर्म** और क्रिया को **सजातीय क्रिया** कहते हैं।

यौगिक धातु।

१८८—व्युत्पत्ति के अनुसार धातुओं को दो भेद होते हैं—(१) मूल-धातु और (२) यौगिक धातु।

१६६—मूल-धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, जैसे, करना, बैठना, चलना, लेना ।

२००—जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाये जाते हैं वे यौगिक धातु कहाते हैं; जैसे, “चलना” से “चलाना”, “रंग” से “रंगना”, “चिकना” से “चिकनाना” इत्यादि ।

(अ) संयुक्त धातु यौगिक धातुओं का एक भेद है ।

[सूचना—जो धातु हिंदी में मूल-धातु माने जाते हैं उनमें बहुत से प्राकृत के द्वारा संस्कृत धातुओं से बने हैं; जैसे, सं०—कृ, प्रा०—कर, हिं०—कर । सं०—भू, प्रा०—हो, हिं०—हो । संस्कृत अथवा प्राकृत के धातु चाहे यौगिक हों चाहे मूल, परंतु उनसे निकले हुए हिंदी धातु मूल ही माने जाते हैं; क्योंकि व्याकरण में, दूसरी भाषा से आये हुए शब्दों की मूल व्युत्पत्ति का विचार नहीं किया जाता । यह विषय कोष का है । हिंदी ही के शब्दों से अथवा हिंदी प्रत्ययों के योग से जो धातु बनते हैं उन्हींको, हिंदी में, यौगिक मानते हैं ।]

२०१—यौगिक धातु तीन प्रकार से बनते हैं—(१) धातु में प्रत्यय जोड़ने से **सकर्मक** तथा **प्रेरणार्थक धातु** बनते हैं, (२) दूसरे शब्द-भेदों में प्रत्यय जोड़ने से **नाम-धातु** बनते हैं और (३) एक धातु में एक या दो धातु जोड़ने से **संयुक्त धातु** बनते हैं ।

[सूचना—यद्यपि यौगिक धातुओं का विवेचन व्युत्पत्ति का विषय है तथापि सुभीते के लिए हम प्रेरणार्थक धातुओं का और नाम-धातुओं का विचार इसी अध्याय में, और संयुक्त धातुओं का विचार क्रिया के रूपांतर-प्रकरण में करेंगे ।

(१) प्रेरणार्थक धातु

२०२—मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्त्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे **प्रेरणार्थक धातु** कहते हैं; जैसे, “बाप लड़के से चिट्ठी लिखवाता है ।” इस वाक्य में मूल धातु “लिख” का विकृत रूप “लिखवा” है जिससे जाना

जाता है कि लड़का लिखने का व्यापार बाप की प्रेरणा से करता है, इसलिए “लिखवा” प्रेरणार्थक धातु है और “बाप” प्रेरक कर्त्ता तथा “लड़का” प्रेरित कर्त्ता है। “मालिक नौकर से गाड़ी चलवाता है।” इस वाक्य में “चलवाता है” प्रेरणार्थक क्रिया, “मालिक” प्रेरक कर्त्ता और “नौकर” प्रेरित कर्त्ता है।

२०३—आना, जाना, सकना, होना, रुचना, पाना, आदि धातुओं से अन्य प्रकार के धातु नहीं बनते। शेष सब धातुओं से दो दो प्रकार के प्रेरणार्थक धातु बनते हैं, जिनका पहला रूप बहुधा सकर्मक क्रिया ही के अर्थ में आता है और दूसरे रूप से यथार्थ प्रेरणा समझी जाती है, जैसे, “घर गिरता है।” “कारीगर घर गिराता है।” “कारीगर नौकर से घर गिरवाता है।” “लोग कथा सुनते हैं।” “पंडित लोगों को कथा सुनाते हैं।” “पंडित शिष्य से श्रोताओं को कथा सुनवाते हैं।”

(अ) सब प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं, जैसे, “दबी बिल्ली चूँहों से कान कटानी है।” “लड़के ने कपड़ा सिलवाया।” पीना, खाना, देखना, समझना, देना, पढ़ना, सुनना, आदि क्रियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप द्विकर्मक होते हैं, जैसे, “प्यासे को पानी पिलाओ।” “बाप ने लड़के को कहानी सुनाई।” “बच्चे को रोटी खिलवाओ।”

२०४—प्रेरणार्थक क्रियाओं के बनाने के नियम नीचे दिये जाते हैं—

१—मूल धातु के अंत में “आ” जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक और “वा” जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक रूप बनता है, जैसे,

मू० धा०

प० प्रे०

दू० प्रे०

उठ-ना

उठा-ना

उठवा-ना

औट-ना

औटा-ना

औटवा-ना

गिर-ना	गिरा-ना	गिरवा-ना
चल-ना	चला-ना	चलवा-ना
पढ़-ना	पढ़ा-ना	पढ़वा-ना
फैल-ना	फैला-ना	फैलवा-ना
सुन-ना	सुना-ना	सुनवा-ना

(अ) दो अक्षरों के धातु में 'ऐ' वा 'औ' को छोड़कर आदि का अन्य दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है; जैसे,

मू० धा०	प० प्रे०	दू० प्रे०
ओढ़ना	उढ़ाना	उढ़वाना
जागना	जगाना	जगवाना
जीतना	जिताना	जितवाना
डूबना	डुवाना	डुववाना
बोलना	बुलाना	बुलवाना
भीगना	भिगाना	भिगवाना
भूलना	भुलाना	भुलवाना
लिटना	लिटाना	लिटवाना

(१) "डूबना" का रूप "डुबोना" और "भीगना" का रूप "भिगोना" भी होता है ।

(२) प्रेरणार्थक रूपों में बोलना का अर्थ बदल जाता है ।

(आ) तीन अक्षर के धातु में पहले प्रेरणार्थक के दूसरे अक्षर का "अ" अनुच्चरित रहता है; जैसे,

मू० धा०	प० प्रे०	दू० प्रे०
चमक-ना	चमका-ना	चमकवा-ना
पिघल-ना	पिघला-ना	पिघलवा-ना
बदल-ना	बदला-ना	बदलवा-ना
समझ-ना	समझा-ना	समझवा-ना

२—एकाक्षरी धातु के अंत में “ला” और ~~पिल्लना~~ लगाते हैं और दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं; जैसे,

खाना	खिलाना	खिलवाना
छूना	छूलाना	छूलवाना
देना	दिलाना	दिलवाना
धोना	धुलाना	धुलवाना
पीना	पिलाना	पिलवाना
सीना	सिलाना	सिलवाना
सोना	सुलाना	सुलवाना
जीना	जिलाना	जिलवाना

(अ) “खाना” में आद्य स्वर “इ” हो जाता है । इसका एक प्रेरणार्थक “खवाना” भी है । “खिलाना” अपने अर्थ के अनुसार “खिलना” (फूलना) का भी सकर्मक रूप हो सकता है ।

(आ) कुछ सकर्मक धातुओं से केवल दूसरे प्रेरणार्थक रूप (१—अ नियम के अनुसार) बनते हैं, जैसे, गाना-गवाना, खेना-खिवाना, खोना-खोआना, बोना-बोआना, लेना-लिवाना, इत्यादि ।

३—कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक रूप “ला” अथवा “आ” लगाने से बनते हैं, परंतु दूसरे प्रेरणार्थक में “वा” लगाया जाता है; जैसे—

कहना	कहाना वा कहलाना	कहवाना
दिखना	दिखाना वा दिखलाना	दिखवाना
सीखना	सिखाना वा सिखलाना	सिखवाना
सूखना	सुखाना वा सुखलाना	सुखवाना
बैठना	बिठाना वा बिठलाना	बिठवाना

(अ) “कहना” के पहले प्रेरणार्थक रूप अपूर्ण अकर्मक भी होते हैं; जैसे, “ऐसे ही सज्जन ग्रंथकार कहलाते हैं।”
“विभक्ति-सहित शब्द पद कहाता है।”

(आ) “कहलाना” के अनुकरण पर दिखाना वा दिखलाना को कुछ लेखक अकर्मक क्रिया के समान उपयोग में लाते हैं, जैसे, “बिना तुम्हारे यहाँ न कोई रक्त अपना दिखलाता।”
(क० क०) । यह प्रयोग अशुद्ध है ।

(इ) “कहवाना” का रूप “कहलवाना” भी होता है ।

(ई) “बैठना” के कई प्रेरणार्थक रूप होते हैं; जैसे, बैठाना, बैठालना, बिठालना, बैठवाना ।

२०५—कुछ धातुओं से बने हुए दोनो प्रेरणार्थक रूप एकार्थी होते हैं; जैसे,

कटना—कटाना वा कटवाना

खुलना—खुलाना वा खुलवाना

गड़ना—गड़ाना वा गड़वाना

देना—दिलाना वा दिलवाना

बंधना—बंधाना वा बंधवाना

रहना—रखाना वा रखवाना

सिलना—सिलाना वा सिलवाना

२०६—कोई कोई धातु स्वरूप में प्रेरणार्थक हैं, पर यद्यार्थ में वे मूल अकर्मक (वा सकर्मक) हैं; जैसे, कुम्हलाना, घबराना, मचलाना, इठलाना, इत्यादि ।

(क) कुछ प्रेरणार्थक धातुओं के मूल रूप प्रचार में नहीं हैं; जैसे, जताना (वा जतलाना) फुसलाना, गँवाना, इत्यादि ।

२०७—अकर्मक धातुओं से नीचे लिखे नियमों के अनुसार सकर्मक धातु बनते हैं—

१—धातु के आद्य स्वर को दीर्घ करने से, जैसे,

कटना—काटना	पिसना—पीसना
दबना—दाबना	लुटना—लूटना
बंधना—बाँधना	मरना—मारना
पिटना—पीटना	पटना—पाटना

(अ) “सिलना” का सकर्मक रूप “सीना” होता है ।

२—तीन अक्षरों के धातु में दूसरे अक्षर का स्वर दीर्घ होता है, जैसे,

निकलना—निकालना	उखडना—उखाडना
सम्हलना—सम्हालना	बिगाडना—बिगाडना

३—किसी किसी धातु के आद्य इ वा उ को गुण करने से, जैसे,

फिरना—फेरना	खुलना—खोलना
दिखना—देखना	घुलना—घोलना
छिड़ना—छेड़ना	मुडना—मोडना

४—कई धातुओं के अंत्य ट के स्थान में ड हो जाता है, जैसे,

जुटना—जोडना	टूटना—तोडना
छूटना—छोडना	फटना—फाडना
फूटना—फोडना	

(आ) “बिकना” का सकर्मक “बेचना” और “रहना” का “रखना” होता है ।

२०८—कुछ धातुओं का सकर्मक और पहला प्रेरणार्थक रूप अलग अलग होता है और दोनों में अर्थ का अंतर रहता है, जैसे, “गडना” का सकर्मक रूप “गाडना” और पहला प्रेरणार्थक “गड़ाना” है । “गाडना” का अर्थ “धरती के भीतर रखना” है और “गड़ाना” का एक अर्थ “चुभाना” भी है । ऐसे ही “दाबना” और “दवाना” में अंतर है ।

(२) नाम-धातु ।

२०६—धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाये जाते हैं उन्हें नाम-धातु कहते हैं । ये संज्ञा वा विशेषण के अंत में “ना” जोड़ने से बनते हैं ।

(अ) संस्कृत शब्दों से; जैसे,

उद्धार—उद्धारना, स्वीकार—स्वीकारना (व्यापार में “सकारना”), धिक्कार—धिक्कारना, अनुराग—अनुरागना, परितोष—परितोषना । इस प्रकार के शब्द कभी कभी कविता में आते हैं और यं शिष्ट सम्मति से ही बनाये जाते हैं ।

(आ) अरबी, फारसी शब्दों से, जैसे,

गुज़र = गुज़रना,	खरीद = खरीदना,
बदल = बदलना,	दाग = दागना,
खर्च = खर्चना,	आज़मा = आज़माना,
फ़र्मा = फ़र्माना,	

इस प्रकार के शब्द अनुकरण से नये नहीं बनाये जा सकते ।

(इ) हिंदी शब्दों से (शब्द के अंत में ‘आ’ करके और आद्य “आ” को ह्रस्व कर के) जैसे,

दुख—दुखाना,	बात—बतियाना, बताना ।
चिकना—चिकनाना,	हाथ—हथियाना ।
अपना—अपनाना,	पानी—पनियाना ।
लाठी—लठियाना,	रिस—रिसाना ।

विलग—विलगाना ।

इस प्रकार के शब्दों का प्रचार अधिक नहीं है । इनके बदले बहुधा संयुक्त क्रियाओं का उपयोग होता है, जैसे, दुखाना—दुख देना; बतियाना—बात करना, अलगाना—अलग करना, इत्यादि ।

२१०—किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाये

जाते हैं उन्हें **अनुकरण-धातु** कहते हैं। ये धातु ध्वनि-सूचक शब्द के अंत में “आ” करके “ना” जोड़ने से बनते हैं। जैसे,

बडबड—बडबडाना,	खटखट—खटखटाना,
थरथर—थरथराना,	टर्र—टर्राना,
मचमच—मचमचाना,	भनभन—भनभनाना।

(अ) नाम-धातु और अनुकरण-धातु अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। ये धातु भी शिष्ट सम्मति के बिना नहीं बनाये जाते।

(३) संयुक्त धातु ।

[सूचना—संयुक्त धातु कुछ कृदंतों [धातु से बन हुए शब्दों] की सहायता से बनाये जाते हैं, इसलिए इनका विवेचन क्रिया के रूपांतर-प्रकरण में किया जायगा ।]

[टी०—हिंदी-व्याकरणों में प्रेरणार्थक धातुओं के संबंध में बड़ी गड़बड़ है। “हिंदी-व्याकरण” में स्वरात धातुओं से सकर्मक बनाने का जो सर्वव्यापी नियम दिया है उसमें कई अपवाद हैं, जैसे “बोझाना”, “खोझाना”, “गँवाना”, “लिखवाना”, इत्यादि। लेखक ने इनका विचार ही नहीं किया। फिर उसमें केवल “घुलना”, “चलना” और “ढराना” के दो दो सकर्मक रूप माने गये हैं, पर हिंदी में इस प्रकार के धातु अनेक हैं, जैसे, कटना, खुलना, गडना, लुटना, पिसना, आदि। यद्यपि इन धातुओं के दो दो सकर्मक रूप कहे जाते हैं, पर यथार्थ में एक ही सकर्मक और दूसरा प्रेरणार्थक है, जैसे, घुलना-घोलना, घुलाना, कटना-काटना, कटाना, पिसना-पीसना, पिसाना, इत्यादि। “भाषा-भास्कर” में इन दुहरे रूपों का नाम तक नहीं है। “बालबोध-व्याकरण” में कई एक प्रेरणार्थक क्रियाओं के जो रूप दिये गये हैं वे हिंदी में प्रचलित नहीं हैं, जैसे, “सोलाना” (सुलाना), “बोलवाना” (बुलवाना), “बैठलाना” (बिठवाना), इत्यादि। “भाषा-चंद्रोदय” में प्रेरणार्थक धातुओं को त्रिकर्मक लिखा है, पर उनका जो एक उदाहरण दिया गया है उसमें लेखक ने यह बात नहीं समझाई और न उसमें एक से अधिक कर्म ही पाये जाते हैं, जैसे, “देवदत्त यज्ञदत्त से पोथी लिवाता है।”]

दूसरा खंड ।

अव्यय ।

पहला अध्याय ।

क्रिया-विशेषण ।

२११—जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं, जैसे, यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, अभी, बहुत, कम, इत्यादि ।

[सूचना—“विशेषता” शब्द से स्थान, काल, रीति और परिमाण का अभिप्राय है ।]

(१) क्रिया-विशेषण को अव्यय (अविकारी) कहने में दो शक़ाएँ हो सकती हैं—(क) कुछ विभक्त्यंत शब्दों का प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, “अंत में”, “इतने पर”, “ध्यान से”, “रात को” इत्यादि । (ख) कई एक क्रिया-विशेषणों में विभक्तियों के द्वारा रूपांतर होता है, जैसे, “यहाँ का”, “कब से”, “आगे को”, “किधर से” इत्यादि ।

इनमें से पहली शंका का उत्तर यह है कि यदि कुछ विभक्त्यंत शब्दों का प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है तो इससे यह बात सिद्ध नहीं होती कि क्रिया-विशेषण अव्यय नहीं होते । फिर इन विभक्त्यंत शब्दों के आगे कोई दूसरा विकार भी नहीं होता, इससे इनको भी अव्यय मानने में कोई बाधा नहीं है । संस्कृत में भी कुछ विभक्त्यंत शब्द (जैसे, मत्स्य, सुखेन, अलात्) क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आते हैं और अव्यय माने जाते हैं । हिंदी में भी कई एक शब्द (जैसे, आगे, पीछे,

सामने, सबेरे, इत्यादि) जिन्हें क्रिया-विशेषण और अव्यय मानने में किसीको शका नहीं होती, यथार्थ में विभक्त्यत सजाएँ हैं, परंतु उनके प्रत्ययों का लोप हो गया है। दूसरी शंका का समाधान यह है कि जिन क्रिया-विशेषणों में विभक्ति का योग होता है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। उनमें से कुछ तो सर्वनामों से बने हैं और कुछ संज्ञाएँ हैं जो अधिकरण की विभक्ति का लोप हो जाने से क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आती हैं। फिर उनमें भी केवल संप्रदान, अपादान, संबन्ध और अधिकरण की एकवचन विभक्तियों का ही योग होता है, जैसे, इधर से, इधर को, इधर का, यहाँ पर, इत्यादि। इसलिए इन उदाहरणों को अपवाद मानकर क्रिया-विशेषणों को अव्यय मानने में कोई दोष नहीं है।

(२) जिस प्रकार क्रिया की विशेषता बतानेवाले शब्दों को क्रिया-विशेषण कहते हैं उसी प्रकार विशेषण और क्रिया-विशेषण की विशेषता बतानेवाले शब्दों को भी क्रिया-विशेषण कहते हैं। ये शब्द बहुधा परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण हैं और कभी कभी क्रिया की भी विशेषता बतलाते हैं। क्रिया-विशेषण के लक्षण में विशेषण और दूसरे क्रिया-विशेषण की विशेषता बताने का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है कि यह बात सब क्रिया-विशेषणों में नहीं पाई जाती और परिमाणवाचक क्रिया-विशेषणों की संख्या दूसरे क्रिया-विशेषणों की अपेक्षा बहुत कम है। कहीं कहीं रीतिवाचक क्रिया-विशेषण भी विशेषण और दूसरे क्रिया-विशेषण की विशेषता बताते हैं, परंतु वे परोक्ष रूप से परिमाणवाचक ही हैं, जैसे, “**ऐसा सुंदर बालक**” = “**इतना सुंदर बालक**।” “**गाड़ी ऐसे धीरे चलती है**” = “**गाड़ी इतने धीरे चलती है**।”

२१२—क्रिया-विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर हो सकता है—(१) प्रयोग, (२) रूप और (३) अर्थ।

[टी०—क्रिया-विशेषणों का ठीक ठीक विवेचन करने के लिए उनका वर्गीकरण एक से अधिक आधारों पर करना आवश्यक है; क्योंकि हिंदी में बहुतसे क्रिया-विशेषण यौगिक हैं और केवल रूप से उनकी पहचान नहीं हो सकती; जैसे, अच्छा, मन में, इतना, केवल, धीरे, इत्यादि। फिर कई एक शब्द कभी क्रिया-विशेषण और कभी दूसरे प्रकार के होते हैं, जैसे, “आगे हमने जान लिया।” (शकु०)। “मानियों के आगे प्राण और धन तो कोई वस्तु ही नहीं है।” (सत्य०)। “राजा ने ब्राह्मण को आगे से लिया।” इन उदाहरणों में आगे शब्द क्रमशः क्रिया-विशेषण, संबंधसूचक और संज्ञा है।]

२१३—प्रयोग के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैं—(१) साधारण, (२) संयोजक और (३) अनुबद्ध।

(१) जिन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें **साधारण** क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे, “हाय ! अब मैं क्या करूँ !” “बेटा, **जल्दी** आओ।” “अरे ! वह साँप **कहाँ** गया ?” (सत्य०)।

(२) जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें **संयोजक** क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे, “जब रोहिताश्व ही नहीं तो मैं ही जी के क्या करूँगी।” (सत्य०)। “**जहाँ** अभी समुद्र है वहाँ पर किसी समय जंगल था।” (सर०)।

[सूचना—संयोजक क्रिया-विशेषण—जब, जहाँ, जैसे, ज्यों, जितना, संबंध-वाचक सर्वनाम “जो” से बनते हैं और उसीके अनुसार दो उपवाक्यों को मिलाते हैं। (अ०—१३४)।]

(३) **अनुबद्ध** क्रिया-विशेषण वे हैं जिनका प्रयोग अवधारण के लिए किसी भी शब्द-भेद के साथ हो सकता है; जैसे, “यह तो किसीने धोखा **ही** दिया है।” (मुद्रा०)। “मैंने उसे देखा **तक** नहीं”, “आपके आने **भर** की देरी है।”

२१४—रूप के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैं—(१) मूल, (२) यौगिक और (३) स्थानीय।

२१५—जो क्रिया-विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते वे **सूल** क्रिया-विशेषण कहलाते हैं, जैसे. ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, इत्यादि ।

२१६—जो क्रिया-विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय वा शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें **यौगिक** क्रिया-विशेषण कहते हैं । वे नीचे लिखे शब्द-भेदों से बनते हैं—

(अ) सज्ञा से, जैसे, सवेर, मन से, क्रमश, आगे, रात को, प्रेम-पूर्वक, दिन-भर, रात-तक, इत्यादि ।

(आ) सर्वनाम से; जैसे, यहाँ, वहाँ, अब, जब, जिससे, इसलिए, तिस पर, इत्यादि ।

(इ) विशेषण से, जैसे, धीरे, चुपके, भूले से, इतने में, सहज में, पहले, दूसरे, ऐसे, वैसे, इत्यादि ।

(ई) धातु से, जैसे, आते, करते, देखते हुए, चाहे, लिये, मानो बैठे हुए, इत्यादि ।

(उ) अव्यय से, जैसे, यहाँ तक, कब का, ऊपर को, भट से, वहाँ पर, इत्यादि ।

(ऊ) क्रिया-विशेषणों के साथ निश्चय जनाने के लिये बहुधा ई वा ही लगाते हैं, जैसे, अब-अभी, यहाँ-यहीं, आते-आतेही, पहले—पहलेही, इत्यादि ।

२१७—सयुक्त क्रिया-विशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं—

(अ) सज्ञाओं की द्विरुक्ति से, घर-घर, घड़ी-घड़ी, बीचों-बीच, हाथों-हाथ, इत्यादि ।

(आ) दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे, रात दिन, सांभ-सबेरे, घर-बाहर, देश-विदेश, इत्यादि ।

(इ) विशेषणों की द्विरुक्ति से, जैसे, एका-एक, ठीक-ठीक, साफ-साफ, इत्यादि ।

- (ई) क्रिया-विशेषणों की द्विरुक्ति से; जैसे, धीरे-धीरे, जहाँ-जहाँ, कब-कब, कहाँ-कहाँ, बकते-बकते, बैठे-बैठे, पहले-पहल, इत्यादि ।
- (उ) दो भिन्न भिन्न क्रिया-विशेषणों के मेल से, जैसे, जहाँ-तहाँ, जहाँ कहीं, जब-तब, जब-कभी, कल-परसें, तले-ऊपर, आस-पास, आमने-सामने, इत्यादि ।
- (ऊ) दो समान अथवा असमान क्रिया-विशेषणों के बीच में 'न' रखने से; जैसे, कभी-न-कभी, कहीं-न-कहीं, कुछ-न-कुछ, इत्यादि ।
- (ऋ) अमुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से, जैसे, गटगट, तड़तड़, सटासट, धड़ाधड़, इत्यादि ।
- (ए) संज्ञा और विशेषण के मेल से; जैसे, एक-साथ, एक-बार, दो-बार, हर घड़ी, जबरदस्ती, लगातार, इत्यादि ।
- (ऐ) अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से; जैसे, प्रतिदिन, यथा-क्रम, अनजाने, सदेह, बे-फायदा, आजन्म, इत्यादि ।
- (ओ) पूर्वकालिक कृदंत (करके) और विशेषण के मेल से; जैसे, मुख्य-करके, विशेष-करके, बहुत-करके, एक-एक-करके, इत्यादि ।

२१८—दूसरे शब्द-भेद जो बिना किसी रूपांतर के क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया-विशेषण कहते हैं । ये शब्द किसी विशेष स्थान ही में क्रिया-विशेषण होते हैं; जैसे,

(अ) संज्ञा—“तुम मेरी मदद पत्थर करोगे।” “वह अपना सिर पढेगा !”

(आ) सर्वनाम—“लीजिये महाराज, मैं यह चला।” (मुद्रा०) ।
 “कोतवाल जी तो वे आते हैं।” (शकु०) । “हिंसक जीव मुझे क्या मारेगे।” (रघु०) । “तुम्हें यह बात कौन कठिन है !” इत्यादि ।

(३) विशेषण—“स्त्री सुंदर सीती है ।” “मनुष्य उदास बैठा है ।” “लडका कैसा कूदा ।” “सब लोग सोये पडे थे ।” “चोर पकड़ा हुआ आया ।” “हमने इतना पुकारा ।” (सत्य०) । इत्यादि ।

(३) पूर्वकालिक कृदन्त—“तुम दौड़कर चलते हो ।” “लडका उठकर भागा-।” इत्यादि ।

२१६—हिंदी में कई एक संस्कृत और कुछ उर्दू क्रियाविशेषण भी आते हैं । ये शब्द तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के होते हैं ।

(१) संस्कृत क्रियाविशेषण ।

तत्सम—अकस्मात्, ईपत्, पश्चात्, प्रायः, बहुधा, पुनः, अतः, अस्तु, वृथा, व्यर्थ, वस्तुतः, सम्प्रति, कदाचित्, शनैः शनैः, अन्यत्र, सर्वत्र, इत्यादि ।

तद्भव—आज (सं०—अद्य), कल (सं०—कल्य), परसों (सं०—परश्व), वारवार (सं०—वारं वार), आगे (सं०—अग्रे), साथ (सं०—सार्धम्), सामने (सं०—सम्मुखम्), सतत (सं०—सततम्), इत्यादि ।

(२) उर्दू क्रियाविशेषण ।

तत्सम—शायद, जरूर, बिलकुल, अकसर, फौरन, वाला-वाला, इत्यादि ।

तद्भव—हमेशा (फा०—हमेशह), सही (अ०—सहीह), नगीच (फा०—नज़दीक), जल्दी (फा०—जल्द), खूब (फा०—खूब), आखिर (अ०—आखिर) इत्यादि ।

२२०—अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषणों के नीचे लिखे चार भेद होते हैं—

(१) स्थानवाचक, (२) कालवाचक, (३) परिमाणवाचक और (४) रीतिवाचक ।

२२१—स्थानवाचक क्रियाविशेषण के दो भेद हैं—(१) स्थितिवाचक और (२) दिशावाचक ।

(१) स्थितिवाचक—

यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, साथ, बाहर, भीतर, पास (निकट, समीप), सर्वत्र, अन्यत्र, इत्यादि ।

(२) दिशावाचक—इधर, उधर, किधर, जिधर, तिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएँ, आरपार, इस तरफ, उस जगह, चारों ओर, इत्यादि ।

२२२—कालवाचक क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होते हैं—(१) समयवाचक, (२) अवधिवाचक, (३) पैतःपुन्यवाचक ।

(१) समयवाचक—

आज, कल, परसों, तरसों, नरसों, अब, जब, कब, तब, अभी, कभी, जभी, तभी, फिर, तुरंत, सबरे, पहले, पीछे, प्रथम, निदान, आखिर, इतने में, इत्यादि ।

(२) अवधिवाचक—

आजकल, नित्य, सदा, सतत (क्विता में), निरंतर, अवतक, कभी कभी, कभी न कभी, अब भी, लगातार, दिन भर, कब का, इतनी देर, इत्यादि ।

(३) पैतःपुन्यवाचक—

बार-बार (वारंवार), बहुधा (अकसर), प्रतिदिन (हररोज़), घड़ी-घड़ी, कई बार, पहले—फिर, एक—दूसरे—तीसरे—इत्यादि, हरबार, हरदफे, इत्यादि ।

२२३—परिमाणवाचक क्रियाविशेषणों से अनिश्चित संख्या वा परिमाण का बोध होता है । उनके ये भेद हैं—

(अ) अधिकताबोधक—बहुत, अति, बड़ा, भारी, बहुतायत से,

विलकुल, सर्वथा, निरा, खूब, पूर्णतया, निपट, अत्यंत, अतिशय, इत्यादि ।

(आ) न्यूनताबोधक—कुछ, लगभग, थोडा, टुक, अनुमान, प्रायः, ज़रा, किंचित्, इत्यादि ।

(इ) पर्याप्तवाचक—केवल, बस, काफ़ी, यद्येष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु, इति, इत्यादि ।

(ई) तुलना-वाचक—अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर, और, इत्यादि ।

(उ) श्रेणीवाचक—थोडा-थोड़ा, क्रम-क्रम से, वारी-वारी से, तिल-तिल, एक-एक-करके, यथाक्रम, इत्यादि ।

२२४--रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की संख्या गुणवाचक विशेषणों के समान अनंत है । क्रियाविशेषणों के न्यायसम्मत वर्गीकरण में कठिनाई होने के कारण, इस वर्ग में उन सब क्रिया-विशेषणों का समावेश किया जाता है जिनका अतर्भाव पहले कहे हुए वर्गों में नहीं हुआ है । रीतिवाचक क्रियाविशेषण नीचे लिखे हुए अर्थों में आते हैं—

(अ) प्रकार—ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे-तैसे, मानों, यथा-तथा, धीरे, अचानक, सहसा, अनायास, वृथा, सहज, साक्षान्, मेत, सेतमेत, योही, हौले, पैदल, जैसे-तैसे, स्वयं, परस्पर, आपही आप एक-साथ, एकाएक, मन से, ध्यान-पूर्वक, सदेह, सुखेन, रीत्यनुसार, क्योंकर, यथाशक्ति, हँसकर, फटाफट, तडतड, फटसे, उलटा, येन-केन-प्रकारेण, अकस्मात्, किम्ब-हुना, प्रत्युत ।

(आ) निश्चय—अशय, सही, सचमुच, निःसदेह, वेशक, जरूर, अलवन्ता, मुख्य-करके, विशेष-करके, यथार्थ में, वस्तुतः, दर-असल ।

(इ) अनिश्चय—कदाचित् (शायद), बहुत करके, यथा-संभव ।

(ई) स्वीकार—हाँ, जी, ठीक, सच ।

(उ) कारण—इसलिए, क्यों, काहे को ।

(ऊ) निषेध—न, नहीं, मत ।

(ऋ) अवधारण—तो, ही, मात्र, भर, तक, सा ।

२२५—यौगिक क्रियाविशेषण दूसरे शब्दों में नीचे लिखे शब्द अथवा प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं—

(१) संस्कृत क्रियाविशेषण ।

पूर्वक—ध्यान-पूर्वक, प्रेम-पूर्वक, इत्यादि ।

वश—विधि-वश, भय-वश ।

इन (आ)—सुखेन, येन-केन-प्रकारेण, मनसा-वाचा-कर्मणा ।

या—कृपया, विशेषतया ।

अनुसार—रीत्यनुसार, शक्त्यनुसार ।

तः—स्वभावतः, वस्तुतः, स्वतः ।

दा—सर्वदा, सदा, यदा, कदा ।

धा—बहुधा, शतधा, नवधा ।

शः—क्रमशः, अक्षरशः ।

त्र—एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र ।

था—सर्वथा, अन्यथा ।

वत्—पूर्ववत्, तद्वत् ।

चित्—कदाचित्, किंचित्, क्वचित् ।

मात्र—पल-मात्र, नाम-मात्र, लेश-मात्र ।

(२) हिंदी क्रियाविशेषण ।

ता, ते—दौडता, करता, बोलता, चलते, आते, मारते ।

आ, ए—बैठा, भागा, लिए, उठाए. बैठे, चढे ।

को—इधर को, दिन को, रात का, अत को ।

से—धर्म से, मन से, प्रेम से, इधर से, तब से ।

में—संक्षेप में, इतने में, अंत में ।

का—सवेरे का, कव का ।

तक—आज तक यहाँ तक, रात तक, घर तक ।

कर, करके—दौड़कर, उठकर, देखकर के, धर्म करके, भक्ति करके, क्योंकर ।

भर—रातभर, पलभर, दिनभर ।

(अ) नीचे लिखे प्रत्ययों और शब्दों से सार्वनामिक क्रियाविशेषण बनते हैं—

ए—ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, तैसे, थोड़े ।

हाँ—यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ ।

धर—इधर, उधर, जिधर, तिधर ।

यो—यो, ल्यों, ज्यो, क्यों ।

लिए—इसलिए, जिसलिए, किसलिए ।

व—अब, तब, कब, जब ।

(३) उर्द्ध क्रियाविशेषण ।

अन—जवरन, फौरन, मसलन, इत्यादि ।

२२६—सामासिक क्रियाविशेषण अर्थात् अव्ययीभाव समासो का विचार व्युत्पत्ति-प्रकरण में किया जायगा । यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

(१) संस्कृत अव्ययीभाव समास ।

प्रति—प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष ।

यथा—यथाशक्ति, यथाक्रम, यथासंभव ।

नि.—नि सदेह, निर्भय, निःशंक ।

यावत्—यावज्जीवन ।

आ—आजन्म, आमरण ।

सम्—समक्ष, सम्मुख ।

स—सदेह, सपरिवार ।

अ, अन्—अकारण, अनायास ।

वि—व्यर्थ, विशेष ।

(२) हिंदी अव्ययीभाव समास

अन—अनजाने, अनपूछे ।

नि—निधड़क, निडर ।

(३) उर्दू अव्ययीभाव समास ।

हर—हररोज़, हरसाल, हरवक्त ।

दर—दरअसल, दरहकीकत ।

ब—बजिस, बदस्तूर ।

बे—बेकार, बेफायदा, बेशक, बेतरह, बेहद ।

(४) मिश्रित अव्ययीभाव समास ।

हर—हरघड़ी, हरदिन, हरजगह ।

बे—बेकाम, बेसुर ।

२२७—कुछ क्रियाविशेषणों के विशेष अर्थों और प्रयोगों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

परसें, कल—इनका प्रयोग भूत और भविष्य दोनों कालों में होता है । इसकी पहचान क्रिया के रूप से होती है ; जैसे, “लड़का कल आया और परसें जायगा ।”

आगे, पीछे, पास, दूर—यं और इनके समानार्थी स्थान-वाचक क्रियाविशेषण कालवाचक भी हैं ; जैसे “आगे राम अनुज पुनि पाछे ।” (राम०) । (स्था० वा०) । “आगे पीछे सब चल बसेगे ।” (कहा०) । (का० वा०) । “गाँव पास है या दूर ?”

(स्था० वा०) । “दिवाली पास आ गई।” “विवाह का समय अभी दूर है।” (का० वा०) । ‘आगे’ का कालवाचक अर्थ कभी कभी ‘पीछे’ के साथ बदल जाता है, जैसे, “ये सब बातें जान पड़ेंगी आगे।” (सर०) । (पीछे) ।

तब, फिर—भाषा-रचना में ‘तब’ की द्विरुक्ति मिटाने के लिए उसके बदले बहुधा ‘फिर’ की योजना करते हैं; जैसे, **तब** (मैंने) समझा कि इसके भीतर कोई अभाग बंद है। **फिर** जो कुछ हुआ सो आप जानते ही हैं। (विचित्र०) । कभी कभी ‘तब’ और ‘फिर’ एक ही अर्थ में साथ साथ आते हैं, जैसे, “**तब फिर** आप क्या करेंगे ?”

कभी—इससे अनिश्चित काल का बोध होता है जैसे, “हमसे **कभी** मिलना।” “**कभी**” और “**कदापि**” का प्रयोग बहुधा निषेध-वाचक शब्दों के साथ होता है, जैसे, “ऐसा काम **कभी** मत करना।” “मैं वहाँ **कदापि** न जाऊँगा।” दो या अधिक वाक्यों में “**कभी**” में क्रमागत काल का बोध होता है, जैसे, “**कभी** नाव गाड़ी पर, **कभी** गाड़ी नाव पर।” “**कभी** घी घना, **कभी** मुट्ठी-भर चना, **कभी** वह भी मना।” “**कभी**” का प्रयोग आश्चर्य वा तिरस्कार में भी होता है, जैसे, “तुमने **कभी** कलकत्ता देखा था।”

कहाँ—दो अलग अलग वाक्यों में ‘कहाँ’ से बड़ा अंतर सूचित होता है, जैसे, “**कहाँ** कुँभज **कहाँ** सिंधु अपारा।” (राम०) । “**कहाँ** राजा भोज **कहाँ** गंगा तेली।”

कहीं—अनिश्चित स्थान के अर्थ के सिवा यह “अत्यंत” और “कदाचित्” के अर्थ में भी आता है, जैसे, “पर मुझ से वह **कहीं** सुखी है।” (हिंदी ग्रन्थ०) । “सखी ने व्याह की बात **कहीं** हँसी से न कही हो।” (शकु०) । अलग अलग वाक्यों में “**कहीं**” से विरोध सूचित होता है, जैसे, “**कहीं** धूप, **कहीं** छाया।” “**कहीं**

शरीर आधा जला है, **कहीं** विलकुल कच्चा है !” (सत्य०) ।
 आश्चर्य मे “कहीं” का प्रयोग “कभी” के समान होता है; “कहीं
 डूबे तिरे हैं !” “पत्थर भी **कहीं** पसीजता है !”

परे—इसका प्रयोग बहुधा तिरस्कार मे होता है, जैसे, “परे
 हो !” “परे हट !”

इधर-उधर (यहाँ-वहाँ)—इन दुहरे क्रियाविशेषणो से
 विचित्रता का बोध होता है; जैसे, “**इधर** तो तपस्वियों का काम,
उधर बड़ो की आज्ञा !” (शकु०) । “सुत-सनेह इत् बचन **उत**,
 संकट परेउ नरेश !” (राम०) । तुम **यहाँ** यह भी कहते हो, **वहाँ**
 वह भी कहते हो ।”

योंही—इसका अर्थ ‘अकारण’ है, जैसे, “लड़का **योंही** फिरा
 करता है ।” इसका अर्थ “इसी तरह” भी है ।

मानो—यह “जैसे” का पर्यायवाचक है और उसके समान
 बहुधा “ऐसे” के साथ उपमा (उत्प्रेक्षा) में आता है; जैसे, “यह
 चित्र ऐसा सुहावना लगता है **मानो** साक्षात् सुंदरापा आगे खड़ा
 है ।” (शकु०) ।

जब तक—यह बहुधा निषेधवाचक वाक्य मे आता है, जैसे,
 “**जब तक** मैं न आऊँ तुम यहीं रहना ।”

तब तक—इसका अर्थ भी कभी कभी “इतने मे” होता है,
 जैसे, “ये दुख तो थे ही, तब तक एक नया घाव और हुआ ।”
 (शकु०) ।

जहाँ—इसका अर्थ कभी कभी “जब” होता है, जैसे, “जहाँ
 अस दशा जड़न की बरनी । को कहि सकै सचेतन करनी ।” (राम०) ।

जहाँ-तक—इसका अर्थ बहुधा परिमाणवाचक होता है, जैसे,
 “जहाँ तक हो सके, टेढ़ी गलियाँ सीधी कर दी जावे ।”

“यहाँ तक” और “कहाँ तक” भी परिमाणवाचक होते हैं;

जैसे, “कहाँ कहाँ तक वर्णन उसकी अतुल दया का भाव ।” (एकांत०) । “एक साल व्यापार में टोटा पडा यहाँ तक कि उनका घर द्वार खूब जाता रहा ।” “यहाँ तक” बहुधा “कि” के साथ ही आता है ।

कब का—इसका अर्थ “बहुत समय से” है । इसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलता है, जैसे, “माँ कब की पुकार रही है ।” (सत्य०) । “कब को टेरेत दीन रटि ।” (सत०) ।

क्योंकर—इसका अर्थ “कैसे” होता है, जैसे, “यह काम क्योंकर होगा ?” “यं गढे क्योंकर पड गये ?” (गुटका०) ।

इसलिए—यह कभी क्रियाविशेषण और कभी समुच्चय-वाधक हाता है, जैसे, “वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा है ।” (क्रि०-वि०) । “तू दुर्दशा मे है, इसलिए मैं तुम्हे दान दिया चाहता हूँ ।” (स०-वो०) ।

न, नहीं—‘न’ स्वतंत्र शब्द है, इसलिए वह शब्द और प्रत्यय के बीच में नहीं आ सकता । “देशोपालभ” नामक कविता में कवि ने सामान्य भविष्यत के प्रत्यय के पहले “न” लगा दिया है, जैसे, “ला-वो न गे वचन जो मन में हमारा ।” यह प्रयोग दूषित है । जिन क्रियाओं के साथ “न” और “नहीं” दोनों आ सकते हैं, वहाँ “न” से केवल निषेध और “नहीं” से निषेध का निश्चय सूचित होता है, जैसे, “वह न आया,” “वह नहीं आया ।” “मैं न जाऊँगा,” “मैं नहीं जाऊँगा ।” (अं०-६००) “न” प्रश्नवाचक अव्यय भी है, जैसे, “सब करेगा न ?” (सत्य०) । ‘न’ कभी कभी निश्चय के अर्थ में आता है । जैसे, “मैं तुम्हे अभी देखता हूँ न ।” (सत्य०) । न—न समुच्चयवाधक होते हैं, जैसे, “न उन्हें नौद आती थी न भूख-प्यास लगती थी ।” (प्रेम०) । प्रश्न के उत्तर में ‘नहीं’ आता है, जैसे, तुमने उसे रुपया दिया था ? नहीं ।

केवल—यह अर्थ कं अनुसार कभी विशेषण, कभी क्रियाविशेषण और कभी समुच्चयबोधक होता है; जैसे, “रामहि **केवल** प्रेम पियारा ।” (राम०) । “**केवल** लड़का चिल्लाता है ।”

“करती हुई विकट तांडव सी मृत्यु निकट दिखलाती है ।

केवल एक तुम्हारी आशा प्राणों को अटकाती है ।”
—(क० क०) ।

बहुधा, प्रायः—ये शब्द सर्वव्यापक विधानों को परिमित करने के लिए आते हैं । “बहुधा” से जितनी परिमिति होती है उसकी अपेक्षा “प्रायः” से कम होती है; जैसे, “वे सब **बहुधा** बलवान शत्रुओं से सब तरफ घिरे रहते थे ।” (स्वा०) । “इसमें **प्रायः** सब श्लोक चंडकौशिक से उद्धृत किये गये हैं ।” (सत्य०) ।

तो—इससे निश्चय और अप्रह सूचित होता है । यह किसी भी शब्दभेद के साथ आ सकता है; जैसे, “तुम वहाँ गये **तो** थे ।” “किताब तुम्हारे पास **तो** थी ।” इसके साथ “नहीं” और “भी” आते हैं; और ये संयुक्त शब्द (“नहीं तो,” “तो भी”) समुच्चय बोधक होते हैं । (अं०—२४४-५) । “यदि” के साथ दूसरे वाक्य में आकर “तो” समुच्चय बोधक होता है । जैसे, “यदि ठंड न लगे **तो** यह हवा बहुत दूर तक चली जाती है ।”

ही—यह भी “तो” के समान किसी भी शब्द-भेद के साथ आकर निश्चय सूचित करता है । कहीं कहीं यह पहलें शब्द कं साथ संयोग कं द्वारा मिल जाता है; जैसे, अब + ही = अभी, कब + ही = कभी, तुम + ही = तुम्हीं, सब + ही = सभी, किस + ही = किसी । उदा०—“एक **ही** दिन में,” “दिन **ही** में,” “दिन में **ही**,” “पाम **ही**,” “आ **ही** गया,” “जाना **ही** या ।” न, **तो** और **ही** समान शब्दों के बीच भी आते हैं, जैसे, “एक न एक ” “कोई न कोई,” “कभी न कभी,” “घात **ही** पान में,”

“पास ही पास,” “आते ही आते,” “लडका गया तो गया ही गया,” “दाग तो दाग, पर ये गढे क्योंकर पड गये ?” (गुटका०)। “ही” सामान्य भविष्यत्-काल के प्रत्यय के पहले भी लगा दिया जाता है, जैसे, “हम अपना धर्म तो प्राण रहे तक निबाहैं-ही-गे।” (नील०)।

मात्र, भर, तक—ये शब्द कभी कभी सज्ञाओं के साथ प्रत्ययों के रूप में आकर उन्हें क्रियाविशेषण-वाक्यांश बना देते हैं। (अ०—२२५)। इस प्रयोग के कारण कोई कोई इनकी गिनती संबंध-सूचको में करते हैं। कभी कभी इनका प्रयोग दूसरे ही अर्थों में होता है—

(अ) “मात्र” सज्ञा और विशेषण के साथ “ही” (केवल) के अर्थ में आता है, जैसे, “एक लज्जा **मात्र** बची है।” (सत्य०)। “राम **मात्र** लघु नाम हमारा।” (राम०)। “एक साधन **मात्र** आपका शरीर ही अब अवशिष्ट है।” (रघु०)। कभी कभी “मात्र” का अर्थ “सब” होता है, जैसे, “शिवजी ने साधन **मात्र** को कील दिया है।” (सत्य०)। “हिंदी-भाषा-भाषी **मात्र** उनके चिर कृतज्ञ भी रहेंगे।” (विभक्ति०)।

(आ) “भर” परिमाणवाचक सज्ञाओं के साथ आकर विशेषण होता है, जैसे, “सेर-भर घी,” “मुट्टी-भर अनाज,” “कटोरे भर खून,” इत्यादि। कभी कभी यह “मात्र” के समान “सब” के अर्थ में आता है, जैसे, “मेरी अमलदारी **भर** मैं जहाँ जहाँ सडक हूँ।” (गुटका०)। “कोई उसके राज्य **भर** में भूखाना सोता।” (तथा)। कहीं कहीं इसका अर्थ “केवल” होता है, जैसे, “मेरे पास कपडा **भर** है।” “उतना **भर** मैं उसे फिर देऊँगा।” “नौकर लडके के साथ **भर** रहा है।”

(इ) “तक” अधिकता के अर्थ में आता है, जैसे, “कितनी ही पुस्तकों का अनुवाद तो अँगरेजी तक मे हो गया है।” “वग-देश मे कमिश्नर तक अपनी भाषा मे पुस्तकरचना करते हैं।” (सर०)। इस अर्थ मे यह प्रत्यय बहुधा “भी” (समुच्चय बोधक) का पर्यायवाचक होता है। कभी कभी यह “सीमा” के अर्थ में आता है, जैसे, “इस काम के दस रुपये तक मिल सकते हैं।” “बालक से लेकर वृद्ध तक यह बात जानते हैं।” “बंबई तक के सौदागर यहाँ आते हैं।” निपेधार्थक वाक्यों मे “तक” का अर्थ बहुधा “ही” होता है, जैसे, “मैंने उसे देखा तक नही है।” “ये लोग हिंदी मे चिट्ठी तक नही लिखते।”

सा—पूर्वोक्त अव्ययों के समान यह शब्द भी कभी प्रत्यय, कभी संबंध सूचक और कभी क्रियाविशेषण होकर आता है। यह किसी भी विकारी शब्द के साथ लगा दिया जाता है, जैसे, फूलसा शरीर, मुझसा दुखिया, कौनसा मनुष्य, स्त्रियों का सा बोल, अपनासा कुटिल हृदय, मृगसा चंचल। गुणवाचक विशेषणों के साथ यह हीनता सूचित करता है, जैसे, कालासा कपड़ा, ऊँचीसी दीवार, अच्छासा नौकर, इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषणों के साथ यह अवधारणबोधक होता है, जैसे, बहुतसा धन, थोड़े से कपड़े, जरासी बात, इत्यादि। इस प्रत्यय का रूप (सा-से-सी) विशेष्य के लिंगवचनानुसार बदलता है। कभी कभी यह संज्ञा के साथ केवल हीनता सूचित करता है, जैसे, “बन मे विद्या सी छाई जाती है।” (शकु०)। “एक जात सी उतरी चली आती है।” (गुटका०)। “जल-कण इतने अधिक उड़ते हैं कि धुआँ सा दिखाई देता है।”

अथ, इति—ये अव्यय क्रमशः पुस्तक वा उसके खंड अथवा कथा के आरंभ और अंत में आते हैं । जैसे, “अथ कथा आरभ ।” (प्रम०) । “इति प्रस्तावना ।” (सत्य०) । “अथ” का प्रयोग आज-कल घट रहा है, परंतु पुस्तकों के अंत में बहुधा “इति,” (अथवा “सम्पूर्ण,” “समाप्त” वा संस्कृत “समाप्तम्”) लिखा जाता है । “इत्यादि” शब्द में “इति” और “आदि” का संयोग है । “इति” कभी कभी संज्ञा के समान आता है और उसके साथ बहुधा “श्री” जोड़ देते हैं, जैसे, “इस काम की इतिश्री हो गई ।” राम-चरित-मानस में एक जगह “इति” का प्रयोग संस्कृत की चाल पर स्वरूप-वाचक समुच्चयबोधक के समान हुआ है, जैसे, “सोहमस्मि इति वृत्त अखंडा ।”

२२८—अब कुछ संयुक्त और द्विरुक्त क्रियाविशेषणों के अर्थों और प्रयोगों के विषय में लिखा जाता है ।

कभी कभी—बीच बीच में—कुछ कुछ दिनों में, जैसे, “कभी कभी इस दुखिया की भी सुध निज मन में लाना” । (सर०) ।

कब कब—इनके प्रयोग से “बहुत कम” की ध्वनि पाई जाती है, जैसे, “आप मेरे यहाँ कब कब आते हैं ?”

जब जब—तब तब—जिस जिस समय—उस उस समय ।

जब तब—एक न एक दिन, जैसे, ‘जब तब वीर विनासा’ (सत०) ।

अब तब—इनका प्रयोग बहुधा सजा वा विशेषण के समान होता है । जैसे अब तब करना = टालना । अब तब होना = मरनहार होना ।

कभी भी—इनसे ‘कभी’ की अपेक्षा अधिक निश्चय पाया जाता है । जैसे, यह काम आप कभी भी कर सकते हैं ।

कभी न कभी, कभी तो, कभी भी, प्रायः पर्यायवाचक हैं ।

जैसे जैसे—तैसे तैसे, ज्यों ज्यों—त्यों त्यों—यं उत्तरोत्तर .

बढ़ती-घटती सूचित करते हैं, जैसे, “ज्यों ज्यों भीजै कामरी त्यों त्यों भारी होय ।”

ज्यों का त्यों—पूर्व दशामे । इस वाक्यांश का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है और “का” प्रत्यय विशेष्य के लिंग-वचनानुसार बदलता है । जैसे, “किला अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है ।”

जहाँ का तहाँ—पूर्व स्थान में, जैसे, “पुस्तक जहाँ की तहाँ रखी है ।” इसमें भी विशेष्य के अनुसार विकार होता है ।

जहाँ तहाँ—सर्वत्र, जैसे, “जहाँ तहाँ मैं देखों दोउ भाई ।” (राम०) ।

जैसे तैसे, ज्यों त्यों करके—किसी न किसी प्रकार से । उदा०—“जैसे तैसे यह काम पूरा हुआ ।” “ज्यों त्यों करके रात काटो ।” इसी अर्थ में “कैसा भी करके” और संस्कृत “यन्-केन-प्रकारेण” आते हैं ।

आपही, आपही आप, अपने आप, आपसे आप—इनका अर्थ “मन से” वा “अपने ही बल से” होता है । (अ० १२५ अ०) ।

होते होते—क्रम क्रम से; जैसे “यह काम होते होते होगा ।”

बैठे बैठे—विना परिश्रम के, जैसे, “लड़का बैठे बैठे खाता है ।”

खड़े खड़े—तुरंत, जैसे, “यह रुपया खड़े खड़े वसूल हो सकता है ।”

काल पाकर—कुछ समय में; जैसे, “वह काल पाके अशुद्ध हो गया ।” (इति०) ।

क्यों नहीं—इस वाक्यांश का प्रयोग “हाँ” के अर्थ में होता है, परंतु इससे कुछ तिरस्कार पाया जाता है । उदा०—“क्या तुम वहाँ जाओगे ?” “क्यों नहीं ।”

सच पूछिये तो—यह एक वाक्य ही क्रियाविशेषण के समान आता है। इसका अर्थ है “सचमुच।” उदा०—“सच पूछिये तो मुझे वह स्थान उदास दिखाई पड़ा।”

[टी०—पहले कहा जा चुका है कि क्रियाविशेषणों का शास्त्रीय वर्गीकरण करना कठिन है, क्योंकि कई शब्दों (जैसे, ही, तो, केवल, हाँ, नहीं, इत्यादि) के विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि ये क्रियाविशेषण ही हैं। पहले इस बात का भी उल्लेख हो चुका है कि कोई कोई वैयाकरण अन्वय के भेद नहीं मानते, परंतु उन्हें भी कई एक अव्ययों का प्रयोग वा अर्थ अलग अलग बताने की आवश्यकता होती है। क्रियाविशेषणों का यथासाध्य व्यवस्थित विवेचन करने के लिए हमने उनका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया है। कुछ क्रियाविशेषण वाक्य में स्वतंत्रतापूर्वक आते हैं और कुछ दूसरे वाक्य वा शब्द की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए प्रयोग के अनुसार उनका वर्गीकरण करने की आवश्यकता हुई। प्रयोग के अनुसार जो तीन भेद किये गये हैं उनमें से अनुबद्ध क्रियाविशेषणों के संबंध में यह शका हो सकती है कि जब इनमें से कुछ शब्द एक बार (यौगिक क्रियाविशेषणों में) प्रत्यय माने गये हैं तब फिर उनको अलग से क्रियाविशेषण मानने का क्या कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इन शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो ये शब्द बहुधा संज्ञा के साथ आकर क्रिया वा दूसरे शब्द से उसका संबंध जोड़ते हैं, जैसे, रात भर, चण मात्र, नगर तक, इत्यादि, और दूसरे ये क्रिया वा विशेषण अथवा क्रियाविशेषण के साथ आकर उसीकी विशेषता बताते हैं, जैसे, एक मात्र उपाय, बड़ा ही सुंदर, जाग्रो तो, आते ही, लडका चलता तक नहीं, हस्यादि। इस दूसरे प्रयोग के कारण ये शब्द क्रियाविशेषण माने गये हैं। यह दुहरा प्रयोग आगे, पीछे, साथ, ऊपर, पहले, इत्यादि कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाविशेषणों में भी पाया जाता है जिनके कारण इनकी गणना संबंध-सूचकों में भी होती है। जैसे, “घर के आगे” “समय के पहले” “पिता के साथ” इत्यादि। कोई कोई इन अव्ययों का एक अलग भेद (‘अवधा रणबोधक’ के नाम से) मानते हैं, और कोई कोई इनको केवल संबंध-सूचकों में गिनते हैं। हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में इन शब्दों का व्यवस्थित विवेचन ही नहीं किया गया है।

रूप के अनुसार क्रियाविशेषणों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए है कि हिंदी में यौगिक क्रियाविशेषणों की संख्या अधिक है जो बहुधा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वा क्रियाविशेषणों के अंत में विभक्तियों के लगाने से बनते हैं; जैसे, इतने में, सहज में, मन से, रात को, यहाँ पर, जिसमें, इत्यादि । यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि वा में, जगल से, कितने में, पेड़ पर, आदि विभक्त्यंत शब्दों को भी क्रियाविशेषण क्यों न कहें ? इस का उत्तर यह है कि यदि क्रियाविशेषण में विभक्ति का योग होने से उसके प्रयोग में कुछ अंतर नहीं पड़ता तो उसे क्रियाविशेषण मानने में कोई बाधा नहीं है । उदाहरणार्थ, “यहाँ” क्रियाविशेषण है, और विभक्ति के योग से इसका रूप “यहाँ से” अथवा “यहाँ पर” होता है । ये दोनों विभक्त्यंत क्रियाविशेषण किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें क्रियाविशेषण ही मानना उचित है । इनमें विभक्ति का योग होने पर भी इनका प्रयोग कर्त्ता या कर्म-कारक में नहीं होता जिसके कारण इनकी गणना संज्ञा वा सर्वनाम में नहीं हो सकती । यौगिक क्रियाविशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे, ध्यानपूर्वक, क्रमशः, नाम-मात्र, संक्षेपतः, इसलिए जिन विभक्तियों से इन प्रत्ययों का अर्थ पाया जाता है उन्हीं विभक्तियों के योग से बने हुए शब्दों को क्रियाविशेषण मानना चाहिये, औरों को नहीं, जैसे ध्यान से, क्रम से, नाम के लिए, संक्षेप में, इत्यादि । फिर कई एक विभक्त्यंत शब्द क्रियाविशेषणों के पर्यायवाचक भी होते हैं; जैसे, निदान = अंत में, क्यों = काहे को, काहे से, कैसे = किस रीति से, सवेरे = भोर को, इत्यादि । इस प्रकार के विभक्त्यंत शब्द भी क्रियाविशेषण माने जा सकते हैं । इन विभक्त्यंत शब्दों को क्रियाविशेषण न कहकर कारक कहने में भी कोई हानि नहीं है । पर “जंगल में” पद को केवल वाक्य-पृथकरण की दृष्टि से, क्रियाविशेषण के समान, विधेय-वर्द्धक कह सकते हैं; परंतु व्याकरण की दृष्टि से वह क्रियाविशेषण नहीं है, क्योंकि वह किसी मूल क्रियाविशेषण का अर्थ सूचित नहीं करता । विभक्त्यंत वा संबंधसूचक शब्दों को कोई कोई वैयाकरण क्रियाविशेषण-वाक्यांश कहते हैं ।

हिंदी में कई एक संस्कृत और कुछ उर्दू विभक्त्यंत शब्द भी क्रियाविशेषण के समान प्रयोग में आते हैं, जैसे, सुखेन, कृपया, विशेषतया, ठठान, फौरन, इत्यादि । इन शब्दों को क्रियाविशेषण ही मानना चाहिये, क्योंकि इनकी विभक्तियाँ हिंदी में अपरिचित होने के कारण हिंदी व्याकरण से इन शब्दों की व्युत्पत्ति

नहीं हो सकती। हिंदी में जो सामासिक क्रियाविशेषण आते हैं उनके अव्यय होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके पश्चात् विभक्ति का योग नहीं होता और उनका प्रयोग भी बहुधा क्रियाविशेषण के समान होता है, जैसे, यथाशक्ति, यथासाध्य, निःसंशय, निघडक, दरहकीकत, घरोंघर, हाथोहाथ, इत्यादि।

क्रियाविशेषणों का तीसरा वर्गीकरण अर्थ के अनुसार किया गया है। क्रिया के संबंध से काल और स्थान की सूचना बड़े ही महत्व की होती है। किसी भी घटना का वर्णन काल और स्थान के ज्ञान के बिना अधूरा ही रहता है। फिर जिस प्रकार विशेषणों के दो भेद—गुणवाचक और संख्यावाचक—मानने की आवश्यकता पड़ती है वही प्रकार क्रिया के विशेषणों के भी ये दो भेद मानना आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार में गुण और संख्या का अंतर सदैव माना जाता है। इस तरह अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषणों के चार भेद—कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक माने गये हैं। परिमाणवाचक क्रियाविशेषण बहुधा विशेषण और दूसरे क्रियाविशेषणों की विशेषता बतलाते हैं जिससे क्रियाविशेषण के लक्षण में विशेषण और क्रियाविशेषण की विशेषता का उल्लेख करना आवश्यक समझा जाता है। कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक शब्दों की संख्या रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की अपेक्षा बहुत थोड़ी है, इसलिए उनको छोड़ शेष शब्द बिना अधिक सोच-विचार के पिछले वर्ग में रख दिये जा सकते हैं। इन चारों वर्गों के उपभेद भी अर्थ की सूक्ष्मता बताने के लिये यथास्थान बताये गये हैं।

अतः में “हाँ”, “नहीं” और “क्या” के संबंध में कुछ लिखना आवश्यक जान पड़ता है। इनका प्रयोग प्रश्न के संबंध में किया जाता है। प्रश्न करने के लिए “क्या”, स्वीकार के लिए “हाँ” और निषेध के लिए “नहीं” आता है; जैसे, “क्या तुम बाहर चलोगे?” “हाँ” या “नहीं।” इन शब्दों को कोई कोई क्रियाविशेषण और कोई कोई विस्मयादिबोधक अव्यय मानते हैं, परंतु इनमें इन दोनों शब्दभेदों के लक्षण पूरे पूरे घटित नहीं होते। “नहीं” का प्रयोग विधेय के साथ क्रियाविशेषण के समान होता है, और “हाँ” शब्द “सच” “ठीक” और “अव्यय,” के पर्याय में आता है, इसलिए इन दोनों (हाँ और नहीं) को हमने क्रियाविशेषणों के वर्ग में रक्खा है। “क्या” संबोधन के अर्थ में आता है, इसलिए इसकी गणना विस्मयादिबोधकों में की गई है।]

दूसरा अध्याय ।

संबंध-सूचक ।

२२६—जो अव्यय सज्ञा (अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाले शब्द) के बहुधा आगे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे संबंधसूचक कहते हैं; जैसे, “**धन के बिना** किसीका काम नहीं चलता ।” “**नौकर गाँव तक** गया,” “**रात भर** जागना अच्छा नहीं होता ।” इन वाक्यों में ‘बिना’, ‘तक’ और ‘भर’ संबंधसूचक हैं । “विना” शब्द “धन” संज्ञा का संबंध “चलता” क्रियासे मिलाता है । “तक” “गाँव” का संबंध “गया” से मिलाता है; और “भर” “रात” का संबंध “जागना” क्रियार्थक संज्ञा के साथ जोड़ता है ।

[सूचना—विभक्तियों और थोड़े से अव्ययों को छोड़ हिंदी में मूल संबंध-सूचक कोई नहीं है जिससे कोई कोई वैयाकरण (हिंदी में) यह शब्द-भेदही नहीं मानते । “संबंधसूचक” शब्द-भेद के विषय में इस अध्याय के अंत में विचार किया जायगा । यहाँ केवल इतना लिखा जाता है कि जिन अव्ययों को सुभीते के लिए संबंधसूचक मानते हैं उनमें से अधिकांश संज्ञाएँ हैं जो अपनी विभक्तियों का लोप हो जाने से अव्यय के समान प्रयोग में आती हैं ।]

२३०—कोई कोई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रिया-विशेषण भी होते हैं और संबंधसूचक भी । जब वे स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं तब उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं, परंतु जब उनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तब वे संबंधसूचक कहाते हैं, जैसे—

नौकर यहाँ रहता है । (क्रियाविशेषण) ।

नौकर मालिक के यहाँ रहता है । (संबंधसूचक)

वह काम पहले करना चाहिए । (क्रि० वि०) ।

यह काम जाने से पहले करना चाहिए । (सं० सू०) ।

२३१—प्रयोग के अनुसार सवधसूचक दो प्रकार के होते हैं—

(१) संबद्ध (२) अनुबद्ध ।

२३२—(क) संबद्ध संबंधसूचक सज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं, जैसे, धन के बिना, नर की नाई, पूजा से पहले, इत्यादि।

[सू०—संबधसूचक अव्ययो के पूर्व विभक्तियों के आने का कारण यह जान पड़ता है कि संस्कृत में भी कुछ अव्यय संज्ञाओं की अलग अलग विभक्तियों के आगे आते हैं, जैसे, दीनं प्रति (दीन के प्रति), यत्नं-यत्नेन-प्रत्यात् विना (यत्न के बिना), रामेण सह (राम के साथ), वृक्षस्योपरि (वृक्ष के ऊपर), इत्यादि । इन अलग अलग विभक्तियों के बदले हिंदी में बहुधा संबध-कारक की विभक्तियाँ आती है, पर कहीं कहीं करण और प्रपादान कारको की विभक्तियाँ भी आती है ।]

(ख) अनुबद्ध सवधसूचक सज्ञा के विकृत रूप (अं०-३०६) के साथ आते हैं, जैसे, किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत, लडके सरीखा, इत्यादि ।

(ग) ने, को, से, का-के-की, मे, भी अनुबद्ध सवधसूचक हैं, परतु नीचे लिखे कारणों से इन्हे सवधसूचको में नहीं गिनते—

(अ) इनमें से प्राय सभी संस्कृत के विभक्ति-प्रत्ययों के अपभ्रश हैं । इसलिए हिंदी में भी ये प्रत्यय माने जाते हैं ।

(आ) ये स्वतंत्र शब्द न होने के कारण अर्थहीन हैं, परतु दूसरे सवधसूचक बहुधा स्वतंत्र शब्द होने के कारण सार्थक हैं ।

(इ) इनको सवधसूचक मानने से सज्ञाओं की प्रचलित कारक-रचना की रीति में हेरफेर करना पड़ेगा जिससे विवेचन में अव्यवस्था उत्पन्न होगी ।

२३३—संबद्ध सवधसूचको के पहले बहुधा “के” विभक्ति आती है, जैसे, धन के लिए, भूख के मारे, स्वामी के विरुद्ध, उसके पास, इत्यादि ।

(अ) नीचे लिखे अव्ययों के पहले (स्त्रीलिङ्ग के कारण) “की” आती है—अपेक्षा, ओर, जगह, नाई, खातिर, तरह तरफ, मारफत, बदैलत, संती, इत्यादि ।

[सू०—जब “ओर” (“तरफ”) के साथ संख्यावाचक विशेषण आता है तब “की” के बदले “के” का प्रयोग होता है, जैसे, “नगर के चारो ओर (तरफ) ।” “नाई,” “सरीखा” और “सती” का प्रचार कम है ।]

(आ) आकारांत संबंधसूचकों का रूप विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है और उनके पहले यथायोग्य का, के, की अथवा विकृत रूप आता है, जैसे, “प्रवाह **का** **जैसा** रूप दे देता है ।” (सर०) ।
 “विजली की सी चमक ।” “सिंह के से गुण ।” (भारत०) ।
 “हरिश्चंद्र **ऐसा** पति ।” (सत्य०) । “भोज **सरीखे** राजा ।
 (इति०) ।

२३४—आगे, पीछे, तले, बिना आदि कई एक संबंधसूचक कभी कभी बिना विभक्ति के आते हैं; जैसे, पाँव तले, पीठ पीछे, कुछ दिन आगे, शकुंतला बिना, (शकु०) ।

(अ) कविता में बहुधा पूर्वोक्त विभक्तियों का लोप होता है, जैसे,
 “**मातु-समीप** कहत सकुचार्हीं ।” (राम०) । सभा-**मध्य**,
 (क० क०) । पिता-**पास**, (सर०) । तेज-**सम्मुख**,
 (भारत०) ।

(आ) सा, ऐसा और जैसा के पहले जब विभक्ति नहीं आती तब उनके अर्थ में बहुधा अंतर पड़ जाता है, जैसे, “रामचंद्र से पुत्र” और “रामचंद्र के से पुत्र ।” पहले वाक्यांश में “से” “रामचंद्र” और “पुत्र” का एकार्थ सूचित करता है, पर दूसरे वाक्यांश में उससे दोनों का भिन्नार्थ सूचित होता है ।

[सू०—इन संबंधसूचको का विशेष विचार इसी अध्याय के अंत में किया जायगा ।]

२३५—“परे” और “रहित” के पहले “से” आता है । “पहले,” “पीछे,” “आगे” और “बाहर” के साथ “से” विकल्प से लाया जाता है । जैसे, समय से (वा समय के) पहले, सेना के (वा सेना से) पीछे, जाति से (वा जाति के) बाहर, इत्यादि ।

२३६—“मारे,” “बिना” और “सिवा” कभी कभी संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे, मारे भूख के, सिवा पत्तों के, बिना हवा के, इत्यादि । “बिना,” “अनुसार,” और “पीछे” बहुधा भूत-कालिक कृदत के विकृत रूप के आगे (बिना विभक्ति के) आते हैं, जैसे, “ब्राह्मण का ऋण **दिये** बिना ।” (सत्य०) । “नीचे **लिखे** अनुसार” । “रोशनी **हुए** पीछे ।” (परी०) ।

[सू०—संबंधसूचक को संज्ञा के पहले लिखना उर्दू रचना की रीति है जिसका अनुकरण कोई कोई उर्दू-प्रेमी करते हैं, जैसे, यह काम साथ होशियारी के करो । हिंदी में यह रचना कम होती है ।]

२३७—“योग्य” (लायक) और “बमूजिब” (अप०—मूजब) बहुधा क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं, जैसे, “जो पदार्थ **देखने योग्य** हैं ।” (शकु०) । “याद **रखने लायक** ।” (सर०) । “लिखने **बमूजिब** ।” (इति०) । “कहने **सूजब** ।” (परी०) ।

[सू०—‘इस,’ ‘उस,’ ‘जिस’ और ‘किस’ के साथ “लिए” का प्रयोग संज्ञा के समान होता है । जैसे, इसलिये, किसलिये, इत्यादि । ये संयुक्त शब्द बहुधा क्रियाविशेषण वा समुच्चयबोधक के समान आते हैं । ऐसा ही प्रयोग उर्दू “वास्ते” का होता है ।]

२३८—अर्थ के अनुमार संबंधसूचको का वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई व्याकरण-सवधो नियम सिद्ध नहीं होता । यहाँ केवल स्मरण की सहायता के लिये इनका वर्गीकरण दिया जाता है—

कालवाचक ।

आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, पश्चात्, उपरांत, लगभग ।

स्थानवाचक ।

आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, खूब, पास, निकट, समीप, नज़दीक (नगीच), यहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर, भीतर ।

दिशावाचक ।

ओर, तरफ, पार, आरपार, आसपास, प्रति ।

साधनवाचक ।

द्वारा, जरिये, हाथ, मारफत, बल, करके, जवानी, सहारे ।

हेतुवाचक ।

लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, हित (कविता मे), खातिर, कारण, सबब, मारे ।

विषयवाचक ।

बाबत, निस्बत, विषय, नाम (नामक), लेखे, जान, भरोसे, मद्धे ।

व्यतिरेकवाचक ।

सिवा (सिवाय), अलावा, बिना, बगैरे, अतिरिक्त, रहित ।

विनिसयवाचक ।

पलटे, बदले, जगह, एवज, संती ।

सादृश्यवाचक ।

समान, सम (कविता मे), तरह, भाँति, नाई, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक, सदृश, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, देखा-देखी, सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, वमूजिव, (अप०—मूजब), मुताबिक ।

विरोधवाचक ।

विरुद्ध, खिलाफ, उलटा, विपरीत ।

सहचारवाचक ।

सग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश ।

संग्रहवाचक ।

तक, लौं, पर्यंत, सुद्धा, भर, मात्र ।

तुलनावाचक ।

अपेक्षा, बनिस्वत, आगे, सामने ।

[सू०—ऊपर की सूची में जिन शब्दों को कालवाचक संबंधसूचक लिखा है वे किसी किसी प्रसंग में स्थानवाचक अथवा दिशावाचक भी होते हैं । इसी प्रकार और भी कई एक संबंधसूचक अर्थ के अनुसार एक से अधिक वर्गों में आ सकते हैं ।]

२३६—व्युत्पत्ति के अनुसार सबधसूचक दो प्रकार के हैं—(१) मूल और (२) यौगिक ।

हिंदी में मूल संबंधसूचक बहुत कम हैं, जैसे, बिना, पर्यंत, नाई, पूर्वक, इत्यादि ।

यौगिक सबधसूचक दूसरे शब्द-भेदों से बने हैं, जैसे,

(१) सजा से—पलटे, वास्ते, और, अपेक्षा, नाम, लेखे, विषय, मारफत, इत्यादि ।

(२) विशपण से—तुल्य, समान, उलटा, जबानी, सरीखा, योग्य, जैसा, ऐसा, इत्यादि ।

(३) क्रियाविशेषण से—ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परे, पीछे, इत्यादि ।

(४) क्रिया से—लिये, मारे, करके, जान ।

[सू०—अव्यय के रूप में लिये" को बहुधा "लिए" लिखते हैं ।]

२४०—हिंदी में कई एक संबंधसूचक उर्दू भाषा से और

कई एक संस्कृत से आये हैं। इनमें से बहुतसे शब्द हिंदी के संबंधसूचको के पर्यायवाची हैं। कितने एक संस्कृत संबंधसूचको का प्रचार हिंदी के गद्य-काल से आरंभ हुआ है। तीनों भाषाओं के कई एक पर्यायवाची संबंधसूचकों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

हिंदी	उर्दू	संस्कृत
सामने	रुवरू	समक्ष, सम्मुख
पास	नज़दीक	निकट, समीप
मारे	सबब, बदौलत	कारण
पीछे	बाद	पश्चात्, अनंतर, उपरांत
तक	ता (कचित्)	पर्यंत
से	बनिस्वत	अपेक्षा
नाई	तरह	भाँति
उलटा	खिलाफ़	विरुद्ध, विपरीत
लिए	वास्ते, खातिर	निमित्त, हेतु
से	ज़रिये	द्वारा
मद्धे	बाबत, निस्वत	विषय
×	बग़ैर	विना
पलटे	बदले, एवज़	×
×	सिवा, अलावा	अतिरिक्त

२४१—नीचे कुछ संबंधसूचक अव्ययों के अर्थ और प्रयोग लिखे जाते हैं—

आगे, पीछे, भीतर, भर, तक और इनके पर्यायवाची शब्द अर्थ के अनुसार कभी कालवाचक और कभी स्थानवाचक होते हैं; जैसे, घर के आगे, विवाह के आगे, दिन भर, गाँव भर, इत्यादि। (अं०—२२७)।

आगे, पीछे, पहले, परे, ऊपर, नीचे और इनमें से

किसी किसी के पर्यायवाची शब्दों के पूर्व जब “से” विभक्ति आती तब इनसे तुलना का बोध होता है; जैसे, कलुवा खरहे से आगे निकल गया। गाडी समय से पहले आई। वह जाति मे मुझसे नीचे हैं।

आगे—यह सवधसूचक नीचे लिखे अर्थों में भी आता है—

(अ) तुलना मे—उसके आगे सब छो निरादर हैं। (शकु०)।

(आ) विचार मे- मानियों के आगे प्राण और धन तो कोई वस्तु ही नहीं है। (सत्य०)।

(ई) विद्यमानता में—काले के आगे चिराग नही जलता। (कहा०)।

[सूचना—प्राय इन्हीं अर्थों में “सामने” का प्रयोग होता है। कोई कोई लोग इसे “साम्हने” लिखते हैं।]

पीछे—इससे प्रत्येकता का भी बोध होता है, जैसे, थान पीछे एक रुपया मिला।

ऊपर, नीचे—इनसे पद की छुटाई-बडाई भी सूचित होती है, जैसे, सबके ऊपर एक सरदार रहता है और उसके नीचे कई जमादार काम करते हैं।

निकट—इसका प्रयोग विचार के अर्थ में भी होता है, जैसे, उमके निकट भूत और भविष्यत दोनों वर्तमान से हैं। (गुटका०)।

पास—इससे अधिकार भी सूचित होता है, जैसे, मेरे पास एक घडी है।

यहाँ—दिल्लीवाले बहुधा इसे “हाँ” लिखते हैं, जैसे, “तुम्हारे हाँ कुछ रकम जमा की गई है।” (परी०)। राजा शिवप्रसाद इसे “यहाँ” लिखते हैं; जैसे, “और भी हिंदुओं को अपने यहाँ बुलाता है।” (इति०)। “परीक्षा-गुरु” में भी कई जगह “यहाँ”

भी आया है। यह शब्द यथार्थ में “यहाँ” (क्रियाविशेषण) है, परंतु बोलने में कदाचित् कहीं कहीं “हाँ” हो जाता है। “यहाँ” का अर्थ “पास” के समान अधिकार का भी है। कभी कभी “पास” और “यहाँ” का लोप हो जाता है और केवल “के” से इनका अर्थ सूचित होता है; जैसे, “इस महाजन के बहुत धन है।” “उनके एक लड़का है।” “मेरे कोई बहिन न हुई।” (गुटका०)।

सिवा—कोई कोई इसे अपभ्रंश-रूप में “सिवाय” लिखते हैं। प्लाट्स साहब के “हिंदुस्तानी व्याकरण” में दोनो रूप दिये गये हैं। साधारण अर्थ के सिवा इसका प्रयोग कई एक अपूर्ण उक्तियों की पूर्ति के लिए भी होता है; जैसे, “इन भाटों की बनाई हुई वंशावली की कदर इससे बखूबी मालूम हो जाती है। **सिवाय** इसके जो कभी कोई ग्रंथ लिखा भी गया, (तो) छापे की विद्या मालूम न होने के कारण वह काल पाके अशुद्ध हो गया।” (इति०)। निषंधवाचक वाक्य में इसका अर्थ “छोड़कर” या “बिना” होता है; जैसे, “उसके **सिवाय** और कोई भी यहाँ नहीं आया।” (गुटका)।

साथ—यह कभी कभी “सिवा” के अर्थ में आता है; जैसे, इन बातों से सूचित होता है कि कालिदास ईसवी सन् के तीसरे शतक के पहले के नहीं। इसके **साथ** ही यह भी सूचित होता है कि वे ईसवी सन् के पाँचवे शतक के बाद के भी नहीं।” (रघु०)।

अनुसार, अनुरूप, अनुकूल—यं शब्द स्वरदि हेतु के कारण पूर्ववर्ती संस्कृत शब्दों के साथ संधि के नियमों से मिल जाते हैं और इनके पूर्व “के” का लोप हो जाता है जैसे, आज्ञानुसार, इच्छानुरूप, धर्मानुकूल। इस प्रकार के शब्दों को सयुक्त संबंध-सूचक मानना चाहिए और इनके पूर्व समास के लिंग के अनुसार संबंध कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। जैसे, “सभा के अनुसार।” (भाषासार०)। कोई कोई लेखक स्त्रीलिंग संज्ञा के पूर्व

“की” लिखते हैं, जैसे, “**आपकी** आज्ञानुसार यह वर माँगता हूँ ।” (सत्य०) । **अनुरूप** और **अनुकूल** प्रायः समानार्थी हैं ।

सदृश, समान, तुल्य, योग्य—ये शब्द विशेषण हैं और सबधसूचक के समान आकर भी सजा की विशेषता बतलाते हैं, जैसे, “मुकुट के **योग्य** सिर पर तृण क्यों रक्खा है ।” (सत्य०) । “यह रेखा उस रेखा के **तुल्य** है ।” “मेरी दशा ऐसे ही वृत्तों के **सदृश** हो रही है ।” (रघु०) ।

सरीखा—इसके लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार बदलते हैं और इसके पूर्व बहुधा विभक्ति नहीं आती, जैसे, “मुझ **सरीखे** लोग ।” (सत्य०) । यह “**सदृश**” आदि का पर्यायवाची है और पूर्व शब्द के साथ मिलकर विशेषण का काम देता है । (अ०—१६०) ।

ऐसा, जैसा, सा—ये “सरीखा” के पर्यायवाची हैं । आजकल “सरीखा” के बदले “जैसा” का प्रचार बढ़ रहा है । “सरीखा” के समान “जैसा”, “ऐसा” और “सा” का रूप विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है । इनका प्रयोग भी विशेषण और संबंधसूचक, दोनों के समान होता है ।

ऐसा—इसका प्रयोग बहुधा सजा के विकृत रूप के साथ होता है । (अ०—२३२-ख) । ‘ऐसा’ का प्रचार पहले की अपेक्षा कुछ कम है । भारतेंदुजी के समय की पुस्तकों में इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसे, “आचार्य जी पागल **ऐसे** हो गये हैं ।” (सरो०) । “विशेष करके आप **ऐसे** ।” (सत्य०) । “काश्मीर **ऐसे** एक-आद इलाके का ।” (इति०) । कोई कोई इसका एक प्रांतिक रूप “कैसा” लिखते हैं, जैसे, “अग्नि **कैसी** लाल लाल जीभ निकाल ।” (प्रणयि०) ।

जैसा—इसका प्रचार आज कल के ग्रंथों में अधिकता से होता

है। यह विभक्ति-सहित और विभक्ति-रहित दोनों प्रयोगों में आता है; जैसे, “पहले शतक में कालिदास के ग्रंथों की **जैसी** परिमार्जित संस्कृत का प्रचार ही न था।” (रघु०)। “बीजगणित **जैसे** छिष्ट विषय को समझाने की चेष्टा की गई है।” (सर०)। इन दोनों प्रयोगों में यह अंतर है कि पहले वाक्य में “जैसी” “ग्रंथों” और “संस्कृत” का संबंध सूचित नहीं करता, किंतु “की” के पश्चात् लुप्त “संस्कृत” शब्द का संबंध दूसरे “संस्कृत” शब्द से सूचित करता है। दूसरे वाक्य में “बीज-गणित” का संबंध “विषय” के साथ सूचित होता है, इसलिए वहाँ संबंध-कारक की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण आगे दिये हुए उदाहरण में भी “के” नहीं आया है—“शिवकुमार शास्त्री **जैसे** धुरधर महा-महोपाध्याय।” (शिव०)।

सा—इस शब्द का कुछ विचार क्रियाविशेषण के अध्याय में किया गया है। (अं०—२२७)। इसका प्रयोग “जैसा” के समान, दो प्रकार से होता है और दोनों प्रयोगों में वैसा ही अर्थ-भेद पाया जाता है। जैसे, “**डील पहाड़ सा** और बल **हाथी का सा** है।” (शकु०)। इस वाक्य में डील को पहाड़ की उपमा दी गई है, इसलिए “सा” के पहले “का” नहीं आया, परंतु दूसरा “सा” अपने पूर्व लुप्त “बल” का संबंध पहले कहे हुए “बल” से मिलता है, इसलिए इस “सा” के पहले “का” लाने की आवश्यकता हुई है। “हाथी सा बल” कहना असंगत होता। मुद्राराक्षस में “मेरे से लोग” आया है; परंतु इसमें समता कहनेवाले से की गई है न कि उसकी संबंधिनी किसी वस्तु से, इसलिए शुद्ध प्रयोग “मुझसे लोग” होना चाहिये। कोई कोई इसे केवल प्रत्यय मानते हैं, परंतु प्रत्यय का प्रयोग विभक्ति के पश्चात् नहीं होता। जब यह संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति के बिना आता है तब इसे प्रत्यय कह

सकते हैं और सात शब्द को विशेषण मान सकते हैं, जैसे, फूलसा शरीर, चमेली से अंग पर, इत्यादि ।

भर, तक, मात्र—इनका भी विचार क्रियाविशेषण के अध्याय में हो चुका है । जब इनका प्रयोग संबंधसूचक के समान होता है तब ये बहुधा कालवाचक, स्थानवाचक वा परिमाणवाचक शब्दों के साथ आकर उनका सवध क्रिया से वा दूसरे शब्दों से मिलते हैं और इनके परे कारक की विभक्ति नहीं आती, जैसे, “वह रात भर जागता है ।” “लडका नगर तक गया ।” “इसमें तिल मात्र सदेह नहीं है ।” “तक” के अर्थ में कभी कभी संस्कृत का “पर्यंत” शब्द आता है, जैसे, “उसने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया ।” “भर” और “तक” के योग से संज्ञा का विकृत रूप आता है, पर “मात्र” के साथ उसका मूल रूप ही प्रयुक्त होता है, जैसे, “चौमासे भर ।” (इति०) । “समुद्र के तटों तक ।” (रघु०) । एक पुस्तक का नाम “कटोरा-भर खून” है, पर “कटोरा-भर” शब्द अशुद्ध है । यह “कटोरे-भर” होना चाहिए । “मात्र” शब्द का प्रयोग केवल कुछ संस्कृत शब्दों के साथ (संबंधसूचक के समान) होता है, जैसे, “क्षण-मात्र यहाँ ठहरो,” पल-मात्र, लेश-मात्र, इत्यादि । “भर” और “मात्र” बहुधा बहुवचनसंज्ञा के साथ नहीं आते । जब “तक” “भर” और “मात्र” का प्रयोग क्रियाविशेषणके समान होता है तब इनके पश्चात् विभक्तियाँ आती हैं, जैसे, “उसके राज भर में ।” (गुटका०) । “छोटे बड़े लाटों तक के नाम आप चिट्ठियाँ भेजते हैं ।” (शिव०) । “अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम ।” (भा० दु०) ।

विना—यह कभी कभी कृदत अव्यय के साथ आकर क्रिया-विशेषण होता है, जैसे, “विना किसी कार्य का कारण जाने हुए ।” (सर०) । “विना अतिम परिणाम सेचे हुए ।” (इति०) । कभी कभी यह संबंध-कारक की विशेषता बताता है, जैसे, “आपके

नियोग की खबर इस देश में **विना** मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी ।” (शिव०) । इन प्रयोगों में “विना” बहुधा संबन्धी शब्द के पहले आता है ।

उलटा—यह शब्द यथार्थ में विशेषण है; पर कभी कभी इसका प्रयोग “का” विभक्ति के आगे संबन्धसूचक के समान होता है, जैसे, “टापू का उलटा भील है ।” विरोध के अर्थ में बहुधा “विरुद्ध,” “खिलाफ,” आदि आते हैं ।

कर, करके—यह संबन्धसूचक बहुधा “द्वारा,” “समान” वा “नामक” के अर्थ में आता है; जैसे, “मन, वचन, कर्म **करके** यति किसी जीव की हिसान करे ।” “अग जग नाथ मनुज **करि** जाना ।” (राम०) । “संसार के स्वामी, (भगवान्) को मनुष्य **करके** जाना ।” (पीयूष०) । “तुम हरि को पुत्र **कर** मत मानो ।” (प्रेम०) । “पंडितजी शास्त्री **करके** प्रसिद्ध हैं ।” “बछरा **करि** हम जान्यो याही ।” (ब्रज०) ।

अपेक्षा, बनिस्वत—पहला शब्द संस्कृत संज्ञा है और दूसरा शब्द उर्दू संज्ञा “निस्वत” में “ब” उपसर्ग लगाने से बना है । एक के पूर्व “की” और दूसरे के पूर्व “के” आता है । इनका प्रयोग तुलना में होता है और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं । जिस वस्तु की हीनता बतानी हो उसके वाचक शब्द के आगे “अपेक्षा” या “बनिस्वत” लगाते हैं; जैसे, “**उनकी अपेक्षा** और प्रकार के मनुष्य कम हैं ।” (जीविका०) । “आर्यों के **बनिस्वत** ऐसी ऐसी असभ्य जाति के लोग रहते थे ।” (इति०) । “परीक्षा गुरु” में “बनिस्वत” के बदले “निस्वत” आया है, जैसे, “**उसकी निस्वत** उदारता की ज्यादा कदर करते हैं ।” यथार्थ में “निस्वत” “विषय” के अर्थ में आता है; जैसे “**चंदे की निस्वत** आप की क्या राय है ।” कभी कभी “अपेक्षा” का भी अर्थ “निस्वत” के समान “विषय”

होता है, जैसे, “सब धंधेवालो की अपेक्षा ऐसा ही ख्याल करना चाहिए ।” (जीविका०) ।

लौं—कोई कोई इसे “तक” के अर्थ में गद्य में भी लिखते हैं, परंतु यह शिष्ट प्रयोग नहीं है । पुरानी कविता में “लौं” “समान” के अर्थ में भी आया है, जैसे, “जानत कछु जल-शुभ-विधि दुर्योधन लौं लाल ।” (सत०) ।

[टी०—पहले कहा गया है कि हिंदी के अधिकांश वैयाकरण ग्रन्थों के भेद नहीं मानते । ग्रन्थों के और और भेद तो उनके अर्थ और प्रयोग के कारण बहुत करके निश्चित हैं चाहे कोई उनको माने या न माने, परंतु संबंधसूचक को एक अलग शब्द-भेद मानने में कई बाधाएँ हैं । हिंदी में कई एक संज्ञाओं, विशेषणों और क्रियाविशेषणों को केवल संबंधकारक अथवा कभी कभी दूसरे कारक की विभक्ति के पश्चात् आने ही के कारण संबंधसूचक मानते हैं, परंतु इनका एक अलग वर्ग न मानकर एक विशेष प्रयोग मानने से भी काम चल सकता है, जैसा कि संस्कृत में उपरि, विना, पृथक्, पुरः, अग्रे, आदि अव्ययों के संबंध में होता है, जैसे, “गृहस्योपरि,” “रामेण विना ।” दूसरी कठिनाई यह है कि जिस अर्थ में कोई कोई संबंधसूचक आते हैं उसी अर्थ में कारक-प्रत्यय अर्थात् विभक्तिर्था भी आती है, जैसे, घर में, घर के भीतर, तलवार से, तलवार के द्वारा, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर । तब इन विभक्तियों को भी संबंधसूचक क्यों न माने ? इनके सिवा एक और अड़चन यह है कि कई एक शब्दों—जैसे, तक, भर, सुझा, रहित, पूर्वक, मात्र, सा, आदि—के विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रत्यय हैं अथवा संबंधसूचक । हिंदी की वर्तमान लिखावट पर से इसका निर्णय करना और भी कठिन है । उदाहरणार्थ, कोई “तक” को पूर्व शब्द से मिलाकर और कोई अलग लिखते हैं । ऐसी अवस्था में संबंधसूचक का निर्दोष लक्षण बनाना सहज नहीं है ।

संबंधसूचक के पश्चात् विभक्ति का लोप हो जाता है और विभक्ति के पश्चात् कोई दूसरा प्रत्यय नहीं आता, इसलिए जो शब्द विभक्ति के पश्चात् आते हैं उनको प्रत्यय नहीं कह सकते और जिन शब्दों के पश्चात् विभक्ति आती है वे संबंधसूचक नहीं कहे जा सकते । उदाहरणार्थ, “हाथी का सा चल” में “सा” प्रत्यय नहीं, किंतु संबंधसूचक है, और “संसार भर के ग्रंथ-गिरि” में

“भर” संबंधसूचक नहीं किंतु प्रत्यय अथवा क्रियाविशेषण है। इस दृष्टि से केवल उन्हीं शब्दों को संबंधसूचक मानना चाहिए जिनके पश्चात् कभी विभक्ति नहीं आती और जिनका प्रयोग संज्ञा के बिना कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार के शब्द केवल “नाई,” “प्रति,” “पर्यंत,” “पूर्वरु,” “सहित” और “रहित” है। इनमें से अंत के पाँच शब्दों के पूर्व कभी कभी (संबंध) कारक की विभक्ति नहीं आती। उस समय इन्हें प्रत्यय कह सकते हैं। तब केवल एक “नाई” शब्द ही संबंधसूचक कहा जा सकता है, पर वह भी प्रायः अप्रचलित है। फिर तक, भर, मात्र और सुद्धां के पश्चात् कभी कभी विभक्तियाँ आती हैं; इसलिए और और शब्द-भेदों के समान ये केवल स्थानीय रूप से संबंध-सूचक हो सकते हैं। ये शब्द कभी संबंधसूचक, कभी प्रत्यय और कभी दूसरे शब्द-भेद भी होते हैं। (इनके भिन्न भिन्न प्रयोगों का उल्लेख क्रियाविशेषण के अध्याय में तथा इसी अध्याय में किया जा चुका है।) इससे जाना जाता है कि हिंदी में मूल-संबंधसूचकों की संख्या नही के बराबर है, परंतु भिन्न भिन्न शब्दों के प्रयोग संबंधसूचक के समान होते हैं, इसलिए इनको एक अलग शब्द-भेद मानने की आवश्यकता है। भाषा में बहुधा कोई भी शब्द आवश्यकता के अनुसार संबंधसूचक बना लिया जाता है और जब वह अप्रचलित हो जाता है तब उसके बदले दूसरा शब्द उपयोग में आने लगता है। हिंदी के “अतिरिक्त,” “अपेक्षा,” “विषय,” “विरुद्ध” आदि संबंधसूचक पुरानी पुस्तकों में नहीं मिलते और पुरानी पुस्तकों के “तई,” “छुट,” “संती,” लौं,” आदि आजकल अप्रचलित हैं।]

[सू०—संबंधसूचकों और विभक्तियों का विवेक अत्र कारक-प्रकरण में बताया जायगा ।]

तीसरा अध्याय ।

समुच्चय-बोधक ।

२४२—जो अव्यय (क्रिया की विशेषता न बतलाकर) एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है उसे समुच्चय-बोधक कहते हैं, जैसे, और, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए ।

“हवा चली और पानी गिरा”—यहाँ “और” समुच्चय-बोधक है, क्योंकि वह पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से मिलाता है । कभी कभी समुच्चय-बोधक से जोड़े जानेवाले वाक्य पूर्णतया स्पष्ट नहीं रहते; जैसे “कृष्ण और बलराम गये ।” इस प्रकार के वाक्य देखने में एकही से जान पड़ते हैं, परंतु दोनों वाक्यों में क्रिया एक ही होने के कारण संचेप के लिए उसका प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है । ये दोनों वाक्य स्पष्ट रूप से यों लिखे जायेंगे—“कृष्ण गये और बलराम गये ।” इसलिए यहाँ “और” दो वाक्यों को मिलाता है । “यदि सूर्य न हो तो कुछ भी न हो ।” (इति०) । इस उदाहरण में “यदि” और “तो” दो वाक्यों को जोड़ते हैं ।

(अ) कभी कभी कोई कोई समुच्चय बोधक वाक्य में शब्दों को भी जोड़ते हैं, जैसे, “दो और दो चार होते हैं ।” यहाँ “दो चार होते हैं और दो चार होते हैं”, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, अर्थात् “और” समुच्चय-बोधक दो संचित वाक्यों को नहीं मिलाता, किंतु दो शब्दों को मिलाता है । तथापि ऐसा प्रयोग सब समुच्चय-बोधकों में नहीं पाया जाता; और “क्योंकि”, “यदि”, “तो”, “यद्यपि”, “तोभी”, आदि कई समुच्चय-बोधक केवल वाक्यों ही को जोड़ते हैं ।

[टी०—समुच्चय-बोधक का लक्षण भिन्न भिन्न व्याकरणों में भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। यहाँ हम केवल “हि० वा० बो० व्याकरण” में दिये गये लक्षण पर विचार करते हैं। वह लक्षण यह है—“जो शब्द दो पदों, वाक्यों वा वाक्यों के अंशों के मध्य में आकर प्रत्येक पद वा वाक्यांश के भिन्न भिन्न क्रिया-सहित अन्वय का संयोग या विभाग करते हैं उनको समुच्चय-बोधक अव्यय कहते हैं; जैसे—राम और लक्ष्मण आये।” इस लक्षण में सबसे पहला दोष यह है कि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है। इसमें शब्दों की योजना से यह नहीं जान पड़ता कि “भिन्न भिन्न” शब्द “क्रिया” का विशेषण है अथवा “अन्वय” का। फिर समुच्चय-बोधक सदैव दो वाक्यों के मध्य ही में नहीं आता, बरन कभी कभी प्रत्येक जुड़े हुए वाक्य के आदि में भी आता है; जैसे, “यदि सूर्य न हो तो कुछ भी न हो।” इसके सिवा पदों वा वाक्यांशों को सभी समुच्चय-बोधक नहीं जोड़ते। इस तरह से इस लक्षण में अस्पष्टता, अव्याप्ति और शब्द-जाल का दोष पाया जाता है। लेखक ने यह लक्षण “भाषा-भास्कर” से जैसा का तैसा लेकर उसमें इधर उधर कुछ शाब्दिक परिवर्तन कर दिया है, परंतु मूल के दोष जैसे के तैसे बने रहे। “भाषा-प्रभाकर” में भी “भाषा-भास्कर” ही का लक्षण दिया गया है; और उसमें भी प्रायः येही दोष है।

हमारे किये हुए समुच्चय-बोधक के लक्षण में जो वाक्यांश—“क्रिया की विशेषता न बतलाकर”—आया है उसका कारण यह है कि वाक्यों को जिस प्रकार समुच्चय-बोधक जोड़ते हैं उसी प्रकार उन्हें दूसरे शब्द भी जोड़ते हैं। संबंध-वाचक और नित्य-संबंधी सर्वनामों के द्वारा भी दो वाक्य जोड़े जाते हैं; जैसे, “जो गरजते है वह बरसते नहीं।” (कथा० ।) इस उदाहरण में “जो” और “वह” दो वाक्यों का संबंध मिलाते हैं। इसी तरह ‘जैसा-तैसा’ और ‘जितना-उतना’ संबंध-वाचक विशेषण तथा ‘जब-तब’, ‘जहाँ-तहाँ’, ‘जैसे-तैसे’, आदि संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण भी एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाते हैं। इस पुस्तक में दिये हुए समुच्चय-बोधक के लक्षण से इन तीनों प्रकार के शब्दों का निराकरण होता है। संबंध-वाचक सर्वनाम और विशेषण को समुच्चय-बोधक इसलिए नहीं कहते कि वे अव्यय नहीं हैं; और संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण को समुच्चय-बोधक न मानने का कारण यह है कि उसका मुख्य धर्म क्रिया की विशेषता बताना है। इन तीनों प्रकार के शब्दों पर समुच्चय-बोधक की अतिव्याप्ति बचाने के लिए ही उक्त लक्षण में “अव्यय” शब्द और “क्रिया की विशेषता न बतलाकर” वाक्यांश लाया गया है।]

२४३—समुच्चय-बोधक अव्ययों के मुख्य दो भेद हैं—(१)

समानाधिकरण (२) व्यधिकरण ।

२४४—जिन अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें

समानाधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं। इनके चार उप-भेद हैं:—

(अ) **सयोजक**—और, व, तथा, एवं, भी । इनके द्वारा दो वा अधिक मुख्य वाक्यों का संग्रह होता है; जैसे, 'विल्ली के पंजे होते हैं और उनमें नख होते हैं' ।

व—यह उर्दू शब्द "और" का पर्यायवाचक है। इसका प्रयोग बहुधा शिष्ट लेखक नहीं करते, क्योंकि वाक्यों के बीच में इसका उच्चारण कठिनाई से होता है। उर्दू-प्रेमी राजा साहब ने भी इसका प्रयोग नहीं किया है। इस "व" में और संस्कृत "वा" में जिसका अर्थ "व" का उलटा है, बहुधा गडबड़ और भ्रम भी हो जाता है। अधिकांश में इसका प्रयोग कुछ उर्दू सामासिक शब्दों में होता है, परंतु उनमें भी यह उच्चारण की सुगमता के लिये संधि के अनुसार पूर्व शब्द में मिला दिया जाता है, जैसे, नामो-निशान, आबो-हवा, जानो-माल। इस प्रकार के शब्दों को भी लेखक, हिंदी-समास के अनुसार, बहुधा "आब-हवा", "जान-माल", "नाम-निशान", इत्यादि बोलते और लिखते हैं, जैसे, "द्युतपरस्ती (मुर्तिपूजा) का नाम-निशान न बाकी रहने दिया" । (इति०) ।

तथा—यह संस्कृत संबंधवाचक क्रिया-विशेषण "यथा" (जैसे) का नित्य-संबंधी है और इसका अर्थ "वैसे" है। इस अर्थ में इसका प्रयोग कभी कभी कविता में होता है, जैसे, "रह गई अति विस्मित सी तथा । चकित चंचल चारु मृगी यथा" । गद्य में इसका प्रयोग बहुधा "और" के अर्थ में होता है, जैसे, "पहले पहल वहाँ भी अनेक क्रूर तथा भयानक उपचार किये जाते थे" । (सर०) इसका अधिकतर प्रयोग "और" शब्द की द्विरुक्ति का निवारण करने

के लिए होता है, जैसे, “इस बात की पुष्टि में चैटर्जी महाशय ने रघुवंश के तेरहवें सर्ग का एक पद्य और रघुवंश तथा कुमार-सम्भव में व्यवहृत “संघात” शब्द भी दिया है। (रघु०)।

और—इस शब्द के सर्वनाम, विशेषण और क्रिया-विशेषण होने के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं। (अ०—१८४, १८५, २२३)। समुच्चय-बोधक होने पर इसका प्रयोग साधारण अर्थ के सिवा नीचे लिखे विशेष अर्थों में भी होता है (प्लाट्स साहव का हिंदुस्थानी व्याकरण)—

(अ) दो क्रियाओं की समकालीन घटना; जैसे, “तुम उठे और खराबी आई”।

(आ) दो विषयों का नित्य-संबंध; जैसे, “मैं हूँ और तुम हो”
(= मैं तुम्हारा साथ न छोड़ूँगा)।

(इ) धमकी वा तिरस्कार; जैसे, “फिर मैं हूँ और तुम हो”
(= मैं तुमको खूब समझूँगा)।

शब्दों के बीच में बहुधा “और” का लोप हो जाता है; जैसे, “भले-बुरे की पहचान,” “सुख-दुख का देनेवाला,” “चलो, देखो,” “मेरे हाथ-पाँव नहीं चलते”। यद्यार्थ में ये सब उदाहरण इंद्र-समास के हैं।

एव—“तथा” के समान इसका भी अर्थ “वैसे” वा “ऐसे” होता है, परंतु उच्च हिंदी में यह केवल “और” के पर्याय में आता है; जैसे, “लोग उपमायें देखकर विस्मित एव मुग्ध हो जाते हैं”। (सर०)।

भी—यह पहले वाक्य से कुछ सादृश्य मिलाने के लिए आता है; जैसे, “कुछ महात्म ही पर नहीं, गंगा जी का जन्म भी गंगा ही उत्तम और मनोहर है”। (सत्य०)। कभी कभी यह, दूसरे वाक्य के बिना, केवल पहली कथा में संबंध मिलावा है, जैसे,

“अब मैं भी तुम्हारी सखी का वृत्तात पूछता हूँ ।” (शकु०) । दो वाक्यों वा शब्दों के बीच में “और” रहने पर इससे केवल अवधारण का बोध होता है; जैसे, “मैंने उसे देखा और बुलाया भी ।” कहीं कहीं “भी” अवधारण-बोधक प्रत्यय “ही” के समान अर्थ देता है, जैसे, “एक भी आदमी नहीं मिला ।” “इस काम को कोई भी कर सकता है ।” कभी कभी “भी” से आश्चर्य वा संदेह सूचित होता है, जैसे, “तुम वहाँ गये भी थे ।” “पत्थर भी कहीं पसीजता है ।” कभी कभी इससे आग्रह का भी बोध होता है, जैसे, “उठो भी ।” “तुम वहाँ जाओगे भी ।” इन पिछले अर्थों में “भी” बहुधा “ही” के समान क्रिया-विशेषण होता है ।

(आ) विभाजक—या, वा, अथवा, किंवा, कि, या—या, चाहे—चाहे, क्या—क्या, न—न, न कि, नहीं तो ।

इन अव्ययों से दो या अधिक वाक्यों वा शब्दों में से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनो का त्याग होता है ।

या, वा, अथवा, किंवा—ये चारो शब्द प्रायः पर्यायवाची हैं । इन में से “या” उर्दू और शेष तीन संस्कृत हैं । “अथवा” और “किंवा” में दूसरे अव्ययों के साथ “वा” मिला है । पहले तीन शब्दों का एक-साथ प्रयोग द्विरुक्ति के निवारण के लिए होता है, जैसे, “किसी पुस्तक की अथवा किसी ग्रंथकार या प्रकाशक की एक से अधिक पुस्तकों की प्रशंसा में किसीने एक प्रस्ताव पास कर दिया” (सर०) । “या” और “वा” कभी कभी पर्यायवाची शब्दों को मिलाते हैं जैसे, “धर्मनिष्ठा या धार्मिक विश्वास ।” (स्वा०) । इस प्रकार के शब्द कभी कभी कोष्टक में ही रख दिये जाते हैं; जैसे, “श्रुति (वेद) में ।” (रघु०) । लेखक-गण कभी कभी भूल से “या” के बदले “और” तथा “और” के बदले “या” लिख देते हैं, जैसे, “मुझे जलाये और गाढे भी जाते थे और

कभी कभी जलाकं गाड़ते थे ।” (इति०) । यहाँ दोनो “और” के स्थान में “या”, “वा” और “अथवा” में से कोई भी दो अलग अलग शब्द होने चाहिए । **किंवा** का प्रयोग बहुधा कविता में होता है; जैसे, “नृप अभिमान मोह बस किंवा ।” (राम०) । “वे हैं नरक के दूत **किंवा** सूत हैं कलिराज के ।” (भारत०) ।

कि—यह (विभाजक) “कि” उद्देशवाचक और स्वरूपवाचक “कि” से भिन्न है । (अं०-२४५-आ, ई) । इसका अर्थ “या” के समान है, परंतु इसका प्रयोग बहुधा कविता ही में होता है; जैसे, “रखिहहिं भवन **कि** लैहहि साथा ।” (राम०) । “कज्जल को कूट पर दीप-शिखा सोती है **कि** श्याम घनमडल में दामिनी की धारा है” । (क० क०) । “कि ’ कभी कभी दो शब्दों को भी मिलाता है; जैसे, “यद्यपि कृपण **कि** अपव्ययी ही हैं धनी मानी यहाँ” (भारत०) । परंतु ऐसा प्रयोग क्वचित् होता है ।

या—या—ये शब्द जोड़े से आते हैं और अकेले “या” की अपेक्षा विभाग का अधिक निश्चय सूचित करते हैं; जैसे, “**या तो** इस पेड़ में फाँसी लगाकर मर जाऊँगी **या** गंगा में कूद पड़ूँगी” । (सत्य०) । कभी कभी “कहाँ—कहाँ” के समान इनसे “महत अंतर” सूचित होता है; जैसे, “**या** वह रौनक थो **या** सुनसान हो गया” । कविता में “या-या” के अर्थ में “कि-कि” आते हैं, जैसे; “**की** तनु प्रान **कि** केवल प्राना” । (राम०) ।

कानूनी हिंदी में पहले “या” के बदले “आया” लिखते हैं जैसे “**आया** मर्द **या** औरत” । “आया” भी उर्दू शब्द है ।

प्रायः इसी अर्थ में “चाहे-चाहे” आते हैं; जैसे, “**चाहे** सुमेरु को राई करै रचि राई को **चाहे** सुमेरु बनावै ।” (पद्मा०) । ये शब्द “चाहना” क्रिया से बने हुए अव्यय हैं ।

क्या—क्या—ये प्रश्नवाचक सर्वनाम समुच्चय-बोधक के समान

उपयोग में आते हैं। कोई इन्हे **संयोजक** और कोई **विभाजक** मानते हैं। इनके प्रयोग में यह विशेषता है कि ये वाक्य में दो वा अधिक शब्दों का विभाग बताकर उन सबका इकट्ठा उल्लेख करते हैं, जैसे, “**क्या** मनुष्य और **क्या** जीवजंतु, मैंने अपना सारा जन्म **इन्हींका** भला करने में गँवाया”। (गुटका०)। “**क्या** स्त्री **क्या** पुरुष, **सब ही** के मन में आनंद छाया रहा था” (प्रेम०)।

न-न—ये दुहरे क्रियाविशेषण समुच्चय-बोधक होकर आते हैं। इनसे दो वा अधिक शब्दों में से प्रत्येक का त्याग सूचित होता है, जैसे, “**न** उन्हे नौद आती थी **न** भूख प्यास लगती थी”। (प्रेम०)। कभी कभी इनसे अशक्यता का बोध होता है; जैसे, “**न** ये अपने प्रबधों से छुट्टी पावेंगे **न** कही जायँगे”। (सत्य०)। “**न** नौ मन तेल होगा **न** राधा नाचेगी”। (कहा०)। कभी कभी इनका प्रयोग कार्य-कारण सूचित करने में होता है, जैसे, “**न** तुम आते **न** यह उपद्रव खड़ा होता”।

न कि—यह “**न**” और “**कि**” से मिलकर बना है। इससे बहुधा दो बातों में से दूसरी का निषेध सूचित होता है, जैसे, “अंगरेज लोग व्यापार के लिये आये थे **न कि** देश जीतने के लिये”।

नहीं तो—यह भी संयुक्त क्रियाविशेषण है, और समुच्चय-बोधक के समान उपयोग में आता है। इससे किसी बात के त्याग का फल सूचित होता है, जैसे, “उमने मुह पर घूँघट सा डाल लिया है, **नहीं तो** राजा की आँखें कब उस पर ठहर सकती थीं”। (गुटका०)।

(इ) **विरोधदर्शक**—पर, परतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन्, बल्कि। ये अव्यय दो वाक्यों में से पहले का निषेध वा परिमिति सूचित करते हैं।

पर—“पर” ठेठ हिंदी शब्द है, “परंतु” तथा “किंतु” संस्कृत

शब्द हैं और “लेकिन” तथा “मगर” उर्दू हैं। “पर”, “परंतु” और “लेकिन” पर्यायवाची हैं। “मगर” भी इनका पर्यायवाची है; परंतु इसका प्रयोग हिंदी में क्वचित् होता है। “प्रेमसागर” में केवल “पर” का प्रयोग पाया जाता है; जैसे, “भूठ सच की तो भगवान् जाने; पर मेरे मन में एक बात आई है।”

किंतु, वरन—ये शब्द भी प्रायः पर्यायवाची हैं और इनका प्रयोग बहुधा निषेधवाचक वाक्यों के पश्चात् होता है; जैसे, “कामनाओं के प्रबल होने से आदमी दुराचार नहीं करते, किंतु अंतःकरण के निर्बल होजाने से वे वैसा करते हैं।” (स्वा०)। “मैं केवल सँपेरा नहीं हूँ; किंतु भाषा का कवि भी हूँ।” (मुद्रा०)। “इस संदेह का इतने काल बीतने पर यथोचित समाधान करना कठिन है, वरन बड़े बड़े विद्वानों की मति भी इसमें विरुद्ध है।” (इति०)। “वरन” बहुधा एक बात को कुछ दबाकर दूसरी को प्रधानता देने के लिये भी आता है; “जैसे पारस देशवाले भी आर्य थे, वरन इसी कारण उस देश को अब भी ईरान कहते हैं।” (इति०)। “वरन” के पर्यायवाची “वरञ्च” (संस्कृत) और “बल्कि” (उर्दू) हैं।

(ई) **परिणामदर्शक**—इसलिए, सो, अत, अतएव ।

इन अव्ययों से यह जाना जाता है कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल है, जैसे, “अब भोर होने लगा था, इसलिए दोनों जन अपनी अपनी ठौरों से उठे।” (ठेठ०)। इस उदाहरण में “दोनों जन अपनी अपनी ठौरों से उठे”, यह वाक्य परिणाम सूचित करता है और “अब भोर होने लगा था”, यह कारण बतलाता है, इस कारण “इसलिए” परिणामदर्शक समुच्चय-बोधक है। यह शब्द मूल समुच्चय-बोधक नहीं है, किंतु “इस” और “लिए” के मेल से बना है, और समुच्चय-बोधक तथा कभी

कभी क्रियाविशेषण के समान उपयोग में आता है । (अं०—२३७—सू०) । “इसलिए” के बदले कभी कभी “इससे”, “इसवास्ते” वा “इस कारण” भी आता है ।

[सू०—(१) “इसलिए” के और अर्थ आगे लिखे जायेंगे । (२) अवधारण में “इसलिए” का रूप “इसीलिए” हो जाता है ।]

अतएव, अतः—ये संस्कृत शब्द “इसलिए” के पर्यायवाचक हैं और इनका प्रयोग उच्च हिंदी में होता है ।

सो—यह निश्चयवाचक सर्वनाम (अं०—१३०) “इसलिए” के अर्थ में आता है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ “तब” वा “परंतु” भी होता है । जैसे, “मैं घर से बहुत दूर निकल गया था, सो मैं बड़े खेद से नीचे उतरा” । “कस ने अवश्य यशोदा की कन्या के प्राण लिये थे, सो वह असुर था ।” (गुटका०) ।

[सू०—कानूनी हिं दी में “इसलिए” के बदले “लिहाजा” लिखा जाता है ।]

[टी०—समानाधिकरण समुच्चय-बोधक अव्ययों से मिले हुए साधारण वाक्यों को कोई कोई लेखक अलग अलग लिखते हैं, जैसे, “भारतवासियों को अपनी दशा की परवा नहीं है । पर आपकी इज्जत का उन्हें बड़ा ख्याल है ।” (शिव०) । “उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है । अतएव पढ़ाना चाहिये ।” (सर०) । इस प्रकार की रचना अनुकरणीय नहीं है ।

२४५—जिन अव्ययों के योग से एक मुख्य वाक्य में एक वा अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें **व्यधिकरण** समुच्चय-बोधक कहते हैं । इनके चार उपभेद हैं—

(अ) **कारण-वाचक**—क्योंकि, जोकि, इसलिए—कि ।

इन अव्ययों से आरंभ होनेवाले वाक्य पूर्ववाक्य का समर्थन करते हैं—अर्थात् पूर्व वाक्य के अर्थ का कारण उत्तर वाक्य के

अर्थ से सूचित होता है; जैसे, “इस नाटिका का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था, क्योंकि मैं संस्कृत अच्छी नहीं जानता।” (रत्ना०) । इस उदाहरण में उत्तर वाक्य पूर्व वाक्य का कारण सूचित करता है । यदि इस वाक्य को उलटकर ऐसा कहे कि “मैं संस्कृत अच्छी नहीं जानता, इसलिए (अतः, अतएव) इस नाटिका का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था” तो पूर्व वाक्य से कारण और उत्तर वाक्य से उसका परिणाम सूचित होता है, और “इसलिए” शब्द परिणाम-बोधक है ।

[टी०—यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब “इसलिए” को समानाधिकरण समुच्चय-बोधक मानते हैं, तब “क्योंकि” को इस वर्ग में क्यों नहीं गिनते ? इस विषय में वैयाकरणों का मत एक नहीं है । कोई कोई दोनों अव्ययों को समानाधिकरण और कोई कोई उन्हें व्यधिकरण समुच्चय-बोधक मानते हैं । इसके विरुद्ध किसी किसी के मत में “इसलिए” समानाधिकरण और “क्योंकि” व्यधिकरण है । इस (पिछले) मत का स्पष्टीकरण अगले उदाहरण से होगा—“गर्म हवा ऊपर उठती है, क्योंकि वह साधारण हवा से हलकी होती है ।” इस वाक्य में वक्ता का मुख्य अभिप्राय यह बात बताना है कि “गर्म हवा ऊपर उठती है, ” इसलिए वह दूसरी बात का उल्लेख केवल पहली बात के समर्थन में करता है । यदि इसी बात को यों कहें कि “गर्म हवा साधारण हवा से हलकी होती है; इसलिए वह ऊपर उठती है”—तो जान पड़ेगा कि यहाँ वक्ता का अभिप्राय दोनों बातों प्रधानता-पूर्वक बताने का है । इसके लिए वह दोनों वाक्यों को इस तरह भी कह सकता है कि “गर्म हवा साधारण हवा से हलकी होती है और वह ऊपर उठती है ।” इस दृष्टि से “क्योंकि” व्यधिकरण समुच्चय-बोधक है, अर्थात् उससे आरंभ होनेवाला वाक्य आश्रित होता है और “इसलिए” समानाधिकरण समुच्चय-बोधक है—अर्थात् वह मुख्य वाक्यों को मिलाता है ।]

“क्योंकि” के बदले कभी कभी “कारण” शब्द आता है वह समुच्चय-बोधक का काम देता है । “काहेसे कि” समुच्चय-बोधक वाक्यांश है ।

कभी कभी कारण के अर्थ में परिणाम-बोधक “इसलिए” आता है और तब उसके साथ बहुधा “कि” रहता है; जैसे,

“दुष्य त—क्यों मादव्य, तुम लाठी से क्यों बुरा कहा चाहते हो ?

मादव्य—इसलिये कि मेरा अंग तो टेढ़ा है, और यह सीधी बनी है ।” (शकु०) ।

कभी कभी पूर्व वाक्य में “इसलिए” क्रियाविशेषण के समान आता है और उत्तर वाक्य “कि” समुच्चय-बोधक से आरंभ होता है, जैसे, “कोई बात केवल इसीलिए मान्य नहीं है कि वह बहुत काल से मानी जाती है ।” (सर०) । “(मैंने) इसलिये रोका था कि इस यत्र में बड़ी शक्ति है ।” (शकु०) । “कुआँ, इसलिए कि वह पत्थरों से बना हुआ था, अपनी जगह पर गिखर की नाई खड़ा रहा ।” (भाषासार०) ।

जोकि—यह उर्दू “चूँकि” के बदले कानूनी भाषा में कारण सूचित करने के लिए आता है; जैसे, “**जोकि** यह अमर करीब मस्तहत्त है .. इसलिए नीचे लिखे मुताबिक हुक्म होता है ।” (एक्ट०) ।

इस उदाहरण में पूर्व वाक्य आश्रित है, क्योंकि उसके साथ कारणवाचक समुच्चय-बोधक आया है । दूसरे स्थानों में पूर्ववाक्य के साथ बहुधा कारणवाचक अव्यय नहीं आता, और वहाँ वह वाक्य मुख्य समझा जाता है । वैयाकरणों का मत है कि पहले कारण और पीछे परिणाम कहने से कारणवाचक वाक्य आश्रित और परिणामबोधक वाक्य स्वतंत्र रहता है ।

(आ) **उद्देशवाचक**—कि, जो, ताकि, इसलिए कि ।

न अव्ययों के पश्चात् आनेवाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश वा हेतु सूचित करता है । उद्देशवाचक वाक्य बहुधा दूसरे (मुख्य) वाक्य के पश्चात् आता है, पर कभी कभी वह उसके पूर्व भी आता

है । उदा०—“हम तुम्हे वृंदावन भेजा चाहते हैं **कि** तुम उनका समाधान कर आओ” । (प्रेम०) । “किया क्या जाय जो देहातियों की प्राणरक्षा हो” । (सर०) । “लोग अकसर अपना हक पक्का करने के लिये दस्तावेजों की रजिस्टरी करा लेते हैं **ताकि** उनके दावे में किसी प्रकार का शक न रहे” । (चौ० पु०) । “मछुआ मछली मारने के लिये हर घड़ी मिहनत करता है **इसलिए** **कि** उसको मछली का अच्छा मोल मिले ।” (जोविका०) ।

जब उद्देशवाचक वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब उसके साथ कोई समुच्चय-बोधक नहीं रहता; परंतु मुख्य वाक्य “इसलिए” से आरंभ होता है, जैसे, “तपोवनवासियों के कार्य में विघ्न न हो, **इसलिए** रथ को यहीं रखिये ।” (शकु०) । कभी कभी मुख्य वाक्य “इसलिए” के साथ पहले आता है और उद्देशवाचक वाक्य ‘कि’ से आरंभ होता है; जैसे “इस बात की चर्चा हमने **इसलिए** की है **कि** उसकी शंका दूर हो जावे” ।

“जो” के बदले कभी कभी **जिसमें** वा **जिससे** आता है; जैसे, “बेग बेग चली आ **जिससे** सब एक-संग चेम-कुशल से कुटी में पहुँचे ।” (शकु०) । “यह विस्तार इसलिये किया गया है **जिसमें** पढ़नेवाले कालिदास का भाव अच्छी तरह समझ जायँ ।” (रघु० ।

[सू०—“ताकि” को छोड़कर शेष उद्देशवाचक समुच्चयबोधक दूसरे अर्थों में भी आते हैं । “जो” और “कि” के अन्य अर्थों का विचार आगे होगा । कहीं कहीं “जो” और “कि” पर्यायवाचक होते हैं; जैसे, “बाबा से समझायकर कहे जो वे मुझे श्वालों के संग पठाय दें ।” (प्रेम०) । इस उदाहरण में “जो” के बदले “कि” उद्देशवाचक का प्रयोग हो सकता है । “ताकि” और “कि” उर्दू शब्द हैं और “जो” हिंदी है । “इसलिए” की व्युत्पत्ति पहले लिखी जा चुकी है । (अ०—२४४—ई) ।]

(इ) **संकेतवाचक**—जो—तो, यदि—तो, यद्यपि—तथापि
(तोभी), चाहे—परंतु, कि ।

इनमें से 'कि' को छोड़कर शेष शब्द, संबंधवाचक और नित्य-संबंधी सर्वनामों के समान, जोड़े से आते हैं। इन शब्दों के द्वारा जुड़नेवाले वाक्यों में से एक में "जो", "यदि", "यद्यपि" या "चाहे" आता है और दूसरे वाक्य में क्रमशः "तो", "तथापि" (तोभी) अथवा "परंतु" आता है। जिस वाक्य में "जो", "यदि" "यद्यपि" या "चाहे" का प्रयोग होता है उसे पूर्व वाक्य और दूसरे को उत्तर वाक्य कहते हैं। इन अव्ययों को "संकेत-वाचक" कहने का कारण यह है कि पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है उससे उत्तर वाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है।

जो—तो—जब पूर्व वाक्य में कही हुई शर्त पर उत्तर वाक्य की घटना निर्भर होती है तब इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसी अर्थ में "यदि—तो" आते हैं। "जो" साधारण भाषा में और 'यदि' शिष्ट अथवा पुस्तकी भाषा में आता है। उदा०—**"जो** तू अपने मन से सच्ची है **तो** पति के घर में दासी होकर भी रहना अच्छा है।" (शकु०)। **"यदि** ईश्वरेच्छा से यह वही ब्राह्मण हो **तो** बड़ी अच्छी बात है"। (सत्य०)। कभी कभी "जो" से आतंक पाया जाता है, जैसे, **"जो** मैं राम **तो** कुल सहित कहहि दसनन जाय।" (राम०)। **"जो** हरिश्चंद्र को तेजोभ्रष्ट न किया **तो** मेरा नाम विश्वामित्र नहीं"। (सत्य०)। अवधारण में "तो" के बदले "तोभी" आता है; जैसे, जो (कुटुंब) होता **तोभी** मैं न देता।" (मुद्रा०)।

कभी कभी कोई बात इतनी स्पष्ट होती है कि उसके साथ किसी शर्त की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे "पत्थर पानी में डूब जाता है"। इस वाक्य को बढ़ाकर यो लिखना कि "यदि पत्थर को पानी में डालें **तो** वह डूब जाता है", अनावश्यक है।

"जो" कभी कभी "जब" के अर्थ में आता है, जैसे "जो वह स्नेह ही न रहा **तो** अब सुधि दिलाये क्या होता है।" (शकु०)।

“जो” के बदले कभी कभी ‘कदाचित्’ (क्रियाविशेषण) आता है; जैसे, “कदाचित् कोई कुछ पूछे तो मेरा नाम बता देना” । कभी कभी “जो” के साथ (‘तो’ के बदले) “सो” समुच्चयबोधक आता है, जैसे “जो आपने रुपयों के बारे में लिखा सो अभी उसका बंदोबस्त होना कठिन है ।”

“यदि” से संबंध रखनेवाली एक प्रकार की वाक्यरचना हिंदी में अँगरेजी के सहवास से प्रचलित हुई है जिसमें पूर्व वाक्य की शर्त का उल्लेख कर तुरंत ही उसका मंडन कर देते हैं, परंतु उत्तर वाक्य ज्यों का त्यों रहता है; जैसे, “यदि यह बात सत्य हो (जो निस्संदेह सत्य ही है) तो हिंदुओं को संसार में सब से बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा” । (भारत०) । “यदि” का पर्यायवाची उर्दू शब्द “अगर” भी हिंदी में प्रचलित है ।

यद्यपि—तथापि (तोभी)—ये शब्द जिन वाक्यों में आते हैं उनके निश्चयात्मक विधानों में परस्पर विरोध पाया जाता है; जैसे, “यद्यपि यह देश तब तक जंगलों से भरा हुआ था तथापि अयोध्या अच्छी बस गई थी ।” (इति०) । “तथापि” के बदले बहुधा “तोभी” और कभी कभी “परंतु” आता है; “यद्यपि हम वनवासी हैं तोभी लोक के व्यवहारों को भली भाँति जानते हैं ।” (शकु०) । “यद्यपि गुरु ने कहा है.....पर यह तो बड़ा पाप सा है ।” (मुद्रा०) ।

कभी कभी “तथापि” एक स्वतंत्र वाक्य में आता है; और वहाँ उसके साथ “यद्यपि” की आवश्यकता नहीं रहती; जैसे, “मेरा भी हाल ठीक ऐसे ही बाने का जैसा है । तथापि एक बात अवश्य है ।” (रघु०) । इसी अर्थ में “तथापि” के बदले “तिस-पर-भी” वाक्यांश आता है ।

चाहे—परंतु—जब “यद्यपि” के अर्थ में कुछ संदेह रहता है तब उसके बदले “चाहे” आता है; जैसे, “उसने चाहे अपनी

सखियों की ओर ही देखा हो; **परंतु** मैंने यही जाना ।” (शकु०) ।

“चाहे” बहुधा संबन्धवाचक सर्वनाम, विशेषण वा क्रिया-विशेषण के साथ आकर उनकी विशेषता बतलाता है, और प्रयोग के अनुसार बहुधा क्रिया-विशेषण होता है; जैसे, “यहाँ **चाहे** जो कह लो; परंतु अदालत में तुम्हारी गीदड़-भबकी नहीं चल सकती ।” (परी०) । “मेरे रनवास में **चाहे** जितनी रानी (रानियाँ) हों मुझे दोही वस्तु (वस्तुएँ) संसार में प्यारी होंगी” । (शकु०) । “मनुष्य बुद्धि-विषयक ज्ञान में **चाहे** जितना पारंगत हो जाय, परंतु... उसके ज्ञान से विशेष लाभ नहीं हो सकता ।” (सर०) । “**चाहे** जहाँ से अभी सब दे ।” (सत्य०) ।

दुहरे संकेतवाचक समुच्चयबोधक अव्ययों में से कभी कभी किसी एक का लोप हो जाता है, जैसे, () “कोई परीक्षा लेता तो मालूम पड़ता ।” (सत्य०) । () “इन सब बातों से हमारे प्रभु के सब काम सिद्ध हुए प्रतीत होते हैं **तथापि** मेरे मन को धैर्य नहीं है ।” (रत्ना०) । “**यदि** कोई धर्म, न्याय, सत्य, प्रीति, पौरुष का हमसे नमूना चाहे, () हम यहो कहेंगे, “राम, राम, राम ।” (इति०) । “वैदिक लोग () कितना भी अच्छा लिखें **तोभी** उनके अक्षर अच्छे नहीं बनते ।” (मुद्रा०) ।

कि—जब यह संकेतवाचक होता है तब इसका अर्थ “ल्योही” होता है, और यह दोनों वाक्यों के बीच में आता है, जैसे, “अक्टोबर चला **कि** उसे नौद ने सताया ।” (सर०) । “शैब्या रोहिताश्व का मृत कंबल फाड़ा चाहती है **कि** रंगभूमि की पृथ्वी हिलती है ।” (सत्य०) ।

कभी कभी “कि” के साथ उसका समानार्थी वाक्यांश “इतने में” आता है जैसे, “मैं तो जाने ही को था **कि** इतने में आप आगये ।” (सत्य०) ।

(६) **स्वरूपवाचक**—कि, जो, अर्थात्, याने, मानो ।

इन अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों वा वाक्यों में से पहले शब्द वा वाक्य का स्वरूप (स्पष्टीकरण) पिछले शब्द वा वाक्य से जाना जाता है; इसलिए इन अव्ययों को स्वरूपवाचक कहते हैं।

कि—इसके और और अर्थ तथा प्रयोग पहले कहे गये हैं। जब यह अव्यय स्वरूपवाचक होता है तब इससे किसी बात का केवल आरंभ वा प्रस्तावना सूचित होती है; जैसे, “श्रीशुकदेवमुनि बोले **कि** महाराज, अब आगे कथा सुनिए।” (प्रेम०)। “मेरे मन मे आती है **कि** इससे कुछ पूछूँ।” (शकु०)। “बात यह है **कि** लोगों की रुचि एकसी नहीं होती।” (रघु०)।

जब आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब “कि” का लोप होजाता है, परंतु मुख्य वाक्य मे आश्रित वाक्य का कोई समानाधिकरण शब्द आता है; जैसे, “परमेश्वर एक है, यह धर्म की बात है।” “रबर काहे का बनता है यह बात बहुतेरों को मालूम भी नहीं है।”

[सू०—इस प्रकार की उलटी रचना का प्रचार हिंदी में बँगला और मराठी की देखादेखी होने लगा है; परंतु वह सार्वत्रिक नहीं है। प्राचीन हिंदी कविता में ‘कि’ का प्रयोग नहीं पाया जाता। आजकल के गद्य में भी कहीं कहीं इसका लोप कर देते हैं। जैसे, “क्या जाने, किसी के मन में क्या भरा है।”]

जो—यह स्वरूपवाचक “कि” का समानार्थी है, परंतु उसकी अपेक्षा अब व्यवहार मे कम आता है। प्रेमसागर में इसका प्रयोग कई जगह हुआ है, जैसे, “यही विचारो **जो** मथुरा और वृंदावन मे अंतर ही क्या है।” “विसने बड़ी भारी चूक की **जो** तेरी माँग श्रीकृष्ण को दी।” जिस अर्थ मे भारतेंदुजी ने “कि” का प्रयोग किया है उसी अर्थ मे द्विवेदीजी बहुधा “जो” लिखते हैं; जैसे, “ऐसा न हो **कि** कोई आ जाय।” (सत्य०)। “ऐसा न हो **जो** इंद्र यह समझे।” (रघु०)

[टी०—बँगला, उड़िया, मराठी, आदि आर्य-भाषाओं में “कि” वा “जो” के संबंध से दो प्रकार की रचनाएँ पाई जाती है जो संस्कृत के “यत्” और “इति” अव्ययों से निकली हैं। संस्कृत के “यत्” के अनुसार उनमें “जे” आता है और “इति”के अनुसार बँगला में “बलिया,” उड़िया में “बोजि,” मराठी में “म्हणून” और नेपाली में (कैलाग साहव के अनुसार) “भनि” है। इन सब का अर्थ “कहकर” होता है। हिंदी में “इति” के अनुसार रचना नहीं होती; परंतु “यत्” के अनुसार इसमें “जो” (स्वरूपवाचक) आता है। इस “जो” का प्रयोग उर्दू “कि” के समान होने के कारण “जो” के बदले “कि” का प्रचार हो गया है और “जो” कुछ चुने हुए स्थानों में रह गया। मराठी और गुजराती में “कि” क्रमशः “की” और “के” के रूप में आता है। दक्षिणी हिंदी में “इति” के अनुसार जो रचना होती है; उसमें “इति” के लिए “करके” (समुच्चय-बोधक के समान) आता है, जैसे, “मैं जाऊँगा करके नौकर मुझसे कहता था” = नौकर मुझसे कहता था कि मैं जाऊँगा।]

कभी कभी मुख्य वाक्य में “ऐसा,” “इतना,” “यहाँ तक” अथवा कोई विशेषण आता है और उसका स्वरूप (अर्थ) स्पष्ट करने के लिए “कि” के पश्चात् आश्रित वाक्य आता है; जैसे, “क्या और देशों में इतनी सर्दी पडती है कि पानी जमकर पत्थर की चट्टान की नाई होजाता है?” (भाषासार०)। “चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही न लगा।” “कैसी छलांग भरी है कि धरती से ऊपर ही दिखाई देता है।” (शकु०)। “कुछ लोगों ने आदमियों के इस विश्वास को यहाँ तक उत्तेजित कर दिया है कि वे अपने मनोविकारों को तर्कशास्त्र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान मानते हैं।” (स्वा०)। “कालचक्र बड़ा प्रबल है कि किसी को एक ही अवस्था में नहीं रहने देता।” (मुद्रा०)। “तू बड़ा मूर्ख है जो हमसे ऐसी बात कहता है।” (प्रेम०)।

[सू०—इस अर्थ में “कि” (वा “जो”) केवल स्वरूपवाचक ही नहीं, किंतु परियात्मबोधक भी है। समानाधिकरण समुच्चय-बोधक “इसलिए” से जिस

परिणाम का बोध होता है उससे “कि” के द्वारा सूचित होनेवाला परिणाम भिन्न है, क्योंकि इस में परिणाम के साथ स्वरूप का अर्थ मिला हुआ है। इस अर्थ में केवल एक समुच्चय-बोधक “कि” आता है; इसलिए उसके इस एक अर्थ का विवेचन यहीं कर दिया गया है।]

कभी कभी “यहाँ तक” और “कि” साथ साथ आते हैं और केवल वाक्यों ही को नहीं, किंतु शब्दों को भी जोड़ते हैं; जैसे, “बहुत आदमी उन्हें सच मानने लगते हैं; यहाँ तक कि कुछ दिनों में वे सर्वसम्मत हो जाते हैं।” (स्वा०)। “इसपर तुम्हारे बड़े अन्न, रस्सियाँ, यहाँ तक कि उपले लादकर लाते थे।” (शिव०)। “क्या यह भी संभव है कि एक के काव्य के पद के पद, यहाँ तक कि प्रायः श्लोकार्द्ध के श्लोकार्द्ध तद्वत् दूसरे के दिमाग से निकल पड़े?” (रघु०)। इन उदाहरणों में “यहाँ तक कि” समुच्चय-बोधक वाक्यांश है।

अर्थात्—यह संस्कृत विभक्त्यंत संज्ञा है, पर हिंदी में इसका प्रयोग समुच्चय-बोधक के समान होता है। यह अव्यय किसी शब्द वा वाक्य का अर्थ समझाने में आता है, जैसे, “धातु के टुकड़े ठप्पे के होने से सिक्का अर्थात् मुद्रा कहाते हैं।” (जीविका०)। “गौतम बुद्ध अपने पाँचों चेलों समेत चौमासे भर अर्थात् बरसात भर बनारस में रहा।” (इति०)। “इनमें परस्पर सजातीय भाव है, अर्थात् ये एक दूसरी से जुदा नहीं हैं।” (स्वा०)। कभी कभी “अर्थात्” के बदले “अथवा,” “वा,” “या” आते हैं; और तब यह बताना कठिन हो जाता है कि ये स्वरूपवाचक हैं या विभाजक; अर्थात् ये एक ही अर्थवाले शब्दों को मिलाने हैं या अलग अलग अर्थवाले शब्दों को; जैसे, “बस्ती अर्थात् जनस्थान वा जनपद का तो नाम भी मुश्किल से मिलता था।” (इति०)। “तुम्हारी हैसियत वा स्थिति चाहे जैसी हो।” (आदर्श०)। “किसी और तरीके से

संज्ञान, बुद्धिमान या अकृमंद होना आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं ।” (स्वा०) ।

[सू०—किसी वाक्य में कठिन शब्द का अर्थ समझाने में अथवा एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य के द्वारा स्पष्ट करने में विभाजक तथा स्वरूपबोधक अव्ययों के अर्थ के अंतर पर ध्यान न रखने से भाषा में सरलता के बदले कठि-नता आ जाती है और कहीं कहीं अर्थहीनता भी उत्पन्न होती है ।

कानूनी भाषा में दो नाम सूचिन करने के लिए “अर्थात्” का पर्यायवाची उर्दू “उर्फ” लाया जाता है और साधारण बोल-चाल में “याने” आता है ।]

२४६—इस अध्याय को समाप्त करने के पहले हम “जो” के एक ऐसे प्रयोग का उदाहरण देते हैं जिसका समावेश पहले कहे हुए समुच्चयबोधकों के किसी वर्ग में नहीं हुआ है । “मुझे मरना नहीं जो तेरा पक्ष करूँ ।” (प्रेम०) । इस उदाहरण में “जो” न संकेतवाचक है, न उद्देशवाचक, न स्वरूपवाचक । इस प्रयोग का विवेचन हमें किसी अँगरेजी-हिंदी व्याकरण में भी नहीं मिला । हमारी समझ में “जो” का अर्थ यहाँ “जिसलिए” है और “जिस-लिए” कभी कभी “इसलिए” के पर्याय में आता है, जैसे, “यहाँ एक सभा होनेवाली है, जिसलिए (इसलिए) सब लोग इकट्ठे हैं ।” इस दृष्टि से दूसरा वाक्य मुख्य वाक्य होगा और “मुझे मरना नहीं” उद्देशवाचक वाक्य होगा । जब उद्देशवाचक वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब उसके साथ कोई समुच्चयबोधक नहीं रहता, परंतु मुख्य वाक्य “इसलिए” से आरंभ होता है । (अं० २४५-आ) ।

२४७—संस्कृत और उर्दू शब्दों को छोड़कर (जिनकी व्युत्पत्ति हिंदी व्याकरण की सीमा के बाहर है) हिंदी के अधिकांश समुच्चय-बोधकों की व्युत्पत्ति दूसरे शब्दभेदों से है और कई एक का प्रचार आधुनिक है । “और” सार्वनामिक विशेषण है । “जो”

संबंध-वाचक सर्वनाम और “सो” निश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि, परंतु, किंतु आदि शब्दों का प्रयोग “रामचरितमानस” और “प्रेम-सागर” में नहीं पाया जाता।

[टी०—संबंध-सूचकों के समान समुच्चयबोधकों का वर्गीकरण भी व्याकरण की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। इस वर्गीकरण से केवल उनके भिन्न भिन्न अर्थ वा प्रयोग जानने में सहायता मिल सकती है। पर समुच्चय-बोधक अव्ययों के जो मुख्य वर्ग माने गये हैं उनकी आवश्यकता वाक्य-पृथक्-करण के विचार से होती है, क्योंकि वाक्य-पृथक्-करण वाक्य के अवयवों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है।

समुच्चय-बोधकों का संबंध वाक्य-पृथक्-करण से होने के कारण यहाँ इसके विषय में संक्षेपतः कुछ कहने की आवश्यकता है।

वाक्य बहुधा तीन प्रकार के होते हैं—साधारण, मिश्र और संयुक्त। इनमें से साधारण वाक्य इकहरे होते हैं, जिनमें वाक्य-संयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह आवश्यकता केवल मिश्र और संयुक्त वाक्यों में होती है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य रहता है और उसके साथ एक या अधिक आश्रित वाक्य आते हैं। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत सब वाक्य मुख्य होते हैं। मुख्य वाक्य अर्थ में एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, परंतु आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के ऊपर अवलंबित रहता है। मुख्य वाक्यों को जोड़नेवाले समुच्चयबोधकों को समानाधिकरण कहते हैं, और मिश्र वाक्य के उपवाक्यों को जोड़नेवाले अव्यय व्यधिकरण कहाते हैं।

जिन हिंदी-व्याकरणों में समुच्चय-बोधकों के भेद माने गये हैं उनमें से प्रायः सभी दो भेद मानते हैं—(१) संयोजक और (२) विभाजक। इन भेदों का अर्थ किसी भी पुस्तक में नहीं समझाया गया और न सब अव्यय इन दोनों भेदों में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ इन भेदों पर विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

“भाषातत्त्वदीपिका” में समुच्चय-बोधकों के केवल पाँच भेद माने गये हैं जिनमें और कई अव्ययों के सिवा “इसलिए” का भी ग्रहण नहीं किया गया। यह अव्यय आदम साहब के व्याकरण को छोड़ और किसी व्याकरण में नहीं आया जिससे अनुमान होता है कि इसके समुच्चयबोधक होने में संदेह है। इस शब्द के विषय में हम पहले लिख चुके हैं कि यह मूल अव्यय नहीं है, किंतु

संबंध सूचकांत सर्वनाम है ; परंतु इसका प्रयोग समुच्चय-बोधक के समान होता है और दो तीन संस्कृत अव्ययों को छोड़ हिंदी में इस अर्थ का और कोई अव्यय नहीं है । 'इसलिए,' 'अतएव,' 'अतः' और (उद्) 'लिहाजा' से परिणाम का बोध होता है और यह अर्थ दूसरे अव्ययों से नहीं पाया जाता, इसलिए इन अव्ययों के लिए एक अलग भेद मानने की आवश्यकता है ।

हमारे किये हुए वर्गीकरण में यह टोप हो सकता है कि एक ही शब्द कहीं कहीं एक से अधिक वर्गों में आया है । यह इसलिए हुआ है कि कुछ शब्दों के अर्थ और प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, परंतु केवल वे ही शब्द एक वर्ग में नहीं आये, किंतु और भी दूसरे शब्द उस वर्ग में आये हैं ।]

चौथा अध्याय ।

विस्मयादि-बोधक ।

२४८—जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता और जो वक्ता के केवल हर्ष-शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि-बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे, “हाय ! अब मैं क्या करूँ !” (सत्य०) । “हैं ! यह क्या कहते हो !” (परी०) । इन वाक्यों में “हाय” दुःख और “हैं” आश्चर्य तथा क्रोध सूचित करता है और जिन वाक्यों में ये शब्द हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं है ।

व्याकरण में इन शब्दों का विशेष महत्व नहीं, क्योंकि वाक्य का मुख्य काम जो विधान करना है उसमें इनके योग से कोई आवश्यक सहायता नहीं मिलती । इसके सिवा इनका प्रयोग केवल वहीं होता है जहाँ वाक्य के अर्थ की अपेक्षा अधिक तीव्र भाव सूचित करने की आवश्यकता होती है । “मैं अब क्या करूँ !” इस वाक्य से शोक पाया जाता है, परंतु यदि शोक की अधिक तीव्रता सूचित करनी हो तो इसके साथ “हाय” जोड़ देंगे ; जैसे, “हाय ! अब मैं क्या करूँ !” विस्मयादि-बोधक अव्ययों में अर्थ का अत्यन्तभाव नहीं है,

क्योंकि इनमें से प्रत्येक शब्द से पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है, जैसे अकेले “हाय” के उच्चारण से यह भाव जाना जाता है कि “मुझे बड़ा दुःख है ।” तथापि जिस प्रकार शरीर वा स्वर की चेष्टा से मनुष्य के मनोविकारों का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार विस्मयादि-बोधक अव्ययों से भी इन मनोविकारों का अनुमान होता है; और जिस प्रकार चेष्टा को व्याकरण में व्यक्त भाषा नहीं मानते उसी प्रकार विस्मयादि-बोधकों की गिनती वाक्य के अवयवों में नहीं होती ।

२४६—भिन्न भिन्न मनोविकार सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न विस्मयादि-बोधक उपयोग में आते हैं; जैसे,

हर्षबोधक—आहा ! वाह वा ! धन्य धन्य ! शाबाश ! जय ! जयति !

शोकबोधक—आह ! ऊह ! हा हा ! हाय ! दश्या रे ! बाप रे ! त्राहि त्राहि ! राम राम ! हा राम !

आश्चर्यबोधक—वाह ! हैं ! ऐ ! ओहो ! वाह वा ! क्या !

अनुमोदनबोधक—ठीक ! वाह ! अच्छा ! शाबाश ! हाँ हाँ !

(कुछ अभिमान में) भला !

तिरस्कारबोधक—छिः ! हट ! अरे ! दूर ! धिक् ! चुप !

स्वीकारबोधक—हाँ ! जी हाँ ! अच्छा ! जी ! ठीक ! बहुत अच्छा !

सम्बोधनद्योतक—अरे ! रे ! (छोटों के लिए), अजी ! लो ! हे ! हो ! क्या ! अहो ! क्यों !

[सू०—स्त्री के लिए “अरे” का रूप “अरी” और “रे” का रूप “री” होता है । आदर और बहुत्व के लिए दोनों लिंगों में “अहो”, “अजी” आते हैं ।

“हे”, “हो” आदर और बहुत्व के लिए दोनों वचनों में आते हैं । “हो” बहुधा संज्ञा के आगे आता है ।

“सत्य-हरिश्चन्द्र” में स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ “रे” आया है; जैसे, “बाह रे ! महानुभावता !” यह प्रयोग अशुद्ध है ।]

२५०—कई एक क्रियाएँ, संज्ञाएँ, विशेषण और क्रियाविशेषण भी विस्मयादि-बोधक हो जाते हैं; जैसे, भगवान ! राम राम ! अच्छा ! लो ! हट ! चुप ! क्यों ! खैर ! अस्तु !

२५१—कभी कभी पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश विस्मयादि-बोधक हो जाता है, जैसे, क्या बात है । बहुत अच्छा ! सर्वनाश हो गया ! धन्य महाराज ! क्यों न हो ! भगवान न करे ! इन वाक्यों और वाक्यांशों से मनोविकार अवश्य सूचित होते हैं, परंतु इन्हे विस्मयादि-बोधक मानना ठीक नहीं है । इनमें जो वाक्यांश हैं उनके अध्याहृत शब्दों को व्यक्त करने से वाक्य सहज ही बन सकते हैं । यदि इस प्रकार के वाक्यों और वाक्यांशों को विस्मयादि-बोधक अव्यय मानें तो फिर किसी भी मनोविकारसूचक वाक्य को विस्मयादि-बोधक अव्यय मानना होगा; जैसे, “अपराधी निर्दोष है, पर उसे फाँसी भी हो सकती है ।” (शिव०) ।

(क) कोई कोई लोग बोलने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी न तो वाक्य में कोई आवश्यकता होती है और न जिनका वाक्य के अर्थ से कोई संबन्ध रहता है, जैसे, “जो है सो,” “राम-आसरे,” “क्या कहना है,” “क्या नाम करके,” इत्यादि । कविता में जु, सु, हि, अही, इत्यादि शब्द इसी प्रकार से आते हैं जिनको पादपूरक कहते हैं । “अपना” (“अपने”) शब्द भी इसी प्रकार उपयोग में आता है; जैसे, “तू पढ़ लिखकर होश-यार हो गया, अपना कमा खा ।” (सर०) । ये सब एक प्रकार के व्यर्थ अव्यय हैं, और इनको अलग कर देने से वाक्यार्थ में कोई बाधा नहीं आती ।

दूसरा भाग ।

शब्द-साधन ।

दूसरा परिच्छेद ।

रूपांतर ।

पहला अध्याय ।

लिंग ।

२५२—अलग अलग अर्थ सूचित करने के लिए शब्दों में जो विकार होते हैं उन्हें रूपांतर कहते हैं । (अ०—६१) ।

[सू०—इस भाग के पहले तीन अध्यायों में संज्ञा के रूपांतरों का विवेचन किया जायगा ।]

२५३—संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण रूपांतर होता है ।

२५४—संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की (पुरुष वा स्त्री) जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं । हिंदी में दो लिंग होते हैं—(१) पुल्लिंग और (२) स्त्रीलिंग ।

[टी०—सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं की मुख्य दो जातियाँ—चेतन और जड़—हैं । चेतन वस्तुओं (जीवधारियों) में पुरुष और स्त्री-जाति का भेद होता है; परंतु जड़ पदार्थों में यह भेद नहीं होता । इसलिए संपूर्ण वस्तुओं की एकत्र तीन जातियाँ होती हैं—पुरुष, स्त्री और जड़ । इन तीन जातियों के विचार से व्याकरण में उनके वाचक शब्दों को तीन लिंगों में बाँटते हैं—(१) पुल्लिंग (२) स्त्रीलिंग और (३) नपुंसक-लिंग । अंगरेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय बहुधा इसी व्यवस्था के अनुसार होता है । संस्कृत, मराठी, गुजराती, आदि भाषाओं में भी तीन तीन लिंग होते हैं; परंतु उनमें कुछ जड़ पदार्थों

के उनके कुछ विशेष गुणों के कारण सचेतन मान लिया है। जिन पदार्थों में गडोरता, बल, श्रेष्ठता आदि गुण दिखते हैं उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को पुल्लिंग, और जिनमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता, आदि गुण दिखाई देते हैं, उनमें स्त्रीत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। शेष अप्राणिवाचक शब्दों को बहुधा नपुंसक-लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के विचार से सब जड़ पदार्थों को सचेतन मानते हैं, इसलिए इसमें नपुंसक-लिंग नहीं है। यह लिंग न होने के कारण हिंदी की लिंग-व्यवस्था पूर्वोक्त भाषाओं की अपेक्षा कुछ सहज है, परंतु जड़ पदार्थों में पुरुषत्व या स्त्रीत्व की कल्पना करने के लिए कुछ शब्दों के रूपों को तथा दूसरी भाषाओं के शब्दों के मूल लिंगों को छोड़कर और कोई आधार नहीं है।]

२५५—जिस संज्ञा से (यथार्थ वा कल्पित) पुरुषत्व का बोध होता है उसे **पुल्लिंग** कहते हैं; जैसे, लड़का, बैल, पेड़, नगर, इत्यादि। इन उदाहरणों में “लड़का” और “बैल” यथार्थ पुरुषत्व सूचित करते हैं, और “पेड़” तथा “नगर” से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, इसलिए ये सब शब्द पुल्लिंग हैं।

२५६—जिस संज्ञा से (यथार्थ वा कल्पित) स्त्रीत्व का बोध होता है उसे **स्त्रीलिंग** कहते हैं, जैसे, लड़की, गाय, लता, पुरी, इत्यादि। इन उदाहरणों में “लड़की” और “गाय” से यथार्थ स्त्रीत्व का और “लता” तथा “पुरी” से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग हैं।

लिंग-निर्णय।

२५७—हिंदी में लिंग का पूर्ण निर्णय करना कठिन है। इसके लिए व्यापक और पूरे नियम नहीं बन सकते, क्योंकि इनके लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है। तथापि हिंदी में लिंग-निर्णय दो प्रकार से किया जा सकता है—(१) शब्द के अर्थ से और (२) उसके रूप से। बहुधा प्राणिवाचक शब्दों का लिंग अर्थ के अनुसार और अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग रूप के अनुसार

निश्चित करते हैं। शेष शब्दों का लिंग केवल व्यवहार के अनुसार माना जाता है; और इसके लिए व्याकरण से पूर्ण सहायता नहीं मिल सकती।

२५८—जिन प्राणिवाचक संज्ञाओं से जोड़े का ज्ञान होता है उनमें पुरुषबोधक संज्ञाएँ पुल्लिङ्ग और स्त्रीबोधक संज्ञाएँ स्त्रीलिङ्ग होती हैं; जैसे, पुरुष, घोड़ा, मोर, इत्यादि पुल्लिङ्ग हैं; और स्त्री, घोड़ी, मोरनी, इत्यादि स्त्रीलिङ्ग हैं।

अप०—“संतान” और “सवारी”(यात्री) स्त्रीलिङ्ग हैं।

[सू०—शिष्ट लोगों में स्त्री के लिए “घर के लोग”—पुल्लिङ्ग शब्द—बोला जाता है।

(क) कई एक मनुष्येतर प्राणिवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों का बोध होता है; पर वे व्यवहार के अनुसार नित्य पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग होती हैं, जैसे,

पु०—पत्नी, उल्लू, कौआ, भेड़िया, चीता, खटमल, केंचुआ, इत्यादि।

स्त्री—चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली, इत्यादि।

सू०—इन शब्दों के प्रयोग में लोग इस बात की चिन्ता नहीं करते कि इनके वाच्य प्राणी पुरुष है वा स्त्री। इस प्रकार के उदाहरणों को एकलिङ्ग कह सकते हैं। कहीं कहीं “हाथी” को स्त्रीलिङ्ग में बोलते हैं, पर यह प्रयोग अशुद्ध है।

(ख) प्राणियों के समुदाय-वाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग होते हैं, जैसे,

पु०—समूह, झुंड, कुटुंब, स घ, दल, मंडल, इत्यादि।

स्त्री०—भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली, इत्यादि।]

२५९—हिंदी में अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग जानना विशेष कठिन है, क्योंकि यह बात अधिकांश में व्यवहार के अधीन है। अर्थ और रूप, दोनों ही साधनों से इन शब्दों का लिंग जानने में कठिनाई होती है। नीचे लिखे उदाहरणों से यह कठिनाई स्पष्ट जान पड़ेगी—

(अ) एक ही अर्थ के कई अलग अलग शब्द अलग अलग लिंग

के हैं, जैसे; नेत्र (पु०), आँख (स्त्री०), मार्ग (पु०), बाट (स्त्री०) ।

आ) एक ही अंत के कई एक शब्द अलग अलग लिंगों में आते हैं । जैसे, कोदो (पु०), सरसों (स्त्री०), खेल (पु०), दौड़ (स्त्री०), आलू (पु०), लावू (स्त्री०) ।

इ) कई शब्दों को भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न लिंगों में लिखते हैं; जैसे, उसकी चर्चा, (स्त्री०) । (परी०) । इसका चर्चा, (पु०) । (इति०) । सीरी पवन, (स्त्री०) । (नील०) । पवन चल रहा था, (पु०) । (रघु०) । मेरे जान, (पु०) । (परी०) । मेरी जान में, (स्त्री०) । (गुटका०) ।

ई) एकही शब्द एकही लेखक की पुस्तकों में अलग अलग लिंगों में आता है, जैसे, देह “ठंडी पड गई” (ठेठ०, पृष्ठ ३३), “उसके सब देह में” (ठेठ०, पृष्ठ ५०) । “कितने” संतान हुए (इति०, पृ० १), “रघुकुल-भूषण की संतान” (गुटका ती० भा०, पृ० ४) । “बहुत बरसों हो गई ।” (स्वा०, पृष्ठ २१) । “सवा सौ बरस हुए ।” (सर०, भाग १५, पृष्ठ ६४०) ।

[सू०—अंत के दो (इ और ई) उदाहरणों की लिङ्ग-भिन्नता शिष्ट ग के अनादर से अथवा छापे की भूल से उत्पन्न हुई है ।]

२६०—किसी किसी वैयाकरण ने अप्राणवाचक सज्ञाओं के र्थ के अनुसार लिङ्ग-निर्णय करने के लिए कई नियम बनाये हैं; ये अव्यापक और अपूर्ण हैं । अव्यापक इसलिए कि एक नियम जितने उदाहरण हैं प्रायः उतने ही अपवाद हैं; और अपूर्ण लिए कि ये नियम थोड़ेही प्रकार के शब्दों पर बने हैं . शेष शब्दों लिए कोई नियम ही नहीं है । इन अव्यापक और अपूर्ण नियमों कुछ उदाहरण हम अन्यान्य व्याकरणों से लेकर यहाँ लिखते हैं—

(१) नीचे लिखे अप्राणिवाचक शब्द अर्थ के अनुसार पुल्लिंग हैं—

(अ) शरीर के अवयवों के नाम—बाल, सिर, मस्तक, तालु, आँठ, दाँत, मुँह, कान, गाल, हाथ, पाँव, नख, रोम, इत्यादि ।

अप०—आंख, नाक, जीभ, जॉघ, खाल. नस, हड्डी, इत्यादि ।

(आ) धातुओं के नाम—सोना, रूपा. ताँबा, पीतल, लोहा, सीसा, टीन, काँसा, इत्यादि ।

अप०—चाँदी, मिट्टी, धातु, इत्यादि ।

(इ) रत्नों के नाम—हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना, इत्यादि ।

अप०—मणि, चुन्नी, लालड़ी, इत्यादि ।

(ई) पेड़ों के नाम—पीपल, बड़, सागौन, शीशम, देवदार, तमाल, अशोक, इत्यादि ।

अप०—नीम, जामुन, कचनार, इत्यादि ।

(उ) अनाजों के नाम—जौ, गेहूँ, चाँवल, बाजरा, मटर, उड़द, चना, तिल, इत्यादि ।

अप०—मक्का, जुआर, मूँग, अरहर इत्यादि ।

(ऊ) द्रव-पदार्थों के नाम—घी, तेल, पानी, दही, मही, शर्वत, सिरका, अतर, आसव, अबलेह, इत्यादि ।

अप०—छाछ, स्याही, मसि, इत्यादि ।

(ऋ) जल और स्थल के भागों के नाम—देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, घर, इत्यादि ।

अप०—पृथ्वी, नदी, भील, घाटी, इत्यादि ।

(ए) ग्रहों के नाम—सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि, इत्यादि ।

अप०—पृथ्वी ।

(२) अर्थ के अनुसार नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग हैं—

(अ) नदियों के नाम—गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, इत्यादि ।

अप०—सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ।

(आ) तिथियों के नाम—परिवा, दूज, तीज, चौथ, इत्यादि ।

(इ) नक्षत्रों के नाम—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, इत्यादि ।

(ई) किराने के नाम—लौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, केसर, दालचीनी, इत्यादि ।

अप०—तेजपात, कपूर, इत्यादि ।

(उ) भोजनों के नाम—पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, कढ़ी, इत्यादि ।

अप०—भात, रायता, हलुआ, मोहनभोग, इत्यादि ।

(ऋ) अनुकरण-वाचक शब्द, जैसे, भकभक, बड़बड़, भभट, इत्यादि ।

(३) वर्णमाला के अक्षरों में इ, ई, और ऋ को छोड़कर शेष शब्द पुल्लिंग हैं ।

२६१—अब सज्ञाओं के रूप के अनुसार लिंगनिर्णय करने के कुछ नियम लिखे जाते हैं । ये नियम भी अपूर्ण हैं, परंतु बहुधा निरपवाद हैं । हिंदी में संस्कृत और उर्दू शब्द भी आते हैं, इसलिए इन भाषाओं के शब्दों का अलग अलग विचार करने में सुभीता होगा - -

१—हिंदी-शब्द ।

पुल्लिंग

(अ) ऊनवाचक सज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत सज्ञाएँ, जैसे, कपडा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमडा, इत्यादि ।

(आ) जिन भाववाचक सज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन वा पा होता है; जैसे, आना, गाना, बहाव. चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, इत्यादि ।

(इ) कृदंत की आनांत संज्ञाएँ; जैसे, लगान, मिलान, खान पान, नहान, उठान, इत्यादि ।

स्त्रीलिंग ।

(अ) ईकारांत संज्ञाएँ; जैसे, नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, इत्यादि ।

अप०—पानी, घी, जी, मोती, दही, मही ।

[सू०—कहीं कहीं “दही” को स्त्रीलिंग बोलते हैं, पर यह अशुद्ध है ।]

(आ) ऊनवाचक याकारांत संज्ञाएँ; जैसे, फुड़िया, खटिया, डिविया, पुड़िया, ठिलिया, इत्यादि ।

(इ) तकारांत संज्ञाएँ; जैसे, रात, बात, लात, छत, भीत, पत, इत्यादि ।

अप०—भात, खेत, सूत, गात, दाँत, इत्यादि ।

(ई) ऊकारांत संज्ञाएँ; जैसे, बालू, लू, दारू, गेरू, आफू, ब्यालू, भाड़ू, इत्यादि ।

अप०—आँसू, आलू, रतालू, टेसू ।

(उ) अनुस्वारांत संज्ञाएँ; जैसे, सरसों, जोखों, खड़ाऊँ, गों, दौं, चूँ, इत्यादि ।

अप०—कोदो, गेहूँ ।

(ऊ) सकारांत संज्ञाएँ जैसे—प्यास, मिठास, निँदास, रास, (लगाम), बास, साँस, इत्यादि ।

अप०—निकास, काँस, रास (नृत्य) ।

(ऋ) कृदंत की नकारांत संज्ञाएँ, जिनका उपांत्य वर्ण अकारांत हो, अथवा जिनका धातु नकारांत हो; जैसे, रहन, सूजन, जलन, उलभन, पहचान, इत्यादि ।

अप०—चलन और चाल-चलन उभयलिंग हैं ।

(ए) कृदंत की अकारांत संज्ञाएँ; जैसे, लूट, मार, संमभ, दौड़, सँभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार इत्यादि ।

अप०—खेल, नाच, मेल, बिगाड, बोल, उतार, इत्यादि ।

(ऐ) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट वा हट होता है; जैसे, सजावट, बनावट, घबराहट, चिकनाहट, भंभट, आहट, इत्यादि ।

(ओ) जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है, जैसे, ईख, भूख, राख, चीख, काँख, कोख, साख. देख-रेख, लाख (लाचा), इत्यादि ।

अप०—पाख, रूख ।

२—संस्कृत-शब्द ।

पुल्लिङ्ग ।

(अ) जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, जैसे, चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, गोत्र, चरित्र, शस्त्र, इत्यादि ।

(आ) नांत संज्ञाएँ, जैसे, पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण, इत्यादि ।

अप०—‘पवन’ उभयलिङ्ग है ।

(इ) “ज” प्रत्ययात संज्ञाएँ, जैसे, जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज, इत्यादि ।

(ई) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, र्य होता है, जैसे, सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, धैर्य, इत्यादि ।

(उ) जिन शब्दों के अंत में “आर,” “आय” वा “आस” हो; जैसे, विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, हास, इत्यादि ।

अप०—सहाय (उभयलिंग), आथ (स्त्रीलिंग) ।

(ऊ) “अ” प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श इत्यादि ।

अप०—‘जय’ स्त्रीलिंग और ‘विनय’ उभयलिंग है ।

(ऋ) ‘त’ प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, चरित, फलित, गणित, मत, गीत, स्वागत, इत्यादि ।

(ए) जिनके अंत में ‘ख’ होता है; जैसे, नख, मुख, सुख, दुःख, लेख, मख, शंख, इत्यादि ।

स्त्रीलिंग ।

(अ) आकारांत संज्ञाएँ; जैसे, दया, माया, कृपा, लज्जा, चमा, शोभा, सभा, इत्यादि ।

(आ) नाकारांत संज्ञाएँ; जैसे, प्रार्थना, वंदना, प्रस्तावना, वेदना, रचना, घटना, इत्यादि ।

(इ) “उ” प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु, इत्यादि ।

अप०—मधु, अश्रु, तालु, मेरु, तरु, हेतु, सेतु, इत्यादि ।

(ई) जिनके अंत में “ति” वा “नि” होती है, जैसे, गति, मति, जाति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, ऋद्धि, सिद्धि, इत्यादि ।

[सू०—अंत के तीन शब्द “ति” प्रत्ययांत हैं, पर संधि के कारण उनका कुछ रूपांतर हो गया है ।]

(उ) “ता” प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाएँ, जैसे, नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, इत्यादि ।

(ऊ) इकारांत संज्ञाएँ; जैसे, निधि, विधि (रीति), परिधि, राशि, अग्नि (आग), छवि, केलि, रुचि, इत्यादि ।

अप०—वारि जलधि, पाणि, गिरि, आदि, बलि, इत्यादि ।

(ऋ) “इमा” प्रत्ययांत शब्द, जैसे, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि ।

३—उर्द्ध-शब्द ।

पुल्लिंग ।

(अ) जिनके अंत में “आव” होता है, जैसे, गुलाव, जुलाव, हिसाव, जवाव, कबाव इत्यादि ।

अप०—शराव, मिहराव, किताव, कमखाव, ताव इत्यादि ।

(आ) जिनके अंत में “आर” या “आन” होता है, जैसे, बाजार, इकरार, इश्तिहार, इनकार, अहसान, मकान, सामान, इन्तिहान इत्यादि ।

अप०—दूकान, सरकार (शासक-वर्ग), तकरार ।

(इ) जिनके अंत में “ह” होता है । हिंदी में “ह” बहुधा ‘आ’ होकर अंत्य स्वर में मिल जाता है, जैसे, परदा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, चश्मा, तमगा (अप० तगमा) इत्यादि ।

अप०—दफा ।

स्त्रीलिंग ।

(अ) ईकारांत भाववाचक संज्ञाएँ, जैसे, गरीबी, गरमी, सरदी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी इत्यादि ।

(आ) शकारात संज्ञाएँ, जैसे, नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, बारिश, मालिश इत्यादि ।

अप०—ताश, होश ।

(इ) तकारांत संज्ञाएँ, जैसे, दौलत, कसरत, अदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात इत्यादि ।

अप०—शरवत, दस्तखत, बंदोवस्त, दरस्त, वक्त, तख्त ।

(ई) आकारांत संज्ञाएँ; जैसे, हवा, दवा, सजा, जमा, दुनिया, बला (अप० बलाय) इत्यादि ।

अप०—‘मजा’ उभयलिंग और ‘दगा’ पुल्लिंग है ।

(उ) “तफईल” के वजन की संज्ञाएँ; जैसे—तसवीर, तामील, जागीर, तहसील, तफसील इत्यादि ।

अप०—तावीज ।

(ऊ) हकारांत संज्ञाएँ, जैसे, सुबह, तरह, राह, आह, सलाह, सुलह इत्यादि ।

अप०—माह, गुनाह ।

२६२—कोई कोई संज्ञाएँ दोनों लिंगों में आती हैं । इनके कुछ उदाहरण पहले आ चुके हैं । और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं । इन संज्ञाओं को **उभयलिंग** कहते हैं—

सहाय, विनय, घास, बर्फ, तमाखू, दरार, श्वास, गे'द, गड़बड़, कलम, आत्मा, मजा, समाज, चलन, चाल-चलन, पुस्तक, पवन इत्यादि ।

२६३—हिंदी में तीन-चौथाई शब्द संस्कृत के हैं और **तत्सम** तथा **तद्भव** रूपों में पाये जाते हैं । संस्कृत के पुल्लिंग वा नपुंसकलिंग हिंदी में बहुधा पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग शब्द बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं । तथापि कई एक तत्सम और तद्भव शब्दों का मूल लिंग हिंदी में बदल गया है, जैसे—

तत्सम शब्द ।

शब्द	सं० लिंग०	हिं० लिंग०
अग्नि (आग)	पु०	स्त्री०
आत्मा	पु०	उभय०
आयु	न०	स्त्री०
जय	”	स्त्री०

तारा (नक्षत्र)	स्त्री०	पु०
देवता	”	”
देह	पु०	स्त्री०
पुस्तक	न०	उभय०
पवन	पु०	”
वस्तु	न०	स्त्री०
राशि	पु०	”
व्यक्ति	स्त्री०	पु०
शपथ	पु०	स्त्री०

तद्भव शब्द ।

तत्सम	सं० लिं०	तद्भव	हि० लि०
औषध	पु०	} औषधि	स्त्री०
ओषधि	स्त्री०		
शपथ	पु०	सौंह	”
बाहु	”	बाँह	”
विदु	”	बूँद	”
तन्तु	”	ताँत	”
अग्नि	”	आँख	”

[सू०—इन शब्दों का प्रयोग शास्त्री, पंडित, आदि विद्वान् बहुधा संस्कृत के लिंगानुसार ही करते हैं ।]

२६४—“अरबी, फ़ारसी, आदि उर्दू भाषाओं के शब्दों में भी इस हिंदी लिंगांतर के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं; जैसे, अरबी का “मुहावरत” (स्त्रीलिंग) हिंदुस्थानी में ‘मुहावरा’ (पुल्लिंग) हो गया है ।” (प्लाट्स-हिंदुस्तानी-व्याकरण, पृ० २८) ।

२६५—अंगरेजी शब्दों के संबंध में लिंग-निर्णय के लिए बहुधा रूप और अर्थ, दोनों का विचार किया जाता है ।

(अ) कुछ शब्दों को उसी अर्थ के हिंदी शब्दों का लिंग प्राप्त हुआ है; जैसे,

कंपनी—मण्डली—स्त्री०	नंबर—अंक—पु०
कोट—अंगरखा—पु०	कमेटी—सभा—स्त्री०
बूट—जूता—पु०	लेक्चर—व्याख्यान—पु०
चेन—साँकल—स्त्री०	वारंट—चालान—पु०
लैम्प—दिया—पु०	फीस—दक्षिणा—स्त्री०

(आ) कई एक शब्द आकारांत होने के कारण पुल्लिंग और ईकारांत होने के कारण स्त्रीलिंग हुए हैं; जैसे,

पु०—सोडा, डेल्टा, केमरा इत्यादि ।

स्त्री०—चिमनी, गिनी, म्युनिसिपैल्टी, लायब्रेरी, हिस्ट्री, डिक्शनरी इत्यादि ।

(इ) कई एक अंगरेजी शब्द दोनों लिंगों में आते हैं; जैसे, स्टेशन, प्लेग, मेल, मोटर, पिस्तौल ।

(ई) काँग्रेस, कौंसिल, रिपोर्ट और अपील स्त्रीलिंग हैं ।

२६६—अधिकांश सामासिक शब्दों का लिंग अंत्य शब्द के लिंग के अनुसार होता है; जैसे, रसोई-घर (पु०), धर्म-शाला (स्त्री०), मा-बाप (पु०) इत्यादि ।

[सू०—कई व्याकरणों में यह नियम व्यापक माना गया है; पर दो-एक समासों में यह नियम नहीं लगता; जैसे, “मंद-मति” शब्द केवल कर्मधारय में स्त्रीलिंग है; परंतु बहुव्रीहि में पूरे शब्द का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है, जैसे, “मंदमति बालक” ।]

२६७—सभा, पत्र, पुस्तक और स्थान के मुख्य नामों का लिंग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार होता है; जैसे, “महासभा” (स्त्री०), “महामंडल” (पु०), “मर्यादा” (स्त्री०), “शिक्षा” (स्त्री०), “प्रताप” (पु०), “इंदु” (पु०), “रामकहानी”

(स्त्री०), “रघुवंश” (पुं०), दिल्ली (स्त्री०), आगरा (पु०)
इत्यादि ।

स्त्री-प्रत्यय ।

२६८—अब उन विकारों का वर्णन किया जाता है जो संज्ञाओं में लिंग के कारण होते हैं । हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीचे लिखे प्रत्यय आते हैं—

ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ ।

१-हिंदी-शब्द ।

२६९—प्राणिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत्य स्वर के बदले “ई” लगाई जाती है, जैसे—

लड़का—लड़की

घोड़ा—घोड़ी

बेटा—बेटी

बकरा—बकरी

पुतला—पुतली

गधा—गधी

चेला—चेली

कुत्ता—कुत्ती

(अ) संबंधवाचक शब्द इसी वर्ग में आते हैं, जैसे—

काका—काकी

नाना—नानी

मामा—मामी, माई

साला—साली

दादा—दादी

भतीजा—भतीजी

आजा—आजी

भानजा—भानजी

[सू०—“मामा” का स्त्रीलिङ्ग “मुमानी” मुसलमानों में प्रचलित है ।]

(आ) निरादर या प्रेम में कहीं कहीं “ई” के बदले “इया” आता है, और यदि अंत्याक्षर का द्वित्व हो तो पहले व्यंजन का लोप हो जाता है; जैसे,

कुत्ता—कुतिया

बुढ़्हा—बुढ़िया

बच्छा—बछिया

बेटा—बिटिया

(इ) मनुष्येतर प्राणिवाचक त्र्यक्षरी शब्दों में; जैसे—

बंदर—बंदरी हिरन—हिरनी कूकर—कूकरी
गीदड़—गीदड़ी मेढक—मेढकी तीतर—तीतरी

[सू०—यह प्रत्यय संस्कृत शब्दों में भी आता है ।]

२७०—ब्राह्मणेतर वर्णवाचक तथा व्यवसायवाचक और मनुष्येतर कुछ प्राणिवाचक संज्ञाओं के अंत्य स्वर में “इन” लगाया जाता है; जैसे—

सुनार—सुनारिन नाती—नातिन लुहार—लुहारिन
अहीर—अहीरिन धोबी—धोविन बाघ—बाघिन (राम०)
तेली—तेलिन कुँजड़ा—कुँजड़िन साँप—साँपिन (राम०)

(अ) कई एक संज्ञाओं में “नी” लगती है; जैसे—

ऊँट—ऊँटनी बाघ—बाघनी हाथी—हाथनी
मोर—मोरनी रीछ—रीछनी सिंह—सिंहनी
टहलुआ—टहलनी (सर०) स्यार—स्यारनी
हिदू—हिदुनी (सत०)

२७१—उपनाम-वाचक पुल्लिङ्ग शब्दों के अंत में “आइन” आदेश होता है; और जो आदि अक्षर का स्वर ‘आ’ हो तो उसे ह्रस्व कर देते हैं; जैसे—

पाँडे—पाँडाइन बावू—बावुआइन दूबे—दुबाइन
ठाकुर—ठाकुराइन पाठक—पाठकाइन बनिया—बनियाइन
बनैनी (अनियमित)

मिसिर—मिसिराइन लाला—ललाइन सुकुल—सुकुलाइन

(अ) कई एक शब्दों के अंत में “आनी” लगाते हैं; जैसे—

खत्री—खत्रानी देवर—देवरानी सेठ—सेठानी
जेठ—जिठानी मिहतर—मिहतरानी चौधरी—चौधरानी

पंडित—पंडितानी नौकर—नौकरानी

[सू०—यह प्रत्यय संस्कृत का है ।]

(आ) आजकल विवाहिता स्त्रियों के नामों के साथ कभी कभी पुरुषों के (पुल्लिंग) उपनाम लगाये जाते हैं; जैसे, श्रीमती रामेश्वरी देवी नेहरू । (हिं० को०) । कुमारी स्त्रियों के नाम के साथ उपनाम का स्त्रीलिंग रूप आता है, जैसे, “कुमारी सत्यवती शास्त्रिणी । (सर०) ।

२७२—कभी कभी पदार्थवाचक अकारांत वा आकारांत शब्दों में सूत्रमता के अर्थ में “ई” वा “इया” प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे—

रस्सा—रस्सी	गगरा—गगरी, गगरिया
घंटा—घटी	डिब्बा—डिब्बी, डिविया
टोकना—टोकनी	फोड़ा—फुड़िया
लोटा—लुटिया	लठ—लठिया

[सू०—इन संज्ञाओं को ऊनवाचक कहते हैं । (अ०—२६१—अ) ।]

(क) पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध पदार्थवाचक अकारांत वा ईकारांत शब्दों में विनोद के लिए स्थूलता के अर्थ में ‘आ’ जोड़कर पुल्लिंग बनाते हैं, जैसे—

घड़ी—घड़ा	डाल—डाला
गठरी—गठरा	लहर—लहरा (भाषासार०)
चिट्ठी—चिट्ठा	गुदड़ी—गुदड़ा

२७३—कोई कोई पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं; जैसे—

भेड़—भेड़ा	वहिन—वहनोई	रॉड—रूडुआ
भैंस—भैंसा	ननद—ननदोई	जीजी—जीजा
	चींटी—चींटा	

२७४—कई एक स्त्री-प्रत्ययांत (और स्त्रीलिंग) शब्द अर्थ की दृष्टि से केवल स्त्रियों के लिए आते हैं, इसलिए उनके जोड़े के पुल्लिंग शब्द भाषा में प्रचलित नहीं हैं। जैसे, सती, गाभिन, गर्भवती, सौत, सुहागिन, अहिवाती, घाय इत्यादि। प्रायः इसी प्रकार के शब्द डाइन, चुडैल, अप्सरा आदि हैं।

२७५—कुछ शब्द रूप में परस्पर जोड़े के जान पड़ते हैं, पर यथार्थ में उनका अर्थ अलग अलग है; जैसे—

साँड़ (बैल), साँड़नी (ऊँटनी), साँड़िया (ऊँट का बच्चा)।

डाकू (चोर), डाकिन, डाकिनी (चुडैल)।

भेड़ (भेड़े की मादा), भेड़िया (एक हिंसक जीवधारी, वृक)।

२—संस्कृत-शब्द ।

२७६—कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं में “ई” प्रत्यय लगता है—

(अ) व्यंजनांत संज्ञाओं में; जैसे—

हि०	सं०—मू०	स्त्री०	हिं०	सं०—मू०	स्त्री०
राजा	राजन्	राज्ञी	विद्वान्	विद्वस्	विदुषी
युवा	युवन्	युवती	महान्	महत्	महती
भगवान्	भगवत्	भगवती	मानी	मानिन्	मानिनी
श्रीमान्	श्रीमत्	श्रीमती	हितकारी	हितकारिन्	हितकारिणी

(आ) अकारांत संज्ञाओं में, जैसे—

ब्राह्मण—ब्राह्मणी	सुंदर—सुंदरी
पुत्र—पुत्री	गौर—गौरी
देव—देवी	पंचम—पंचमी
कुमार—कुमारी	नद—नदी
दास—दासी	तरुण—तरुणी

(इ) ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाएँ हिंदी में आकारांत हो जाती हैं,

अर्थात् वे संस्कृत प्रातिपदकों से नहीं, किंतु प्रथमा विभक्ति के एकवचन से आई हैं, जैसे—

हिं०	सं०—मू०	स्त्री०	हिं०	सं०—मू०	स्त्री०
कर्त्ता	कर्त्तृ	कर्त्री	ग्रंथकर्त्ता	ग्रंथकर्त्तृ	ग्रंथकर्त्री
धाता	धातृ	धात्री	जनयिता	जनयितृ	जनयित्री
दाता	दातृ	दात्री	कवयिता	कवयितृ	कवयित्री

२७७—कई एक सज्ञाओं और विशेषणों में “आ” प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे—

सुत	सुता	पंडित	पंडिता
बाल	बाला	शिव	शिवा
प्रिय	प्रिया	शूद्र	शूद्रा
महाशय	महाशया	वैश्य	वैश्या

(अ) “अक” प्रत्ययांत शब्दों में “अ” के स्थान में “इ” हो जाती है; जैसे—

पाठक—पाठिका	बालक—बालिका
उपदेशक—उपदेशिका	पुत्रक—पुत्रिका
नायक—नायिका	

२७८—किसी किसी देवता के नाम के आगे “आनी” प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे—

भव—भवानी	वरुण—वरुणानी
रुद्र—रुद्राणी	शर्व—शर्वाणी
इंद्र—इंद्राणी	

२७९—किसी किसी शब्द के दो दो वा तीन तीन स्त्रीलिंग रूप होते हैं; जैसे—

मातुल—मातुली, मातुलानी । उपाध्याय—उपाध्यायानी, उपाध्यायी (उसकी स्त्री); उपाध्याया (स्त्री-शिञ्जक) ।

आचार्य—आचार्या (वेद-मंत्र सिखानेवाली), आचार्याणी (आचार्य की स्त्री)

चत्रिय—चत्रियी (उसकी स्त्री), चत्रिया, चत्रियाणी (उस वर्ण की स्त्री) ।

२८०—कोई कोई स्त्रीलिंग नियम-विरुद्ध होते हैं; जैसे,—

पु०

स्त्री०

सखि (हि०—सखा)

सखी

पति

पत्नी, पतिवती (सधवा)

३—उर्दू-शब्द ।

२८१—अधिकांश उर्दू पुल्लिंग शब्दों में हिंदी प्रत्यय लगाये जाते हैं; जैसे—

ई—शाहज़ादा—शाहज़ादी; मुर्गा—मुर्गी

नी—शेर—शेरनी;

आनी—मिहतर—मिहतरानी, मुल्ला—मुल्लानी

२८२—कई एक अरबी शब्दों में अरबी प्रत्यय “ह” जोड़ा जाता है जो हिंदी में “आ” हो जाता है; जैसे—

वालिद—वालिदा

खालू—खाला

मलिक—मलिका

साहब—साहबा

मुद्ई—मुद्इया

(क) “खान” का स्त्रीलिंग “खानम” और “बेग” का “बेगम” होता है ।

२८३—कुछ अँगरेजी शब्दों में ‘इन’ लगाते हैं; जैसे,

मास्टर—मास्टरिन

डाक्टर—डाक्टरिन

इंस्पेक्टर—इंस्पेक्टरिन

२८४—हिंदी में कई एक पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द दूसरे ही होते हैं, जैसे—

राजा—रानी	पुरुष—स्त्री
पिता—माता	मर्द, आदमी—औरत
ससुर—सास	पुत्र—कन्या
साला—साली, सरहज	वर—वधू
भाई—बहिन, भावज	बेटा—बहू, पतोहू
लोग—लुगाई	साहब—मेम (अँगरेजी)
नर—मादा	बाबा—बाई (क्वचित्)

[सू०—कुछ पुल्लिंग शब्दों के जो दो दो स्त्रीलिंग रूप हैं उनमें से किसी किसी के अर्थ में अंतर पाया जाता है। कारण यह है कि स्त्रीलिंग से केवल स्त्री-जाति ही का बोध नहीं होता, वरन उससे किसी की स्त्री का भी अर्थ सूचित होता है। “चेली” कहने से केवल दीक्षिता स्त्री ही का बोध नहीं होता, वरन चेली की स्त्री भी सूचित होती है, चाहे उस स्त्री ने दीक्षा न भी ली हो। जहाँ एक ही स्त्रीलिंग शब्द से ये दोनों अर्थ सूचित नहीं होते वहाँ स्त्रीलिंग में बहुधा दो शब्द आते हैं। “साली” शब्द से केवल स्त्री की बहिन का बोध होता है, साले की स्त्री का नहीं; इसलिए इस पिछले अर्थ में “सरहज” शब्द आता है। इसी प्रकार “भाई” शब्द का दूसरा स्त्रीलिंग “भावज” है जो भाई की स्त्री का बोधक है। यह शब्द संस्कृत “भ्रातृजाया” से बना है। “भावज” के दूसरे रूप “भौजाई” और “भाभी” हैं। “बेटी” का पति “दामाद” या “जवाई” कहलाता है।]

२८५—एकलिंग प्राणिवाचक शब्दों में पुरुष वा स्त्री जाति का भेद करने के लिए उनके पूर्व पुरुष और स्त्री तथा मनुष्येतर प्राणिवाचक शब्दों के पहले क्रमशः “नर” और “मादा” लगाते हैं, जैसे, पुरुष-छात्र, स्त्री-छात्र; नर-चील, मादा-चील, नर-भेड़िया, मादा-भेड़िया इत्यादि। “मादा” शब्द को कोई कोई “मादी” बोलते हैं। यह शब्द उर्दू का है।

दूसरा अध्याय ।

वचन ।

२८६—संज्ञा (और दूसरे विकारी शब्दों) के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं । हिंदी में दो वचन होते हैं—

(१) एकवचन (२) बहुवचन ।

२८७—संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं; जैसे, लड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, रूप इत्यादि ।

२८८—संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कपड़े, टोपियाँ, रंगों में, रूपों से, इत्यादि ।

(अ) आदर के लिए भी बहुवचन आता है; जैसे, “राजा के बड़े बेटे आये हैं ।” “कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं ।” (शकु०) । “तुम बच्चे हो ।” (शिव०) ।

[टी०—हिंदी के कई-एक व्याकरणों में वचन का विचार कारक के साथ किया गया है जिसका कारण यह है कि बहुत से शब्दों में बहुवचन के प्रत्यय विभक्तियों के बिना नहीं लगाये जाते । “मूल रङ्ग तीन हैं”—इस वाक्य में “रंग” शब्द बहुवचन है, पर यह बात केवल क्रिया से तथा विधेय-विशेषण “तीन” से जानी जाती है; पर स्वयं “रंग” शब्द में बहुवचन का कोई चिह्न नहीं है; क्योंकि यह शब्द विभक्ति-रहित है । विभक्ति के योग से “रंग” शब्द का बहुवचन रूप “रंगों” होता है; जैसे, “इन रंगों में कौन अच्छा है ?” वचन का विचार कारक के साथ करने का दूसरा कारण यह है कि कई शब्दों का विभक्ति-रहित बहुवचन रूप विभक्ति-सहित बहुवचन रूप से भिन्न होता है; जैसे, “मे टोपियाँ उन टोपियों से छोटी हैं ।” इस उदाहरण में विभक्ति-रहित बहुवचन “टोपियाँ” और विभक्ति-सहित बहुवचन “टोपियों” रूप एक दूसरे से भिन्न हैं । इसके सिवा संस्कृत में वचन का विचार विभक्तियों ही के साथ होता है, इसलिए हिंदी में भी उसी चाल का अनुकरण किया जाता है ।

अब यहाँ यह प्रश्न है कि जब वचन और विभक्तियाँ एक दूसरे से इस प्रकार मिली हुई हैं तब हिंदी में संस्कृत के अनुसार ही उनका एकत्र विचार क्यों न किया जाय ? इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर यह है कि हिंदी में वचन और विभक्ति का अलग विचार अधिकांश में सुभीते की दृष्टि से किया जाता है । संस्कृत में प्रातिपदिक (संज्ञा का मूल रूप) प्रथमा विभक्ति के एक वचन से भिन्न रहता है और इसी प्रातिपदिक में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय जोड़े जाते हैं, परंतु हिंदी (और मराठी, गुजराती, अँगरेजी आदि भाषाओं) में संज्ञा का मूल रूप ही प्रथमा विभक्ति (कर्ता-कारक) में आता है । इसी मूल रूप में प्रत्यय लगाने से प्रथमा का बहुवचन बनता है, जैसे, घोड़ा—घोड़े, लड़की—लड़कियाँ, आदि । दूसरे (विभक्ति-सहित) कारको में बहुवचन का जो रूप होता है वह प्रथमा (विभक्ति-रहित कर्ता-कारक) के बहुवचन रूप से भिन्न रहता है, और उस (रूप) में इस रूप का कुछ काम नहीं पड़ता, जैसे, घोड़े, घोड़ों ने, घोड़ों को, इत्यादि । इसलिये प्रथमा (विभक्ति रहित कर्ता) के दोनों वचनों का विचार दूसरे कारको से अलग ही करना पड़ेगा, चाहे वह वचन के साथ किया जाय चाहे कारक के साथ । विभक्ति-रहित बहुवचन का विचार इस अध्याय में करने से यह सुभीता होगा कि विभक्तियों के कारण संज्ञाओं में जो विकार होते हैं वे कारक के अध्याय में स्पष्टतया बताये जा सकेंगे ।]

सू०—यहाँ विभक्ति-रहित बहुवचन के नियम सुभीते के लिए लिग के अनुसार अलग अलग दिये जाते हैं ।

विभक्ति-रहित बहुवचन बनाने के नियम ।

१—हिंदी और संस्कृत-शब्द ।

(क) पुल्लिग

२८६—हिंदी आकारांत पुल्लिग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिये अंत्य “आ” के स्थान में “ए” लगाते हैं, जैसे—

लड़का—लड़के

लोटा—लोटे

बच्चा—बच्चे

* संस्कृत, जेंद, अरबी, इत्रानी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाओं में तीन वचन होते हैं, (१) एकवचन (२) द्विवचन (३) बहुवचन । द्विवचन से दो का और बहुवचन से दो से अधिक सख्या का बोध होता है ।

बीघा—बीघे

घोड़ा—घोड़े

कपड़ा—कपड़े

दूधवाला—दूधवाले

अप०—(१) साला, भानजा, भतीजा, बेटा, पोता आदि शब्दों को छोड़कर शेष संबंधवाचक, उपनामवाचक, और प्रतिष्ठावाचक आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है; जैसे, काका—काका, आज्ञा—आज्ञा, मामा—मामा, लाला—लाला, इत्यादि । और उदाहरण—बाबा, नाना, दादा, राना, पंडा (उपनाम), सूरमा, इत्यादि ।

[सू०—“बाप-दादा” शब्द का रूपांतर वैकल्पिक है; जैसे, “उनके बाप-दादे हमारे बापदादे के आगे हाथ जोड़के बातें किया करते थे ।” (गुरुका०) । “बापदादे जो कर गये हैं वही करना चाहिए ।” (ठेठ०) । “जिनके बापदादा भेड़ की आवाज सुनकर डर जाते थे ।” (शिव०) । मुखिया, अगुआ और पुरखा शब्दों के भी रूप वैकल्पिक हैं ।]

अप०—(२) संस्कृत की ऋकारांत और ऋकारांत संज्ञाएँ जो हिंदी में आकारांत हो जाती हैं बहुवचन में अविकृत रहती हैं, जैसे, कर्ता, पिता, योद्धा, राजा, युवा, आत्मा, देवता, जामाता ।

कोई कोई लेखक “राजा” शब्द का बहुवचन “राजे” लिखते हैं, जैसे, “तीन प्रथम राजे ।” (इंग्लैंड०) । हिंदी-व्याकरणों में बहुवचन रूप “राजा” ही पाया जाता है और कुछ स्थानों को छोड़ बोल-चाल में भी सर्वत्र “राजा” ही प्रचलित है । हम यहाँ इस शब्द के शिष्ट प्रयोग के कुछ उदाहरण देते हैं:—“सब राजा अपनी अपनी सेना ले आन पहुँचे ।” (प्रेम०) । “हम सुनते हैं कि राजा बहुत रानियों के प्यारे होते हैं ।” (शकु०) । “छप्पन राजा तो उसके वंश में गद्दी पर बैठ चुके ।” (इति०) । “सिंहासन के ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए हैं ।” (रघु०) ।

“योद्धा” शब्द का बहुवचन हिंदी-रघुवंश में एक जगह “योद्धे” आया है, जैसे, “मंत्री को बहुतसे योद्धे देकर;” परंतु अन्य लेखकों

ने बहुवचन में “योद्धा” ही लिखा है, जैसे, “जितने घायल योधा वचे थे”। (प्रेम०)। “बड़े-बड़े योधा खड़े।” (साखी०)। “महाभारत” में भी “योद्धा” शब्द बहुवचन में लिखा गया है, जैसे, “अर्जुन ने कौरवों के अनगिनत योद्धा और सैनिक मार गिराये।”

[सू०—यदि यौगिक शब्दों का पूर्व-शब्द हिंदी का और आकारांत पुल्लिङ्ग हो तो उत्तर-शब्द के साथ बहुवचन में उसका भी रूपांतर होता है, जैसे, लड़का-बच्चा—लड़के-बच्चे, छापाखाना—छापेखाने इत्यादि। अप०—“बालाखाना” का बहुवचन “बालाखाने” होता है।]

अप०—(३) व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिङ्ग संज्ञाएँ बहुवचन में (अं०—२-६८) अविकृत रहती हैं; जैसे, सुदामा, शतधन्वा, रामबोला इत्यादि।

२-६०—हिंदी आकारांत पुल्लिङ्ग शब्दों को छोड़ शेष हिंदी और संस्कृत पुल्लिङ्ग शब्द दोनों वचनों में एक-रूप रहते हैं, जैसे—

व्यंजनांत संज्ञाएँ—हिंदी में व्यंजनांत संज्ञाएँ नहीं हैं। संस्कृत की अधिकांश व्यंजनांत संज्ञाएँ हिंदी में अकारांत पुल्लिङ्ग हो जाती हैं, जैसे, मनस् = मन, नामन् = नाम, कुमुद् = कुमुद, पंथिन् = पंथ, इत्यादि। जो इने गिने संस्कृत व्यंजनांत शब्द (जैसे, विद्वान्, सुहृद्, भगवान्, श्रीमान् आदि) हिंदी में जैसे के तैसे आते हैं, उनका भी रूपांतर अकारांत पुल्लिङ्ग शब्दों के समान होता है।

अकारांत संज्ञाएँ—(हिंदी) घर—घर

(संस्कृत) बालक—बालक

इकारांत—हिंदी शब्द नहीं हैं

(संस्कृत) मुनि—मुनि

ईकारांत—(हिंदी) भाई—भाई

(संस्कृत) पत्नी—पत्नी

[सू०—हिंदी में संस्कृत की इकंत संज्ञाएँ ईकारांत (प्रथमा एकवचन) रूप में आती हैं । जैसे, पत्तिन् = पत्नी, स्वामिन् = स्वामी, योगिन् = योगी, इत्यादि । राम० में “करिन्” का रूप “करि” आया है; जैसे, “संग लाह करिनी करि लेहीं” । संस्कृत के मूल ईकारांत पुल्लिङ्ग शब्द हिंदी में केवल गिनती के हैं; जैसे, सेनानी ।]

उकारांत—हिंदी शब्द नहीं है ।

—(संस्कृत) साधु—साधु

जकारांत—(हिंदी) डाकू—डाकू

—संस्कृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं ।

चकारांत—हिंदी-शब्द नहीं हैं ।

—संस्कृत-शब्द हिंदी में आकारांत हो जाते हैं और दोनों वचनों में एक-रूप रहते हैं । (अ०-२८६ अप०-२) ।

एकारांत—(हिंदी) चौबे—चौबे

—संस्कृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं ।

ओकारांत—(हिंदी) रासो—रासो

—संस्कृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं ।

औकारांत—(हिंदी) जौ—जौ

—संस्कृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं

सानुस्वार ओकारांत—(हिंदी) कोदो—कोदों

—संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं हैं ।

[सू०—पिछले चार प्रकार के शब्द हिंदी में बहुत ही कम हैं ।]

(ख) स्त्रीलिङ्ग ।

२६१—अकारांत स्त्रीलिङ्ग शब्दों का बहुवचन अंत्य स्वर के बदले एँ करने से बनता है; जैसे—

बहिन्—बहिनें

आँख—आँखें

गाय—गाये

रात—राते

बात—बाते

भील—भीले

[सू०—संस्कृत में अकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं हैं; पर हिंदी में संस्कृत के जो थोड़े से व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं वे बहुधा अकारांत हो जाते हैं; जैसे, समिध् = समिध, सरित् = सरित, आशिस् = आशिस, इत्यादि ।]

२८२—इकारात और ईकारांत संज्ञाओं में “ई” को ह्रस्व करके अत्य स्वर के पश्चात् “याँ” जोड़ते हैं; जैसे—

तिथि—तिथियाँ

टोपी—टोपियाँ

शक्ति—शक्तियाँ

थाली—थालियाँ

रीति—रीतियाँ

रानी—रानियाँ

राशि—राशियाँ

नदी—नदियाँ

[सू०—(१) हिंदी में इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ संस्कृत की हैं, और ईकारांत संज्ञाएँ संस्कृत और हिंदी दोनों की हैं ।]

[सू०—(२) ‘परीक्षा-गुरु’ में ईकारात संज्ञाओं का बहुवचन “ये” लगाकर बनाया गया है, जैसे, “टोपिये” । यह रूप आजकल अप्रचलित है ।]

(अ) याकारांत (ऊनवाचक) संज्ञाओं के अंत में केवल अनुस्वार लगाया जाता है, जैसे—

लठिया—लठियाँ

डिविया—डिवियाँ

लुटिया—लुटियाँ

गुड़िया—गुड़ियाँ

बुढ़िया—बुढ़ियाँ

खटिया—खटियाँ

[सू०—कई लोग इन शब्दों का बहुवचन ये वा एँ लगाकर बनाते हैं, जैसे, चिड़ियाएँ, कुंडलियायेँ, इत्यादि । ये रूप अशुद्ध हैं । इनका बहुवचन उन्हीं ईकारात शब्दों के समान होता है जिनसे ये बने हैं ।

२८३—शेष स्त्रीलिंग शब्दों में अत्य स्वर के परे एँ लगाते हैं और “ऊ” को ह्रस्व कर देते हैं, जैसे—

लता—लताएँ

वस्तु—वस्तुएँ

कथा—कथाएँ

बहू—बहुएँ

माता—माताएँ

लू—लुएँ (सत०)

गौ—गौएँ

[सू०—हिंदी में प्रचलित आकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द संस्कृत के हैं। संस्कृत की कुछ ऋकारांत और व्यंजनांत स्त्री-लिंग संज्ञाएँ हिंदी में आकारांत हो जाती हैं; जैसे, मातृ—माता, दुहितृ—दुहिता, सीमन्—सीमा, अप्सरस्—अप्सरा, इत्यादि ।]

(१) आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में विकल्प से “ये” लगाते हैं, जैसे, शाला—शालायें, माता—माताये, अप्सरा—अप्सराये, इत्यादि ।

(२) सानुस्वार ओकारांत और औकारांत संज्ञाएँ बहुवचन में बहुधा अविकृत रहती हैं; जैसे, दौं, जोखों, सरसों, गौं, इत्यादि । हिंदी में ये शब्द बहुत कम हैं ।

२६४—कोई कोई लेखक अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को छोड़ शेष स्त्रीलिंग संज्ञाओं को दोनों वचनों में एकही रूप में लिखते हैं; जैसे, “कई देशों में ऐसी वस्तु उपजती हैं ।” (जीविका०) । “ठौर ठौर हिगोट कूटने की चिकनी शिला रक्खी हैं ।” (शकु०) “पाती हैं दुख जहाँ राजकुल ही में नारी ।” (क० क०) । ये प्रयोग अनुकरणीय नहीं हैं ।

२—उर्दू शब्द ।

२६५—हिंदी-गत उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनमें बहुधा हिंदी प्रत्यय लगाये जाते हैं; जैसे, शाहज़ादा—शाहज़ादे, बेगम—बेगमें, इत्यादि; परंतु कानूनी हिंदी के लेखक उर्दू शब्दों और कभी कभी हिंदी शब्दों में भी उर्दू प्रत्यय लगाकर भाषा को छिष्ट कर देते हैं । उर्दू भाषा के बहुवचन के कुछ नियम यहाँ लिखे जाते हैं—

(१) फारसी प्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बहुधा “आन”

लगाने से बनता है; जैसे, साहब—साहबान, मालिक—मालिकान, काश्तकार—काश्तकारान, इत्यादि ।

(अ) अत्य “ह” के बदले “ग” और “ई” के बदले “इय” हो जाता है, जैसे, बंदह—बंदगान, बाशिदह—बाशिदगान, पटवारी—पटवारियान, मुत्सद्दी—मुत्सद्दियान, इत्यादि ।

(२) फ़ारसी अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन “हा” लगा कर बनाते हैं, जैसे, वार—वारहा, कूचह—कूचहा, इत्यादि ।

(३) फ़ारसी अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन अरबी की नकल पर बहुधा “आत” लगाकर भी बनाते हैं, जैसे, कागज़—कागज़ात, दिह (गाँव)—दिहात, इत्यादि ।

(अ) अत्य “ह” के बदले “ज” हो जाता है, जैसे, परवानह—परवानजात, नामह—नामजात, इत्यादि ।

(४) अरबी व्याकरण के अनुसार बहुवचन दो प्रकार का होता है—(क) नियमित (ख) अनियमित ।

(क) नियमित बहुवचन शब्द के अंत में “आत” लगाने से बनता है, जैसे, खयाल—खयालात, इख्तियार—इख्तियारात, मकान—मकानात, मुकद्दमा—मुकद्दमात, इत्यादि ।

(ख) अनियमित बहुवचन बनाने के लिए शब्द के आदि, मध्य और अंत में रूपांतर होता है, जैसे, हुक्म—अहकाम, हाफ़िम—हुक्काम, कायदा—कवाइद, इत्यादि ।

(५) अरबी अनियमित बहुवचन कई “वज़नों” पर बनता है—

(अ) अफ़त्राल, जैसे,

हुक्म—अहकाम

तरफ़—अतराफ़

वक्त—अक़ात

खबर—अखबार

हाल—अहवाल

शरीफ़—अशाराफ़

(आ) फुऊल, जैसे, हफ़—हुकूक

- (इ) फुअला; जैसे, अमीर-उमरा,
 (ई) अफइला; जैसे, वली-औलिया
 (उ) फुअआल; जैसे, हाकिम-हुक्काम
 (ऊ) फआइल; जैसे, अजीब-अजाइब
 (ऋ) फवाइल; जैसे, कायदा-कवाइद
 (ए) फआलिल; जैसे, जौहर-जवाहिर
 (ऐ) फआलील, जैसे, तारीख-तवारीख

(६) कभी कभी एक अरबी एकवचन के दुहरे बहुवचन बनते हैं; जैसे, जौहर-जवाहिरात, हुक्म-अहक्कामात, दवा-अदवियात, इत्यादि ।

(७) कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एकवचन में होता है; जैसे, वारिदात, तहकीकात, अखबार, अशराफ, कवाइद, तवारीख (इतिहास), औलिया, औकात (स्थिति), अहवाल, इत्यादि ।

(८) कई एक उर्दू आकारांत पुल्लिग शब्द, संस्कृत और हिंदी शब्दों के समान, बहुवचन में अविकृत रहते हैं, जैसे, सौदा, दरिया, मियाँ, मौला, दारोगा, इत्यादि ।

२६६—जिन मनुष्यवाचक पुल्लिग शब्दों के रूप दोनों वचनो में एकसे होते हैं उनके बहुवचन में बहुधा “लोग” शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे, “ये ऋषि लोग आपके सम्मुख चले आते हैं ।” (शकु०) । “आर्य लोग सूर्य के उपासक थे ।” (इति०) । “योद्धा लोग यदि चिल्लाकर अपने अपने स्वामियों का नाम न बताते ।” (रघु०) ।

(अ) “लोग” शब्द मनुष्यवाचक पुल्लिग संज्ञाओं के विकृत बहुवचन के साथ भी आता है । जैसे, “लड़के लोग,” “चंले लोग,” “बनिये लोग,” इत्यादि ।

(आ) भारते दुर्जी “लोग” शब्द का प्रयोग मनुष्येतर प्राणियों के नामों के साथ भी करते हैं, जैसे, “पत्नी लोग ।” (सत्य०) ।

“चिऊँटी लोग ।” (मुद्रा०) । यह प्रयोग एकदेशीय है ।

२६७—“लोग” शब्द के सिवा, गण, जाति, जन, वर्ग आदि समूह-वाचक संस्कृत शब्द बहुवचन के अर्थ में आते हैं । इन शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार का है—

गण—यह शब्द बहुधा मनुष्यों, देवताओं और ग्रहों के नामों के साथ आता है, जैसे, देवतागण, अप्सरागण, बाल-रुगण, शिक्त-गण, तारागण, ग्रहगण, इत्यादि । “पक्षिगण” भी प्रयोग में आता है । “रामचरितमानस” में “इन्द्रियगण” आया है ।

वर्ग, जाति—ये शब्द “जाति” के बोधक हैं, और बहुधा प्राणिवाचक शब्दों के साथ आते हैं; जैसे, मनुष्यजाति, खोजाति (शकु०), जनकजाति (राम०), पशुजाति, बधुवर्ग, पाठकवर्ग, इत्यादि । इन संयुक्त शब्दों का प्रयोग बहुधा एकवचन में होता है ।

जन—इसका प्रयोग बहुधा मनुष्यवाचक शब्दों के साथ होता है, जैसे; भक्तजन, गुरुजन, स्त्रीजन, इत्यादि ।

(अ) कविता में इन समूहवाचक शब्दों का प्रयोग बहुतायत से होता है और उसमें इनके कई पर्यायवाची शब्द आते हैं; जैसे, मुनि-वृ द, मृग-निकर, जंतु संकुल, अघ-श्लोघ, इत्यादि । समूहवाचक शब्दों के और उदाहरण—बख्थ, पुंज, समुदाय, समूह, निकाय ।

२६८—संज्ञाओं के तीन भेदों में से बहुधा जातिवाचक संज्ञाएँ ही बहुवचन में आती हैं; परंतु जब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, तब उनका भी बहुवचन होता है, जैसे, “कहु रावण, रावण जग केते ।” (राम०) । “उठती बुरी हैं भावनाएँ हाय । मम हृद्धाम में ।” (क० क०) । (अ०—१०५, १०७) ।

(आ) जब ‘पन’ प्रत्ययात् भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाना

होता है तब उनके आकारांत मूल शब्द में 'आ' के स्थान में 'ए' आदेश कर देते हैं; जैसे, सीधापन—सीधेपन, आदि ।

२६६—बहुधा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता; परंतु जब किसी द्रव्य की भिन्न भिन्न जातियाँ सूचित करने की आवश्यकता होती है तब इन संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है; जैसे, “आज-कल बाज़ार में कई तेल विकते हैं ।” “दोनों सोने चोखे हैं ।”

३००—पदार्थों की बड़ी संख्या, परिमाण वा समूह सूचित करने के लिए जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुधा एकवचन में होता है, जैसे, “मेले में केवल शहर का आदमी आया ।” “उसके पास बहुत रुपया मिला ।” “इस साल नारंगी बहुत हुई हैं ।”

३०१—कई एक शब्द (बहुत्व की भावना के कारण) बहुधा बहुवचन ही में आते हैं; जैसे, समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, हिज्जे, भाग्य, दर्शन । उदा०—“रिपु के समाचार ।” (राम०) । “आश्रम के दर्शन करके ।” (शकु०) । “मलयकेतु के प्राण सूख गये ।” (मुद्रा०) । “आम के आम, गुठलियों के दाम ।” (कहा०) । “तेरे भाग्य खुल गए ।” (शकु०) । “लोग कहते हैं ।”

३०२—आदरार्थ बहुवचन में व्यक्तिवाचक अथवा उपनामवाचक संज्ञाओं के आगे महाराज, साहब, महाशय, महोदय, बहादुर, शास्त्री, स्वामी, देवी, इत्यादि लगाते हैं । इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग है—

जी—यह शब्द, नाम, उपनाम, पद, उपपद इत्यादि के साथ आता है और साधारण नौकर से लेकर देवता तक के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे, गयाप्रसादजी, मिश्रजी, बाबूजी, पटवारीजी, चौधरीजी, रानीजी, रामजी, सीताजी, गणेशजी । कभी कभी इसका प्रयोग नाम और उपनाम के बीच में होता है; जैसे, मधुग-प्रसादजी मिश्र ।

महाराज—इसका प्रयोग साधु, ब्राह्मण. राजा और देवता के लिए होता है। यह शब्द नाम अथवा उपनाम के आगे जोड़ा जाता है और बहुधा “जी” के पश्चात् आता है, जैसे, देवदत्त महाराज, पाड़ेजी महाराज, रणजीतसिंह महाराज, इंद्र महाराज, इत्यादि।

साहब—यह उर्दू शब्द बहुधा “जी” के पर्याय में आता है। इसका प्रयोग नामों के साथ अथवा उपनामों वा पदों के साथ होता है, जैसे, रमालाल-साहब, वकील-साहब, डाकूर-साहब, रायबहादुर-साहब। इसका प्रयोग बहुधा ब्राह्मणों के नामों वा उपनामों के साथ नहीं होता। स्त्रियों के लिए प्रायः स्त्रीलिंग “साहबा” शब्द आता है, जैसे, मेम-साहबा, रानी-साहबा, इत्यादि।

महाशय, महोदय—इन शब्दों का अर्थ प्रायः “साहब” के समान है। “महाशय” बहुधा साधारण लोगों के लिए और “महोदय” बड़े लोगों के लिए आता है, जैसे, शिवदत्त महाशय, सर जेम्स मेस्टन महोदय, इत्यादि।

बहादुर—यह शब्द राजा-महाराजाओं तथा बड़े बड़े हाकिमों के नामों वा उपनामों के साथ आता है, जैसे, कमलानंदसिंह बहादुर, महाराजा बहादुर, सरदार बहादुर। अंगरेजी नामों और पदों के साथ “बहादुर” के पहले साहब आता है, जैसे, हैमिल्टन साहब बहादुर, लाट साहब बहादुर, इत्यादि।

शास्त्री—यह शब्द संस्कृत के विद्वानों के नामों में लगाया जाता है, जैसे, रामप्रसाद शास्त्री।

स्वामी, सरस्वती—ये शब्द साधु महात्माओं के नामों के आगे आते हैं, जैसे तुलसीराम स्वामी, दयानंद सरस्वती। “सरस्वती” शब्द स्त्रीलिंग है, तथापि यहाँ उसका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। यह शब्द विद्वत्ता-सूचक भी है।

देवी—ब्राह्मण और कुलीन सधवा स्त्रियों के नामों के साथ

बहुधा “देवी” शब्द आता है; जैसे गायत्री देवी । किसी किसी प्रांत में “बाई” शब्द प्रचलित है; जैसे, मथुरा बाई ।

३०३—आदर के लिए कुछ शब्द नामों और उपनामों के पहले भी लगाये जाते हैं; जैसे, श्री, श्रीयुक्त, श्रीयुत, श्रीमान्, श्रीमती, कुमारी, माननीय, महात्मा, अत्रभवान् । महाराज, स्वामी, महाशय, आदि भी कभी कभी नामों के पहले आते हैं । जाति के अनुसार पुरुषों के नामों के पहले पंडित, बाबू, ठाकुर, लाला, संत शब्द लगाये जाते हैं । ‘श्रीयुक्त’ वा ‘श्रीयुत’ की अपेक्षा ‘श्रीमान्’ अधिक प्रतिष्ठा का वाचक है ।

[सू०—इन आदरसूचक शब्दों का वचन से कोई विशेष संबंध नहीं है; क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द हैं और इनके कारण मूल शब्दों में कोई रूपांतर भी नहीं होता । तथापि जिस प्रकार लिंग में “पुरुष”, “स्त्री”, “नर”, “मादा” और वचन में “लोग”, “गण”, “जाति” आदि स्वतंत्र शब्दों को प्रत्यय मान लेते हैं, उसी प्रकार इन आदरसूचक शब्दों को आदरार्थ बहुवचन के प्रत्यय मानकर इनका संचित विचार किया गया है । इनका विशेष विवेचन साहित्य का विषय है ।]

तीसरा अध्याय ।

कारक ।

३०४—संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं; जैसे, “रामचंद्रजी ने खारी जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया ।” (रघु०) ।

इस वाक्य में “रामचंद्रजी ने,” “समुद्र पर,” “बंदरों से” और “पुल” संज्ञाओं के रूपांतर हैं जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध “बंधवा दिया” क्रिया के साथ सूचित होता है । “जल के”

“जल” संज्ञा का रूपांतर है और उससे “जल” का संबंध “समुद्र” से जाना जाता है। इसलिए “रामचंद्रजीने,” “समुद्र पर,” “जल के,” “बंदरों से,” और “पुल” संज्ञाओं के कारक कहलाते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाये जाते हैं उन्हें **विभक्तियाँ** कहते हैं। विभक्ति के योग से बने हुए रूप **विभक्तयंत शब्द** वा **पद** कहाते हैं।

[टी०—जिस अर्थ में “कारक” शब्द का प्रयोग संस्कृत-व्याकरणों में होता है उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है और न वह अर्थ अधिकांश हिंदी-व्याकरणों में माना गया है। केवल “भाषातत्त्वदीपिका” और “हिंदी-व्याकरण” में जिनके लेखक महाराष्ट्र हैं, मराठी व्याकरण की रूढ़ि के अनुसार, “कारक” और “विभक्ति” शब्दों का प्रयोग प्रायः संस्कृत के अनुसार किया गया है। संस्कृत में क्रिया के साथ संज्ञा (सर्वनाम और विशेषण) के अन्वय (संबंध) को कारक कहते हैं और उनके जिस रूप से यह अन्वय सूचित होता है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति में जो प्रत्यय लगाये जाते हैं वे विभक्ति-प्रत्यय कहाते हैं। संस्कृत में सात विभक्तियाँ और छ कारक माने जाते हैं। पृष्ठी विभक्ति को संस्कृत व्याकरण कारक नहीं मानते, क्योंकि उसका संबंध क्रिया से नहीं है।

संस्कृत में कारक और विभक्ति को अलग मानने का सब से बड़ा और मुख्य कारण यह है कि एकही विभक्ति कई कारकों में आती है। यह बात हिंदी में भी है, जैसे घर गिरा, किसान घर बनाता है, घर बनाया जाता है, लड़का घर गया। इन वाक्यों में घर शब्द (संस्कृत व्याकरण के अनुसार) एकही रूप (विभक्ति) में आकर क्रिया के साथ अलग अलग संबंध (कारक) सूचित करता है। इस दृष्टि से कारक और विभक्ति अवश्यही अलग अलग हैं और संस्कृत-सरीखी रूपांतर-शील और पूर्ण भाषा में इनका भेद मानना सहज और उचित है।

हिंदी में कारक और विभक्ति को एक मानने की चाल कदाचित् अँगरेजी व्याकरण का फल है, क्योंकि सब से प्रथम हिंदी-व्याकरण † पादरी आदम

... क्रियान्वयित्वं कारकत्वं ।

† यह एक बहुत ही छोटी पुस्तक है और इसके प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में भाषा

साहब ने लिखा था। इस व्याकरण में “कारक” शब्द आया है; परंतु “विभक्ति” शब्द का नाम पुस्तक भर में कहीं नहीं है। दो एक लेखकों के लिखने पर भी आजतक के हिंदी-व्याकरणों में कारक और विभक्ति का अंतर नहीं माना गया है। हिंदी-वैयाकरणों के विचार में इन दोनों शब्दों के अर्थ की एकता यहाँ तक स्थिर हो गई है कि व्यासजी सरीखे संस्कृत के विद्वान ने भी “भाषा-प्रभाकर” * में विभक्ति के बदले “कारक” शब्द का प्रयोग किया है। हाल में पं० गोविंदनारायण मिश्र ने अपने “विभक्ति-विचार” में लिखा है कि “स्वर्गीय पं० दामोदर शास्त्री ने ही, संभव है कि, सबसे पहले स्वरचित व्याकरण में कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों के प्रयोग का यथोचित खंडन कर प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्ति शब्द का प्रयोग उनके बदले में करने के साथ ही इसका युक्तियुक्त प्रतिपादन भी किया था।” इस तरह से इस बहुत ही पुरानी भूल सुधारने की ओर आजकल लेखकों का ध्यान हुआ है। अब हमें यह देखना चाहिये कि इस भूल को सुधारने से हिंदी व्याकरण को क्या लाभ हो सकता है।

हिंदी में संज्ञाओं की विभक्तियों (रूपों) की संख्या संस्कृत की अपेक्षा बहुत कम है और विकल्प से बहुधा कई एक संज्ञाओं की विभक्तियों का लोप हो जाता है। संज्ञाओं की अपेक्षा सर्वनामों के रूप हिंदी में कुछ अधिक निश्चित हैं; पर उनमें भी कई शब्दों की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्तियाँ बहुधा दो दो कारकों में आती हैं। हिंदी-संज्ञाओं की एक एक विभक्ति कभी कभी चार चार कारकों में आती है; जैसे, मेरा हाथ दुखता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा, नौकर के हाथ चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठिया हाथ न आईं। इन उदाहरणों में “हाथ” संज्ञा (संस्कृत व्याकरण के अनुसार) एकही (प्रथमा) विभक्ति में है और वह क्रमशः कर्ता, कर्म, करण और अधि-करण कारकों में आई है। इनमें से कर्ता की विभक्ति को छोड़ शेष विभक्तियों के अध्याहत प्रत्यय वक्ता वा लेखक के इच्छानुसार व्यक्त भी किये जा सकते हैं; जैसे, उसने मेरे हाथ को पकड़ा; नौकर के हाथ से चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठिया हाथ में न आईं। ऐसी अवस्था में प्रायः एक ही रूप और अर्थ के शब्दों को कभी प्रथमा, कभी द्वितीया, कभी तृतीया और कभी सप्तमी का विदेशी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तथापि इसमें व्याकरण के कई शुद्ध और उपयोगी नियम दिये गये हैं।

* यह पुस्तक तारणपुर के जमींदार बाबू रामचरणसिंह की लिखी हुई है; परंतु इसका संशोधन स्वर्गवासी पं० अयिकादत्त व्यास ने किया था।

विभक्ति में मानना पड़ेगा । केवल रूप के अनुसार विभक्ति मानने से हिंदी में “प्रथमा”, “द्वितीया” आदि कल्पित नामों में भी बड़ी गड़बड़ होगी । संस्कृत में शब्दों के रूप बहुधा निश्चित और स्थिर हैं, इसलिए जिन कारणों से उसमें कारक और विभक्ति का भेद मानना उचित है, उन्हीं कारणों से हिंदी में वह भेद मानना कठिन जान पड़ता है । हिंदी में अधिकांश विभक्तियों का रूप केवल अर्थ से निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि रूपों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिये इस भाषा में विभक्तियों के सार्थक नाम कर्ता, कर्म, आदि ही उपयोगी जान पड़ते हैं ।

हिंदी के जिन वैयाकरणों ने कारक और विभक्ति का अंतर हिंदी में मानने की चेष्टा की है वे भी इनका विवेचन समाधान-पूर्वक नहीं कर सके हैं । पं० केशवराम भट्ट ने अपने “हिंदी-व्याकरण” में संज्ञाओं के केवल दो कारक—कर्ता और कर्म तथा पाँच रूप—पहला, दूसरा, तीसरा, आदि माने हैं । “विभक्ति” शब्द का प्रयोग उन्होंने “प्रत्यय” के अर्थ में किया है, और अपने माने हुए दोनों कारकों का लक्षण इस प्रकार बताया है—“क्रिया के संबंध से संज्ञा की जो दो विशेष अवस्थाएँ होती हैं उनको कारक कहते हैं ।” इस लक्षण के अनुसार जिन करण, संप्रदान आदि संबंधों को संस्कृत वैयाकरण “कारक” मानते हैं वे भी कारक नहीं कहे जा सकते । तब फिर इन पिछले सबंधों को “कारक” के बदले और क्या कहना चाहिए ? आगे चलकर “विभक्ति” शीर्षक लेख में भट्टजी संज्ञाओं के रूपों के विषय में लिखते हैं कि “अलग अलग पाँच ही रूपों से कारक आदि संज्ञाओं की विभिन्न अवस्थाएँ पहचानी जाती हैं ।” इसमें “आदि” शब्द से जाना जाता है कि संज्ञा की केवल दो विशेष अवस्थाओं का नाम कारक है और शेष अवस्थाओं को कोई नाम देने की आवश्यकता ही नहीं । “हिंदी-व्याकरण” में कई नियम संस्कृत-व्याकरण के अनुसार सूत्र-रूप से देने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए इस पुस्तक में यह बात कहीं स्पष्ट नहीं हुई है कि “अवस्था” शब्द “संबंध” के अर्थ में आया है या “रूप” के अर्थ में, और न कहीं इस बात का विवेचन किया गया है कि केवल दो “विशेष अवस्थाएँ” ही “कारक” क्यों कहलाती हैं ? कारक का जो लक्षण किया गया है वह लक्षण नहीं, किंतु वर्गीकरण का वर्णन है और उसकी वाक्य-रचना स्पष्ट नहीं है । भट्टजी ने संज्ञाओं के जो पाँच रूप माने हैं (जिनको कभी कभी वे “विभक्ति” भी कहते हैं), उनमें से तीसरी और पाँचवीं विभक्तियों को उन्होंने “लुप्त अवस्था” में आने पर उन्हीं विभक्तियों के

अंतर्गत माना है, पर दूसरी विभक्ति को कहीं उसीमें और कहीं पहली में लिया है। हिंदी में संबोधन-कारक का रूप इन पाँचों विभक्तियों से भिन्न है; पर यह भी संस्कृत के अनुसार प्रथमा में मान लिया गया है। इसके सिवा हिंदी में षष्ठी ('हिं० व्या०' की चौथी) विभक्ति का अभाव है, क्योंकि उसके बदले तद्धित प्रत्यय का-के-की आते हैं, परंतु भट्टजी ने तद्धित-प्रत्ययांत पद को भी विभक्ति मान लिया है। साहित्याचार्य पं० रामावतार शर्मा ने "व्याकरण सार" में "विभक्ति" शब्द को उस रूपांतर के अर्थ में प्रयुक्त किया है जो कारक के प्रत्यय लगने के पूर्व संज्ञाओं में होता है। आपके मतानुसार हिंदी में केवल दो विभक्तियाँ हैं।

इस विवेचन का सार यही है कि हिंदी में विभक्ति और कारक का सूक्ष्म अंतर मानने में बड़ी कठिनाई है। इससे हिंदी व्याकरण की क्लिष्टता बढ़ती है और जबतक उनकी समाधान-कारक व्यवस्था न हो, तबतक केवल वाद-विवाद के लिए उन्हें व्याकरण में रखने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमने "कारक" और "विभक्ति" शब्दों का प्रयोग हिंदी-व्याकरण के अनुकूल अर्थ में किया है; और प्रथमा, द्वितीया, आदि कल्पित नामों के बदले कर्ता, कर्म आदि सार्थक नाम लिखे हैं।]

३०५—हिंदी में आठ कारक हैं। इनके नाम, विभक्तियाँ और लक्षण नीचे दिये जाते हैं—

कारक	विभक्तियाँ
(१) कर्ता	० , ने
(२) कर्म	को
(३) करण	से
(४) संप्रदान	को
(५) अपादान	से
(६) संबंध	का—के—की
(७) अधिकरण	में, पर
(८) संबोधन	हे, अजी, अहो, अरे
(९) क्रिया से जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है	

उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को **कर्त्ता कारक** कहते हैं; जैसे, **लड़का सोता है । नौकर ने दरवाजा खोला । चिट्ठी भेजी जायगी ।** इत्यादि ।

[टी० —कर्त्ता कारक का यह लक्षण दूसरे व्याकरणों में दिये हुए लक्षणों से भिन्न है । हिं दी में कारक और विभक्ति का संस्कृत-रूढ अंतर न मानने के कारण इस लक्षण की आवश्यकता हुई है । इसमें केवल व्यापार के आश्रय ही का समावेश नहीं होता, किंतु स्थितिदर्शक और विकारदर्शक क्रियाओं के कर्त्ताओं का भी (जो यथार्थ में व्यापार के आश्रय नहीं है) समावेश हो सकता है । इसके सिवा सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य में कर्म का जो मुख्य रूप होता है उसका भी समावेश इस लक्षण में हो जाता है ।]

(२) जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पडता है उसे सूचित करनेवाले, संज्ञा के रूप को **कर्म कारक** कहते हैं, जैसे, **“लड़का पत्थर फेकता है ।” “मालिक ने नौकर को बुलाया ।”** इत्यादि ।

(३) **कारण कारक** संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है, जैसे **“सिपाही चोर को रस्सी से बाँधता है ।” “लड़के ने हाथ से फल तोडा ।” “मनुष्य आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं ।”** इत्यादि ।

(४) जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी वाचक संज्ञा के रूप को **संप्रदान कारक** कहते हैं, जैसे, **राजा ने ब्राह्मण को धन दिया ।” “शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं ।” “लड़का नहाने को गया है ।”** इत्यादि ।

(५) **अपदान कारक** संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के विभाग की अवधि सूचित होती है, जैसे, **“पेड़ से फल गिरा ।” “गंगा हिमालय से निकलती है ।”** इत्यादि ।

(६) संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है उस रूप को **संबंध कारक** कहते हैं; जैसे, **राजा का महल, लड़के की पुस्तक, पत्थर के टुकड़े**, इत्यादि । संबंध कारक का रूप संबंधी शब्द के लिंग-वचन-कारक के कारण बदलता है । (अं०—३०६—४)

(७) संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है **अधिकरण कारक** कहलाता है; जैसे, “**सिंह वन में रहता है ।**” “**बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं ।**” इत्यादि ।

(८) संज्ञा के जिस रूप से किसी को चिताना वा पुकारना सूचित होता है उसे **सम्बोधन कारक** कहते हैं; जैसे, **हे नाथ ! मेरे अपराधों को क्षमा करना ।**” “**छिपे हो कौन से परदे में बैठा !**” “**अरे लड़के, इधर आ ।**”

[सू०—कारकों के विशेष प्रयोग और अर्थ वाक्य-विन्यास के कारक-प्रकरण में लिखे जायेंगे ।]

विभक्तियों की व्युत्पत्ति ।

३०६—हिंदी की अधिकांश विभक्तियाँ प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हैं, परंतु इन भाषाओं के विरुद्ध हिंदी की विभक्तियाँ दोनों वचनों में एक-रूप रहती हैं । इन विभक्तियों को कोई कोई वैयाकरण प्रत्यय नहीं मानते; किंतु संबंध-सूचक अव्ययों में गिनते हैं । विभक्तियों और संबंध-सूचक अव्ययों का साधारण अंतर पहले (अं०—२३२—ख में) बताया गया है और आगे इसी अध्याय में (अं०—३१४—३१५) बताया जायगा । यहाँ केवल विभक्तियों की व्युत्पत्ति के विषय में कुछ लिखा जाता है । हिंदी की विभक्तियों की व्युत्पत्ति केवल दो एक व्याकरणों में संक्षेपतः लिखी गई है; पर इसका सविस्तर विवेचन विलायती विद्वानों ने किया है । मिश्रजी ने भी अपने “विभक्ति-विचार” में इस विषय की योग्य समालोचना की है । तथापि हिंदी

विभक्तियों की व्युत्पत्ति बहुतही विवाद-ग्रस्त विषय है । इसमें बहुत कुछ मूल शोध की आवश्यकता है और जब तक अपभ्रंश-प्राकृत और प्राचीन हिंदी के बीच की भाषा का पता न लगे तब तक यह विषय बहुधा अनुमान ही रहेगा ।

(१) कर्त्ता कारक—इस कारक के अधिकांश प्रयोगों में कोई विभक्ति नहीं आती । हिंदी आकारात पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष पुल्लिंग शब्दों का मूल रूप ही इस कारक के दोनों वचनों में आता है । पर स्त्रीलिंग शब्दों और आकारात पुल्लिंग शब्दों के बहु-वचन में रूपांतर होता है, जिसका विचार वचन के अध्याय में हो चुका है । विभक्ति का यह अभाव सूचित करने के लिए ही कर्त्ता कारक की विभक्तियों में ० चिह्न लिख दिया जाता है । हिंदी में कर्त्ता कारक की कोई विभक्ति (प्रत्यय) न होने का कारण यह है कि प्राकृत में अकारात और आकारात पुल्लिंग सज्ञाओं को छोड़ शेष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सज्ञाओं की प्रथमा (एकवचन) विभक्ति में कोई प्रत्यय नहीं है और संस्कृत के कई एक तत्सम शब्द भी हिंदी में प्रथमा एक वचन के रूप में आये हैं ।

हिंदी में कर्त्ता कारक की जो “ने” विभक्ति आती है वह यथार्थ में संस्कृत की तृतीया विभक्ति (करण कारक) के “ना” प्रत्यय का रूपांतर है, परंतु हिंदी में “ने” का प्रयोग संस्कृत “ना” के समान करण (साधन) के अर्थ में कभी नहीं होता । इसलिए उसे हिंदी में करण कारक की (तृतीया) विभक्ति नहीं मानते । (“ने” का प्रयोग वाक्य-विन्यास के कारक प्रकरण में लिखा जायगा) यह “ने” विभक्ति पश्चिमी हिंदी का एक विशेष चिह्न है; पूर्वी हिंदी (और बँगला, उड़िया आदि भाषाओं) में इसका प्रयोग नहीं होता । मराठी में इसके दोनों वचनों के रूप क्रमशः “ने” और “नी” हैं । “ने” विभक्ति को अधिकांश (देशी और विदेशी) वैया-

करण संस्कृत के “ना” (प्रा०—एण) से व्युत्पन्न मानते हैं, और उसके प्रयोग में हिंदी की रचना भी प्रायः संस्कृत के अनुसार होती है। परंतु कैलाश साहब बीम्स साहब के मत के आधार पर उसे “लग्” (संगे) धातु के भूतकालिक कृदंत “लग्य” का अपभ्रंश मानकर यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि हिंदी की विभक्तियाँ प्रत्यय नहीं हैं, किंतु संज्ञाओं और दूसरे शब्द भेदों के अवशेष हैं। प्राकृत में इस विभक्ति का रूप एकवचन में ‘एण’ और अपभ्रंश में ‘ऐं’ है।

(२) कर्म कारक—इस कारक की विभक्ति “को” है; पर बहुधा इस विभक्ति का लोप हो जाता है, और तब कर्म कारक की संज्ञा का रूप दोनों वचनों में कर्त्ता कारक ही के समान होता है। यही “को” विभक्ति संप्रदान कारक की भी है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी में कर्म कारक का, कोई निज का रूप नहीं है। इसका रूप यथार्थ में कर्म और संप्रदान कारकों में बँटा हुआ है। इस विभक्ति की व्युत्पत्ति के विषय में व्यास जी, “भाषा-प्रभाकर” में, बीम्स साहब के मतानुसार लिखते हैं कि “कदाचित् यह स्वार्थिक “क” से निकला हो, पर सूक्ष्म संबंध इसका संस्कृत से जान पड़ता है, जैसे कच् = कक्खं = काखं = काहं = काहूँ = कहुँ = कहुँ = कौं = कौं = को।” इस लंबी व्युत्पत्ति का खंडन करते हुए मिश्रजी ने अपने “विभक्ति-विचार” में लिखा है कि “कात्यायन ने अपने व्याकरण में अम्हाकं पस्ससि, सब्बको, यको, अमुको, आदि उदाहरण दिये हैं। और तुम्हाम्हेन आकं, सब्बतो को, आदि सूत्रों से ‘तुम्हाकं’, ‘अम्हाकं’, ‘अम्हे’ आदि अनेक रूपों को सिद्ध किया है। प्राकृत के इन रूपों से ही हिंदी में हमको, हमें, तुमको, तुम्हे, आदि रूप बने हैं और इनके आदर्श पर ही द्वितीया विभक्ति चिह्न ‘को’ सब शब्दों के संग प्रच-

लित हो गया ।” इन दोनों युक्तियों में कौन सी ग्राह्य है, यह बताना कठिन है, क्योंकि दोनों ही अनुमान हैं और इनको सिद्ध करने के लिए प्राचीन हिंदी के कोई उदाहरण नहीं मिलते । “विभक्ति-विचार” में ‘कहूँ’, ‘कहुँ’ आदि की व्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं कहा गया ।

(३) करण-कारक—इसकी विभक्ति “से” है । यही प्रत्यय अपादान-कारक का भी है । कर्म और संप्रदान-कारकों की विभक्ति के समान हिंदी में करण और अपादान-कारकों की विभक्ति भी एक ही है । मिश्रजी के मत में यह “से” विभक्ति प्राकृत की पंचमी विभक्ति “सुन्तो” से निकली है और इसीसे हिंदी के अपादान-कारक के प्राचीन रूप “तेँ”, “से”, आदि व्युत्पन्न हुए हैं । चंद के महाकाव्य में अपादान के अर्थ में “हुंतो” और “हुँत” आये हैं जो प्राकृत की पंचमी के दूसरे प्रत्यय “हितो” से निकले हैं । हार्नली साहब का मत भी प्रायः ऐसा ही है, पर कौलाग साहब जो सब विभक्तियों को स्वतंत्र शब्दों के टूटे-फूटे रूप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, इस विभक्ति को संस्कृत के “सम” शब्द का रूपांतर मानते हैं । “से” की व्युत्पत्ति के विषय में मिश्रजी (और हार्नली साहब) का मत ठीक जान पड़ता है, परंतु इन विद्वानों में से किसीने यह नहीं बतलाया कि हिंदी में “से” विभक्ति करण और अपादान दोनों कारकों में क्योंकर प्रचलित हुई, जब कि संस्कृत और प्राकृत में दोनों कारकों के लिए अलग अलग विभक्तियाँ हैं । “भाषा-प्रभाकर” में जहाँ और और विभक्तियों की व्युत्पत्ति बताने की चेष्टा की गई है, वहाँ “से” का नाम तक नहीं है ।

(४) संबंध-कारक—इस कारक की विभक्ति “का” है । वाक्य में जिस शब्द के साथ संबंध-कारक का संबंध होता है उसे भेद्य कहते हैं और भेद्य के संबंध से संबंध-कारक को भेदक

कहते हैं। “राजा का घोड़ा”—इस वाक्यांश में “राजा का” भेदक और “घोड़ा” भेद्य है। संबंध-कारक की विभक्ति “का” भेद्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलकर “की” और “के” हो जाती है। हिंदी की और और विभक्तियों के समान “का” विभक्ति की व्युत्पत्ति के विषय में भी वैयाकरणों का मत एक नहीं है। उनके मतों का सार नीचे दिया जाता है—

(अ) संस्कृत में इक, ईन, इय प्रत्यय संज्ञाओं में लगने से “तत्संबंधी” विशेषण बनते हैं; जैसे, काया—कायिक, कुल—कुलीन, राष्ट्र—राष्ट्रीय। “इक” से हिंदी में “का”, “ईन” से गुजराती में “नो” और “इय” से सिंधी में “जो” और मराठी में “चा” आया है।

(आ) प्रायः इसी अर्थ में संस्कृत में एक प्रत्यय “क” आता है; जैसे, मद्रक = मद्र देश में उत्पन्न; रोमक = रोम देश संबंधी आदि। प्राचीन हिंदी में भी वर्तमान “का” के स्थान में “क” पाया जाता है; जैसे, “पितु-आयसु सब धर्म-क टीका।” (राम०)। इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हिंदी “का” संस्कृत के “क” प्रत्यय से निकला है।

(इ) प्राकृत में “इदं” (संबंध) अर्थ में “केरञ्चो”, “केरिआ”, “केरकं”, “केर”, आदि प्रत्यय आते हैं जो विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं और लिंग में विशेष्य के अनुसार बदलते हैं; जैसे, “कस्यकेरकं एदं पवहणं (सं०-कस्य सम्बन्धिनं इदं पवहणं) = किसका यह वाहन (है)। इन्हीं प्रत्ययों से रासो की प्राचीन हिंदी के केरा, केरो, आदि प्रत्यय निकले हैं जिनसे वर्तमान हिंदी के “का-के-की” प्रत्यय बने हैं।

(ई) क, इक, एञ्चय आदि प्राकृत के इदमर्थ के प्रत्ययों से ही रूपांत-

रित होकर वर्तमान हिंदी के “का-के-की” प्रत्यय सिद्ध हुए दिखते हैं ।

(ऋ) सर्वनामों के रा-रे-री प्रत्यय केरा, केरो आदि प्रत्ययों के आद्य “क” का लोप करने से बने हुए समझे जाते हैं । (मारवाड़ी तथा वंगला मे ये अथवा इन्हींके समान प्रत्यय संज्ञाओं के संबंध-कारक मे आते हैं ।)

इस मत-मतांतर से जान पड़ता है कि हिंदी के संबंध-कारक की विभक्तियों की व्युत्पत्ति निश्चित नहीं है । तथापि यह बात प्रायः निश्चित है कि ये विभक्तियाँ संस्कृत वा प्राकृत की किसी विभक्ति से नहीं निकली हैं, किंतु किसी तद्धित-प्रत्यय से व्युत्पन्न हुई हैं ।

(५) अधिकरण-कारक—इसकी दो विभक्तियाँ हिंदी में प्रचलित हैं—“में” और “पर” । इनमें से “पर” को अधिकांश वैयाकरण संस्कृत “उपरि” का अपभ्रंश मानकर विभक्तियों में नहीं गिनते । “उपरि” का एक और अपभ्रंश “ऊपर” हिंदी में संबंध-सूचक के समान भी प्रचलित है । “विभक्ति-विचार” में मिश्रजी ने “लिये”, “निमित्त”, आदि के समान “पर” (पै) को भी स्वतंत्र शब्द माना है, पर उसकी व्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं लिखा । यथार्थ में “पर” शब्द स्वतंत्र ही है, क्योंकि यह संस्कृत वा प्राकृत की किसी विभक्ति वा प्रत्यय से नहीं निकला है । “पर” को अधिकरण-कारक की विभक्ति मानने का कारण यह है कि अधिकरण से जिस आधार का बोध होता है उसके सब भेद अकेले “में” से सूचित नहीं होते, जैसा संस्कृत की सप्तमी विभक्ति से होता है ।

“मे” की व्युत्पत्ति के विषय मे भी मत-भेद है और इसके मूल रूप का निश्चय नहीं हुआ है । कोई इसे संस्कृत “मध्ये” का और कोई प्राकृत सप्तमी विभक्ति “म्मि” का रूपांतर मानते हैं । मिश्रजी लिखते हैं कि यदि “में” संस्कृत “मध्ये” का अपभ्रंश होता

तो “मे” के साथ ही “माँझ”, “मँझार”, “मधि”, आदि का प्रयोग हिंदी में न होता । गुजराती का, सप्तमी का, प्रत्यय “माँ” इसी (पिछले) मत को पुष्ट करता है, अर्थात् “में” प्राकृत “मिम्” का अपभ्रंश है ।

(६) संबोधन-कारक—कोई-कोई वैयाकरण इसे अलग कारक नहीं गिनते, किंतु कर्त्ता-कारक के अंतर्गत मानते हैं । संबंध-कारक के समान यह कारकों में इसलिए नहीं गिना जाता कि इन दोनों कारकों का संबंध बहुधा क्रिया से नहीं होता । संबंध-कारक का अन्वय तो क्रिया के साथ परोक्ष रूप से होता भी है; परंतु संबोधन-कारक का अन्वय वाक्य में किसी शब्द के साथ नहीं होता । इसको केवल इसीलिए कारक मानते हैं कि इस अर्थ में संज्ञा का स्वतंत्र रूप पाया जाता है । संबोधन-कारक की कोई अलग विभक्ति नहीं है; परंतु और और कारकों के समान इसके दोनों वचनों में संज्ञा का रूपांतर होता है । विभक्ति के बदले इस कारक में संज्ञा के पहले बहुधा हे, हो, अरे, अजी, आदि विस्मयादि-बोधक अव्यय लगाये जाते हैं । इन शब्दों के प्रयोग विस्मयादि-बोधक-अव्यय के अध्याय में दिये गये हैं ।

३०७—विभक्तियाँ चरम प्रत्यय कहलाती हैं, अर्थात् उनके पश्चात् दूसरे प्रत्यय नहीं आते । इस लक्षण के अनुसार विभक्तियों और दूसरे प्रत्ययों का अंतर स्पष्ट हो जाता है; जैसे, “संसार-भर के ग्रंथ-गिरि पर ।” (भारत०) । इस वाक्यांश में “भर” शब्द विभक्ति नहीं है; क्योंकि उसके पश्चात् “के” विभक्ति आई है । इस “के” के पश्चात् भर, तक, वाला, आदि कोई प्रत्यय नहीं आ सकते । तथापि हिंदी में अधिकरण-कारक की विभक्तियों के साथ बहुधा संबंध वा अपादान-कारक की विभक्ति आती है; जैसे, “हमारे पाठकों में से बहुतेरों ने ।” (भारत०) । “नंद उसको आसन पर

से उठा देगा ।” (मुद्रा०) । “तट पर से ।” (शिव०) । “कुँएँ में का मेंढक ।” “जहाज पर के यात्री”, इत्यादि ।

(अ) संबंध-कारक के साथ कभी-कभी जो विभक्ति आती है वह भेद्य के अध्याहार के कारण आती है; जैसे, “इस राँड़ के () को बकने दीजिये ।” (शकु०) । “यह काम किसी घर के () ने किया है” । कभी-कभी संबंध-कारक को संज्ञा मानकर उसका बहुवचन भी कर देते हैं; जैसे, “यह काम घरकों ने किया है ।” (घरकों ने = घरवालों ने ।)

३०८—कोई-कोई विभक्तियाँ कुछ अव्ययों में भी पाई जाती हैं; जैसे—

को—कहाँ को, यहाँ को, आगे को ।

से—कहाँ से, वहाँ से, आगे से ।

का—कहाँ का, जहाँ का, कब का ।

पर—यहाँ पर, जहाँ पर ।

संज्ञाओं की कारक-रचना ।

३०९—विभक्तियों के योग के पहले संज्ञाओं का जो रूपांतर होता है उसे विकृत रूप कहते हैं, जैसे, “घोड़ा” शब्द के आगे “ने” विभक्ति के योग से एकवचन में “घोड़े” और बहुवचन में “घोड़ों” हो जाता है । इसलिए “घोड़े” और “घोड़ों” विकृत रूप हैं । विभक्ति-रहित कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक जिन में संज्ञा वा सर्वनाम का विकृत रूप आता है, विकृत कारक कहलाते हैं ।

३१०—एकवचन में विकृत रूप का प्रत्यय “ए” है जो केवल हिंदी और उर्दू (तद्भव) आकारांत पुल्लिङ्ग संज्ञाओं में लगाया जाता है; जैसे, लड़का—लड़के ने, घोड़ा—घोड़े ने, सोना—सोने का, परदा—परदे में, अंधा—हे अंधे, इत्यादि (अं०—२८६) ।

(क) हिंदी आकारांत संज्ञाओं वा विशेषणों में “पन” लगाने से जो भाववचक संज्ञाएँ बनती हैं उनके आगे विभक्ति आने पर मूल संज्ञा वा विशेषण का रूप विकृत होता है, जैसे, कड़ापन—कड़ेपन को, गुंडापन—गुंडेपन से, बहिरापन—बहिरेपन से, इत्यादि ।

अप०—(१) संबोधन-कारक में “बेटा” शब्द का रूप बहुधा नहीं बदलता; जैसे, “अरे बेटा, आँख खोलो ।” (सत्य०) । “बेटा! उठ ।” (रघु०) ।

अप०—(२) जिन आकारांत पुल्लिङ्ग शब्दों का रूप विभक्ति-रहित बहुवचन में नहीं बदलता वे एकवचन में भी विकृत रूप में नहीं आते (अं०—२८६ और अपवाद); जैसे, राजा ने, काका को, दारोगा से, देवता में, रामबेला का, इत्यादि ।

अप०—(३) भारतीय प्रसिद्ध स्थानों के व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिङ्ग नामों को छोड़, शेष देशी तथा मुसलमानी स्थानवाचक आकारांत पुल्लिङ्ग शब्दों का विकृत रूप विकल्प से होता है; जैसे, “आगरे का आया हुआ ।” (गुटका०) । “कलकत्ते के महलों में ।” (शिव०) । “इस पाटलिपुत्र (पटने) के विषय में ।” (मुद्रा०) । “राजपूताने में”, “दरभंगे की फसल ।” (शिक्षा) । “दरभंगा से ।” (सर०) । छिंदवाड़ा में वा छिंदवाड़े में, बसरा से वा बसरे से, इत्यादि ।

प्रत्यपवाद—पाश्चात्य स्थानों के और कई एक देशी संस्थानों के आकारांत पुल्लिङ्ग नाम अविकृत रहते हैं; आफ्रिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लासा, रीवाँ, नाभा, कोटा, आदि ।

अप०—(४) जब किसी विकारी आकारांत संज्ञा (अथवा दूसरे शब्द) के संबंध-कारक के बाद वही शब्द आता है तब पूर्व शब्द बहुधा अविकृत रहता है; जैसे, कोठा का कोठा; जैसा का जैसा ।

अप०—(५) यदि विकारी संज्ञाओं (और दूसरे शब्दों) का प्रयोग शब्द ही के अर्थ में हो तो विभक्ति के पूर्व उनका विकृत रूप नहीं होता, जैसे, 'घोड़ा' का क्या अर्थ है, "में" को सर्वनाम कहते हैं, "जैसा" से विशेषता सूचित होती है ।

३११—बहुवचन में विकृत रूप के प्रत्यय ओ और यों हैं ।

(अ) अकारांत, विकारी आकारांत और हिंदी याकारांत शब्दों के अंत्यस्वर में ओ आदेश होता है, जैसे, घर—घरों को (पुं०), बात—बातों में (स्त्री०), लड़का—लड़कों का (पुं०), डिविया—डिवियों में (स्त्री०) ।

(आ) मुखिया, अगुआ, पुरखा और बाप-दादा शब्दों का विकृत रूप बहुधा इसी प्रकार से बनता है; जैसे, मुखियों को, अगुओं से, बाप-दादों का, इत्यादि ।

[सू०—संस्कृत के हलंत शब्दों का विकृत रूप अकारांत शब्दों के समान होता है, जैसे, विद्वान्—विद्वानों को, सरित्—सरितों को, इत्यादि ।]

(इ) ईकारांत संज्ञाओं के अंत्य ह्रस्व स्वर के पश्चात् "यों" लगाया जाता है, जैसे, मुनि—मुनियों को, हाथी—हाथियों से, शक्ति—शक्तियों का, नदी—नदियों में, इत्यादि ।

(ई) शेष शब्दों में अंत्य स्वर के पश्चात् "ओं" आता है, जैसे, राजा—राजाओं को, साधु—साधुओं में, माता—माताओं से, धेनु—धेनुओं का, चौबे—चौबेओं में, जौ—जौओं को ।

[सू०—विकृत रूप के पहले ई और ऊ ह्रस्व हों जाते हैं । (अ०—२६२, २६३)]

(उ) ओकारांत शब्दों के अंत में केवल अनुस्वार आता है; और सानुस्वार ओकारांत तथा औकारांत संज्ञाओं में कोई रूपांतर नहीं होता; जैसे, रासो—रासों में, कोदों—कोदों से, सरसो—सरसों का, इत्यादि । (अं०—२६३—३) ।

[सू०—हिंदी में ऐकारांत पुल्लिंग और एकारांत, ऐकारांत तथा ओकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ नहीं है।]

- (ञ) जिन आकारांत शब्दों के अंत में अनुस्वार होता है उनके वचन और कारकों के रूपों में अनुस्वार बना रहता है; जैसे, रोझाँ—रोएँ, रोएँ से, रोझों में।
- (ण) जाड़ा, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास आदि कुछ शब्द विकृत कारकों में बहुधा बहुवचन ही में आते हैं; जैसे, भूखों मरना, बरसातों की रातें, गरमियों में, जाड़ों में, इत्यादि।
- (ऐ) कुछ काल-वाचक संज्ञाएँ विभक्ति के बिना ही बहुवचन के विकृत रूप में आती हैं; जैसे “बरसों बीत गये,” “इस काम में घंटों लग गये।” (अ०—५१२)।

३१२—अब प्रत्येक लिंग और अंत की एक एक संज्ञा की कारक-रचना के उदाहरण दिये जाते हैं। पहले उदाहरण में भव कारकों के रूप रहेगे; परंतु आगे के उदाहरणों में केवल कर्ता, कर्म और संबोधन के रूप दिये जायेंगे। बीच के कारकों की रचना कर्म-कारक के समान उनकी विभक्तियों के योग से हो सकती है।

(क) पुल्लिंग संज्ञाएँ

(१) अकारांत ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक	बालक
	बालक ने	बालकों ने
कर्म	बालक को	बालकों को
करण	बालक से	बालकों से
संप्रदान	बालक को	बालकों को
अपादान	बालक से	बालकों से

कारक	एकवचन	बहुवचन
संबंध	बालक का-के-की	बालकों का-के-की
अधिकरण	बालक में बालक पर	बालकों में बालकों पर
संबोधन	हे बालक	हे बालको

(२) आकारांत (विकृत) ।

कर्त्ता	लड़का लड़के ने	लड़के लड़कों ने
कर्म	लड़के को	लड़कों को
संबोधन	हे लड़के	हे लड़को

(३) आकारांत (अविकृत) ।

कर्त्ता	राजा राजा ने	राजा राजाओं ने
कर्म	राजा को	राजाओं को
संबोधन	हे राजा	हे राजाओ

(४) आकारांत (वैकल्पिक) ।

कर्त्ता	बाप-दादा बाप-दादा ने	बाप-दादा बाप-दादाओं ने
कर्म	बाप-दादा को	बाप-दादाओं को
संबोधन	हे बाप-दादा	हे बाप-दादाओ

(अथवा)

कर्त्ता	बाप-दादा बाप-दादे ने	बाप-दादे बाप-दादे ने
कर्म	बाप-दादे को	बाप-दादे को
संबोधन	हे बाप-दादे	हे बाप-दादे

कारक	एकवचन	बहुवचन
	(५) इकारांत ।	
कर्त्ता	मुनि	मुनि
	मुनि ने	मुनियों ने
कर्म	मुनि को	मुनियों को
संबोधन	हे मुनि	हे मुनियो
	(६) ईकारांत ।	
कर्त्ता	माली	माली
	माली ने	मालियों ने
कर्म	माली को	मालियों को
संबोधन	हे माली	हे मालियो
	(७) उकारांत ।	
कर्त्ता	साधु	साधु
	साधु ने	साधुओं ने
कर्म	साधु को	साधुओं को
संबोधन	हे साधु	हे साधुओ
	(८) ऊकारांत ।	
कर्त्ता	डाकू	डाकू
	डाकू ने	डाकूओं ने
कर्म	डाकू को	डाकूओं को
संबोधन	हे डाकू	हे डाकूओ
	(९) एकारांत ।	
कर्त्ता	चाये	चाये
	चाये ने	चायेओं ने
कर्म	चाये को	चायेओं को
संबोधन	हे चाये	हे चायेओ

कारक एकवचन बहुवचन

(१०) ओकारांत ।

कर्त्ता	रासो	रासो
	रासो ने	रासों ने
कर्म	रासो को	रासों को
संबोधन	हे रासो	हे रासो

(११) औकारांत ।

कर्त्ता	जौ	जौ
	जौ ने	जौओं ने
कर्म	जौ को	जौओं को
संबोधन	हे जौ	हे जौओं

(१२) सानुस्वार ओकारांत ।

कर्त्ता	कोदों	कोदों
	कोदों ने	कोदों ने
कर्म	कोदों को	कोदों को
संबोधन	हे कोदों	हे कोदों

(एकवचन के समान)

(ख) स्त्रीलिंग संज्ञाएँ ।

(१) अकारांत ।

कर्त्ता	बहिन	बहिनें
	बहिन ने	बहिनों ने
कर्म	बहिन को	बहिनों को
संबोधन	हे बहिन	हे बहिनो

(२) आकारांत (संस्कृत) ।

कर्त्ता	शाला	शालाएँ
	शाला ने	शालाओं ने

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्म	शाला को	शालाओं को
संबोधन	हे शाला	हे शालाओ

(३) याकारांत (हिंदी) ।

कर्त्ता	बुढ़िया	बुढ़ियाँ
	बुढ़िया ने	बुढ़ियों ने
कर्म	बुढ़िया को	बुढ़ियों को
संबोधन	हे बुढ़िया	हे बुढ़ियो

(४) इकारांत ।

कर्त्ता	शक्ति	शक्तियाँ
	शक्ति ने	शक्तियों ने
कर्म	शक्ति को	शक्तियों को
संबोधन	हे शक्ति	हे शक्तियो

(५) ईकारांत ।

कर्त्ता	देवी	देवियाँ
	देवी ने	देवियों ने
कर्म	देवी को	देवियों को
संबोधन	हे देवी	हे देवियो

(६) उकारांत ।

कर्त्ता	धेनु	धेनुँ
	धेनु ने	धेनुओं ने
कर्म	धेनु को	धेनुओं को
संबोधन	हे धेनु	हे धेनुओ

(७) ऊकारांत ।

कर्त्ता	वहू	वहूँ
	वहू ने	वहूओं ने

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्म	बहू को	बहुओं को
संबोधन	हे बहू	हे बहुओ

(८) औकारांत ।

कर्त्ता	गौ	गौएँ
	गौ ने	गौओं ने
कर्म	गौ को	गौओं को
संबोधन	हे गौ	हे गौओ

(९) सानुस्वार ओकारांत ।

कर्त्ता	सरसो	सरसों	(एकवचन के समान)
	सरसों ने	सरसों ने	
कर्म	सरसों को	सरसों को	
संबोधन	हे सरसों	हे सरसों	

३१३—तत्सम संस्कृत संज्ञाओं का मूल संबोधन-कारक (एक-वचन) भी उच्च हिंदी और कविता में आता है; जैसे,

व्यंजनांत संज्ञाएँ—राजन्, श्रीमन्, विद्वन्, भगवन्, महात्मन्, स्वामिन्, इत्यादि ।

आकारांत संज्ञाएँ—कविते, आशे, प्रिये, शिच्चे, सीते, राधे, इत्यादि ।

इकारांत संज्ञाएँ—हरे, मुने, सखे, मते, सीतापते, इत्यादि ।

ईकारांत संज्ञाएँ—पुत्रि, देवि, मानिनि, जननि, इत्यादि ।

उकारांत संज्ञाएँ—बंधो, प्रभो, धेनो, गुरो, साधो, इत्यादि ।

ऋकारांत संज्ञाएँ—पितः, दातः, मातः, इत्यादि ।

विभक्तियों और संध-सूचक अव्ययों में संबंध ।

३१४—विभक्ति के द्वारा संज्ञा (या सर्वनाम) का जो संबंध क्रिया वा दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है वही संबंध कभी कभी संबंध-सूचक अव्यय के द्वारा प्रकाशित होता है, जैसे, “लड़का

नहाने को गया है” अथवा “नहाने के लिये गया है ।” इसके विरुद्ध संबंध-सूचकों से जितने संबंध प्रकाशित होते हैं उन सब के लिये हिंदी में कारक नहीं हैं; जैसे, “लड़का नदी तक गया”, “चिड़िया धोती समेत उड़ गई”, “मुसाफिर पेड़ तले बैठा है”, “नौकर गाँव के पास पहुँचा”, इत्यादि ।

[टी०—यहाँ अब ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जिन संबंध-सूचकों से कारकों का अर्थ निकलता है उन्हें कारक क्यों न मानें और शब्दों के सब प्रकार के परस्पर संबंध सूचित करने के लिये कारकों की संख्या क्यों न बढ़ाई जाय ? यदि “नहाने को” कारक माना जाता है तो “नहाने के लिये” को भी कारक मानना चाहिये और यदि “पेड़ पर” एक कारक है तो “पेड़ तले” दूसरा कारक होना चाहिये ।

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विभक्तियों और संबंध-सूचकों की उत्पत्ति पर विचार करना आवश्यक है। इस विषय में भाषाविदों का यह मत है कि विभक्तियों और संबंध-सूचकों का उपयोग बहुधा एक ही है। भाषा के आदि काल में विभक्तियाँ न थीं और एक शब्द के साथ दूसरे का संबंध स्वतंत्र शब्दों के द्वारा प्रकाशित होता था। बार बार उपयोग में आने से इन शब्दों के टुकड़े हो गये और फिर उनका उपयोग प्रत्यय रूप से होने लगा। संस्कृत सरीखी प्राचीन भाषाओं की संयोगात्मक विभक्तियाँ भी स्वतंत्र शब्दों के टुकड़े हैं। मिश्रजी “विभक्ति-विचार” में लिखते हैं कि “सु, औ, जस्, अम्, औ, शस्, टा, भ्यां, भोस्, आदि को स्वतंत्र रूप से दर्शाना ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये चिह्न स्वतंत्र शब्दों से ही पूर्व काल में उपजे थे।” किसी भाषा में बहुत सी और किसीमें थोड़ी विभक्तियाँ होती हैं। जिन भाषाओं में विभक्तियों की संख्या अधिक रहती है (जैसे संस्कृत में है) उनमें संबंध-सूचकों का प्रचार अधिक नहीं होता। भिन्न भिन्न भाषाओं में रूप के जो भेद दिखाई देते हैं उनका एक विशेष कारण यही है कि संबंध-सूचकों का उपयोग किसीमें स्वतंत्र रूप से और किसीमें प्रत्यय रूप से हुआ है।

इस विवेचन से जान पड़ता है कि विभक्तियों और संबंध-सूचकों की उत्पत्ति प्रायः एक ही प्रकार की है। अर्थ की दृष्टि से भी दोनों समान ही हैं, परंतु रूप और प्रयोग की दृष्टि से दोनों में अंतर है। इसलिये कारक का विचार केवल

अर्थ अे अनुसार ही न करके रूप और प्रयोग के अनुसार भी करना चाहिये । जिस प्रकार लिंग और वचन के कारण संज्ञाओं का रूपांतर होता है वसी प्रकार शब्दों का परस्पर संबध सूचित करने के लिये भी रूपांतर होता है और उसे (हिंदी में) कारक कहते हैं । यह रूपांतर एक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ने से नहीं, किंतु प्रत्यय जोड़ने से होता है । संबध-सूचक अव्यय एक प्रकार के स्वतंत्र शब्द हैं, इसलिये संबध-सूचकांत संज्ञाओं को कारक नहीं कहते । इसके सिवा, कुछ विशेष प्रकार के मुख्य संबधों ही को कारक मानते हैं, औरों को नहीं । यदि सब संबध-सूचकांत संज्ञाओं को कारक माने तो अनेक प्रकार के संबध सूचित करने के लिये कारकों की संख्या न जाने कितनी बढ़ जाय ।

विभक्तियाँ जिस प्रकार संबध-सूचकों से (रूप और प्रयोग में) भिन्न हैं वसी प्रकार वे तद्धित और कृदंत (प्रत्ययों) से भी भिन्न हैं । कृदंत वा तद्धित प्रत्ययों के आगे विभक्तियाँ आती है, परंतु विभक्तियों के पश्चात् कृदंत वा तद्धित-प्रत्यय बहुधा नहीं आते ।

इसी विषय के साथ इस बात का भी विवेचन आवश्यक जान पड़ता है कि विभक्तियाँ संज्ञाओं (और सर्वनामों) में मिलाकर लिखी जायँ वा उनसे पृथक् । इसके लिये पहिले हम दो उदाहरण उन पुस्तकों में से देते हैं जिनके लेखक संयोगवादी हैं—

(१)

“अब यह कैसे मालूम हो कि लोग जिन बातोंको कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान् भी कष्टही मानते हो । अथवा आपके पूर्ववर्ती शासकने जो काम किये आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मानते हों ? साथ ही एक और बात है । प्रजाके लोगोंकी पहुँच श्रीमान् तक बहुत कठिन है । पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहलेही मिल चुका और जो कहना था वह कह गया ।” (शिव०) ।

(२)

“प्रायः पौने आठ सौ वर्ष महाकवि चंद्रके समयसे अब तक बीत चुके हैं । चंद्रके सौ वर्ष बाद ही अलावहीन खिलजीके राज्यमें दिल्लीमें फारसी भाषाका सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हुआ । कवि अमीर खुसरोकी मृत्यु सन् १३२५ ईस्वीमें हुई थी । मुसलमान कवियोंमें उक्त अमीर खुसरो हिंदी काव्य रचनाके विषयमें सर्व प्रथम और प्रधान माना जाता है ।” (विभक्ति०) ।

इन अवतरणों से जान पड़ेगा कि स्वयं संयोगवादी लेखक ही अभी तक एक-मत नहीं है । जिस एक शब्द (अथवा प्रत्यय) को गुसजी मिलाकर लिखते

हैं उसीको मिश्रजी अलग लिखते हैं। ऐसे शब्द अवतरणों में मोटे छापे गये हैं। मिश्रजी ने तो यहाँ तक किया है कि संज्ञा में विभक्ति को मिलाने के लिये दोनों के बीच में “ही” लिखना ही छोड़ दिया है, यद्यपि यह अव्यय संज्ञा और विभक्ति के बीच में भी आता है। इसी तरह से गुप्तजी “तक” को और शब्दों से तो अलग अलग, पर “यहाँ” में मिलाकर लिखते हैं। “पर” के संबन्ध में भी दोनों लेखकों का मत-विरोध है।

ऐसी अवस्था में विभक्तियों को संज्ञाओं से मिलाकर लिखने के लिये भाषा के आचार पर कोई निश्चित नियम बनाना कठिन है। विभक्तियों को मिलाकर लिखने में एक बूसरी कठिनाई यह है कि हिंदी में बहुधा प्रकृति और प्रत्यय के बीच में कोई कोई अव्यय भी आ जाते हैं, जैसे “चौदह पीढ़ी तक का पता।” (शिव०)। “संसार भर के ग्रंथ-गिरि।” (भारत०)। “घर ही के बाढ़े।” (राम०)। प्रकृति और प्रत्यय के बीच में समानाधिकरण शब्द के आ जाने से भी उन दोनों को मिलाने में बाधा आ जाती है; जैसे, “विदर्भ नगर के राजा भीमसेन की कन्या भुषनमोहिनी दमयंती का रूप।” (गुटका)। “हरगोविंद (पसारी के लड़के) ने ” (परी०)। उलटे कामाओं से घिरे हुए शब्दों के साथ विभक्ति मिलाने से जो गड़बड़ होती है उसके उदाहरण स्वयं “विभक्ति विचार” में मिलते हैं, जैसे, “समसे” “सके” उद्भव न होने का प्रत्यक्ष प्रमाण, “को का” संबन्ध, इत्यादि। मिश्रजी ने कहीं कहीं विभक्ति को इन कामाओं के पश्चात् भी लिखा है; जैसे, ‘न्ह’ का प्रयोग (पृ० १६), “से” के बीच में (पृ० ८६)। इस प्रकार के गड़बड़ प्रयोगों से संयोग-वादियों के प्रायः सभी सिद्धांत खंडित हो जाते हैं।

हिंदी में अधिकांश लेखक विभक्तियों को सर्वनामों के साथ मिलाकर लिखते हैं, क्योंकि इनमें संज्ञाओं की अपेक्षा अधिक नियमित रूपांतर होते हैं, और प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में बहुधा कोई प्रत्यय नहीं आते। तथापि “भारत-भारती” में विभक्तियाँ सर्वनामों से भी पृथक् लिखी गई हैं। ऐसी अवस्था में भाषा के प्रयोग का आधार वैयाकरण को नहीं है; इसलिये इस विषय को हम ऐसा ही अनिश्चित छोड़ देते हैं।]

३१५—विभक्तियों के बदले में कभी कभी नीचे लिखे संबंध-सूचक अव्यय आते हैं—

कर्मकारक—प्रति, तई (पुरानी भाषा में)।

करणकारक—द्वारा, करके, ज़रिये, कारण, मारे ।

संप्रदानकारक—लिए, हेतु, निमित्त, अर्थ, वास्ते ।

अपादानकारक—अपेक्षा, वनिस्वत, सामने, आगे, साथ ।

अधिकरण—मध्य, बीच, भीतर, अंदर, ऊपर ।

३१६—हिंदी में कुछ संस्कृत कारकों का—विशेष कर करणकारक का प्रयोग होता है, जैसे, सुखेन (सुख से), कृपया (कृपा से), येन-केन-प्रकारेण, मनसा-वाचा-कर्मणा, इत्यादि । “रामचरितमानस” में छंद बिठाने के लिए कहीं कहीं शब्दों में कर्मकारक की विभक्ति (व्याकरण के विरुद्ध) लगाई गई है; जैसे “जय राम रमा रमण !” ऐसा प्रयोग “रासो” और दूसरे प्राचीन काव्यों में भी मिलता है ।

(क) हिंदी में कभी कभी उर्दू भाषा के भी कुछ कारक आते हैं; जैसे,

करण और अपादान—इनकी विभक्ति “अज़” (से) है जो दो एक शब्दों में आती है, जैसे, अज़ खुद (आपसे), अज़ तरफ़ (तरफ़ से) ।

संबंधकारक—इसमें भेद्य पहले आता है और उसके अंत में “ए” प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे, सितारे-हिद (हिद के सितारे), दफ़रे-हिद (हिद का दफ़र), बामे-दुनिया (दुनिया की छत) ।

अधिकरण कारक—इसकी विभक्ति “दर” है जो “अज़” के समान कुछ संज्ञाओं के पहले आती है; जैसे, दर हकीकत (हकीकत में), दर असल (असल में) । कई लोग इन शब्दों को भूल से “दर हकीकत में” और “दर असल में” बोलते हैं । ‘फ़िलहाल’ शब्द में ‘फ़ो’ अरबी प्रत्यय है और वह फ़ारसी ‘दर’ का पर्यायवाची है । ‘फ़िलहाल’ को अर्द्ध शिचित्त ‘फ़िलहाल मे’ कहते हैं ।

चौथा अध्याय ।

सर्वनाम ।

३१७—संज्ञाओं के समान सर्वनामों में वचन और कारक होते हैं; परंतु लिंग के कारण इनका रूप नहीं बदलता ।

३१८—विभक्ति-रहित (कर्त्ता-कारक के) बहुवचन में, पुरुष-वाचक (मैं, तू) और निश्चयवाचक (यह, वह) सर्वनामों को छोड़ कर, शेष सर्वनामों का रूपांतर नहीं होता; जैसे,

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
मैं	हम	आप	आप
तू	तुम	जो	जो
यह	ये	कौन	कौन
वह	वे	क्या	क्या
सो	सो	कोई	कोई
		कुछ	कुछ

इन उदाहरणों से जान पड़ेगा कि “मैं” और “तू” का बहुवचन अनियमित है; परंतु “यह” तथा “वह” का नियमित है । संबंध-वाचक “जो” के समान नित्य-संबंधी “सो” का भी, बहुवचन में, रूपांतर नहीं होता । कोई कोई लेखक बहुवचन में “यह” और “वह” का भी रूपांतर नहीं करते । (अं०—१२२, १२८) । “क्या” और “कुछ” का प्रयोग बहुधा एकवचन ही में होता है ।

३१९—विभक्ति के योग से अधिकांश सर्वनाम दोनों वचनों में विकृत रूप में आते हैं, परंतु “कोई” और निजवाचक “आप” की कारक-रचना केवल एकवचन में होती है । “क्या” और “कुछ” का कोई रूपांतर नहीं होता; उनका प्रयोग केवल विभक्ति-रहित कर्त्ता और कर्म में होता है ।

३२०—“आप”, “कोई”, “क्या” और “कुछ” को छोड़ शेष सर्वनामों के कर्म और संप्रदान कारकों में “को” के सिवा एक और विभक्ति (एकवचन में “ए” और बहुवचन में “एँ”) आती है ।

३२१—पुरुष-वाचक सर्वनामों में, संबंध-कारक की “का-के-की” विभक्तियों के बदले “रा-रे-री” आती हैं और निजवाचक सर्वनाम में “ना-ने-नी” विभक्तियाँ लगाई जाती हैं ।

३२२—सर्वनामों में संबोधन-कारक नहीं होता, क्योंकि जिसे पुकारते या चिताते हैं उसका नाम या उपनाम कहकर ही ऐसा करते हैं । कभी कभी नाम याद न आने पर अथवा क्रोध में “अरे तू”, “अरे यह”, आदि शब्द बोले जाते हैं, परंतु ये (अशिष्ट) प्रयोग व्याकरण में विचार करने के योग्य नहीं हैं ।

३२३—पुरुष-वाचक सर्वनामों की कारक-रचना आगे दी जाती है—
उत्तम पुरुष “मैं”

कारक	एक०	बहु०
कर्त्ता	मैं	हम
	मैंने	हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हमको, हमें
कारण	मुझसे	हमसे
संप्रदान	मुझको, मुझे	हमको, हमें
अपादान	मुझसे	हमसे
संबंध	मेरा-रे-री	हमारा-रे-री
अधिकरण	मुझमें	हममें

मध्यम पुरुष “तू”

कारक	एक०	बहु०
कर्त्ता	तू	तुम
	तूने	तुमने

कार्म	तुम्हको, तुम्हे	तुमको, तुम्हें
करण	तुम्हसे	तुमसे
संप्रदान	तुम्हको, तुम्हे	तुमको, तुम्हें
अपदान	तुम्हसे	तुमसे
संबंध	तेरा-रे-री	तुम्हारा-रे-री
अधिकरण	तुम्हमें	तुममे

(अ) पुरुष-वाचक सर्वनामों की कारक-रचना में बहुत समानता है। कर्त्ता और संबोधन को छोड़ शेष कारकों के एकवचन में “मैं” का विकृत रूप “मुझ” और “तू” का “तुझ” होता है। संबंध-कारक के दोनों वचनों में “मैं” का विकृत रूप क्रमशः “मे” और “हमा” और “तू” का “ते” और “तुम्हा” होता है। दोनों सर्वनामों में संबंध-कारक की रा-रे-री विभक्तियाँ आती हैं। विभक्ति-सहित कर्त्ता के दोनों वचनों में और संबंध-कारक को छोड़ शेष कारकों के बहुवचन में दोनों का रूप अविकृत रहता है।

(आ) पुरुष-वाचक सर्वनामों के विभक्ति-रहित कर्त्ता के एकवचन और संबंध-कारक को छोड़ शेष कारकों में अवधारण के लिए एकवचन में “ई” और बहुवचन में ई वा हों लगाते हैं; जैसे, मुझीको, तुझीसे, हमीने, तुम्हींसे, इत्यादि।

(इ) कविता में “मेरा” और “तेरा” के बदले बहुधा संस्कृत की षष्ठी के रूप क्रमशः “मम” और “तव” आते हैं; जैसे, “करहु सु मम उर धाम।” (राम०)। “कहाँ गई तव गरिमा विशेष?” (हिं० ग्र०)।

३२४—निजवाचक “आप” की कारक-रचना केवल एकवचन में होती है; परंतु एकवचन के रूप बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी आते हैं। इसका विकृत रूप “अपना” है जो संबंध-कारक

में आता है और जो “अप” में, संबंध-कारक की “ना” विभक्ति जोड़ने से बना है। इसके साथ “ने” विभक्ति नहीं आती; परंतु दूसरी विभक्तियों के योग से इसका रूप हिंदी आकारांत संज्ञा के समान “अपने” हो जाता है। कर्त्ता और संबंध-कारक को छोड़ शेष कारकों में विकल्प से “आप” के साथ विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं।

[सू०—“आप” शब्द का संबंध-कारक “अपना” प्राकृत की षष्ठी “अप्पणो” से निकला है।]

निजवाचक “ आप ”

कारक	एक०
कर्त्ता	आप
कर्म—संप्र०	अपनेको, आपको
करण—अपा०	अपनेसे, आपसे
संबंध	अपना-ने-नी
अधिकरण	अपनेमें, आपमें

(अ) कभी कभी “अपना” और “आप” संबंध-कारक को छोड़ शेष कारकों में मिलकर आते हैं; जैसे, अपने-आप, अपने-आप-को, अपने-आपसे, अपने-आपमें।

(आ) “आप” शब्द का एक रूप “आपस” है जिसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकरण-कारकों के एकवचन में होता है, जैसे “लड़के आपस में लड़ते हैं।” “स्त्रियों की आपस की बातचीत।” इससे परस्परता का बोध होता है। कोई कोई लेखक “आपस” का प्रयोग संज्ञा के समान करते हैं, जैसे, “(विधाता ने) प्रीति भी तुम्हारे आपस में अच्छी रक्खी है।” (शकु०)।

(इ) “अपना” जब संज्ञा के समान निज लोगों के अर्थ में आता है तब उसकी कारक-रचना हिंदी आकारांत संज्ञा के समान

दोनों वचनों में होती है; जैसे, “अपने मात पिता बिन जग मे कोई नहीं अपना पाया ।” (आरा०) । “वह अपने के पास नहीं गया ।”

(ई) प्रत्येकता के अर्थ में “अपना” शब्द की द्विरुक्ति होती है; जैसे, “अपने-अपनेको सब कोई चाहते हैं ।” “अपनी अपनी उफली और अपना अपना राग ।”

(उ) कभी कभी “अपना” के बदले “निज” (सर्वनाम) का संबन्ध-कारक आता है, और कभी कभी दोनों रूप मिलकर आते हैं; जैसे “निजका माल, निजका नौकर ।” “हम तुम्हे अपने निजके काम से भेजा चाहते हैं ।” (मुद्रा०) ।

(ऊ) कविता में “अपना” के बदले बहुधा “निज” (विशेषण) होकर आता है; जैसे, “निज देश कहते हैं किसे ।” (भारत०) । “वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद-पथ लोग ।” (राम०)

३२५—“आप” शब्द आदरसूचक भी है, पर उसका प्रयोग केवल अन्य-पुरुष के बहुवचन में होता है । इस अर्थ में उसकी कारक-रचना निज-वाचक “आप” से भिन्न होती है । विभक्ति के पहले आदरसूचक “आप” का रूप विकृत नहीं होता । इसका प्रयोग आदरार्थ बहुवचन में होता है, इसलिए बहुत्व का बोध होने के लिए इसके साथ “लोग” या “सब” लगा देते हैं । इसके साथ “ने” विभक्ति आती है और संबन्ध कारक में “का-के-की” विभक्तियाँ लगाई जाती हैं । इसके कर्म और संप्रदान कारकों में दुहरे रूप नहीं आते ।

आदरसूचक “आप”

कारक	एक० (आदर)	बहु० (संख्या)
कर्ता	आप	आप लोग
	आपने	आप लोगों ने
कर्म—संप्र०	आपको	आप लोगोंको

संबंध आपका-के-की आप लोगों का-के-की

[सू०—इसके शेष रूप विभक्तियों के योग से इसी प्रकार बनते हैं ।]

३२६—निश्चयवाचक सर्वनामों के दोनों वचनों की कारक-रचना में विकृत रूप आता है । एकवचन में “यह” का विकृत रूप “इस”, “वह” का “उस” और “सो” का “तिस” होता है, और बहुवचन में क्रमशः “इन,” “उन” और “तिन” आते हैं । इनके विभक्ति-सहित बहुवचन कर्ता के अंत्य “न” में विकल्प से “हो” जोड़ा जाता है, और कर्म तथा संप्रदान-कारकों के बहुवचन में “एँ” के पहले “न” में “ह” मिलाया जाता है ।

निकटवर्ती “यह”

कारक	एक०	बहु०
कर्ता	यह	यह, ये
	इसने	इनने, इन्होंने
कर्म—संप्रदान	इसको, इसे	इनको, इन्हें
करण—अपादान	इससे	इनसे
संबंध	इसका-के-की	इनका-के-की
अधिकरण	इसमें	इनमें

दूरवर्ती “वह”

कर्ता	वह	वह, वे
	उसने	उनने, उन्होंने
कर्म—संप्रदान	उसको, उसे	उनको, उन्हें

[सू०—शेष कारक “यह” के अनुसार विभक्तियाँ लगाने से बनते हैं ।]

नित्यसंबंधी “सो”

कारक	एक०	बहु०
कर्ता	सो	सो
	तिसने	तिनने, तिन्होंने

कर्म-संप्रदान तिसको, तिसे तिनको, तिन्हें

[सू०—शेष रूप “वह” के अनुसार विभक्तियाँ लगाने से बनते हैं ।]

(अ) “सो” के जो रूप यहाँ दिये गये हैं वे यथार्थ में “तौन” के हैं जो पुरानी भाषा में “जौन” (जो) का नित्यसंबंधी है। “तौन” अब प्रचलित नहीं है; परंतु उसके कोई कोई रूप “सो” के बदले और कभी कभी “जिस” के साथ आते हैं; इसलिए सुभीते के विचार से सब रूप लिख दिये गये हैं। “तिसपर भी”, “जिस-तिसको”, आदि रूपों को छोड़ “तौन” के शेष रूपों के बदले “वह” के रूप प्रचलित हैं।

(आ) निश्चयवाचक सर्वनामों के रूपों में अवधारण के लिए एक-वचन में ई और बहुवचन में हीं अंत्य स्वर में आदेश करते हैं; जैसे, यह-यही, वह वही, इन-इन्हींसे, उन्हींको, सोई, इत्यादि।

३२७—संबंधवाचक सर्वनाम “जो” और प्रश्नवाचक सर्वनाम “कौन” के रूप निश्चयवाचक सर्वनामों के अनुसार बनते हैं। “जो” के विकृत रूप दोनों वचनों में क्रमशः “जिस” और “जिन” हैं. तथा “कौन” के “किस” और “किन” हैं।

संबंध-वाचक “जो”

कारक	एक०	बहु०
कर्त्ता	जो	जो
	जिसने	जिनने, जिन्होंने
कर्म-संप्रदान	जिसको, जिसे	जिनको, जिन्हें

३२८—प्रश्नवाचक “कौन” ।

कारक	एक०	बहु०
कर्त्ता	कौन	कौन
	किसने	किनने, किन्होंने
कर्म-संप्रदान	किसको, किसे	किनको, किन्हें

[सू०—यह, वह, सो, जो, और कौन के विभक्ति-सहित कर्ता-कारक के बहुवचन में जो दो दो रूप हैं उनमें से दूसरा रूप अधिक शिष्ट समझा जाता है, जैसे, उनने और उन्होंने। कोई कोई वैयाकरण शेष कारकों में भी 'हैं' जोड़कर बहुवचन का दूसरा रूप बनाते हैं; जैसे, इन्होंको, जिन्होंसे, इत्यादि। परंतु ये रूप प्रचलित नहीं हैं।

३२६—प्रश्नवाचक सर्वनाम “क्या” की कारक-रचना नहीं होती। यह शब्द इसी रूप में केवल एकवचन (विभक्ति-रहित) कर्ता और कर्म में आता है, जैसे “क्या गिरा ?” “तुम क्या चाहते हो ?” दूसरे कारकों के एकवचन में “क्या” के बदले ब्रज-भाषा के “कहा” सर्वनाम का विकृत रूप “काहे” आता है।

प्रश्नवाचक “क्या”

कारक	एक०
कर्ता	क्या
कर्म	क्या
करण—अपा०	काहे से
संप्रदान	काहे को
संबंध	काहे का—के—की
अधिकरण	काहे मे

(अ) “काहे से” (अपादान) और “काहे को” (संप्रदान) का प्रयोग बहुधा “क्यों” के अर्थ में होता है, जैसे, “तुम यह काहेसे कहते हो ?” “लड़का वहाँ काहेको गया था ?” “काहे को” कभी कभी असभावना के अर्थ में आता है, जैसे, “चोर काहेको हाथ आता है !” “क्योंकि” समुच्चयबोधक में “क्यों” के बदले कभी कभी “काहेसे” का प्रयोग होता है (अ०—२४५-अ); जैसे, “शकुंतला मुझे बहुत प्यारी है काहेसे कि वह मेरी सहेली की बेटा है।” (शकु०)। “काहेका” का अर्थ “किस चीज़ से

वना” है; पर कभी कभी इसका अर्थ “दृथा” भी होता है; जैसे, “वह राजा ही काहेका है ।” (सत्य०) ।

(आ) “क्या से क्या” और “क्या का क्या” वाक्यांशों में “क्या” के साथ विभक्ति आती है । इनसे दशांतर सूचित होती है ।

३३०—अनिश्चयवाचक सर्वनाम “कोई” यथार्थ में प्रश्न-वाचक सर्वनाम से बना है; जैसे, सं०—कोपि, प्रा०—कोवि, हिं०—कोई । इसका विकृत रूप “किसी” है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम “कौन” के विकृत रूप “किस” में अवधारणबोधक “ई” प्रत्यय लगाने से बना है । “कोई” की कारक-रचना केवल एकवचन में होती है; परंतु इसके रूपों की द्विरुक्ति से बहुवचन का बोध होता है । कर्म और संप्रदान-कारकों में इसका एकारांत रूप नहीं होता, जैसे दूसरे सर्वनामों का होता है ।

अनिश्चयवाचक “कोई”

कारक	एक०
कर्त्ता	कोई
	किसीने
कर्म—संप्रदान	किसीको

[सू०—कोई कोई वैयाकरण इसके बहुवचन रूप “किन” के नमूने पर “किन्हींने” “किन्हींको” आदि लिखते हैं; पर ये रूप शिष्ट-सम्मत नहीं हैं । “कोई” के द्विरुक्त रूपों ही से बहुवचन का बोध होता है । परिवर्तन के अर्थ में “कोई” के अत्रिकृत रूप के साथ संबंध-कारक की विभक्ति आती है, जैसे “कोई का कोई राजा धन गया ।” इस वाक्यांश का प्रयोग बहुधा कर्त्ता कारक ही में होता है ।]

३३१—अनिश्चयवाचक सर्वनाम “कुछ” की कारक-रचना नहीं होती । “क्या” के समान यह केवल विभक्ति-रहित, कर्त्ता और कर्म के एकवचन में आता है, जैसे, “पानी में कुछ है ।” “लड़के ने कुछ

फेंका है । ” “कुछ का कुछ” वाक्यांश में “कुछ” के साथ संबन्ध-कारक की विभक्ति आती है । जब “कुछ” का प्रयोग “कोई” के अर्थ में संज्ञा के समान होता है तब उसकी कारक-रचना संबोधन को छोड़ शेष कारकों के बहुवचन में होती है, जैसे, “उनमें से कुछ-ने इस बात को स्वीकार करने की कृपा दिखाई ।” (हि० को०) ।
 “कुछ ऐसे हैं ।” “कुछ की भाषा सहज है ।” (सर०) ।

३३२—आप, कोई, क्या और कुछ को छोड़कर शेष सर्वनामों के कर्म और संप्रदान कारकों में दो दो रूप होने से यह लाभ है कि दो “को” इकट्ठे होकर उच्चारण नहीं बिगाड़ते, जैसे, “मैं इसे तुमको दूँगा ।” इस वाक्य में “इसे” के बदले “इसको” कहना अशुद्ध है ।

३३३—निजवाचक “आप”, “कोई”, “क्या” और “कुछ” को छोड़ शेष सर्वनामों के बहुवचन-रूप आदर के लिए भी आते हैं, इसलिये बहुत्व का स्पष्ट बोध कराने के लिए इन सर्वनामों के साथ “लोग” वा “लोगों” लगाते हैं; जैसे, ये लोग, उन लोगों को, किन लोगों से, इत्यादि । “कौन” को छोड़ शेष सर्वनामों के साथ “लोग” के बदले कभी कभी “सब” आता है, जैसे, हम सब, आप सबको, इन सबमें से, इत्यादि ।

३३४—विकारी सर्वनामों के मेल से बने हुए सर्वनामों के दोनो अवयव विकृत होते हैं, जैसे, जिस किसी को, जिस जिस से, किसी न किसी का नाम, इत्यादि ।

३३५—अवधारण वा अविकार के अर्थ में पुरुष वाचक और निश्चयवाचक सर्वनामों के अविकृत रूप के साथ संबन्ध-कारक की विभक्ति आती है, जैसे, “तुम के तुम न गये और मुझे भी न जाने दिया ।” “जो तीस दिन अधिक होंगे वह वह के वही होंगे ।” (शिव०) ।

पाँचवाँ अध्याय ।

विशेषण ।

३३६—हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़ दूसरे विशेषणों में कोई विकार नहीं होता; परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है, इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में बहुत परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके “अंत” के अनुसार होता है।

विशेषणों के मुख्य तीन भेद किये गये हैं—सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। इनके रूपांतरों का विचार आगे इसी क्रम से होगा।

३३७—सार्वनामिक विशेषणों के दो भेद हैं—**मूल** और **यौगिक**। “आप” “क्या” और “कुछ” को छोड़कर शेष **मूल** सार्वनामिक विशेषणों के पश्चात् विभक्त्यंत वा संबंध-सूचकांत संज्ञा आने पर उनके दोनों वचनों में विकृत रूप आता है; जैसे, “**मुझ** दीन को” “**तुझ** मूर्खसे” “**हम** ब्राह्मणों का धर्म,” “**किस** देश में,” “**उस** गाँव तक” “**किसी** वृत्त की छाल,” “**उन** पेड़ों पर”, इत्यादि।

(अ) “शिवशंभु के चिट्ठे” में “**कौन**” शब्द अविकृत रूप में आया है, जैसे, **कौन** बात में तुम उनसे बढ़कर हो ?” यह प्रयोग अनुकरणीय नहीं है।

(आ) “**कोई**” शब्द के विकृत रूप की द्विरुक्ति से बहुवचन का बोध होता है; पर उसके साथ बहुधा एकवचन संज्ञा आती है; जैसे, **किसी** **किसी** तपस्वी ने मुझे पहचान भी लिया है।” (शकु०)। “उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो **किसी-किसी** विशेष प्रकार की **राज्यपद्धति** का होना बिलकुल ही पसंद नहीं

करते ।” (स्वा०) । विकृत कारकों की बहुवचन संज्ञा के साथ “कोई कोई” कभी कभी मूल रूप में ही आता है, जैसे, “कोई कोई लोगों का यह ध्यान है ।” (जीविका०) । इस पिछले प्रकार के प्रयोग का प्रचार अधिक नहीं है ।

(इ) कुछ कालवाचक संज्ञाओं के अधिकरणकारक के एकवचन के साथ (कुछ के अर्थ में) “कोई” का अविकृत रूप नहीं आता है; जैसे, “ कोई दम मे”, “कोई घड़ी में”, इत्यादि ।

३३८—**यौगिक सार्वनामिक विशेषण आकारांत** होते हैं; जैसे, ऐसा, वैसा, इतना, उतना, इत्यादि । ये आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार गुणवाचक आकारांत विशेषणों के समान (अ०—३३६) बदलते हैं, जैसे, ऐसा मनुष्य, ऐसे मनुष्य को, ऐसे लड़के, ऐसी लड़की, ऐसी लड़कियाँ, इत्यादि ।

(अ) “कौन” “जो” और “कोई” के साथ जब “सा” प्रत्यय आता है तब उनमें आकारांत गुणवाचक विशेषणों के समान विकार होता है, जैसे कौनसा लड़का, कौनसी लड़की, कौनसे लड़के को, इत्यादि । (अ०—३३६) ।

३३६—**गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत विशेषण विशेष्य-निघ्न** होते हैं, अर्थात् वे विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं । इनमें वही रूपांतर होते हैं जो संबंध-कारक की विभक्ति “का” में होते हैं । **आकारांत विशेषणों में विकार होने के नियम ये हैं—**

(१) पुल्लिङ्ग विशेष्य बहुवचन में हो अथवा विभक्त्यंत वा संबंध-सूचकात् हो तो विशेषण के अंत्य “आ” के स्थान में “ए” होता है; जैसे, छोटे लड़के, ऊँचे घर में, बड़े लड़के-समेत, इत्यादि ।

(२) स्त्रीलिङ्ग विशेष्य के साथ विशेषण के अंत्य “आ” के

स्थान में “ई” होती है; जैसे, छोटी लड़की, छोटी लड़कियां, छोटी लड़की को, इत्यादि ।

(अ) राजा शिवप्रसाद ने “इकट्टा” विशेषण को उर्दू भाषा के आकारांत विशेषणों के अनुकरण पर अविकृत रूप में लिखा है; जैसे, “दौलत इकट्टा होती रही”, (इति०); पर “विद्यांकुर” में “इकट्टे” आया है; जैसे, “उनके इकट्टे भुंड के भुंड चलते हैं ।” अन्य लेखक इसे विकृत रूप में ही लिखते हैं; जैसे, “इकट्टे होने पर उन लोगों का वह क्रोध और भी बढ़ गया। ” (रघु०) ।

(आ) “जमा”, “उमदा” और “जरा” को छोड़ शेष उर्दू आकारांत विशेषणों का रूपांतर हिंदी आकारांत विशेषणों के समान होता है; जैसे, “दोष निकालने की तो जुदी बात है ।” (परी०) । “इसे शत्रु पर चलाने और फिर अपने पास लौटा लेने के मंत्र जुदे जुदे हैं ।” (रघु०) । “बेचारा लड़का” “बेचारी लड़की” इत्यादि ।

[सू०—कोई कोई लेखक इन विशेषणों को अविकृत रूप में ही लिखते हैं; जैसे, “ताजा हवा,” (शिव०), परंतु हिंदी की प्रवृत्ति इनके रूपांतर की ओर है । द्विवेदीजी ने “स्वाधीनता” में “कुछ वर्ष पूर्व “नियम जुदा जुदा हैं” लिखकर अब “रघुवश” में “मंत्र जुदे जुदे हैं” लिखा है ।]

३४०—आकारांत संबंधसूचक (जो अर्थ में प्रायः विशेषण के समान हैं) आकारांत विशेषणों के समान विकृत होते हैं । (अं० २३३—आ); जैसे, सती ऐसी नारी, तालाब का जैसा रूप, सिंह के से गुण, भोज सरीखे राजा, हरिश्चन्द्र ऐसा पति, इत्यादि ।

(अ) जब किसी संज्ञा के साथ अनिश्चय के अर्थ में “सा” प्रत्यय आता है तो इसका रूप उसी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है; जैसे, “मुझे जाड़ा सा लगता है”, “एक जोत सी उतरी चली आती है”, (गुटका०) ।

“उसने मुँह पर घूँघट सा डाल लिया है ।” (तथा) ।

“रास्ते में पत्थर से पड़े हैं ।”

३४१—आकारांत गुणवाचक विशेषणों को छोड़ शेष हिंदी गुणवाचक विशेषणों में कोई विकार नहीं होता, जैसे, लाल टोपी, भारी बोझ, ढालू जमीन, इत्यादि ।

३४२—संस्कृत गुणवाचक विशेषण, बहुधा कविता में, विशेष्य के लिंग के अनुसार विकृत होते हैं । इनका रूपांतर “अंत” (अंत्यस्वर) के अनुसार होता है—

(अ) व्यंजनांत विशेषणों में स्त्रीलिंग के लिये “ई” लगाते हैं, जैसे,

पापिन् = पापिनी स्त्री

बुद्धिमत् = बुद्धिमती भार्या

गुणवत् = गुणवती कन्या

प्रभावशालिन् = प्रभावशालिनी भाषा

“हिंदी-रघुवंश” में “युद्ध-संबन्धिनी थकावट” आया है ।

(आ) कई एक अंगवाचक तथा दूसरे अकारांत विशेषणों में भी बहुधा “ई” आदेश होती है, जैसे,

सुमुख—सुमुखी

चंद्रवदन—चंद्रवदनी

दयामय—दयामयी

सुंदर—सुंदरी

(इ) उकारांत विशेषणों में, विकल्प से, अंत्य स्वर में “व” आगम करके “ई” लगाते हैं, जैसे,

साधु—साध्वी—

साधु वा साध्वी स्त्री

गुरु—गुर्वी—

गुरु वा गुर्वी छाया

(ई) अकारांत विशेषणों में बहुधा “आ” आदेश होता है, जैसे,

सुशील—सुशीला

अनाथ—अनाथा

चतुर—चतुरा

प्रिय—प्रिया

सरल—सरला

सञ्चरित्र—सञ्चरित्रा

३४३—संख्यावाचक विशेषणों में क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और आकारांत परिमाणवाचक विशेषणों का रूपांतर होता है; जैसे, पहली पुस्तक, पहले लड़के, दूसरे दिन तक. सारे देश में, दूने दामों पर ।

(अ) अपूर्णांक विशेषणों में केवल “आधा” शब्द विकृत होता है; जैसे, “आधे गाँव में ।” “सवा” शब्द का रूपांतर नहीं होता; पर इससे बना हुआ “सवाया” शब्द विकारी है; जैसे, सवा घड़ी में, सवाये दामों पर । ‘पौन’ शब्द का एक रूप “पौना” है जो विकृत रूप में आता है; जैसे, पौने दामों पर, पौनी कीमत में, इत्यादि ।

(आ) संस्कृत क्रमवाचक विशेषणों में पहले तीन शब्दों में “आ” और शेष शब्दों में (अठारह तक) “ई” लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, दशमी, षोडशी इत्यादि । अठारह से ऊपर संस्कृत क्रमवाचक स्त्रीलिंग विशेषणों का प्रयोग हिंदी में बहुधा नहीं होता ।

(इ) “एक” शब्द का प्रयोग संज्ञा के समान होने पर उसकी कारक-रचना एकवचन ही में होती है, पर जब उसका अर्थ “कुछ लोग” होता है तब उसका रूपांतर बहुवचन में भी होता है; जैसे, “एकों को इस बात की इच्छा नहीं होती” इत्यादि । (अं०-१८४-आ) ।

(ई) “एक दूसरा” का प्रयोग प्रायः सर्वनाम के समान होता है । यह बहुधा लिंग और वचन के कारण नहीं बदलता; परंतु विकृत कारकों के एकवचन में (आकारांत विशेषणों के समान) इसके अंत “आ” के बदले ए हो जाता है; जैसे,

“ये दोनो बातें एक दूसरे से मिली हुई मालूम होती हैं ।”
(स्वा०) । यह कर्त्ता-कारक में कभी प्रयुक्त नहीं होता ।

[सू०—कोई कोई लेखक “एक दूसरा” को विशेष्य के लिंग के अनुसार बदलते हैं, जैसे, “लडकियाँ एक दूसरी को चाहती हैं ।”]

विशेषणों की तुलना ।

३४४—हिंदी में विशेषणों की तुलना करने के लिए उनमें कोई विकार नहीं होता । यह अर्थ नीचे लिखे नियमों के द्वारा सूचित किया जाता है—

(अ) दो वस्तुओं में किसी भी गुण का न्यूनाधिक-भाव सूचित करने के लिए जिस वस्तु के साथ तुलना करते हैं उसका नाम (उपमान) अपादान-कारक में लाया जाता है और जिस वस्तु की तुलना करते हैं उसका नाम (उपमेय) गुण-वाचक विशेषण के साथ आता है, जैसे, “भारनेवाले से पालनेवाला बड़ा होता है ।” (कहा०) । “कारण ते' कारज कठिन होइ ।” (राम०) । “अपने को औरों से अच्छा और औरों को अपनेसे बुरा दिखलाने को ।” (गुटका०) ।

(आ) अपादान कारक के बदले बहुधा सज्ञा के साथ “अपेक्षा” वा “बनिस्वत” का उपयोग किया जाता है और विशेषण (अथवा सज्ञा के सवधकारक) के साथ अर्थ के अनुसार “अधिक” वा “कम” शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे, “बेलपति-कन्या राजकन्या से भी अधिक सुंदरी, सुशीला और सच्चरित्रा है ।” (सर०) । “मेरा जमाना वंगालियों के बनिस्वत तुम फिरंगियों के लिए ज्यादा मुसीबत का था ।” (शिव०) । “हिंदुस्थान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं ।”

(परी०) । “लड़के की अपेक्षा लड़की कम प्यारी नहीं होती ।”

(इ) अधिकता के अर्थ में कभी कभी “बढ़कर” पूर्वकालिक कृदंत अथवा “कहीं” क्रियाविशेषण आता है । जैसे, “मुझसे बढ़कर और कौन पुण्यात्मा है ?” (गुटका०) । “चित्र से बढ़कर चितरे की वड़ाई कीजिए ।” (क० क०) । “पर मुझसे वह कहीं सुखी हैं ।” (हि० प्र०) । “मनुष्यों में अन्य प्राणियों से कहीं अधिक उपजाएँ होती हैं ।” (हित०) ।

(ई) संख्यावाचक विशेषणों के साथ न्यूनता के अर्थ में “कुछ कम” वाक्यांश आता है जिसको प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे कुछ कम दस हजार वर्ष बीत गये ।” (रघु०) । “कुछ” के बदले अर्थ के अनुसार निश्चित संख्या-वाचक विशेषण भी आता है, जैसे, “एक कम सौ यज्ञ” (तथा) ।

(उ) सर्वोत्तमता सूचित करने के लिए विशेषण के पहले “सबसे” लगाते हैं और उपमान को अधिकरण कारक में रखते हैं, जैसे, “सबसे बड़ी हानि ।” (सर०) । “है विश्व में सबसे बली सर्वान्तकारी काल ही ।” (भारत०) । “धनुर्धारी योद्धाओं में इसीका नम्बर सबसे ऊँचा है ।” (रघु०) ।

(ऊ) सर्वोत्तमता दिखाने की एक और रीति यह है कि कभी कभी विशेषण की द्विरुक्ति करते हैं अथवा द्विरुक्त विशेषणों में से पहले को अपादान-कारक में रखते हैं; जैसे, “इसके कंधों से बड़े-बड़े मोतियों का हार लटक रहा है ।” (रघु०) । “इस नगर में जो अच्छे से अच्छे पंडित हों ।” (गुटका०) ।

“जो खुशी बड़े बड़े राजाओं को होती है वही एक गरीब से गरीब लकड़हारे को भी होती है ।” (परी०)।

(ऋ) कभी कभी सर्वोत्तमता केवल ध्वनि से सूचित होती है और शब्दों से केवल यही जाना जाता है कि अमुक वस्तु में अमुक गुण की अतिशयता है । इसके लिए अत्यंत, - परम, अतिशय, बहुतही, एकही, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे, “अत्यंत सुंदर छवि,” “परम मनोहर रूप” । “बहुतही डरावनी मूर्ति” । “पंडितजी अपनी विद्या में एकही हैं ।” (परी०) ।

(ए) कुछ गंगवाचक विशेषणों से अतिशयता सूचित कराने के लिये उनके साथ प्रायः उसी अर्थ का दूसरा विशेषण वा संज्ञा लगाते हैं; जैसे, काला-मुजंग, लाल-अंगारा, पीला-जर्द ।

(ऐ) कई वस्तुओं की एकत्र उत्तमता जताने के लिए “एक” विशेषण की द्विरुक्ति करके पहले शब्द को अपादान कारक में रखते हैं और द्विरुक्त विशेषणों के पश्चात् गुणवाचक विशेषण लाते हैं, जैसे, “शहर में एकसे एक धनवान लोग पड़े हैं ।” “बाग में एकसे एक सुंदर फूल हैं ।”

३४५—संस्कृत गुणवाचक विशेषणों में तुलनाद्योतक प्रत्यय लगाये जाते हैं । तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं—(१) मूलावस्था (२) उत्तरावस्था (३) उत्तमावस्था ।

(१) विशेषण के जिस रूप से किसी वस्तु की तुलना सूचित नहीं होती उसे मूलावस्था कहते हैं, जैसे, “सोना पीला होता है,” “उच्च स्थान,” “नम्र स्वभाव,” इत्यादि ।

(२) विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता वा न्यूनता सूचित होती है उस रूप को उत्तरा-

वस्था कहते हैं; जैसे, “वह दृढ़तर प्रबल प्रमाण दे” ।” (इति०) ।
 “गुरुतर दोष,” “घोरतर पाप” इत्यादि ।

(३) उत्तमावस्था विशेषण के उस रूप को कहते हैं जिससे दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता वा न्यूनता सूचित होती है, जैसे, “चंद्र के प्राचीनतम काव्य में” ।” (विभक्ति०) । “उच्चतम आदर्श” इत्यादि ।

३४६—संस्कृत में विशेषण की उत्तरावस्था में तर या ईयस् प्रत्यय लगाया जाता है और उत्तमावस्था में तम वा इष्ट प्रत्यय आता है । हिंदी में ईयस् और इष्ट प्रत्ययों की अपेक्षा तर और तम प्रत्ययों का प्रचार अधिक है ।

(अ) “तर” और “तम” प्रत्ययों के योग से मूल विशेषण में बहुत से विकार नहीं होते; केवल अंत्य न् का लोप होता है और “वस्” प्रत्ययांत विशेषणों में स् के बदले त् आता है; जैसे, लघु (छोटा), लघुतर (अधिक छोटा) लघुतम (सबसे छोटा)

गुरु	गुरुतर	गुरुतम
महत्	महत्तर	महत्तम
युवन् (तरुण)	युवतर	युवतम
विद्वस् (विद्वान्)	विद्वत्तर	विद्वत्तम
उत् (ऊपर)	उत्तर	उत्तम

[स्—“उत्तम” शब्द हिंदी में मूल अर्थ में आता है । परंतु “उत्तर” शब्द बहुधा “जवाब” और “दिशा” के अर्थ में प्रयुक्त होता है । “उत्तराद्ध” शब्द में उत्तर का अर्थ “पिछला” है । “तर” और “तम” प्रत्ययों के मेल से “तार-तम्य” शब्द बना है जो “तुलना” का पर्यायवाची है ।]

(आ) ईयस् और इष्ट प्रत्ययों के योग से मूल विशेषण में बहुत से विकार होते हैं; पर हिंदी में इनका प्रचार कम होने के कारण इस पुस्तक में इनके नियम लिखने की आवश्यकता

नहीं है। वहाँ केवल इनके कुछ प्रचलित उदाहरण दिये जाते हैं—

वसिष्ठ = वसुमत् (धनी) + इष्ठ ।

स्वादिष्ठ = स्वादु (मीठा) + इष्ठ ।

बलिष्ठ = बलिन् + इष्ठ ।

गरिष्ठ = गुरु + इष्ठ ।

(इ) नीचे लिखे रूप विशेषण के मूल रूप से भिन्न हैं—

कनिष्ठ—यह 'युवन्' शब्द का एक रूप है ।

ज्येष्ठ, श्रेष्ठ—इनके मूल शब्दों का पता नहीं है। हिंदी में "श्रेष्ठ" शब्द बहुधा उत्तरावस्था में आता है, जैसे, "धन से विद्या श्रेष्ठ है ।" (भाषा०) ।

[सू०—हिंदी में ईयस् प्रत्ययात् उदाहरण बहुधा नहीं मिलते। "हरेरिच्छा बलीयसी" और "स्वर्गादपि गरीयसी" में संस्कृत के स्त्रीलिंग उदाहरण है ।]

३४६ (क)—हिंदी में कुछ उद् विशेषण अपनी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में आते हैं; जैसे, विहतर (अधिक अच्छा), वदतर (अधिक बुरा), ज्यादातर (अधिकतर), पेशतर (अधिक पहले—क्रि० वि०), कमतरनी (नीचतम) ।

छठा अध्याय ।

क्रिया ।

३४७—क्रिया का उपयोग विधान करने में होता है और विधान करने में काल, रीति, पुरुष, लिंग और वचन की अवस्था का उल्लेख करना आवश्यक होता है ।

[सू०—संस्कृत में ये सब अवस्थाएँ क्रिया ही के रूपांतर से सूचित होती हैं; पर हिंदी में इनके लिये बहुधा सहायक क्रियाओं का काम पड़ता है ।]

३४८—क्रिया में वाच्य, काल, अर्थ, पुरुष, लिंग और वचन के कारण विकार होता है। (क) जिस क्रिया में ये विकार पाये जाते हैं और जिसके द्वारा विधान किया जा सकता है, उसे **समापिका** क्रिया कहते हैं; जैसे, “लड़का खेलता है।” इस वाक्य में “खेलता है” समापिका क्रिया है।

[१] वाच्य ।

३४९—**वाच्य** क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे जाना जाता है कि वाक्य में कर्त्ता के विषय में विधान किया गया है वा कर्म के विषय में, अथवा केवल भाव के विषय में; जैसे, “खी कपड़ा सीती है” (कर्त्ता), “कपड़ा सिया जाता है” (कर्म), “यहाँ बैठा नहीं जाता” (भाव)।

[टी०—वाच्य का यह लक्षण हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में दिये हुए लक्षणों से भिन्न है। उनमें वाच्य का लक्षण संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया के केवल रूप के आधार पर किया गया है। संस्कृत में वाच्य का निर्णय केवल रूप पर से हो सकता है; पर हिंदी में क्रिया के कई एक प्रयोग—जैसे, लड़के ने पाठ पढ़ा, रानी ने सहेलियों को बुलाया, लड़कों को गाड़ी पर बिठाया जाय—ऐसे हैं जो रूप के अनुसार एक वाच्य में और अर्थ के अनुसार दूसरे वाच्य में आते हैं। इसलिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार, केवल रूप के आधार पर हिंदी में वाच्य का लक्षण करना कठिन है। यदि केवल रूप के आधार पर यह लक्षण किया जायगा तो अर्थ के अनुसार वाच्य के कई संकीर्ण (संलग्न) विभाग करने पड़ेंगे और यह विषय सहज होने के बदले कठिन हो जायगा।

कई एक वैयाकरणों का मत है कि हिंदी में वाच्य का लक्षण करने में क्रिया के केवल “रूपांतर” का उल्लेख करना अशुद्ध है, क्योंकि इस भाषा में वाच्य के लिए क्रिया का रूपांतर ही नहीं होता, बरन उसके साथ दूसरी क्रिया का समास भी होता है। इस आक्षेप का उत्तर यह है कि कोई भाषा कितनी ही रूपांतर-शील क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें मूल शब्द में तो रूपांतर नहीं होता, किंतु दूसरे शब्दों की सहायता से रूपांतर माना जाता है। संस्कृत के “बोधयाम् आस”, “पठन् भवति” आदि इसी प्रकार

के प्रयोग है। हिंदी में केवल वाच्य ही नहीं, किंतु अधिकांश काल, अर्थ, कृदंत और कारक तथा तुलना आदि भी बहुधा दूसरे शब्दों के योग से सूचित होते हैं। इसलिए हिंदी-व्याकरण में कहीं कहीं संयुक्त शब्दों को भी, सुभीते के लिए, मूल रूपांतर मान लेते हैं।

कोई कोई वैयाकरण “वाच्य” को “प्रयोग” भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। हिंदी में वाच्य के संबंध से दो प्रकार की रचनाएँ होती हैं, इसलिए हमने “प्रयोग” शब्द का उपयोग क्रिया के साथ कर्ता या कर्म के अन्वय तथा अनन्वय ही के अर्थ में किया है और उसे “वाच्य” का अनावश्यक पर्यायवाची शब्द नहीं रखा। हिंदी-व्याकरणों के “कर्तृ-प्रधान,” “कर्म-प्रधान” और “भावप्रधान” शब्द आमक होने के कारण इस पुस्तक में छोड़ दिये गये हैं।]

३४६ (क)—कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्यक क्रिया का कर्ता है; जैसे, “लड़का दौड़ता है,” “लड़का पुस्तक पढ़ता है,” “लड़के ने पुस्तक पढ़ी,” “रानी ने सहेलियों को बुलवाया,” “हमने नहाया,” इत्यादि।”

[टी०—“लड़के ने पुस्तक पढ़ी”—इस वाक्य में क्रिया को कोई कोई वैयाकरण कर्मवाच्य (वा कर्मणिप्रयोग) मानते हैं। संस्कृत-व्याकरण में दिये हुए लक्षण के अनुसार “पढ़ी” क्रिया कर्मवाच्य (या कर्मणिप्रयोग) अवश्य है, क्योंकि उसके पुरुष, लि ग, वचन “पुस्तक” कर्म के अनुसार हैं, और हिंदी की रचना “लड़के ने पुस्तक पढ़ी” संस्कृत की रचना “बालकेन पुस्तिका पठिता” के बिल्कुल समान है। तथापि हिंदी की यह रचना कुछ विशेष काजों ही में होती है (जिनका वर्णन आगे “प्रयोग” के प्रकरण में किया जायगा) और इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, किंतु कर्ता की है। इसलिए यह रचना रूप के अनुसार कर्मवाच्य होने पर भी अर्थ के अनुसार कर्तृवाच्य है। इसी प्रकार “रानी ने सहेलियों को बुलाया”—इस वाक्य में “बुलाया” क्रिया रूप के अनुसार तो भाववाच्य है, परंतु अर्थ के अनुसार कर्तृवाच्य ही है और इसमें भी हमारा किया हुआ वाच्य का लक्षण घटित होता है।]

३५०—क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है, जैसे कपड़ा सिया जाता है। चिट्ठी भेजी गई। मुझसे यह बोझ न उठाया जायगा। “उसे उतरवा लिया जाय।” (शिव०)।

३५१—क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्त्ता या कर्म कोई नहीं है उस रूप को भाववाच्य कहते हैं; जैसे, “यहाँ कैसे बैठा जायगा,” “धूप में चला नहीं जाता।” इत्यादि।

३५२—कर्त्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है; कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है।

(अ) यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं में कर्त्ता को लिखने की आवश्यकता हो तो उसे करण-कारक में रखते हैं; जैसे, लड़के से रोटी नहीं खाई गई। मुझसे चला नहीं जाता। कर्मवाच्य में कर्त्ता कभी कभी “द्वारा” शब्द के साथ आता है; जैसे, “मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई।”

(आ) कर्मवाच्य में उद्देश्य कभी अप्रत्यय कर्मकारक में (जो रूप में अप्रत्यय कर्त्ता-कारक के समान होता है) और कभी सप्रत्यय कर्मकारक में आता है; जैसे, “डोली एक अमराई में उतारी गई।” (ठेठ०)। “उसे उतरवा लिया जाय।” (शिव०)।

[सू०—कर्मवाच्य के उद्देश्य को कर्म-कारक में रखने का प्रयोग आधुनिक और एक-देशीय है। “रामचरितमानस” तथा “प्रेमसागर” में यह प्रयोग नहीं है। अधिकांश शिष्ट लेखक भी इससे मुक्त हैं; परंतु “प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः” के अनुसार इसका विचार करना पड़ता है।

इस प्रयोग के विषय में द्विवेदी जी “सरस्वती” में लिखते हैं कि “तत्र खान बहादुर और उनके साथी (१) उमको पेश किया गया (२) खत को लाया

गया (३) मुल्क को बरबाद किया गया, इत्यादि अशुद्ध प्रयोग कलम से निकालते जरूर हिचके” ।]

(६) जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्मवाच्य में नहीं आतीं ।

[सू०—संयुक्त क्रियाओं के वाच्य का विचार आगे (४२५ वें अंक में) किया जायगा ।]

३५३—हिंदी में कर्मवाच्य क्रिया का उपयोग सर्वत्र नहीं है— वह बहुधा नीचे लिखे स्थानों में आती है—

(१) जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके कर्म करने की आवश्यकता न हो, जैसे, “चोर पकड़ा गया है,” “हुक्म सुनाया जायगा,” “न तु मारे जैहँ सब राजा ।”

(२) कानूनी भाषा और सरकारी कागज़-पत्रों में कर्मवाच्य के लिए, जैसे, “इत्तिला दी जाती है,” “तुम्हारा कर्म है,” “सख्त कार्रवाई की जायगी ।”

(३) अशक्तता के अर्थ में, जैसे, “रोगी को कर्म कराया जाता,” “हमसे तुम्हारी बात न सुनी जायगी ।”

(४) किंचित् अभिमान में, जैसे, “नौकर बुलाये गये हैं ।” “आपको जहद करवाया है ।” “पेश किया गया ।”

३५४—कर्मवाच्य के बदले हिंदी में कर्मवाच्य का उपयोग आती है ।

(१) कभी कभी सामान्य क्रिया का उपयोग कर कर्ता कहते हैं (= ऐसा कहा जाता है) । सूत को कातते हैं ।

उसलिए आज, हैं— की

जाता है और उससे कपडा बनाया जाता है) । तरावट-के लिए तालु पर तेल मलते हैं । इत्यादि ।

(२) कभी कभी कर्मवाच्य की समानार्थिनी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे, घर बनता है (बनाया जाता है) । वह लड़ाई में मरा (मारा गया) । सड़क सिंच रही है (सीची जा रही है) । इत्यादि ।

(३) कुछ सकर्मक क्रियार्थक संज्ञाओं के अधिकरण कारक के साथ “आना” क्रिया के विवक्षित काल का उपयोग करते हैं, जैसे, सुनने में आया है (सुना गया है), देखने में आता है (देखा जाता है), इत्यादि ।

(४) किसी किसी सकर्मक धातु के साथ “पढ़ना” क्रिया का इच्छित काल लगाते हैं; जैसे, “ये सब वाते देख पढ़ेंगी आगे ।” (सर०) । जान पड़ता है, सुन पड़ता है ।

(५) कभी कभी पूत्ति (सज्ञा या विशेषण) के साथ “होना” क्रिया के विवक्षित कालों का प्रयोग होता है, जैसे, नानक उस गाँव के पटवारी हुए (बनाये गये) । यह रीति प्रचलित हुई (की गई) ।

(६) भूतकालिक कृदंत (विशेषण) के साथ संबंध-कारक और “होना” क्रिया के कालो का प्रयोग किया जाता है; जैसे, यह बात मेरी जानी हुई है (मेरे द्वारा जानी गई है) । वह काम लड़के का किया होगा (लड़के से किया गया होगा) ।

३५५—भाववाच्य क्रिया बहुधा अशक्तता के अर्थ में आती है, जैसे, यहाँ कैसे बैठा जायगा । लड़के से चला नहीं जाता ।

(अ) अशक्तता के अर्थ मे सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के साथ “बनना” क्रिया के कालो का भी उपयोग करते हैं, जैसे, रोटी खाते नहीं बनता, लड़के से चलते न बनेगा, इत्यादि । (अ०-४१६) ।

[सू०—संयुक्त क्रियाओं के भाववाच्य का विचार आगे (४२६ वें अंक में) किया जायगा ।]

३५६—द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है और गौण कर्म ज्यो का ल्यो रहता है, जैसे, राजा को भेंट दी गई । विद्यार्थी को गणित सिखाया जायगा ।

(अ) अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है, परंतु वह कभी कभी कर्मकारक ही में आता है, जैसे, “सिपाही सरदार बनाया गया ।” “कास्टेबलों को कालिज के अहाते में न खड़ा किया जाता ।” (शिव०) ।

[२] काल ।

३५७—क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, जैसे, मैं जाता हूँ (वर्तमानकाल) । मैं जाता था (अपूर्ण भूतकाल) । मैं जाऊँगा (भविष्यत् काल) ।

[सू०—(१) काल (समय) अनादि और अनंत है । उसका कोई खंड नहीं हो सकता । तथापि वक्ता वा लेखक की दृष्टि से समय के तीन भाग कल्पित किये जा सकते हैं । जिस समय वक्ता वा लेखक बोलता वा लिखता हो उस समय को वर्तमान काल कहते हैं और उसके पहले का समय भूतकाल तथा पीछे का समय भविष्यत् काल कहलाता है । इन तीनों कालों का बोध क्रिया के रूपांतरों से होता है, इसलिए क्रिया के रूप भी “काल” कहलाते हैं । क्रिया के “काल” से केवल व्यापार के समय ही का बोध नहीं होता, किंतु उसकी पूर्णता वा अपूर्णता भी सूचित होती है । इसलिए क्रिया के रूपांतरों के अनुसार प्रत्येक “काल” के भी भेद माने जाते हैं ।

(२) यह बात स्मरणीय है कि काल क्रिया के रूप का नाम है, इसलिए दूसरे शब्द जिनसे काल का बोध होता है “काल” नहीं कहाते, जैसे, आज, कल, परसें, अभी, घड़ी, पल, इत्यादि ।]

३५८—हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्य तीन भेद होते हैं—

(१) वर्तमान काल (२) भूत काल (३) भविष्यत् काल । क्रिया की

पूर्णता वा अपूर्णता के विचार से पहले दो कालों के दो दो भेद और होते हैं। (भविष्यत् काल में व्यापार की पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था सूचित करने के लिए हिंदी में क्रिया के कोई विशेष रूप नहीं पाये जाते; इसलिए इस काल के कोई भेद नहीं होते।) क्रिया के जिस रूप से केवल काल का बोध होता है और व्यापार की पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था का बोध नहीं होता उसे काल की सामान्य अवस्था कहते हैं। व्यापार की सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण अवस्था के विचार से कालों के जो भेद होते हैं, उनके नाम और उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं—

काल	सामान्य	अपूर्ण	पूर्ण
वर्तमान	वह चलता है	वह चल रहा है	वह चला है
भूत	वह चला	{ वह चल रहा था वह चलता था	वह चला था ०
भविष्यत्	वह चलेगा	०	०

(१) सामान्य वर्तमानकाल से जाना जाता है कि व्यापार का आरंभ बोलने के समय हुआ है; जैसे, हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, चिट्ठी भेजी जाती है।

(२) अपूर्ण वर्तमानकाल से ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में व्यापार हो रहा है; जैसे, गाड़ी आ रही है। हम कपड़े पहिन रहे हैं। चिट्ठी भेजी जा रही है।

(३) पूर्ण वर्तमानकाल की क्रिया से सूचित होता है कि व्यापार वर्तमानकाल में पूर्ण हुआ है; जैसे, नाकर आया है। चिट्ठी भेजी गई है।

[सू०—प्रथम वर्तमानकाल एक और भूतकाल से और दूसरी और भवि-

षट् काल से मर्यादित है तथापि उसकी पूर्व और उत्तर मर्यादा पूर्णतया निश्चित नहीं है। वह केवल वक्ता वा लेखक की तत्कालीन कल्पना पर निर्भर है। वह कभी कभी तो केवल क्षण-व्यापी होता है और कभी कभी युग, मन्वन्तर अथवा कल्प तक फैल जाता है। इसलिए भूतकाल के अन्त और भविष्यत्-काल के आरंभ के बीच का कोई भी समय वर्तमानकाल कहलाता है।]

(३) सामान्य भूतकाल की क्रिया से जाना जाता है कि व्यापार बोलने वा लिखने के पहले हुआ, जैसे पानी गिरा, गाड़ी आई, चिट्ठी भेजी गई।

(४) अपूर्ण भूतकाल से बोध होता है कि व्यापार गत काल में पूरा नहीं हुआ, किंतु जारी रहा, जैसे, गाड़ी आती थी, चिट्ठी लिखी जाती थी, नौकर जा रहा था।

(५) पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि व्यापार को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका; जैसे, नौकर चिट्ठी लाया था, सेना लडाई पर भेजी गई थी।

(६) सामान्य भविष्यत्-काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि व्यापार का आरंभ होनेवाला है; जैसे, नौकर जायगा, हम कपड़े पहिनेंगे, चिट्ठी भेजी जायगी।

[टी०—कालों का जो वर्गीकरण हमने यहाँ किया है वह प्रचलित हिंदी-व्याकरणों में किये गए वर्गीकरण से भिन्न है। उनमें काल के साथ साथ क्रिया के दूसरे अर्थ भी (जैसे—आज्ञा, सनावना, संदेह आदि) वर्गीकरण के आधार माने गये हैं। हमने इन दोनों आधारों (काल और अर्थ) पर अलग अलग वर्गीकरण किया है, क्योंकि एक आधार में क्रिया के केवल काल की प्रधानता है और दूसरे में केवल अर्थ वा रीति की। ऐसा वर्गीकरण न्याय-सम्मत भी है। ऊपर लिखे सात कालों का वर्गीकरण क्रिया के समय और व्यापार की पूर्ण अथवा अपूर्ण अन्वया के आधार पर किया गया है। अर्थ के अनुसार कालों का वर्गीकरण अगले प्रकरण में किया जायगा।

यदि हिंदी में वर्तमान और भूतकाल के समान भविष्यत्-काल में भी व्यापार की पूर्णता और अपूर्णता सूचित करने के लिए क्रिया के रूप उपलब्ध होते तो हिंदी की काल-व्यवस्था अंगरेजी के समान पूर्ण हो जाती और कालों

की संख्या सात के बदले ठीक नौ होती । कोई कोई वैयाकरण समझते हैं कि “वह लिखता रहेगा” अपूर्ण भविष्यत् का और “वह लिख चुकेगा” पूर्ण भविष्यत् का उदाहरण है; और इन दोनों कालों को स्वीकार करने से हिंदी की काल-व्यवस्था पूरी हो जायगी । ऐसा करना बहुत ही उचित होता; परंतु ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं वे यथार्थ में संयुक्त क्रियाओं के हैं और इस प्रकार के रूप दूसरे कालों में भी पाये जाते हैं; जैसे, वह लिखता रहा । वह लिख चुका, इत्यादि । तब इन रूपों को भी अपूर्ण भविष्यत् और पूर्ण भविष्यत् के समान क्रमशः अपूर्णभूत और पूर्णभूत मानना पड़ेगा जिससे काल-व्यवस्था पूर्ण होने के बदले गड़बड़ और कठिन हो जायगी । वही बात अपूर्ण वर्तमान के रूपों के विषय में भी कही जा सकती है ।

हमने इस काल के उदाहरण केवल काल-व्यवस्था की पूर्णता के लिए दिये हैं । इस प्रकार के रूपों का विचार संयुक्त क्रियाओं के अध्याय में किया जायगा ।

अ०—४०७, ४१२, ४१५) ।

कालों के संबन्ध में यह बात भी विचारणीय है कि कोई कोई वैयाकरण इन्हें सार्थक नाम (सामान्य वर्तमान, पूर्णभूत, आदि) देना ठीक नहीं समझते, क्योंकि किसी एक नाम से एक काल के सब अर्थ सूचित नहीं होते । भट्टजी ने इनके नाम संस्कृत के लट् लोट् लृट् लिट् आदि के अनुकरण पर “पहला रूप” “तीसरा रूप” आदि (कल्पित नाम) रखे हैं । कारकों के नामों के समान कालों के नाम भी व्याकरण में विवाद-ग्रस्त विषय है; परंतु जिन कारणों से हिंदी में कारकों के सार्थक नाम रखना प्रयोजनीय है उन्हीं कारणों से कालों के सार्थक नाम भी आवश्यक हैं ।

कालों के नामों में हमने केवल प्रचलित “आसन्न भूतकाल” के बदले “पूर्ण वर्तमानकाल” नाम रखा है । इस काल से भूतकाल में आरंभ होने-वाली क्रिया की पूर्णता वर्तमान काल में सूचित होती है; इसलिए यह पिछला नाम ही अधिक सार्थक जान पड़ता है और इससे कालों के नामों में एक प्रकार की व्यवस्था भी आ जाती है ।]

[३] अर्थ ।

३५६—क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे “अर्थ” कहते हैं; जैसे, लड़का जाता है (निश्चय), लड़का जावे (संभावना), तुम जाओ (आज्ञा), यदि लड़का जाता तो अच्छा होता (संकत) ।

[टी०—हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में इस रूपांतर का विचार अलग नहीं किया गया, किंतु काज के साथ मिला दिया गया है। आदम साहब के व्याकरण में “नियम” के नाम से इस रूपांतर का विचार हुआ है और पाध्ये महाशय ने स्यात् मराठी के अनुकरण पर अपनी “भाषातत्वदीपिका” में इसका विचार “अर्थ” नाम से किया है। इस रूपांतर का नाम काले महाशय ने भी अपने अँगरेजी-संस्कृत व्याकरण में (लोट्, विधि लिट्, आदि के लिए) “अर्थ” ही रक्खा है। यह नाम “नियम” की अपेक्षा अधिक प्रचलित है; इसलिए हम भी इसका प्रयोग करते हैं, यद्यपि यह थोड़ा बहुत आमक अवश्य है।

क्रिया के रूपों से केवल समय और पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था ही का बोध नहीं होता, किंतु निश्चय, संदेह, संभावना, आज्ञा, संकेत आदि का भी बोध होता है, इसलिए इन रूपों का भी व्याकरण में संग्रह किया जाता है। इन रूपों से काल का भी बोध होता है और अर्थ का भी, और किसी किसी रूप में ये दोनों इतने मिले रहते हैं कि इनको अलग अलग करके बताना कठिन हो जाता है, जैसे, “बर्हा न जाना पुत्र, कहीं।” (एका०)। इस वाक्य में केवल आज्ञार्थ ही नहीं है, किंतु भविष्यत् काल भी है, इसलिए यह निश्चय करना कठिन है कि “जाना” काल का रूप है अथवा अर्थ का। कदाचित् इसी कठिनाई से बचने के लिए हिंदी के वैयाकरण काल और अर्थ को मिलाकर क्रिया के रूपों का वर्गीकरण करते हैं। इसके लिए उन्हें काल के लक्षण में यह कहना पड़ता है कि “क्रिया का ‘काल’ समय के अतिरिक्त व्यापार की अवस्था भी बताता है अर्थात् व्यापार समाप्त हुआ या नहीं हुआ, होगा अथवा उसके होने में संदेह है।” ‘काल’ के लक्षण को इतना व्यापक कर देने पर भी आज्ञा, संभावना और संकेत के अर्थ बच जाते हैं और इन अर्थों के अनुसार भी क्रिया के रूपों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। इसलिए समय और पूर्णता वा अपूर्णता के सिवा क्रिया के जो और अर्थ होते हैं, उनके अनुसार अलग वर्गीकरण करना उचित है, यद्यपि इस वर्गीकरण में थोड़ी बहुत अशास्त्रीयता अवश्य है।]

३६०—हिंदी में क्रियाओं के मुख्य पाँच अर्थ होते हैं—(१) निश्चयार्थ (२) संभावनार्थ (३) संदेहार्थ (४) आज्ञार्थ और (५) संकेतार्थ।

(१) क्रिया के जिस रूप से किसी विधान का निश्चय सूचित होता है उसे **निश्चयार्थ** कहते हैं, जैसे, “लड़का आता है,” “नौकर चिट्ठी नहीं लाया,” “हम किताब पढ़ते रहेंगे,” “क्या आदमी न जायगा ?”

[सू०—(क) हिंदी में निश्चयार्थ क्रिया का कोई विशेष रूप नहीं है। जब क्रिया किसी विशेष अर्थ में नहीं आती तब उसे, सुभीते के लिए, निश्चयार्थ में मान लेते हैं। “काल” के विवेचन में पहले (अ०-३५८ में) जो उदाहरण दिए गये हैं वे सब निश्चयार्थ के उदाहरण हैं।

(ख) प्रश्नवाचक वाक्यों में क्रिया के रूप से प्रश्न सूचित नहीं होता, इसलिए प्रश्न को क्रिया का अलग “अर्थ” नहीं मानते। यद्यपि प्रश्न पूछने में वक्ता के मन में संदेह का आभास रहता है तथापि प्रश्न का उत्तर सदैव संदिग्ध नहीं होता। “क्या लड़का आया है ?”—इस प्रश्न का उत्तर निश्चयपूर्वक दिया जा सकता है, जैसे, “लड़का आया है” अथवा “लड़का नहीं आया”। इसके सिवा प्रश्न स्वयं कई अर्थों में किया जा सकता है, जैसे, “क्या लड़का आया है” (निश्चय), “लड़का कैसे आवे ?” (संभावना), “लड़का आया होगा” (संदेह), इत्यादि।

(२) संभावनार्थ क्रिया से अनुमान, इच्छा, कर्त्तव्य आदि का बोध होता है; जैसे, कदाचित् पानी बरसे (अनुमान), तुम्हारी जय हो (इच्छा), राजा को उचित है कि प्रजा का पालन करे (कर्त्तव्य), इत्यादि।

(३) संदेहार्थ क्रिया से किसी बात का संदेह जाना जाता है; जैसे, “लड़का आता होगा,” “नौकर गया होगा।”

(४) आज्ञार्थ क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध, आदि का बोध होता है; जैसे, तुम जाओ, लड़का जावे, वहाँ मत जाना, क्या मैं जाऊँ (प्रार्थना), इत्यादि।

[सू०—आज्ञार्थ और संभावनार्थ के रूपों में बहुत कुछ समानता है। यह बात आगे काल-रचना के विवेचन में जान पड़ेगी। संभावनार्थ के कर्त्तव्य, योग्यता आदि अर्थों में कभी कभी आज्ञा का अर्थ गभित रहता है। जैसे, “लड़का यहाँ बैठे”। इस वाक्य में क्रिया से आज्ञा और कर्त्तव्य दोनों अर्थ सूचित होते हैं।]

(५) संकेतार्थ क्रिया से ऐसी दो घटनाओं की असिद्धि सूचित होती है जिनमें कार्य-कारण का संबंध होता है; जैसे “यदि मेरे पास बहुतसा धन होता तो मैं चार काम करता ।” (भाषासार०) । “यदि तूने भगवान को इस मंदिर में बिठाया होता तो यह अशुद्ध क्यों रहता ।” (गुटका०) ।

[सू०—संकेतार्थक वाक्यों में जो—तो समुच्चयबोधक अव्यय बहुधा आते हैं ।]

३६१—सब अर्थों के अनुसार कालों के जो भेद होते हैं उन की संख्या, नाम और उदाहरण आगे दिये जाते हैं—

निश्चयार्थ	संभावनार्थ	संदेहार्थ	आज्ञार्थ	संकेतार्थ
(१) सामान्य वर्तमान वह चलता है	(७) संभाव्य वर्तमान वह चलता हो	(१०) संदिग्ध वर्तमान वह चलता होगा	(१२) प्रत्यक्ष विधि तू चल	(१४) सामान्य संकेतार्थ वह चलता
(२) पूर्ण वर्तमान वह चला है	(८) संभाव्य भूत वह चला हो	(११) संदिग्ध भूत वह चला होगा	(१३) परोक्ष विधि तू चलना	(१५) अपूर्ण संकेतार्थ वह चलता होता
(३) सामान्य भूत वह चलता था	(९) संभाव्य भविष्यत् वह चले			(१६) पूर्ण संकेतार्थ वह चला होता
(४) अपूर्ण भूत वह चला				
(५) पूर्ण भूत वह चला था				
(६) सामान्य भविष्यत् वह चलेगा				

[सू०—(१) इन उदाहरणों से जान पड़ेगा कि हिंदी में कालों की संख्या कम से कम सोलह है। भिन्न-भिन्न हिंदी व्याकरणों में यह संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है जिसका कारण यह है कि कोई-कोई वैयाकरण कुछ कालों को स्वीकृत नहीं करते अथवा उन्हें भ्रम-वश छोड़ जाते हैं। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भविष्यत् और पूर्ण भविष्यत् कालों को छोड़, जिनका विवेचन संयुक्त क्रियाओं के साथ करना ठीक जान पड़ता है, शेष काल हमारे किये हुए चर्गीकरण में ऐसे हैं जिनका प्रयोग भाषा में पाया जाता है और जिनमें काल तथा अर्थ के लक्षण घटते हैं। कालों के प्रचलित नामों में हमने दो नाम बदल दिये हैं—(१) आसन्नभूत (२) हेतुहेतुमद्भूत। “आसन्नभूत” नाम बदलने का कारण पहले कहा जा चुका है, तथापि काल-रचना में इसी नाम का उपयोग ठीक जान पड़ता है। “हेतुहेतुमद्भूत” नाम बदलने का कारण यह है कि इस काल के तीन रूप होते हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रयोग अलग अलग प्रकार का है और जिनका अर्थ एक ही नाम से सूचित नहीं होता। ये काल केवल संकेतार्थ में आते हैं, इसलिए इनके नामों के साथ “संकेत” शब्द रखना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार “संभाव्य” और सदिग्ध” शब्द संभावनार्थ और सदेहार्थ सूचित करने के लिए आवश्यक होते हैं।

जो काल और नाम प्रचलित व्याकरणों में नहीं पाये जाते वे उदाहरण सहित यहाँ लिखे जाते हैं—

प्रचलित नाम	नया नाम	उदाहरण
आसन्न भूतकाल	पूर्ण वर्तमानकाल	वह चला है
×	संभाव्य वर्तमानकाल	वह चला हो
×	संभाव्य भूतकाल	वह चला हो
विधि	प्रत्यक्ष विधि	तू चल
हेतुहेतुमद्भूतकाल	सामान्य संकेतार्थ	वह चलता
×	अपूर्ण संकेतार्थ	वह चलता होता
×	पूर्ण संकेतार्थ	वह चला होता

(२) कालों के विशेष अर्थ वाक्य-विन्यास में लिखे जायँगे।]

(४) पुरुष, लिंग और वचन प्रयोग

३६२—हिंदी क्रियाओं में तीन पुरुष (उत्तम, मध्यम और अन्य),

दो लिंग (पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिंग), और दो वचन (एकवचन और बहुवचन) होते हैं । उदा०—

पुल्लिङ्ग ।

पुरुष	एक वचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	मैं चलता हूँ	हम चलते हैं
मध्यम ,,	तू चलता है	तुम चलते हो
अन्य ,,	वह चलता है	वे चलते हैं

स्त्रीलिंग ।

पुरुष	एक वचन	बहु वचन
उत्तम पुरुष	मैं चलती हूँ	हम चलती हैं
मध्यम ,,	तू चलती है	तुम चलती हो
अन्य ,,	वह चलती है	वे चलती हैं

३६३—पुल्लिङ्ग एकवचन का प्रत्यय आ, पुल्लिङ्ग बहुवचन का प्रत्यय ए, स्त्रीलिंग एक वचन का प्रत्यय ई और स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रत्यय ई वा ई है ।

३६४—संभाव्य भविष्यत और विधि-कालों में लिंग के कारण कोई रूपांतर नहीं होता । स्थितिदर्शक “होना” क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपों में भी लिंग का कोई विकार नहीं होता । (अ०—३८६-१, ३८७) ।

३६५—वाक्य में कर्ता वा कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का जो अन्वय वा अतन्वय होता है उसे प्रयोग कहते हैं । हिंदी में तीन प्रयोग होते हैं—(१) कर्त्तरिप्रयोग (२) कर्मणिप्रयोग और (३) भावेप्रयोग ।

(१) कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उस क्रिया को कर्त्तरिप्रयोग कहते हैं; जैसे, मैं चलता हूँ, वह जाती है, वे आते हैं, लड़की कपडों सीती है, इत्यादि।

(२) जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होते हैं उसे **कर्मणिप्रयोग** कहते हैं; जैसे, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी गई, रानी ने पत्र लिखा, इत्यादि ।

(३) जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्त्ता वा कर्म के अनुसार नहीं होते, अर्थात् जो सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन में रहती है उसे **भावेप्रयोग** कहते हैं; जैसे, रानी ने सहेलियों को बुलाया, मुझसे चला नहीं जाता, सिपाहियों को लड़ाई पर भेजा जावेगा ।

३६६—सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों को (अ०—३८६) छोड़कर कर्तृवाच्य के शेष कालों में तथा अकर्मक क्रियाओं के सब कालों में कर्त्तरिप्रयोग आता है । कर्त्तरिप्रयोग में कर्त्ता-कारक अप्रत्यय रहता है ।

अप०—(१) भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों में बोलना, भूलना, बकना, लाना, समझना और जनना सकर्मक क्रियाएँ कर्त्तरिप्रयोग में आती हैं, जैसे, लड़की कुछ न बोली, हम बहुत बके, “राम-मन-भ्रमर न भूला” । (राम०) । “दूसरे गर्भाधान में केतकी पुत्र जनी” । (गुटका०) । कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे । (कहा०) । नौकर चिट्ठी लाया, इत्यादि ।

अप०—(२) नहाना, छींकना, आदि अकर्मक क्रियाएँ भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों में भावेप्रयोग में आती हैं, जैसे हमने नहाया है, लड़की ने छींका, इत्यादि ।

प्रत्य०—कोई कोई लेखक बोलना, समझना और जनना क्रियाओं के साथ विकल्प से सप्रत्यय कर्त्ता-कारक का प्रयोग करते हैं; जैसे, “उसने कभी भूठ नहीं बोला” । (रघु०) । “केतकी ने लड़की जनी” । (गुटका०) । जिन स्त्रियों ने तुम्हारे बाप के बाप को जना है ।” (शिव०) । “जिसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं समझा ।” (विचित्र०) ।

सितारै-हिद “पुकारना” क्रिया को सदा कर्त्तरिप्रयोग में लिखते हैं, जैसे, “चेबदार पुकारा” । जो तू एक बार भी जी से पुकारा होता ।” (गुटका०) ।

[सू०—संयुक्त क्रियाओं के प्रयोगों का विचार वाक्य-विन्यास में किया जायगा । (अ०—६२८—६३८) ।

३६७—कर्मणिप्रयोग दो प्रकार का होता है—(१) कर्तृ-वाच्य कर्मणिप्रयोग (२) कर्मवाच्य कर्मणिप्रयोग ।

(१) “बोलना”-वर्ग की सकर्मक क्रियाओं को छोड़ शेष कर्तृवाच्य सकर्मक क्रियाएँ भूतकालिक कृदंत से बने कालों में (अप्रत्यय कर्मकारक के साथ) कर्मणिप्रयोग में आती हैं, जैसे, मैंने पुस्तक पढ़ी, मंत्री ने पत्र लिखे, इत्यादि । कर्तृवाच्य के कर्मणिप्रयोग में कर्त्ता-कारक सप्रत्यय रहता है ।

(२) कर्मवाच्य की सब क्रियाएँ (अ०—३५०, ३६३) अप्रत्यय कर्मकारक के साथ कर्मणिप्रयोग में आती हैं । जैसे, चिट्ठी भेजी गई, लड़का बुलाया जायगा, इत्यादि । यदि कर्मवाच्य के कर्मणिप्रयोग में कर्त्ता की आवश्यकता हो तो वह करण-कारक में अथवा “द्वारा”शब्द के साथ आता है, जैसे, मुझसे पुस्तक पढ़ी गई । मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ।

३६८—भावेप्रयोग तीन प्रकार का होता है—(१) कर्तृवाच्य भावेप्रयोग (२) कर्मवाच्य भावेप्रयोग (३) भाववाच्य भावेप्रयोग ।

(१) कर्तृवाच्य भावेप्रयोग में सकर्मक क्रिया के कर्त्ता और कर्म दोनों सप्रत्यय रहते हैं और यदि क्रिया अकर्मक हो तो केवल कर्त्ता सप्रत्यय रहता है, जैसे, रानी ने महिलाओं को बुलाया, हमने नहाया है, लड़की ने छाँका था ।

(२) कर्मवाच्य भावेप्रयोग में कर्म सप्रत्यय रहता है और यदि कर्त्ता की आवश्यकता हो तो वह “द्वारा” के साथ अथवा करण-

कारक में आता है; परंतु बहुधा वह लुप्त ही रहता है; जैसे, "उसे पेश किया गया" ।

[सू०—सप्रत्यय कर्म कारक का उपयोग वाक्य-विन्यास के कारक-प्रकरण में लिखा जायगा (अं०—५२०) ।]

(३) भाववाच्य भावेप्रयोग में कर्ता की आवश्यकता हो तो उसे करण-कारक में रखते हैं; जैसे, यहाँ बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इत्यादि । भाववाच्य भावेप्रयोग में सदा अकर्मक क्रिया आती है । (अं०—३५२) ।

(५) कृदंत ।

३६६—क्रिया के जिन रूपों का उपयोग दूसरे शब्द-भेदों के समान होता है उन्हें कृदंत कहते हैं; जैसे, चलना (संज्ञा), चलता (विशेषण), चलकर (क्रिया-विशेषण), मारे, लिए (संबंध-सूचक), इत्यादि ।

[सू०—कई कृदंतों का उपयोग काल-रचना तथा संयुक्त क्रियाओं में होता है और ये सब धातुओं से बनते हैं ।]

३७०—हिंदी में रूप के अनुसार कृदंत दो प्रकार के होते हैं—(१) विकारी (२) अविकारी वा अव्यय । विकारी कृदंतों का प्रयोग बहुधा संज्ञा वा विशेषण के समान होता है और कृदंत अव्यय बहुधा क्रिया-विशेषण वा कभी कभी संबंधसूचक के समान आते हैं । (अं०—६२०) । यहाँ केवल उन कृदंतों का विचार किया जाता है जो काल-रचना तथा संयुक्त क्रियाओं में उपयुक्त होते हैं । शेष कृदंत व्युत्पत्ति-प्रकरण में लिखे जायेंगे ।

१—विकारी कृदंत ।

३७१—विकारी कृदंत चार प्रकार के हैं—(१) क्रियार्थक संज्ञा (२) कर्तृवाचक संज्ञा (३) वर्तमानकालिक कृदंत (४) भूतकालिक कृदंत ।

३७२-धातु के अंत में “ना” जोड़ने से **क्रियार्थक संज्ञा** बनती है । (अ०—१८८-अ) । इसका प्रयोग सज्ञा और विशेषण दोनों के समान होता है । क्रियार्थक संज्ञा केवल पुल्लिंग और एकवचन में आती है, और इसकी कारक-रचना संबोधन कारक को छोड़ शेष कारकों में आकारात पुल्लिंग (तद्भव) सज्ञा के समान होती है (अ०—३१०), जैसे, जाने को, जाने में, इत्यादि ।

(अ) जब क्रियार्थक संज्ञा विशेषण के समान आती है तब उसका रूप उसकी पूर्ति वा कर्म (विशेष्य) के लिंग वचन के अनुसार बदलता है, जैसे, “तुमको परीक्षा **करनी** हो तो लो ।” (परीक्षा०) । “वनयुवतियों की छवि रनवास की छियों में **मिलनी** दुर्लभ है ।” (शकु०) । “**देखनी** हमको पड़ी औरंगजेबी अंत में ।” (भारत०) । “**बात करनी** हमें मुश्किल कभी ऐसी तो न थी ।” “पहिनने के वख आसानी से चढ़ने उतरनेवाले **होने** चाहिए ।” (सर०) ।

[सू०—क्रियार्थक विशेषण को लेखक लोग कभी कभी अविकृत ही रखते हैं, जैसे, “मत फैलाने के लिए लड़ाई करना ।” (इति०) । कौनसी बात समाज को मानना चाहिए ।” (स्वा०) । “मनुष्य-गणना करना चाहिए ।” (शिव०) ।]

३७३-क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप के अंत में “वाला” लगाने से **कर्तृवाचक-संज्ञा** बनती है, जैसे, चलनेवाला, जानेवाला, इत्यादि । इसका प्रयोग कभी कभी भविष्यत्कालिक कृदत विशेषण के समान होता है, जैसे, आज मेरा भाई **जानेवाला** है । **जानेवाला** नौकर । कर्तृवाचक सज्ञा का रूपांतर संज्ञा और विशेषण के समान होता है ।

[सू०—“वाला” प्रत्यय के बदले कभी-कभी “हारा” प्रत्यय आता है । “मरना” और “होना” क्रियार्थक संज्ञाओं के अंत्य “आ” का लोप करके “हारा” के बदले “हार” लगाते हैं, जैसे, मरनहार, होनहार । “वाला” या “हार” केवल प्रत्यय है, स्वतंत्र शब्द नहीं है । पर तु गुसाईंजी ने मूल शब्द और इस प्रत्यय के बीच में ‘हु’ अवधारण-बोधक अव्यय रख दिया है, जैसे

भयड न अहड न होनिहुँ “हारा” (राम०) । कोई कोई आधुनिक लेखक “वाला” को मूल शब्द से अलग लिखते हैं ।

“वाला” को कोई कोई वैयाकरण संस्कृत के “वत्” वा “वल” से और कोई कोई “पाल” से व्युत्पन्न हुआ मानते हैं; और “हारा” को संस्कृत के “कार” प्रत्यय से निकला हुआ समझते हैं ।]

३७४—वर्तमानकालिक कृदंत धातु के अंत में “ता” लगाने से बनता है, जैसे, चलता, बोलता, इत्यादि । इसका प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है और इसका रूप आकारांत विशेषण के समान बदलता है, जैसे, बहता पानी, चलती चको, जीते कीड़े, इत्यादि । कभी-कभी इसका प्रयोग संज्ञा के समान होता है और तब इसकी कारक-रचना आकारांत पुल्लिङ्ग संज्ञा के समान होती है, जैसे, मरता क्या न करता । डूबते को तिनके का सहारा बस है । मारतों के आगे, भागतों के पीछे ।

३७५—भूतकालिक कृदंत धातु के अंत में आ जोड़ने से बनता है । इसकी रचना नीचे लिखे नियमों के अनुसार होती है—

(१) अकारांत धातु के अंत्य “अ” के स्थान में “आ” कर देते हैं, जैसे,

बोलना—बोला

पहचानना—पहचाना

डरना—डरा

मारना—मारा

समझना—समझा

खींचना—खींचा

(२) धातु के अंत में आ, ए वा ओ हो तो धातु के अंत में “य” कर देते हैं, जैसे,

लाना—लाया

बोना—बोया

कहलाना—कहलाया

डुबाना—डुबोया

खेना—खेया

सेना—सेया

(अ) यदि धातु के अंत में ई हो तो उसे ह्रस्व कर देते हैं, जैसे,
पीना—पिया जीना—जिया सीना—सिया ।

(३) ऊकारांत धातु की “ऊ” को ह्रस्व करके उसके आगे “आ” लगाते हैं, जैसे,

चूना—चुआ

छूना—छुआ

३७६—नीचे लिखे भूतकालिक कृदंत नियम-विरुद्ध बनते हैं—

होना—हुआ

जाना—गया

करना—किया

मरना—मुआ

देना—दिया

लेना—लिया

[सू० —“मुआ” केवल कविता में आता है। गद्य में “मरा” शब्द प्रचलित है। मुआ, छुआ, आदि शब्दों को कोई कोई लेखक मुया, हुवा, छुया, आदि रूपों में लिखते हैं, पर ये रूप अशुद्ध हैं, क्योंकि ऐसा उच्चारण नहीं होता और ये शिष्ट-सम्मत भी नहीं हैं। करना का भूतकालिक कृदंत “करा” प्रान्तिक प्रयोग है। “जाना” का भूत कालिक कृदंत “जाया” संयुक्त क्रियाओं में आता है। इसका रूप “गया” सं०—गत से प्रा०—गओ के द्वारा बना है।]

३७७—भूतकालिक कृदंत का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है; जैसे, मरा घोड़ा, गिरा घर, उठा हाथ, सुनी बात, भागा चोर।

(अ) वर्तमानकालिक और भूतकालिक कृदंतों के साथ बहुधा “हुआ” लगाते हैं और इसमें भी मूल कृदंतों के समान रूपांतर होता है, जैसे, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलती हुई गाड़ी, देखी हुई वस्तु, मरे हुए लोग, इत्यादि। स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रत्यय केवल “हुई” में लगता है, जैसे मरी हुई मक्खियाँ।

(आ) भूतकालिक कृदंत भी कभी कभी सज्ञा के समान आता है; जैसे, हाथ का दिया, पिसे का पीसना। “गई बहारि गरीब निवाजू।” (राम०)।

(इ) सकर्मक क्रिया से बना हुआ भूतकालिक कृदंत विशेषण कर्मवाच्य होता है अर्थात् वह कर्म की विशेषता बताता है;

जैसे, किया हुआ काम, बनाई हुई बात, इत्यादि । इस अर्थ में इस कृदंत के साथ कोई कोई लेखक “गया” कृदंत जोड़ते हैं; जैसे, किया गया काम, बनाई गई बात, इत्यादि ।

३७८—जिन भूतकालिक कृदंतों में “आ” के पूर्व “य” का आगम होता है उसमें “ए” और “ई” प्रत्ययों के पहले विकल्प से “य” का लोप हो जाता है; जैसे, लाये वा लाए; लायी वा लाई । यदि “य” प्रत्यय के पहले “इ” हो तो “य” का लोप होकर “इ” प्रत्यय पूर्व “इ” में संधि के अनुसार मिल जाता है, जैसे, लिया — ली, दिया—दी, किया—की, सिया—सी, पिया—पी, जिया—जी, “गया” का भी स्त्रीलिंग “गई” होता है ।

[सू०—कोई कोई लेखक ईकारांत रूपों को लियो, लिई, गयी, जियो, जिई आदि लिखते हैं; पर ये रूप सर्व-सम्मत नहीं हैं । बहुवचन में ये (लाये) और स्त्रीलिंग में ई (लाई) का प्रयोग अधिक शिष्ट माना जाता है ।]

२—कृदंत अव्यय ।

३७९—कृदंत अव्यय चार प्रकार के हैं—

(१) पूर्वकालिक कृदंत (२) तात्कालिक कृदंत (३) अपूर्ण क्रियाद्योतक (४) पूर्ण क्रियाद्योतक ।

३८०—पूर्वकालिक कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में “के”, “कर” वा “करके” जोड़ने से बनता है; जैसे,

क्रिया	धातु	पूर्वकालिक कृदंत
जाना	जा	जाके, जाकर, जाकरके
खाना	खा	खाके, खाकर, खाकरके
दौड़ना	दौड़	दौड़के, दौड़कर, दौड़करके

[सू०—“करना” क्रिया के धातु में केवल “के” जोड़ा जाता है; जैसे, करके । “आना” क्रिया के, नियमित रूपों के सिवा, कभी-कभी दो रूप और

होते हैं, जैसे, आन और आनकर । उदा०—“शकुंतला स्नान करके खड़ी है” (शकु०) । “ दूत ने आनकर यह खबर दी ।” “ आन पहुँची” । कविता में स्वरांत धातु के परे कभी कभी “य” जोड़कर पूर्वकालिक कृदंत अव्यय बनाते हैं, जैसे, जाना—जाय, बनाना—बनाय, इत्यादि । पूर्वकालिक कृदंत का “य” प्रत्यय संस्कृत के “य”, प्रत्यय से निकला है और उसका एक पूर्वकालिक कृदंत “विहाय” (छोड़कर) अपने मूल रूप में हिंदी कविता में आता है, जैसे, “तप विहाय जेहि भावै भोगू ।” (राम०) ।

(क) पूर्वकालिक कृदंत अव्यय से बहुधा मुख्य क्रिया के पहले होनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, जैसे, “हम नगर देखकर लौटे।” क्रिया-समाप्ति के अतिरिक्त, पूर्वकालिक क्रिया से नीचे लिखे अर्थ पाये जाते हैं—

(१) कार्य-कारण, जैसे, लड़का कुसंग में पड़कर विगड़ गया । प्रभुता पाइ जाहि मद नहीं । (राम०) ।

(२) रीति, जैसे, बच्चा दौड़कर चलता है । “सोंग कटाकर बछड़ो मे मिलना ।” (कहा०) ।

(३) द्वारा, जैसे, इस पवित्र आश्रम के दर्शन करके हम अपना जन्म सफल करे । (शकु०) । फाँसी लगाकर मरना ।

(४) विरोध, जैसे, तुम ब्राह्मण होकर संस्कृत नहीं जानते । पानी मे रहकर मगर से बैर । (कहा०) ।

३८१—वर्तमानकालिक कृदंत के “ता” को “ते” आदेश करके उसके आगे “ही” जोड़ने से तात्कालिक कृदंत अव्यय बनता है; जैसे, बोलतेही, आतेही, इत्यादि । इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, जैसे, “उसने आतेही उपद्रव मचाया ।”

३८२—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत अव्यय का रूप तात्कालिक कृदंत अव्यय के समान “ता” को “ते” आदेश करने से बनता है, परंतु उसके साथ “ही” नहीं जोड़ी जाती, जैसे, सोते, रहते, देखते,

इत्यादि । इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की अपूर्णता सूचित होती है; जैसे, “मुझे घर लौटते रात हो जायगी ।” “उसने जहाजों को एक पाती में जाते देखा ” । (विचित्र०) । “तू अपनी विवाहिता को छोड़ते नहीं लजाता ।” (शकु०) ।

३८३—पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत अव्यय भूतकालिक कृदंत विशेषण के अंत्य “आ” को “ए” आदेश करने से बनता है; जैसे, किये, गये, बीते, लिये, मारे इत्यादि । इस कृदंत से बहुधा मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की पूर्णता का बोध होता है, जैसे, इतनी रात गये तुम क्यों आये ? इस बात को हुए कई वर्ष बीत गये । इससे मुख्य क्रिया की रीति भी सूचित होती है, जैसे, “महाराज कमर कैसे बैठे हैं ।” (विचित्र०) । “लिये” और “मारे” कृदंतों का प्रयोग बहुधा संबंध-सूचक अव्यय के समान होता है । (अ०—२३६—४) ।

३८४—अपूर्ण क्रियाद्योतक और पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों के साथ बहुधा (अ०—३७७—अ) “होना” क्रिया का पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत अव्यय “हुए” लगाया जाता है; जैसे, “दो एक दिन आते हुए दासी ने उसको देखा था” । (चंद्र०) । “धर्म एक वैताल के सिर पर पिटारा रखवाये हुए आता है ।” (सत्य०) ।

[सू०—तात्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत और पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत यथार्थ में क्रिया के कोई भिन्न प्रकार के रूपांतर नहीं हैं, किंतु वर्तमानकालिक और भूतकालिक कृदंतों के विशेष प्रयोग हैं । कृदंतों के वर्गीकरण में इन तीनों को अलग अलग स्थान देने का कारण यह है कि इनका प्रयोग कई एक संयुक्त क्रियाओं में और स्वतंत्र कर्त्ता के साथ तथा कभी कभी क्रिया-विशेषण के समान होता है, इसलिए इनके अलग अलग नाम रखन में सुभीता है । कृदंतों के विशेष अर्थ और प्रयोग वाक्य-विन्यास में लिखे जायेंगे ।

(ई) काल-रचना ।

३८५—क्रिया के वाच्य, अर्थ, काल, पुरुष, लिंग और वचन के कारण होनेवाले सब रूपों का संग्रह करना काल-रचना कहलाती है ।

(क) हिंदी के सोलह काल रचना के विचार से तीन वर्गों में बाँटे जा सकते हैं । पहले वर्ग में वे काल आते हैं जो धातु में प्रत्ययों के लगाने से बनते हैं, दूसरे वर्ग में वे काल हैं जो वर्तमान-कालिक कृदंत में सहकारी क्रिया “होना” के रूप लगाने से बनते हैं और तीसरे वर्ग में वे काल आते हैं जो भूतकालिक कृदंत में उसी सहकारी क्रिया के रूप जोड़कर बनाये जाते हैं । इन वर्गों के अनुसार कालों का वर्गीकरण नीचे दिया जाता है—

पहला वर्ग ।

(धातु से बने हुए काल)

- (१) संभाव्य-भविष्यत्
- (२) सामान्य-भविष्यत्
- (३) प्रत्यक्ष-विधि
- (४) परोक्ष-विधि

दूसरा वर्ग ।

(वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल)

- (१) सामान्य संकेतार्थ (हेतुहेतुमद्भूतकाल)
- (२) सामान्य वर्तमान
- (३) अपूर्ण-भूत
- (४) संभाव्य-वर्तमान
- (५) संदिग्ध-वर्तमान
- (६) अपूर्ण-संकेतार्थ

तीसरा वर्ग ।

(भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल)

- (१) सामान्यभूत
- (२) आसन्नभूत (पूर्णवर्त्तमान)
- (३) पूर्णभूत
- (४) संभाव्य-भूत
- (५) संदिग्ध-भूत
- (६) पूर्णसंकेतार्थ

(ख) इन तीन वर्गों में से पहले वर्ग के चारों काल तथा सामान्य संकेतार्थ और सामान्य भूत केवल प्रत्ययों के योग से बनते हैं, इसलिए ये छः काल साधारण काल कहलाते हैं; और शेष दस काल सहकारी क्रिया के योग से बनने के कारण संयुक्त काल कहे जाते हैं। कोई कोई वैयाकरण केवल पहले छः कालों को यथार्थ “काल” मानते हैं, और पिछले दस कालों को संयुक्त क्रियाओं में गिनते हैं, क्योंकि इनकी रचना दो क्रियाओं के मेल से होती है। पहले (अं०—३४६—टी० मे) कहा जा चुका है कि हिदी संस्कृत के समान रूपांतरशील और संयोगात्मक भाषा नहीं है, इसलिए इसमें शब्दों के समासों को भी कभी कभी, सुभीते के लिए, उनका रूपांतर मान लेते हैं। इसके सिवा हिदी में “संयुक्त क्रियाएँ” अलग मानने की चाल पुरानी है जिसका कारण यह है कि कुछ संयुक्त क्रियाएँ कुछ विशेष कालों में ही आती हैं और कई एक संयुक्त क्रियाएँ संज्ञाओं के मेल से बनती हैं। इस विषय का विशेष विचार आगे (अं०—४०० मे) किया जायगा। जिन कालों को

* हिंदुस्थान की और और आर्यभाषाओं—मराठी, गुजराती, बगळा, आदि—की भी यही अवस्था है।

“संयुक्त काल” कहते हैं, वे कृदंतों के साथ केवल एक ही सहकारी क्रिया के मेल से बनते हैं और उनसे संयुक्त क्रियाओं के विशेष अर्थ—अवधारण, शक्ति, आरंभ, अवकाश, आदि—सूचित नहीं होते, इसलिए संयुक्त कालों को संयुक्त क्रियाओं से अलग मानते हैं। “संयुक्त काल” शब्द के विषय में किसी-किसी को जो आक्षेप है उसके संबंध में केवल इतना ही कहना है कि “कल्पित” नाम की अपेक्षा कुछ भी सार्थक नाम रखने से उसका उल्लेख करने में अधिक सुभीता है।

१—कर्तृवाच्य ।

३८६—पहले वर्ग के चारों कालों के कर्तृवाच्य के रूप नीचे लिखे अनुसार बनते हैं—

(१) संभाव्य भविष्यत् काल बनाने के लिए धातु में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं —

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	ऊँ	ँ
म० पु०	ए	ओ
अ० पु०	ए	ँ

(अ) यदि धातु अकारात् हो तो ये प्रत्यय “आ” के स्थान में लगाये जाते हैं, जैसे, “लिख” से “लिखँ”, “कह” से कहे, “बोल” से “बोलँ”, इत्यादि।

(आ) यदि धातु के अंत में आकार वा ओकार हो तो “ऊँ” और “ओ” को छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले विकल्प से “व” का आगम होता है; जैसे, “जा” से जाए वा जावे, “गा” से गाए वा गावे, “खा” से खाए वा खावे, इत्यादि। ईकारात् और ऊकारात् धातुओ में जब विकल्प से “व” का आगम नहीं होता तब उनका अत्यं स्वर ह्रस्व ही जाता है, जैसे

जिऊँ, जिओ, पिए वा पीवे, सिँए वा सीवे, छुए वा छूवे ।

(इ) एकारांत धातुओं में ऊँ और ओ को छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले “व” का आगम होता है; जैसे, सेवे, खेवे, देवे, इत्यादि ।

(ई) देना और लेना क्रियाओं के धातुओं में विकल्प से (अ) और (इ) के अनुसार प्रत्ययों का आदेश होता है; जैसे, दूँ (देऊँ), दे (देवे), दो (देओ), लूँ (लेऊँ), ले (लेवे), लो (लेओ) ।

(उ) आकारांत धातुओं के परे ए और ँ के स्थान में विकल्प से क्रमशः य और यँ आते हैं; जैसे जाय, जायँ, खाय, खायँ, इत्यादि ।

(ऊ) “होना” के रूप ऊपर लिखे नियमों के विरुद्ध होते हैं । ये आगे दिये जायँगे । (अ०—३८७) ।

[सू०—कई लेखक जावो, पिये, जाये, जाव, आदि रूप लिखते हैं, पर ये अशुद्ध हैं ।

(२) सामान्य भविष्यत् काल की रचना के लिए संभाव्य भविष्यत् के प्रत्येक पुरुष में पुल्लिङ्ग एकवचन के लिए गा, पुल्लिङ्ग बहुवचन के लिए गे, और स्त्रीलिङ्ग एकवचन तथा बहुवचन के लिए गी लगाते हैं; जैसे, जाऊँगा, जायँगे, जायगी, जाओगी आदि ।

[सू०—“भाषा-प्रभाकर” में स्त्रीलिङ्ग बहुवचन का चिन्ह गी लिखा है; परंतु भाषा में “गी” ही का प्रचार है और स्वयं वैयाकरण ने जो उदाहरण दिये हैं उनमें भी “गी” ही आया है । इस प्रत्यय के संबंध में हमने जो नियम दिया है वह सितारै-हिंद और पं० रामसजन के व्याकरणों में पाया जाता है । सामान्य भविष्यत् का प्रत्यय “गा” संस्कृत-गतः, प्राकृ०—तओ से निकला हुआ जान पड़ता है । क्योंकि यह लिङ्ग और वचन के अनुसार बदलता है तथा इसके और मूल क्रिया के बीच में ‘ही’ अव्यय आसकता है । (अ०—२२७) ।

(३) प्रत्यक्ष विधि का रूप संभाव्य भविष्यत् के रूप के समान होता है; दोनों में केवल मध्यम पुरुष के एकवचन का अंतर है ।

विधि का मध्यम पुरुष एकवचन धातु ही के समान होता है, जैसे, “कहना” से “कह”, “जाना” से “जा”, इत्यादि ।

सू०—“शकु०” में विधि के मध्यम पुरुष एकवचन का रूप संभाव्य भविष्यत् ही के समान आया है, जैसे, कन्व—हे बेटी, मेरे नित्य कर्म में विघ्न मत डाले ।

(अ) आदर-सूचक “आप” के लिये मध्यम पुरुष में धातु के साथ साथ “इये” वा “इयेगा” जोड़ देते हैं; जैसे, आइये, बैठिये, पान खाइयेगा ।

(आ) लेना, देना, पीना, करना और होना के आदर-सूचक विधि काल में, “इये” वा “इयेगा” के पहले ज का आगम होता है और उनके स्वरो में प्रायः वही रूपांतर होता है जो इन क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत बनाने में किया जाता है (अं०—३७६), जैसे,

लेना—लीजिये करना—कीजिये देना—दीजिये
होना—हूजिये पीना—पीजिये

(इ) “करना” का नियमित आदर-सूचक विधिकाल “करिये” “शकु०” में आया है, पर यह प्रयोग अनुकरणीय नहीं है ।

(ई) कभी कभी आदर-सूचक विधि का उपयोग संभाव्य भविष्यत् के अर्थ में होता है, जैसे, “मन में ऐसी आती है कि सब छोड़ छाड़ बैठ रहिये” । (शकु०) । “वायस पालिय अति अनुरागा” । (राम०)

(उ) “चाहिये” यथार्थ में आदर-सूचक विधि का रूप है, पर इससे वर्तमान काल की आवश्यकता का बोध होता है; जैसे, मुझे पुस्तक चाहिये ।

(ऊ) आदर-सूचक विधि का दूसरा रूप (गांत) कभी कभी आदर के लिये सामान्य भविष्यत् और परोक्ष विधि में भी

आता है; जैसे, “कौन सी रात भ्रान मिलियेगा” । “मुझे दास समझकर कृपा रखियेगा” ।

(४) परोक्ष विधि केवल मध्यम पुरुष में आती है और दोनों वचनों में एक ही रूप का प्रयोग होता है । इसके दो रूप होते हैं—(१) क्रियार्थक संज्ञा तद्वत् परोक्ष विधि होती है (२) आदर-सूचक विधि के अंत में ओ आदेश होता है; जैसे, (१) तू रहना सुख से पति-संग (सर०) । प्रथम मिलाप को भूल मत जाना । (शकु०) । (२) तू किसी के सोही मत कहियो । (प्रेम०) । पिता, इस लता को मेरे ही समान गिनियो । (शकु०) ।

(अ) “आप” के साथ आदर-सूचक विधि का दूसरा रूप आता है [(३) ऊ] । जैसे, “आप वहाँ न जाइयेगा” । “आप न जाइयो” शिष्ट-प्रयोग नहीं है ।

(आ) आदर-सूचक विधि में “ज” के पश्चात् इए और इयो बहुधा क्रम से ए और ओ हो जाते हैं; जैसे, लीजे, दीजे, कीजे, पीजे, हूजे आदि । ये रूप अकसर कविता में आते हैं; जैसे, “कह गिरिधर कविराय कहो अब कैसी कीजे । जल खारी है गयो कहो अब कैसे पीजे” । “स्वाचलम्ब हम सब को दीजे” । (भारत०) । “कीजे सदा धर्म से शासन” । (सर०) ।

सू०—किसी किसी का मत है कि “इये” को “इए” लिखना चाहिये, अर्थात् “चाहिये” “कीजिये”, आदि शब्द “चाहिए” “कीजिए”, रूप में लिखे जायें । इस मत का प्रचार थोड़े ही वर्षों से हुआ है, और कई लोग इसके विरोधी भी हैं । इस वर्ण-विन्यास के प्रवर्तक पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी हैं जिनके प्रभाव से इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है । स्थानाभाव के कारण हम यहाँ दोनों पक्षों के वादों का विचार नहीं कर सकते; पर इस मत को ग्रहण करने में विशेष कठिनाई यह है कि यदि “कीजिये” को “कीजिए” लिखें तो फिर “कीजियो” किस रूप में लिखा जायगा ? यदि “कीजियो” को “कीजियो”

लिखें तो “स्त्रियो” को “स्त्रियो” लिखना चाहिये और जो एक को “कीजिए” और दूसरे को “कीजियो” लिखें तो प्रायः एक प्रकार के दोनों रूपों को इस प्रकार भिन्न-भिन्न लिखने से व्यर्थ ही भ्रम उत्पन्न होगा। इस प्रकार के दोनों अनमिल रूप भारत-भारती में पाये जाते हैं, जैसे,

“इस देश को हे दीनबन्धो, आप फिर अपनाइए
भगवान्! भारतवर्ष को फिर पुण्य-भूमि बनाइए,”
“दाता! तुम्हारी जय रहे, हमको दया कर दीजियो,
माता! मरे हा! हा! हमारी शीघ्र ही सुध लीजियो।

हम अपने मत के समर्थन में भारत-मित्र-संपादक प० अशिकाप्रसाद चाजपेयीजी के एक लेख का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं—

‘अब’ ‘चाहिये’ और ‘लिये’ जैसे शब्दों पर विचार करना चाहिये। हि दी-शब्दों में इकार के बाद स्वत यकार का उच्चारण होता है, जैसा किया, दिया, आदि से स्पष्ट है। इसके सिवा “हानि” शब्द इकारांत है। इसका बहुवचन में “हानिओं” न होकर “हानियो” रूप होता है। × × × सच तो ये है कि हिं दी की प्रकृति इकार के बाद यकार उच्चारण करने की है। इसलिए “चाहिये”, “लिये”, “दीजिये”, “कीजिये” जैसे शब्दों के अंत में एकार न लिखकर “येकार” ही लिखना चाहिये।”

३८७—संयुक्त कालों की रचना में “होना” सहकारी क्रिया के रूपों का काम पड़ता है, इसलिये ये रूप आगे लिखे जाते हैं। हिदी में “होना” क्रिया के दो अर्थ हैं—(१) स्थिति (२) विकार। पहले अर्थ में इस क्रिया के केवल दो काल होते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी काल-रचना और क्रियाओं के समान होती है, पर इसके कुछ कालों से पहला अर्थ भी सूचित होता है।

होना (स्थितिदर्शक)

(१) सामान्य वर्तमानकाल
कर्त्ता—पुछिंग वा छोलिंग

एकवचन
उ०पु० मैं हूँ

बहुवचन
हम हैं

एकवचन
म० पु० तू है
अ० पु० वह है

बहुवचन
तुम हो
वे हैं

(२) सामान्य भूतकाल
कर्त्ता—पुल्लिंग

उ० पु० मैं था
म० पु० तू था
अ० पु० वह था

हम थे
तुम थे
वे थे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१—३

थी

थीं

होना (विकारदर्शक)

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल
कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

१—मैं होऊँ
२—तू हो, होवे
३—वह हो, होवे

हम हों, होवें
तुम होओ, हो
वे हों, होवे

(२) सामान्य भविष्यत्-काल
कर्त्ता—पुल्लिंग

१—मैं होऊँगा
२—तू होवेगा,
३—वह होगा, होवेगा

हम होंगे, होवेंगे
तुम होओगे, होगे
वे होंगे, होवेंगे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१—मैं होऊँगी
२—तू होगी, होवेगी
३—वह होगी, होवेगी

हम होंगी, होवेंगी
तुम होओगी, होगी
वे होंगी, होवेंगी

(३) सामान्य संकेतार्थ

कर्त्ता—पुल्लिंग

एकवचन	बहुवचन
१—मैं होता	हम होते
२—तू होता	तुम होते
३—वह होता	वे होते

कर्त्ता—खोल्लिंग

१—३ होती	होतीं
----------	-------

सू०—“होना” (विकार-दर्शक) के शेष रूप आगे यथास्थान दिये जायेंगे ।

३८८—दूसरे वर्ग के छत्रों कर्त्तृवाच्य काल वर्तमानकालिक कृदंत के साथ “होना” सहकारी क्रिया के ऊपर लिखे कालों के रूप जोड़ने से बनते हैं । स्थितिदर्शक सामान्य वर्तमान काल और विकार-दर्शक संभाव्य भविष्यत्-काल को छोड़ सहकारी क्रिया के शेष कालों के रूप कर्त्ता के पुरुष-लिंग-वचनानुसार बदलते हैं ।

(१) सामान्य संकेतार्थ वर्तमानकालिक कृदंत को कर्त्ता के पुरुष-लिंग-वचनानुसार बदलने से बनता है । इसके साथ सहायक क्रिया नहीं आती, जैसे, मैं आता, वह आती, हम आते, वे आतीं, इत्यादि ।

(२) सामान्य वर्तमान वर्तमानकालिक कृदंत के साथ स्थिति-दर्शक सहकारी क्रिया के सामान्य वर्तमान-काल के रूप जोड़ने से बनता है, जैसे, मैं आता हूँ, वह आती है, तुम आती हो, इत्यादि ।

(अ) सामान्य वर्तमानकाल के साथ “नहीं” आने से बहुधा सहकारी क्रिया का लोप हो जाता है, जैसे, “देा भाइयों में भी परस्पर अब यहाँ पटती नहीं” । (भारत०) ।

(३) अपूर्ण भूतकाल बनाने के लिए कृदंत के साथ स्थिति-दर्शक सहकारी क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप (था) जोड़ते

हैं; जैसे, मैं आता था, तू आती थी, वह आती थी, वे आती थीं, इत्यादि ।

(अ) जब इस काल से भूतकाल के अभ्यास का बोध होता है तब बहुधा सहकारी क्रिया का लोप कर देते हैं; जैसे, “मैं बराबर विनय-पूर्वक स्वाधीनता के लिए महाराज से प्रार्थना करता तो वह कहते, अभी सब्र करो” (विचित्र०) ।

(आ) बोलचाल की कविता में कभी कभी संभाव्य भविष्यत् के आगे स्थितिदर्शक सहकारी क्रिया के रूप जोड़कर सामान्य वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल बनाते हैं, जैसे, “कहाँ जल है वह आगी” । (एकांत०) । “पूर्ण सुधाकर—भलक मनोहर दिखलावै था सर के तीर ।” (हिं० ग्रं०) । इसका प्रचार अब घट रहा है ।

(४) वर्तमानकालिक कृदंत के साथ विकार-दर्शक सहकारी क्रिया के संभाव्य-भविष्यत्काल के रूप लगाने से संभाव्य-वर्तमान काल बनता है; जैसे, मैं आता होऊँ, वह आता हो, वे आती हों, इत्यादि ।

(५) वर्तमानकालिक कृदंत के साथ सहकारी क्रिया के सामान्य-भविष्यत् के रूप लगाने से संदिग्ध वर्तमान काल बनता है; जैसे, मैं आता होऊँगा, वह आता होगा, वे आती होंगी ।

(६) अपूर्ण संकेतार्थ काल बनाने के लिए वर्तमानकालिक कृदंत के साथ सामान्य संकेतार्थ काल के रूप लगाये जाते हैं; जैसे, आज दिन यदि बढ़ई हल न तैयार करते होते तो हमारी क्या दशा होती ।

(अ) इस काल का प्रचार अधिक नहीं है । इसके बदले बहुधा सामान्य संकेतार्थ आता है । इस काल में “होना” क्रिया

का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसके साथ “होता” शब्द की निरर्थक द्विरुक्ति होती है ।

३८६—तीसरे वर्ग के छत्रों कर्तृवाच्य काल भूतकालिक कृदन्त के साथ “होना” सहायक क्रिया के पूर्वोक्त पाँचों कालों के रूप जोड़ने से बनते हैं । इन कालों में “बोलना” वर्ग की क्रियाओं को छोड़कर शेष सकर्मक क्रियाएँ कर्मणिप्रयोग वा भावे-प्रयोग में आती हैं । (अ०—३६६, ३६७, ३६८) यहाँ केवल कर्त्तरि-प्रयोग के उदाहरण दिये जाते हैं—

(१) सामान्य भूतकाल भूतकालिक कृदन्त में कर्त्ता के पुरुष-लिंग-वचनानुसार रूपांतर करने से बनता है । इसके साथ सहकारी क्रिया नहीं आती, जैसे, मैं आया, हम आये, वह बोला, वे बोलीं ।

(२) आसन्न-भूत बनाने के लिए भूतकालिक कृदन्त के साथ सहकारी क्रिया के सामान्य वर्त्तमान के रूप जोड़ते हैं, जैसे, मैं बोला हूँ, वह बोला है, तू आया है, वे आई हैं ।

(३) पूर्णभूतकाल भूतकालिक कृदन्त के साथ सहकारी क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप जोड़कर बनाया जाता है, जैसे, मैं आया था, वह आई थी, तुम बोली थीं, हम बोली थीं ।

(४) भूतकालिक कृदन्त के साथ सहकारी क्रिया के संभाव्य भविष्यत् काल के रूप जोड़ने से संभाव्य भूतकाल बनता है, जैसे, मैं बोला होऊँ, तू बोला हो, वह आई हो, हम आई हों ।

(५) भूतकालिक कृदन्त के साथ सहकारी क्रिया के सामान्य भविष्यत्-काल के रूप जोड़ने से सदिग्ध भूतकाल बनता है; जैसे, मैं आया होऊँगा, वह आया होगा, वे आई होंगी ।

(६) पूर्ण संकेतार्थ काल बनाने के लिए भूतकालिक कृदन्त के साथ सामान्य संकेतार्थ काल के रूप लगाये जाते हैं, जैसे, “जो

तू एक बार भी जी से पुकारा होता तो तेरी पुकार तीरकी तरह तारों के पार पहुँची होती" । (गुटका०) ।

३-६०—आकारांत क्रियाओं में पुरुष के कारण भेद नहीं पड़ता; जैसे, मैं गया, तू गया, वह गया । जब उनके साथ सहकारी क्रिया आती है तब स्त्रीलिंग के बहुवचन का रूपांतर केवल सहकारी क्रिया में होता है; जैसे, मैं जाती हूँ, हम जाती हैं, वे जाती थीं ।

३-६१—उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप बहुधा (अं०—११८—ऊ) बोल-चाल में पुल्लिंग ही के समान होते हैं । राजा शिवप्रसाद का यही मत है और भाषा में इसके प्रयोग मिलते हैं; जैसे गौतमी—हम जाते हैं । (शकु०) । रानी—अब हम महल में जाते हैं । (कर्पूर०) ।

३-६२—आगे कर्तृवाच्य के सब कालों में तीन क्रियाओं के रूप लिखे जाते हैं । इन क्रियाओं में एक अकर्मक, एक सहकारी और एक सकर्मक है । अकर्मक क्रिया हलंत धातु की और सकर्मक क्रिया स्वरांत धातु की है । सहकारी "होना" क्रिया के कुछ रूप अनियमित होते हैं—

(अकर्मक) "चलना" क्रिया (कर्तृवाच्य)

धातु	चल (हलंत)
कर्तृवाचक संज्ञा	चलनेवाला
वर्तमानकालिक कृदंत	चलता-हुआ
भूतकालिक कृदंत	चला-हुआ
पूर्वकालिक कृदंत	चल, चलकर
तात्कालिक कृदंत	चलतेही
अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत	चलते-हुए
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत	चले-दुए

(क) धातु से बने-हुए काल
कर्त्तरिप्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल
कर्त्ता—पुल्लिग वा स्त्रीलिङ्ग

एकवचन	बहुवचन
१ मैं चलूँ	हम चलें
२ तू चले	तुम चलो
३ वह चले	वे चले

(२) सामान्य भविष्यत्-काल
कर्त्ता—पुल्लिङ्ग

१ मैं चलूँगा	हम चलेंगे
२ तू चलेगा	तुम चलोगे
३ वह चलेगा	वे चलेगे

कर्त्ता—स्त्रीलिङ्ग

१ मैं चलूँगी	हम चलेंगी
२ तू चलेगी	तुम चलोगी
३ वह चलेगी	वे चलेगी

(३) प्रत्यक्ष विधिकाल (साधारण)
कर्त्ता—पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग

१ मैं चलूँ	हम चले
२ तू चल	तुम चलो
३ वह चले	वे चले

(आइर-सूचक)

२ X

आप चलिये या चलियेगा

(४) परोक्ष विधिकाल (साधारण)

२ तू चलना वा चलियो	तुम चलना वा चलियो
--------------------	-------------------

२ × आप चलियेगा
 (ख) वर्त्तमानकालिक कृदन्त से बने हुए काल
 कर्त्तरिप्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थकाल
 कर्त्ता—पुल्लिंग

एकवचन

१ मैं चलता
 २ तू चलता
 ३ वह चलता

बहुवचन
 हम चलते
 तुम चलते
 वे चलते

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं चलती
 २ तू चलती
 ३ वह चलती

हम चलतीं
 तुम चलतीं
 वे चलतीं

(२) सामान्य वर्त्तमानकाल
 कर्त्ता—पुल्लिंग

१ मैं चलता हूँ
 २ तू चलता है
 ३ वह चलता है

हम चलते हैं
 तुम चलते हो
 वे चलते हैं

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं चलती हूँ
 २ तू चलती है
 ३ वह चलती है

हम चलती हैं
 तुम चलती हो
 वे चलती हैं

(३) अपूर्ण भूतकाल
 कर्त्ता—पुल्लिंग

१ मैं चलता था

हम चलते थे

एकवचन

- २ तू चलता था
- ३ वह चलता था

बहुवचन

- तुम चलते थे
- वे चलते थे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- | | |
|---------------|--------------|
| १ मैं चलती थी | हम चलती थीं |
| २ तू चलती थी | तुम चलती थीं |
| ३ वह चलती थी | वे चलती थीं |

(४) संभाव्य वर्त्तमानकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- | | |
|-----------------|--------------|
| १ मैं चलता होऊँ | हम चलते हैं |
| २ तू चलता हो | तुम चलते होओ |
| ३ वह चलता हो | वे चलते हैं |

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- | | |
|-----------------|--------------|
| १ मैं चलती होऊँ | हम चलती हैं |
| २ तू चलती हो | तुम चलती होओ |
| ३ वह चलती हो | वे चलती हो |

(५) संदिग्ध वर्त्तमानकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- | | |
|-------------------|----------------|
| १ मैं चलता होऊँगा | हम चलते होंगे |
| २ तू चलता होगा | तुम चलते होंगे |
| ३ वह चलता होगा | वे चलते होंगे |

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- | | |
|-------------------|---------------|
| १ मैं चलती होऊँगी | हम चलती होंगी |
| २ तू चलती होगी | तुम चलती होगी |
| ३ वह चलती होगी | वे चलती होंगी |

(६) अपूर्ण संकेतार्थ

कर्त्ता—पुल्लिंग

एक वचन

- १ मैं चलता होता
- २ तू चलता होता
- ३ वह चलता होता

बहुवचन

- हम चलते होते
- तुम चलते होते
- वे चलते होते

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं चलती होती
- २ तू चलती होती
- ३ वह चलती होती

- हम चलती होतीं
- तुम चलती होतीं
- वे चलती होतीं

(ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल

कर्त्तरिप्रयोग

(१) सामान्य भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं चला
- २ तू चला
- ३ वह चला

- हम चले
- तुम चले
- वे चले

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं चली
- २ तू चली
- ३ वह चली

- हम चलीं
- तुम चलीं
- वे चलीं

(२) आसन्न भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं चला हूँ
- २ तू चला है
- ३ वह चला है

- हम चले हैं
- तुम चले हो
- वे चले हैं

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

एकवचन

- १ मैं चली हूँ
- २ तू चली है
- ३ वह चली है

बहुवचन

- हम चली हैं
- तुम चली हो
- वे चली हैं

(३) पूर्ण भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं चला था
- २ तू चला था
- ३ वह चला था

- हम चले थे
- तुम चले थे
- वे चले थे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं चली थी
- २ तू चली थी
- ३ वह चली थी

- हम चली थीं
- तुम चली थीं
- वे चली थीं

(४) सभाव्य भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं चला होऊँ
- २ तू चला हो
- ३ वह चला हो

- हम चले हों
- तुम चले होओ
- वे चले हों

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं चली होऊँ
- २ तू चली हो
- ३ वह चली हो

- हम चली हों
- तुम चली होओ
- वे चली हों

(५) सदिग्ध भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं चला होऊँगा

- हम चले होंगे

एकवचन
२ तू चला होगा
३ वह चला होगा

बहुवचन
तुम चले होगे
वे चले होंगे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं चली होऊँगी
२ तू चली होगी
३ वह चली होगी

हम चली होंगी
तुम चली होगी
वे चली होंगी

(६) पूर्ण संकेतार्थ

कर्त्ता—पुल्लिंग

१ मैं चला होता
२ तू चला होता
३ वह चला होता

हम चले होते
तुम चले होते
वे चले होते

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं चली होती
२ तू चली होती
३ वह चली होती

हम चली होती
तुम चली होती
वे चली होती

(सहकारो) “होना”	(विकार-दर्शक)	क्रिया	(कर्तृवाच्य)
धातु	हो (स्वरांत)
कर्तृवाचक संज्ञा	होनेवाला
वर्त्तमानकालिक कृदंत	होता-हुआ
भूतकालिक कृदंत	हुआ
पूर्वकालिक कृदंत	हो, होकर
तात्कालिक कृदंत	होतेही

* इस क्रिया के कुछ रूप अनियमित हैं (अ०-३८६-ऊ) ।

अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त ... होते-हुए
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त हुए

(क) धातु से बने हुए काल

कर्त्तरिप्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल

(२) सामान्य भविष्यत्-काल

सू०—इन कालों के रूप ३८७ वें श्रक में दिये गये हैं ।

(३) प्रत्यक्ष विधिकाल (साधारण)

कर्त्ता पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग

एकवचन	बहुवचन
१ मैं होऊँ	हम हों, होवे
२ तू हो	तुम होओ, हो
३ वह हो, होवे	वे हो, होवें

(आदर-सूचक)

२ × आप हूजिये वा हूजियेगा

(४) परोक्ष विधिकाल (साधारण)

२ तू होना वा हूजियो तुम होना वा हूजियो

आदर-सूचक

२ × आप हूजियेगा

(ख) वर्त्तमानकालिक कृदन्त से बने हुए काल

कर्त्तरिप्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ काल

सू०—इस काल के रूपों के लिए ३८७ वाँ श्रक देखो ।

(२) सामान्य वर्तमानकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

एकवचन
१ मैं होता हूँ
२ तू होता है
३ वह होता है

बहुवचन
हम होते हैं
तुम होते हो
वे होते हैं

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं होती हूँ
२ तू होती है
३ वह होती है

हम होती हैं
तुम होनी हो
वे होती हैं

(३) अपूर्ण-भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

१ मैं होता था
२ तू होता था
३ वह होता था

हम होते थे
तुम होते थे
वे होते थे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं होती थी
२ तू होती थी
३ वह होती थी

हम होती थीं
तुम होती थीं
वे होती थीं

(४) संभाव्य वर्तमानकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

१ मैं होता हूँ
२ तू होता हो
३ वह होता हो

हम होते हों
तुम होते होओ
वे होते हों

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं होती हूँ

हम होती हों

एकवचन	बहुवचन
२ तू होती हो	तुम होती होओ
३ वह होती हो	वे होती हों

(५) संदिग्ध वर्त्तमानकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

१ मैं होता होऊँगा	हम होते होंगे
२ तू होता होगा	तुम होते होंगे
३ वह होता होगा	वे होते होंगे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं होती होऊँगी	हम होती होंगी
२ तू होती होगी	तुम होती होगी
३ वह होती होगी	वे होती होंगी

(६) अपूर्ण संकेतार्थ-काल

स०—इस काल में “होना” क्रिया के रूप नहीं होते ।

(ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल

कर्त्तरिप्रयोग

(१) सामान्य भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

१ मैं हुआ	हम हुए
२ तू हुआ	तुम हुए
३ वह हुआ	वे हुए

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं हुई	हम हुईं
२ तू हुई	तुम हुईं
३ वह हुई-	वे हुईं

(२) आसन्न-भूतकाल
कर्त्ता—पुल्लिंग

एकवचन

- १ मैं हुआ हूँ
- २ तू हुआ है
- ३ वह हुआ है

बहुवचन

- हम हुए हैं
- तुम हुए हो
- वे हुए हैं

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं हुई हूँ
- २ तू हुई है
- ३ वह हुई है

- हम हुई हैं
- तुम हुई हो
- वे हुई हैं

(३) पूर्ण भूतकाल
कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं हुआ था
- २ तू हुआ था
- ३ वह हुआ था

- हम हुए थे
- तुम हुए थे
- वे हुए थे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं हुई थी
- २ तू हुई थी
- ३ वह हुई थी

- हम हुई थीं
- तुम हुई थीं
- वे हुई थीं

(४) संभाव्य भूतकाल
कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं हुआ होऊँ
- २ तू हुआ हो
- ३ वह हुआ हो

- हम हुए हों
- तुम हुए होओ
- वे हुए हों

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं हुई होऊँ

- हम हुई हों

एकवचन
२ तू हुई हो
३ वह हुई हो

बहुवचन
तुम हुई होओ
वे हुई हों

(५) संदिग्ध भूतकाल

कर्ता—पुल्लिंग

१ मैं हुआ होऊँगा
२ तू हुआ होगा
३ वह हुआ होगा

हम हुए होंगे
तुम हुए होगे
वे हुए होंगे

कर्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं हुई होऊँगी
२ तू हुई होगी
३ वह हुई होगी

हम हुई होंगी
तुम हुई होगी
वे हुई होगी

(६) पूर्ण संकेतार्थकाल

कर्ता—पुल्लिंग

१ मैं हुआ होता
२ तू हुआ होता
३ वह हुआ होता

हम हुए होते
तुम हुए होते
वे हुए होते

कर्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं हुई होती
२ तू हुई होती
३ वह हुई होती

हम हुई होतीं
तुम हुई होतीं
वे हुई होतीं

सकर्मक “पाना” क्रिया (कर्तृवाच्य)

धातु..... पा (स्वरांत)
कर्तृवाचक संज्ञा पानेवाला

वर्तमानकालिक कृदंत.....	पाता-हुआ
भूतकालिक कृदंत.....	पाया-हुआ
पूर्वकालिक कृदंत.....	पा, पाकर
तात्कालिक कृदंत.....	पातेही
अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत.....	पाते-हुए
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत.....	पाये-हुए

(क) धातु से बने हुए काल
कर्त्तरि-प्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

एकवचन	बहुवचन
१ मैं पाऊँ	हम पाएँ, पावें, पायें
२ तू पाए, पावे, पाय	तुम पाओ
३ वह पाए, पावे, पाय	वे पाएँ, पावे, पायें

(२) सामान्य भविष्यत्-काल

कर्त्ता—पुल्लिंग

१ मैं पाऊँगा	हम पाएँगे, पावेंगे, पायेंगे
२ तू पाएगा, पावेगा, पायगा	तुम पाओगे
३ वह पाएगा, पावेगा, पायगा,	वे पाएँगे, पावेंगे, पायेंगे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१ मैं पाऊँगी	हम पाएँगी, पावेंगी, पायेंगी
२ तू पाएगी, पावेंगी, पायगी	तुम पाओगी
३ वह पाएगी, पावेंगी, पायगी	वे पाएँगी, पावेंगी, पायेंगी

(३) प्रत्यक्ष-विधिकाल (साधारण)

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

१ मैं पाऊँ	हम पाएँ, पावें, पायें
------------	-----------------------

एकवचन	बहुवचन
२ तू पा	तुम पाओ
३ वह पाए, पावे, पाय	वे पाएँ, पावे, पायें
(आदर-सूचक)	

२ × आप पाइये वा पाइयेगा
(४) परोक्ष-विधिकाल (साधारण)

२ तू पाना वा पाइयो	तुम पाना वा पाइयो
(आदर-सूचक)	

२ × आप पाइयेगा

(ख) वर्तमानकालिक कृदत से बने हुए काल
कर्त्तरि प्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थकाल

कर्त्ता—पुल्लिग

१ मैं पाता	हम पाते
२ तू पाता	तुम पाते
३ वह पाता	वे पाते

कर्त्ता—स्त्रीलिग

१ मैं पाती	हम पातीं
२ तू पाती	तुम पातीं
३ वह पाती	वे पातीं

(२) सामान्य वर्तमानकाल

कर्त्ता—पुल्लिग

१ मैं पाता हूँ	हम पाते हैं
२ तू पाता है	तुम पाते हो
३ वह पाता है	वे पाते हैं

(३४२)

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

एकवचन

- १ मैं पाती हूँ
- २ तू पाती है
- ३ वह पाती है

- बहुवचन
- हम पाती हैं
 - तुम पाती हो
 - वे पाती हैं

(३) अपूर्ण-भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं पाता था
- २ तू पाता था
- ३ वह पाता था

- हम पाते थे
- तुम पाते थे
- वे पाते थे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं पाती थी
- २ तू पाती थी
- ३ वह पाती थी

- हम पाती थीं
- तुम पाती थीं
- वे पाती थीं

(४) संभाव्य वर्त्तमानकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं पाता होऊँ
- २ तू पाता हो
- ३ वह पाता हो

- हम पाते हों
- तुम पाते होओ
- वे पाते हों

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

- १ मैं पाती होऊँ
- २ तू पाती हो
- ३ वह पाती हो

- हम पाती हों
- तुम पाती होओ
- वे पाती हों

(५) संदिग्ध वर्त्तमानकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

- १ मैं पाता होऊँगा

- हम पाते होंगे

एकवचन
२ तू पाता होगा
३ वह पाता होगा

बहुवचन
तुम पाते होंगे
वे पाते होंगे

कर्त्ता-स्त्रीलिंग

१ मैं पाती होऊँगी
२ तू पाती होगी
३ वह पाती होगी

हम पाती होंगी
तुम पाती होगी
वे पाती होंगी

(६) अपूर्ण सकेतार्थकाल

कर्त्ता-पुल्लिंग

१ मैं पाता होता
२ तू पाता होता
३ वह पाता होता

हम पाते होते
तुम पाते होते
वे पाते होते

कर्त्ता-स्त्रीलिंग

१ मैं पाती होती
२ तू पाती होती
३ वह पाती होती

हम पाती होतीं
तुम पाती होतीं
वे पाती होतीं

(ग) भूतकालिक कृदत से बने हुए काल

कर्मणि-प्रयोग

(१) सामान्य भूतकाल

कर्म-पुल्लिंग, एकवचन

कर्म-स्त्रीलिंग, एकवचन

मैंने वा हमने
तूने वा तुमने
उसने वा उन्होंने

पाया

मैंने वा हमने
तूने वा तुमने
उसने वा उन्होंने

पाई

कर्म-पुल्लिग, बहुवचन	कर्म-स्त्रीलिंग, बहुवचन
मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने	मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने
} पाये	} पाईं

(२) आसन्न भूतकाल

कर्म-पुल्लिग, एकवचन	कर्म-स्त्रीलिंग, एकवचन
मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने	मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने
} पाया है	} पाई

कर्म-पुल्लिग, बहुवचन	कर्म-स्त्रीलिंग, बहुवचन
मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने	मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने
} पाये हैं	} पाई हैं

(३) पूर्ण-भूतकाल

कर्म-पुल्लिग, एकवचन	कर्म-स्त्रीलिंग, एकवचन
मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने	मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने
} पाया था	} पाई थी

कर्म-पुल्लिग, बहुवचन	कर्म-स्त्रीलिंग, बहुवचन
मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने	मैंने वा हमने तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने
} पाये थे	} पाई थीं

(४) सभाव्य-भूतकाल

कर्म-पुल्लिंग	एकवचन	बहुवचन
मैंने वा हमने	} पाया हो	पाये हों
तूने वा तुमने		
उसने वा उन्होंने		
कर्म-स्त्रीलिंग	एकवचन	बहुवचन
मैंने वा हमने	} पाई हो	पाई हो
तूने वा तुमने		
उसने वा उन्होंने		

(५) संदिग्ध-भूतकाल

कर्म-पुल्लिंग	एकवचन	बहुवचन
मैंने वा हमने	} पाया होगा	पाये होंगे
तूने वा तुमने		
उसने वा उन्होंने		
कर्म-स्त्रीलिंग	एकवचन	बहुवचन
मैंने वा हमने	} पाई होगी	पाई होंगी
तूने वा तुमने		
उसने वा उन्होंने		

(६) पूर्ण सकेतार्थ काल

कर्म-पुल्लिंग	एकवचन	बहुवचन
मैंने वा हमने	} पाया होता	पाये होते
तूने वा तुमने		
उसने वा उन्होंने		

कर्म-छोलिंग	एकवचन	बहुवचन
मैने वा हमने	} पाई होती	} पाई हातीं
तूने वा तुमने		
उसने वा उन्होंने		

२—कर्मवाच्य

३६३—कर्मवाच्य क्रिया बनाने के लिए सकर्मक धातु के भूत-कालिक कृदंत के आगे “जाना” (सहकारी) क्रिया के सब कालों और अर्थों के रूप जोड़ते हैं । कर्मवाच्य के कर्मणि-प्रयोग में (अं०—३६७) कर्म उद्देश होकर अप्रत्यय कर्ता-कारक के रूप में आता है, और क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन उस कर्म के अनुसार होते हैं; जैसे, लड़का बुलाया गया है, लड़की बुलाई गई है ।

३६४—(क) जब सकर्मक क्रियाओं का आदर-सूचक रूप संभाव्य भविष्यत्-काल के अर्थ में आता है (अं०—३८६-३-ई), तब वह कर्मवाच्य होता है और “चाहिये” क्रिया को छोड़कर शेष क्रियाएँ भावेप्रयोग में आती हैं; जैसे, “क्या कहिये”, वायस पालिय अति अनुरागा । (राम०) ।

“ (ख) ‘चाहिये’ को कोई-कोई लेखक बहुवचन में ‘चाहियें’ लिखते हैं, जैसे, “वैसे ही स्वभाव के लोग भी चाहियें” । (सत्य०) । पर यह प्रयोग सार्वत्रिक नहीं है । “चाहिये” से बहुधा सामान्य वर्त्तमानकाल का अर्थ पाया जाता है, इसलिए भूतकाल के लिए इसके साथ “था” जोड़ देते हैं; जैसे, तेरा घोंसला किसी दीवार के ऊपर चाहिये था । इन उदाहरणों में “चाहिये” कर्मणिप्रयोग में है और इसका अर्थ “इष्ट” वा “अपेक्षित” है । यह क्रिया, अन्यान्य क्रियाओं की तरह, विधिकाल तथा दूसरे कालों में नहीं आती ।

३६५—आगे “देखना” सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य (कर्मणि-प्रयोग) के केवल पुल्लिङ्ग रूप दिये जाते हैं । स्त्रीलिङ्ग रूप कर्तृवाच्य काल-रचना के अनुकरण पर सहज ही बना लिये जा सकते हैं ।

(सकर्मक) “देखना” क्रिया (कर्मवाच्य)

धातु.....	देखा जा
कर्तृवाचक संज्ञा.....	देखा जानेवाला
वर्तमान कालिक कृदंत.....	देखा जाता हुआ
भूतकालिक कृदंत.....	देखा गया (देखा हुआ)
पूर्वकालिक कृदंत ..	देखा जाकर
तात्कालिक कृदंत... ..	देखे जाते ही
अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत... ..	देखे जाते हुए
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत.....	देखे गये हुए

(क्वचित्)

(क) धातु से बने हुए काल

कर्मणि-प्रयोग

(कर्म-पुल्लिङ्ग)

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल

एकवचन	बहुवचन
१ मैं देखा जाऊँ	हम देखे जाएँ, जावें, जायँ
२ तू देखा जाए, जावे, जाय	तुम देखे जाओ
३ वह ,, ,, ,, ,'	वे देखे जाएँ, जावे, जायँ

(२) सामान्य भविष्यत्-काल

१ मैं देखा जाऊँगा	हम देखे जाएँगे, जावेगे, जायँगे
२ तू देखा जाएगा, जावेगा, जायगा	तुम देखे जाओगे
३ वह ,, ,, ,,	वे देखे जाएँगे, जावेंगे, जायँगे

(३) प्रत्यक्ष-विधिकाल (साधारण)

एकवचन	बहुवचन
१ मैं देखा जाऊँ	हम देखे जायँ, जावें, जायँ
२ तू देखा जा	तुम देखे जाओ
३ वह देखा जाए, जावे, जाय	वे देखे जाएँ, जावें, जायँ

(४) परोक्ष-विधिकाल (साधारण)

२ तू देखा जाना वा जाइया	तुम देखे जाना वा जाइयो
-------------------------	------------------------

सू०—कर्मवाच्य में आदर-सूचक विधि के रूप नहीं पाये जाते ।

(ख) वर्त्तमानकालिक कृदन्त से बने हुए काल
कर्मणि-प्रयोग

(कर्म पुल्लिङ्ग)

(१) सामान्य संकेतार्थकाल

१ मैं देखा जाता	हम देखे जाते
२ तू " "	तुम " "
३ वह " "	वे " "

(२) सामान्य वर्त्तमानकाल

१ मैं देखा जाता हूँ	हम देखे जाते हैं
२ तू देखा जाता है	तुम देखे जाते हो
३ वह " " "	वे देखे जाते हैं

(३) अपूर्ण, भूतकाल

१ मैं देखा जाता था	हम देखे जाते थे
२ तू " " "	तुम " " "
३ वह " " "	वे " " "

(४) संभाव्य वर्त्तमानकाल

१ मैं देखा जाता होऊँ	हम देखे जाते हों
----------------------	------------------

एकवचन	बहुवचन
२ तू देखा जाता हो	तुम देखे जाते होओ
३ वह ,, ,, ,,	वे देखे जाते हों

(५) सदिग्ध वर्त्तमानकाल

१ मैं देखा जाता होऊँगा	हम देखे जाते होंगे
२ तू देखा जाता होगा	तुम देखे जाते होगे
३ वह ,, ,, ,,	वे देखे जाते होंगे

(६) अपूर्ण संकेतार्थकाल

१ मैं देखा जाता होता	हम देखे जाते होते
२ तू ,, ,,	तुम ,, ,,
३ वह ,, ,,	वे ,, ,,

(ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल

कर्मणिप्रयोग

(कर्म पुल्लिंग)

(१) सामान्य भूतकाल

१ मैं देखा गया	हम देखे गये
२ तू ,,	तुम ,,
३ वह ,,	वे ,,

(२) आसन्न भूतकाल

१ मैं देखा गया हूँ	हम देखे गये हैं
२ तू देखा गया है	तुम देखे गये हो
३ वह ,, ,, ,,	वे देखे गये हैं

(३) पूर्ण भूतकाल

१ मैं देखा गया था	हम देखे गये थे
-------------------	----------------

एकवचन	बहुवचन
२ तू ,, ,, ,,	तुम ,, ,, ,,
३ वह ,, ,, ,,	वे ,, ,, ,,

(४) संभाव्य भूतकाल

१ मैं देखा गया होऊँ	हम देखे गये हों
२ तू देखा गया हो	तुम देखे गये हो
३ वह ,, ,, ,,	वे देखे गये हों

(५) संदिग्ध भूतकाल

१ मैं देखा गया होऊँगा	हम देखे गये होंगे
२ तू देखा गया होगा	तुम देखे गये होंगे
३ वह ,, ,, ,,	वे देखे गये होंगे

(६) पूर्ण संकेतार्थकाल

१ मैं देखा गया होता	हम देखे गये होते
२ तू ,, ,, ,,	तुम ,, ,, ,,
३ वह ,, ,, ,,	वे ,, ,, ,,

३—भाववाच्य

३६६—भाववाच्य (अं०—३५१) अकर्मक क्रिया के उस रूप को कहते हैं जो कर्मवाच्य के समान होता है। भाववाच्य क्रिया में कर्म नहीं होता और उसका कर्ता करण-कारक में आता है। भाववाच्य क्रिया सदैव अनन्यपुरुष, पुल्लिङ्ग, एकवचन में रहती है; जैसे, हमसे चला न गया, रात-भर किसी से जागा नहीं जाता, इत्यादि।

३६७—भाववाच्य क्रिया सदा भावेप्रयोग में आती है (अं०—३६८-३) और उसका उपयोग अशक्तता के अर्थ में “न” वा “नहीं” के साथ होता है। भाववाच्य क्रिया सब कालों और कृदन्तों में नहीं आती।

३६८—जब अकर्मक क्रिया के आदर-सूचक विधिकाल का रूप संभाव्य भविष्यत्-काल के अर्थ में आती है तब वह भाववाच्य होता है, जैसे, “मन में आती है कि सब छोड़-छाड़ बैठे रहिए” । (शकु०) । यह भाववाच्य क्रिया भी भावेप्रयोग में आती है ।

३६९—यहाँ भाववाच्य के केवल उन्हीं रूपों के उदाहरण दिये जाते हैं जिनमें उसका प्रयोग पाया जाता है—

(अकर्मक) “चला जाना” क्रिया (भाववाच्य)

धातु..... चला जा

सू०—इस क्रिया से और कृदंत नहीं बनते ।

(क) धातु से बने हुए काल
भावेप्रयोग

(१) सभाव्य भविष्यत्-काल

एकवचन

बहुवचन

- १ मुझसे वा हमसे
२ तुझसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे

}

चला जाए, जावे, जाय

(२) सामान्य भविष्यत्-काल

- १ मुझसे वा हमसे
२ तुझसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे

}

चला जावेगा, जाएगा,
जायगा

(ख) वर्त्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल
भावेप्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ

- १ मुझसे वा हमसे
२ तुझसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे

}

चला जाता

(२) सामान्य वर्त्तमानकाल

एकवचन

बहुवचन

- १ मुझसे वा हमसे
२ तुझसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे
- } चला जाता है

(३) अपूर्ण भूतकाल

- १ मुझसे वा हमसे
२ तुझसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे
- } चला जाता था

(४) संभाव्य वर्त्तमानकाल

- १ मुझसे वा हमसे
२ तुझसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे
- } चला जाता हो

(५) संदिग्ध वर्त्तमानकाल

- १ मुझसे वा हमसे
२ तुझसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे
- } चला जाता होगा

(ग) भूतकालिक-कृदन्त से बने हुए काल

भावेप्रयोग

(१) सामान्य भूतकाल

- १ मुझसे वा हमसे
२ तुझसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे
- } चला गया

(२) आसन्न भूतकाल

१ मुझसे वा हमसे	}	चला गया है
२ तुझसे वा तुमसे		
३ उससे वा उनसे		

(३) पूर्ण भूतकाल

१ मुझसे वा हमसे	}	चला गया था
२ तुझसे वा तुमसे		
३ उससे वा उनसे		

(४) संभाव्य भूतकाल

१ मुझसे वा हमसे	}	चला गया हो
२ तुझसे वा तुमसे		
३ उससे वा उनसे		

(५) संदिग्ध भूतकाल

१ मुझसे वा हमसे	}	चला गया होगा
२ तुझसे वा तुमसे		
३ उससे वा उनसे		

सु०—कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो संयुक्त क्रियाएँ आती हैं उनका विचार आगामी अध्याय में किया जायगा । (अ० ४२१-४२६) ।

सातवाँ अध्याय

संयुक्त क्रियाएँ ।

४००—धातुओं के कुछ विशेष कृदंतों के आगे (विशेष अर्थ में) कोई-कोई क्रियाएँ जोड़ने से जो क्रियाएँ बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएँ कहते हैं, जैसे, करने लगना, जा सकना, मार देना, इत्यादि । इन उदाहरणों में करने, जा और मार कृदंत हैं और इनके

आगे लगना, सकना, देना क्रियाएँ जोड़ी गई हैं। संयुक्त क्रियाओं में मुख्य क्रिया का कृदंत रहता है और सहकारी क्रिया के काल के रूप रहते हैं।

४०१—कृदंत के आगे सहकारी क्रिया आने से सदैव संयुक्त क्रिया नहीं बनती। “लड़का बड़ा हो गया”, इस वाक्य में मुख्य धातु वा क्रिया “होना” है; “जाना” नहीं। “जाना” केवल सहकारी क्रिया है, इसलिए “हो गया” संयुक्त क्रिया है; परन्तु लड़का “तुम्हारे घर हो गया,” इस वाक्य में “हो” पूर्वकालिक कृदंत “गया” क्रिया की विशेषता बतलाता है; इसलिए यहाँ “गया” (इकहरी) क्रिया ही मुख्य क्रिया है। जहाँ कृदंत की क्रिया मुख्य होती है और काल की क्रिया उस कृदंत की विशेषता सूचित करती है वही दोनों को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह बात वाक्य के अर्थ पर अलंबित है; इसलिए संयुक्त क्रिया का निश्चय वाक्य के अर्थ पर से करना चाहिये।

[टी०— “संयुक्त कालों” के विवेचन में कहा गया है कि हिंदी में संयुक्त क्रियाओं को “संयुक्त कालों” से अलग मानने की चाल है और वहाँ इस बात का कारण भी संक्षेप में बता दिया गया है। संयुक्त क्रियाओं को अलग मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनमें जो सहकारी क्रियाएँ जोड़ी जाती हैं उनसे “काल” का कोई विशेष अर्थ सूचित नहीं होता, किंतु मुख्य क्रिया तथा सहकारी क्रिया के मेल से एक नया अर्थ उत्पन्न होता है। इसके सिवा “संयुक्त” कालों में जिन कृदंतों का उपयोग होता है उनसे बहुधा भिन्न कृदंत “संयुक्त” क्रियाओं में आते हैं; जैसे, “जाता था” संयुक्त काल है, पर “जाने लगा” वा “जाया चाहता है” संयुक्त क्रिया है। इस प्रकार अर्थ और रूप दोनों में “संयुक्त क्रियाएँ” “संयुक्त कालों” से भिन्न है, यद्यपि दोनों मुख्य क्रिया और सहकारी क्रिया के मेल से बनते हैं।

संयुक्त क्रियाओं से जो नया अर्थ पाया जाता है वह कालों के विशेष “अर्थ” से (अ०—३२६) भिन्न होता है और वह अर्थ इन क्रियाओं के किसी विशेष रूप से सूचित नहीं होता। पर कालों का “अर्थ” (आज्ञा,

संभावना, संदेह, आदि) बहुधा क्रिया के रूप ही से सूचित होता है । इस दृष्टि से संयुक्त क्रियाएँ इकहरी क्रियाओं के उस रूपांतर से भी भिन्न हैं जिसे “अर्थ” कहते हैं ।

किसी-किसी का मत है कि जिन दुहरी (वा तिहरी) क्रियाओं को हिंदी में संयुक्त क्रियाएँ मानते हैं वे यथार्थ में संयुक्त क्रियाएँ नहीं हैं, किंतु क्रिया-वाक्यांश हैं, और उनमें शब्दों का परस्पर व्याकरणिय संबंध पाया जाता है, जैसे, “जाने लगा” वाक्यांश में “जाने” क्रियार्थक संज्ञा अधिकरण-कारक में है और वह “लगा” क्रिया से “आधार” का संबंध रखती है । इस युक्ति में बहुत-कुछ बल है, परंतु जब हम “जाने में लगा” और “जाने लगा” के अर्थ को देखते हैं तब जान पड़ता है कि दोनों के अर्थों में बहुत अंतर है । एक से अपूर्णता और दूसरे से आरंभ सूचित होता है । इसी प्रकार “सो जाना” और “सोकर जाना” में भी अर्थ का बहुत अंतर है । इसके सिवा “स्वीकार करना”, “बिदा करना”, “दान करना”, “स्मरण होना” आदि ऐसी संयुक्त क्रियाएँ हैं जिनके अगों के साथ दूसरे शब्दों का संबंध बताना कठिन है, जैसे, “मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ” । इस वाक्य में “स्वीकार” शब्द भाववाचक संज्ञा है । यदि हम इसे “करना” का कर्म माने तो “बात” शब्द को किस कारक में मानेंगे ? और यदि ‘बात’ शब्द को संबंध कारक में मानें तो “मैंने आपकी बात स्वीकार की”, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार न मानकर “बात का” संबंध कारक के अनुसार मानना पड़ेगा जो यथार्थ में नहीं है । इससे संयुक्त क्रियाओं को अलग मानना ही उचित जान पड़ता है । जो लोग इन्हें केवल वाक्य-विन्यास का विषय मानते हैं वे भी तो एक प्रकार से इनके विवेचन की आवश्यकता स्वीकार करते हैं । रही स्थान की बात, सो उसके लिये इसमें बढ़कर कोई कारण नहीं है कि काल-रचना की कुछ विशेषताओं के कारण संयुक्त क्रियाओं का विवेचन क्रिया के रूपांतर ही के साथ करना चाहिए । कोई-कोई लोग संयुक्त क्रियाओं को समास मानते हैं, परंतु सामासिक शब्दों के विरुद्ध संयुक्त क्रियाओं के अगों के बीच में दूसरे शब्द भी आ जाते हैं, जैसे, “कहीं कोई आ न जाय”, इत्यादि ।]

४०२—रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएँ आठ प्रकार की होती हैं—

- (१) क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई ।
- (२) वर्त्तमानकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
- (३) भूतकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
- (४) पूर्वकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
- (५) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
- (६) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई ।
- (७) संज्ञा वा विशेषण से बनी हुई ।
- (८) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ ।

४०३—संयुक्त क्रियाओं में नीचे लिखी सत्रह सहकारी क्रियाएँ आती हैं :—होना, पड़ना, चाहना, चुकना, सकना, पाना, देना, लगना, लेना, रहना, डालना, जाना, करना, आना, चठना, बैठना, बनना । इनमें से बहुधा सकना और चुकना को छोड़ शेष क्रियाएँ स्वतन्त्र भी हैं और अर्थ के अनुसार दूसरी सहकारी क्रियाओं से मिलकर स्वयं संयुक्त क्रियाएँ हो सकती हैं ।

(१) क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

४०४—क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रिया में क्रियार्थक संज्ञा दो रूपों में आती हैं—(१) साधारण रूप में (२) विकृत रूप में (अ०—३०६) ।

४०५—क्रियार्थक संज्ञा के साधारण रूप के साथ “पड़ना,” “होना” वा “चाहिये” क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता-बोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे, करना पड़ता है, करना चाहिये । जब इन संयुक्त क्रियाओं में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग प्रायः विशेषण के समान होता है तब वह विशेष्य के लिंग-वचन के अनुसार बदलती है (अ०—३७२-अ); जैसे, कुलियों की मदद करनी चाहिये । मुझे दवा पीनी पड़ेगी । “जो हानी है सो

होगी” (सर०) । “पढ़ना”, “होना”, और “चाहिये” के अर्थ और प्रयोग की विशेषता नीचे लिखी जाती है:—

पढ़ना—इससे जिस आवश्यकता का बोध होता है उसमें पराधीनता का अर्थ गर्भित रहता है; जैसे, मुझे वहाँ जाना पढ़ता है ।

होना—इस सहकारी क्रिया से आवश्यकता वा कर्तव्य के सिवा भविष्यत् काल का भी बोध होता है, जैसे, “इस सगुन से क्या फल होना है ।” (शकु०) । यह क्रिया बहुधा सामान्य कालों ही में आती है, जैसे, जाना है, जाना था, जाना होगा, जाना होता, इत्यादि ।

चाहिये—जब इसका प्रयोग स्वतंत्र क्रिया के समान (अ०—३६४-ख) होता है तब इसका अर्थ “इष्ट वा अपेक्षित” होता है, परंतु संयुक्त क्रिया में इसका अर्थ “आवश्यकता वा कर्तव्य” होता है । इसका प्रयोग बहुधा सामान्य वर्तमान और सामान्य भूतकाल ही में होता है, जैसे, मुझे जाना चाहिये, मुझे जाना चाहिये था । “चाहिये” भूतकालिक कृदंत के साथ भी आता है । (अ०—४१०) ।

४०६—क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप से तीन प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं—(१) आरंभ-बोधक (२) अनुमति-बोधक (३) अवकाश-बोधक ।

(१) आरंभ-बोधक क्रिया “लगना” क्रिया के योग से बनती है, जैसे, वह कहने लगा ।

(अ) आरंभ-बोधक क्रिया का सामान्य भूतकाल, “क्यों” के साथ, सामान्य भविष्यत् की असंभवता के अर्थ में आता है; जैसे, हम वहाँ क्यों जाने लगे = हम वहाँ नहीं जायँगे । “इस रूपवान् युवक को छोड़कर वह हमें क्यों पसंद करने लगी ।” (रघु०) ।

(२) “देना” जोड़ने से अनुमति-बोधक क्रिया बनती है; जैसे, मुझे जाने दीजिये, उसने मुझे बोलने न दिया, इत्यादि ।

(३) अवकाश-बोधक क्रिया अर्थ में अनुमति-बोधक क्रिया की विरोधिनी है । इसमें “देना” के बदले “पाना” जोड़ा जाता है; जैसे, “यहाँ से जाने न पावेगी” (शकु०) । “बात न होने पाई ।”

(अ) “पाना” क्रिया कभी-कभी पूर्वकालिक कृदंत के धातुवत् रूप के साथ भी आती है; जैसे, “कुछ लोगों ने श्रीमान् को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया ।” (शिव०) ।

[टी०—अधिकांश हिंदी व्याकरणों में “देना” और “पाना” दोनों से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ अवकाश-बोधक कही गई हैं; पर दोनों से एक ही प्रकार के अवकाश का बोध नहीं होता और दोनों में प्रयोग का भी अन्तर है जो आगे (अ०—६३६—६३७ में) बताया जायगा । इसलिये हमने इन दोनों क्रियाओं को अलग-अलग माना है ।]

(२) वर्तमानकालिक कृदंत के योग से बनी हुई

४०७—वर्तमानकालिक कृदंत के आगे आना, जाना वा रहना क्रिया जोड़ने से नित्यता-बोधक क्रिया बनती है । इस क्रिया में कृदंत के लिंग-वचन विशेष्य के अनुसार बदलते हैं; जैसे, यह बात सनातन से होती आती है, पेड़ बढ़ता गया, पानी बरसता रहेगा, इत्यादि ।

(अ) इन क्रियाओं में अर्थ की जो सूक्ष्मता है वह विचारणीय है । “लड़की गाती जाती है,” इस वाक्य में “गाती जाती है” का यह भी अर्थ है कि लड़की गाती हुई जा रही है । इस अर्थ में “गाती जाती है” संयुक्त क्रिया नहीं है । (अ० ४००) ।

(आ) “जाता रहना” का अर्थ बहुधा “मर जाना”, “नष्ट

होना" वा "चला जाना" होता है; जैसे, "मेरे पिता जाते रहे", "चाँदी की सारी चमक जाती रही" (गुटका०), "नौकर घर से जाता रहेगा ।"

- (इ) "रहना" के सामान्य भविष्यत्-काल से अपूर्णता का बोध होता है, जैसे, जब तुम आओगे तब हम लिखते रहेंगे । इस अर्थ में कोई-कोई वैयाकरण इस संयुक्त क्रिया को अपूर्ण भविष्यत्-काल मानते हैं । (अ०—३५८, टी०) ।
- (ई) आना, रहना और जाना से क्रमशः भूत, वर्तमान और भविष्य नित्यता का बोध होता है, जैसे, लड़का पढ़ता आता है, लड़का पढ़ता रहता है, लड़का पढ़ता जाता है ।
- (उ) "चलना" क्रिया के वर्तमानकालिक कृदंत के साथ "होना" वा "बनना" क्रिया के सामान्य भूत-काल का रूप जोड़ने से पिछली क्रिया का निश्चय सूचित होता है, जैसे, वह प्रसन्न हो चलता बना ।

(३) भूतकालिक कृदंत से बनी हुई ।

४०८—अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत के आगे "जाना" क्रिया जोड़ने से तत्परता-बोधक संयुक्त क्रिया बनती है । यह क्रिया केवल वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए कालों में आती है, जैसे, लड़का आया जाता है, "मारे वू के सिर फटा जाता था" (गुटका०), मारे चिंता के वह मरी जाती थी, मेरे रोंगटे खड़े हुए जाते हैं, इत्यादि ।

- (अ) "जाना" के साथ "जाना" सहकारी क्रिया नहीं आती । "चलना" के साथ "जाना" लगाने से बहुधा पिछली क्रिया का निश्चय सूचित होता है; जैसे, वह चला गया ।
- (आ) कुछ पर्यायवाची क्रियाओं के साथ इसी अर्थ में "पढ़ना" जोड़ते हैं, जैसे, वह गिरा पढ़ता है, तू कूदी पढ़ती है ।

४०६—भूतकालिक कृदंत के आगे “करना” क्रिया जोड़ने से अभ्यासबोधक क्रिया बनती है; जैसे, तुम हमे देखो न देखो, हम तुम्हे देखा करें; “वारह वरम दिल्ली रहे, पर भाड़ ही भोंका किये” (भारत०) ।

[सू०—इस क्रिया का प्रचलित नाम “नित्यता-बोधक” है; पर जिसके हमने नित्यता-बोधक लिखा है (अ०—४०७) उसमें और इस क्रिया में रूप के सिवा अर्थ का भी (सूक्ष्म) अंतर है; जैसे, “लड़का पढ़ता रहता है” और “लड़का पढ़ा करता है।” इसलिए इस क्रिया का नाम अभ्यास-बोधक उचित जान पड़ता है ।]

४१०—भूतकालिक कृदंत के आगे “चाहना” क्रिया जोड़ने से इच्छा-बोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे, तुम किया चाहोगे तो सफाई होनी कौन कठिन है !” (परी०), “देखा चहीं जानकी साता” (राम०), “बेटाजी, हम तुम्हें एक अपने निज के काम से भेजा चाहते हैं” (मुद्रा०) ।

(अ) अभ्यास-बोधक और इच्छा-बोधक क्रियाओं में “जाना” का भूतकालिक कृदंत “जाया” और “मरना” का “मरा” होता है; जैसे, जाया करता है, मरा चाहता है । (अ०—३७६) ।

(आ) इच्छा-बोधक क्रिया के रूप में “चाहना” का आदर-सूचक रूप “चाहिये” भी आता है (अ०—४०५); जैसे, “महाराज, अब कहीं बलरामजी का विवाह किया चाहिये ।” (प्रेम०) । “मातु उचित पुनि आयसु दीन्हा । अवशि शीश धर चाहिये कीन्हा ।” (राम०) । यहाँ भी “चाहिये” से कर्तव्य का बोध होता है और यह क्रिया भावेप्रयोग में आती है ।

(इ) इच्छाबोधक क्रिया से कभी-कभी आसन्न भविष्यत् का भी बोध होता है, जैसे, “रानी रोहिताश्व का मृत-कंबल फाड़ा चाहती है कि रगभूमि को पृथ्वी हिलती है ।” (सत्य०) । “तू जय शब्द कहा चाहती थी, सो आँसुओं ने रोक लिया ।” (शकु०) । “गाड़ी आया चाहती है” । “घड़ो वजा चाहती है ।” इसी अर्थ में कर्तृवाचक संज्ञा (अ०—३७३) के साथ “होना” क्रिया के सामान्य कालों के रूप जोड़ते हैं, जैसे, “वह जानेवाला है”, “अब यह मरनहार भा साँचा” । (राम०) ।

(ई) इच्छा-बोधक क्रियाओं में क्रियार्थक संज्ञा के अविकृत रूप का प्रयोग अधिक होता है, जैसे, मैंने तपस्वी की कन्या को **रोकना चाहा**” (शकु०) । “(रानी) उन्मत्त की भाँति उठकर **दौड़ना चाहती है**” (सत्य०) । भूतकालिक कृदत से बने कालो मे बहुधा क्रियार्थक संज्ञा ही आती है; जैसे, “मैंने उसे देखा चाहा” के बदले “मैंने उसे **देखना चाहा**” अधिक प्रयुक्त है ।

(४) पूर्वकालिक कृदत के मेल से बनी हुई ।

[टी०—पूर्वकालिक कृदंत का एक रूप (अ०—३८०) धातुवत् होता है; इसलिए इस कृदत से बनी हुई संयुक्त क्रियाओं को हिंदी के वैयाकरण “धातु से बनी हुई” कहते हैं, पर हिंदी की उप-भाषाओं और हिंदुस्थान की दूसरी आर्य-भाषाओं का मिलान करने से जान पड़ता है कि इन क्रियाओं में मुख्य क्रिया धातु के रूप में नहीं, किंतु पूर्वकालिक कृदत के रूप में आती है । स्वयं बोलचाल की कविता में यह रूप प्रचलित है; जैसे, “मन के नद को उमगाय रही” । (क० क०) । यही रूप प्रजभाषा में प्रचलित है, जैसे, “जिसका यश छाया रहा चहुँ देश ।” (प्रेम०) । रामचरितमानस में इसके अनेको उदाहरण हैं, जैसे, “राखि न सकहिं न कहि सक जाहू ।” दूसरी भाषाओं के उदाहरण ये हैं—करून चुकणे (मराठी), कही चुकवूँ (गुज०), करिया चुकन (बँगला), करि सारिया (उड़िया)]

४११—पूर्वकालिक कृदंत के योग से तीन प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं—(१) अवधारणबोधक, (२) शक्तिबोधक, (३) पूर्णताबोधक ।

४१२—अवधारण-बोधक क्रिया से मुख्य क्रिया के अर्थ में अधिक निश्चय पाया जाता है । नीचे लिखी सहायक क्रियाएँ इस अर्थ में आती हैं । इन क्रियाओं का ठोक-ठाक उपयोग सर्वथा व्यवहार के अनुसार है ; तथापि इनके प्रयोग के कुछ नियम यहाँ दिये जाते हैं—

उठना—इस क्रिया से अचानकता का बोध होता है । इसका उपयोग बहुधा स्थितिदर्शक क्रियाओं के साथ होता है ; जैसे, बोल उठना, चिल्ला उठना, रो उठना, कॉप उठना, चौंक उठना, इत्यादि ।

बैठना—यह क्रिया बहुधा धृष्टता के अर्थ में आती है । इसका प्रयोग कुछ विशेष क्रियाओं ही के साथ होता है ; जैसे, मार बैठना, कह बैठना, चढ़ बैठना, खो बैठना । “उठना” के साथ “बैठना” का अर्थ बहुधा अचानकता-बोधक होता है ; जैसे, वह उठ बैठा ।

आना—कई स्थानों में इस क्रिया का स्वतंत्र अर्थ पाया जाता है, जैसे, देख आओ = देखकर आओ, लौट आओ = लौटकर आओ । दूसरे स्थानों में इससे यह सूचित होता है कि क्रिया का व्यापार वक्ता की ओर होता है ; जैसे, बादल घिर आये, आज यह चोर यम के घर से बच आया, इत्यादि । “बातहिवात कर्प बढ़ि आई ।” (राम०)

(अ) कभी कभी बोलना, कहना, रोना, हँसना, आदि क्रियाओं के साथ “आना” का अर्थ “उठना” के समान अचानकता का होता है, जैसे, “कह्यो चाहे कछू तो कछू कहि आयै ।” (जगत०) । उसकी बात सुनकर मुझे रो आया ।

जाना—यह क्रिया कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने में प्रयुक्त होती है; इसलिए कई एक सकर्मक क्रियाएँ इसके योग से अकर्म हो जाती हैं, जैसे,

कुचलना—कुचल जाना

खाना—खा जाना

छाना—छा जाना

लिखना—लिख जाना

धोना—धो जाना

सीना—सी जाना

छूना—छू जाना

भूलना—भूल जाना

पकड़ना—पकड़ जाना

उदा०—मेरे पैर के नीचे कोई कुचल गया। मैं चांडालों से छू गया हूँ। “यदि राक्षस लडाई करने को उद्यत होगा तौ भी पकड़ जायगा”। (मुद्रा०)।

इसका प्रयोग बहुधा स्थिति वा विकारदर्शक अकर्मक क्रियाओं के साथ पुर्याता के अर्थ में होता है; जैसे, हो जाना, बन जाना, फँस जाना, विगड़ जाना, फूट जाना, मर जाना, इत्यादि।

व्यापारदर्शक क्रियाओं में “जाना” के योग से बहुधा शीघ्रता का बोध होता है; जैसे, खा जाना, निगल जाना, पी जाना, पहुँच जाना, जान जाना, समझ जाना, आ जाना, घूम जाना, कह जाना, इत्यादि। कभी कभी “जाना” का अर्थ प्रायः स्वतंत्र होता है और इस अर्थ में “जाना” क्रिया “आना” के विरुद्ध होती है; जैसे, देख जाओ = देखकर जाओ, लिख जाओ = लिखकर जाओ, लौट जाना = लौटकर जाना, इत्यादि।

लेना—जिस क्रिया के व्यापार का लाभ कर्त्ता ही को प्राप्त होता है उसके साथ “लेना” क्रिया आती है। “लेना” के योग से बनी हुई संयुक्त क्रिया का अर्थ संस्कृत के आत्मनेपद के समान होता है, जैसे, खा लेना, पी लेना, सुन लेना, छीन लेना, कर लेना, समझ लेना, इत्यादि।

“होना” के साथ “लेना” से पूर्णता का अर्थ पाया जाता है, जैसे, “जब तक पहले बातचीत नहीं हो लेती तब तक किसीका किसीके साथ कुछ भी संबंध नहीं हो सकता।” (२घु०)। खो लेना, मर लेना, त्याग लेना आदि संयोग इसलिये अशुद्ध हैं कि इनके व्यापार से कर्त्ता को कोई लाभ नहीं हो सकता।

देना—यह क्रिया अर्थ मे “लेना” के विरुद्ध है और इसका उपयोग तभी होता है जब इसके व्यापार का लाभ दूसरेको मिलता है; जैसे, कह देना, छोड़ देना, समझा देना, खिला देना, सुना देना, कर देना, इत्यादि। इसका प्रयोग संस्कृत के परस्मैपद के समान होता है।

“देना” का संयोग बहुधा सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है; जैसे, मार देना, डाल देना, खो देना, त्याग देना, इत्यादि। चलना, हँसना, रोना, छींकना, आदि अकर्मक क्रियाओं के साथ भी “देना” आता है; परन्तु उनके साथ इसका अर्थ बहुधा अचानकता का होता है।

(अ) मारना, पटकना आदि क्रियाओं के साथ कभी-कभी “देना” पहले आता है और काल का रूपांतर दूसरी क्रिया में होता है; जैसे, दे मारा, दे पटका, इत्यादि।

“लेना” और “देना” अपने अपने कृदंतों के साथ भी आते हैं, जैसे, ले लेना, दे देना।

पढ़ना—यह क्रिया आवश्यकता-बोधक क्रियाओं मे भी आती है। अवधारण-बोधक क्रियाओं में इसका अर्थ बहुधा “जाना” के समान होता है और उसीके समान इसके योग से कई एक सकर्मक क्रियाएँ अकर्मक हो जाती हैं; जैसे, सुनना—सुन पढ़ना, जानना—जान पढ़ना। देखना—देख पढ़ना, सूझना—सूझ पढ़ना। समझना—समझ पढ़ना।

“पड़ना” क्रिया सभी सकर्मक क्रियाओं के साथ नहीं आती । अकर्मक क्रियाओं के साथ इसका अर्थ “घटना” होता है, जैसे, गिर पड़ना, चौंक पड़ना, कूद पड़ना, हँस पड़ना, आ पड़ना, इत्यादि ।

“बनना” के साथ “पड़ना” के बदले इसी अर्थ में कभी-कभी “आना” क्रिया आती है; जैसे, बात बन पड़ी = बन आई । “हैं बनियाँ बनि आये के साथी ।”

डालना—यह क्रिया केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ आती है । इससे बहुधा उग्रता का बोध होता है; जैसे, फोड़ डालना, काट डालना, मार डालना, फाड़ डालना, तोड़ डालना, कर डालना, इत्यादि ।

“मार देना” का अर्थ “चोट पहुँचाना” और “मार डालना” का अर्थ “प्राण लेना” है ।

रहना—यह क्रिया बहुधा भूतकालिक कृदन्तों से बने हुए कालों में आती है । इसके आसन्न-भूत और पूर्णभूत कालों से क्रमशः अपूर्णवर्तमान और अपूर्णभूत का बोध होता है, जैसे, लड़के खेल रहे हैं । लड़के खेल रहे थे । (अ०-३५८, टी०) । दूसरे कालों में इसका प्रयोग बहुधा अकर्मक क्रियाओं के साथ होता है, जैसे, बैठ रहो, वह सो रहा, हम पढ़ रहेंगे ।

रखना—इस क्रिया का व्यवहार अधिक नहीं होता और अर्थ में यह प्रायः “लेना” के समान है, जैसे, समझ रखना, रोक रखना, इत्यादि । ‘छोड़ रखना’ के बदले बहुधा ‘रख छोड़ना’ आता है ।

निकलना—यह क्रिया भी क्वचित् आती है । इसका अर्थ प्रायः “पड़ना” के समान है, और उसीके समान यह बहुधा अकर्मक क्रियाओं के साथ आती है; जैसे, चल निकलना, आ निकलना, इ० ।

४१३—एक ही कृदंत के साथ भिन्न-भिन्न अर्थों में भिन्न-भिन्न सहकारी क्रियाओं के योग से भिन्न-भिन्न अवधारण-बोधक क्रियाएँ बनती हैं; जैसे, देख लेना, देख देना, देख डालना, देख जाना, देख पड़ना, देख रहना, इत्यादि ।

४१४—शक्तिबोधक क्रिया “सकना” के योग से बनती है; जैसे, खा सकना, मार सकना, दौड़ सकना, हो सकना, इत्यादि ।

“सकना” क्रिया स्वतंत्र होकर नहीं आती; परंतु रामचरित-मानस में इसका प्रयोग कई स्थानों में स्वतंत्र हुआ है; जैसे, “सकहु तो आयसु धरहु सिर” ।

अंगरेजी के प्रभाव से कोई-कोई लोग प्रभुता प्रदर्शित करने के लिये शक्ति-बोधक क्रिया का प्रयोग सामान्य वर्त्तमानकाल में आज्ञा के अर्थ में करते हैं; जैसे, तुम जा सकते हो (तुम जाओ) । वह जा सकता है (वह जावे) ।

४१५—पूर्णताबोधक क्रिया “चुकना” क्रिया के योग से बनती है, जैसे, खा चुकना, पढ़ चुकना, दौड़ चुकना, इत्यादि ।

कोई-कोई लेखक पूर्णताबोधक क्रिया के सामान्य भविष्यत्-काल को अंगरेजी की चाल पर “पूर्ण भविष्यत्-काल” कहते हैं, जैसे, “वह जा चुकेगा” । इस प्रकार के नाम पूर्णताबोधक क्रियाओं के सब कालों को ठीक-ठीक नहीं दिये जा सकते; इसलिए इनके सामान्य भविष्यत् के रूपों को भी संयुक्त क्रिया ही मानना उचित है । (अं०—३५८-टी०) ।

इस क्रिया के सामान्य भूतकाल से बहुधा किसी काम के विषय में कर्त्ता की अयोग्यता सूचित होती है; जैसे, तुम जा चुके ! वह यह काम कर चुका !

“चुकना” क्रिया को कोई-कोई वैयाकरण “सकना” के समान परतंत्र क्रिया मानते हैं; पर इसका स्वतंत्र प्रयोग पाया जाता है;

जैसे, “गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊँ” (एकात०) ।

(५) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई ।

४१६—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के आगे “बनना” क्रिया के जोड़ने से योग्यताबोधक क्रिया बनती है, जैसे, उससे चलते नहीं बनता, लड़के से किताब पढ़ते नहीं बनती; इत्यादि । इससे बहुधा भाववाच्य का अर्थ सूचित होता है । (अं०—३५५) ।

यह क्रिया बहुधा पराधीनता के अर्थ में भी आती है, जैसे, उससे आते बना । कभी-कभी आश्चर्य के अर्थ में तात्कालिक कृदंत के आगे “बनना” जोड़ते हैं, जैसे, यह छवि देखतेही बनती है ।

(६) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत से बनी हुई ।

४१७—पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत से दो प्रकार की सयुक्त क्रियाएँ बनती हैं—(१) निरंतरता-बोधक (२) निश्चय-बोधक ।

४१८—सकर्मक क्रियाओं के पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के आगे “जाना” क्रिया जोड़ने से निरंतरता-बोधक क्रिया बनती है, जैसे, यह मुझे निगले जाता है । इस लता को क्यों छोड़े जाती है । लड़की यह काम किये जाती है । पढ़े जाओ ।

यह क्रिया बहुधा वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए कालों में तथा विधि-कालों में आती है ।

४१९—पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के आगे लेना, देना, डालना, और बैठना, (अवधारण की सहायक क्रियाएँ) जोड़ने से निश्चय-बोधक सयुक्त क्रियाएँ बनती हैं । ये क्रियाएँ बहुधा सकर्मक क्रियाओं के साथ वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए कालों में ही आती हैं, जैसे, मैं यह पुस्तक लिए लेता हूँ । वह कपड़ा दिये देता है । हम कुछ कहे बैठते हैं । वह मुझे सारे डालता है । “मैं उस आज्ञापत्र का अनुवाद किये देता हूँ” । (विचित्र०) ।

(७) संज्ञा वा विशेषण के योग से बनी हुई ।

४२०—संज्ञा (वा विशेषण) के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम-बोधक क्रिया कहते हैं; जैसे, भस्म होना, भस्म करना, स्वीकार होना, स्वीकार करना, मोल लेना, दिखाई देना ।

सू०—नामबोधक संयुक्त क्रियाओं में केवल वही संज्ञाएँ अथवा विशेषण आते हैं जिनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ नहीं होता । “ईश्वर ने लड़के पर दया की”, इस वाक्य में “दया करना” संयुक्त क्रिया नहीं है; क्योंकि “दया” संज्ञा “करना” क्रिया या कर्म है; परन्तु “लड़का दिखाई दिया”, इस वाक्य में “दिखाई देना” संयुक्त क्रिया है, क्योंकि “दिखाई” संज्ञा का ‘दिया’ से कोई संबंध नहीं है । यदि “दिखाई” को “दिया” क्रिया का कर्म मानें तो “लड़का” शब्द सप्रत्यय कर्ता कारक में होना चाहिये और क्रिया कर्मणि प्रयोग में आनी चाहिये, जैसे “लड़के ने दिखाई दी”, पर यह प्रयोग अशुद्ध है; इसलिये “दिखाई देना” को संयुक्त क्रिया मानने ही में व्याकरण के नियमों का पालन हो सकता है । इसी प्रकार “मैं आपकी योग्यता स्वीकार करता हूँ” इस वाक्य में “करता हूँ” क्रिया का कर्म, “स्वीकार” नहीं है, किन्तु “स्वीकार करता हूँ” संयुक्त क्रिया का कर्म “योग्यता” है ।

४२१—नामबोधक संयुक्त क्रियाओं में “करना”, “होना” (कभी-कभी “रहना”) और “देना” आते हैं । “करना” और “होना” के साथ बहुधा संस्कृत की क्रियार्थक संज्ञाएँ और “देना” के साथ हिन्दी की भाववाचक संज्ञाएँ आती हैं; जैसे,

होना

स्वीकार होना, नाश होना, स्मरण होना, कंठ होना, याद होना, विमर्जन होना, आरंभ होना, शुरू होना, सहन होना, भस्म होना, विदा होना ।

करना

स्वीकार करना, अगीकार करना, नाश करना, आरंभ करना, ग्रहण करना, श्रवण करना, उपार्जन करना, संपादन करना, विदा करना, त्याग करना ।

देना

दिखाई देना, सुनाई देना, पकड़ाई देना, छुलाई देना, बँधाई देना ।

(अ) “देना” के बदले कभी-कभी “पडना” आता है, जैसे, शब्द सुनाई पड़ा ।

सू०—कोई-काई लेखक नामयोधक क्रियाओं की संज्ञा के बदले, व्याकरण की शुद्धता के लिये, उसका विशेषण-रूप उपयोग में लाते हैं; जैसे, “सभा विसर्जन हुई” के बदले “सभा विसर्जित हुई”, “स्वीकार करना” के बदले “स्वीकृत करना,” इत्यादि । यह प्रयोग अभी सार्वत्रिक नहीं है और न इसके प्रचार की कोई आनश्यकता ही दीख पड़ती है ।

(८) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ ।

४२२—जब दो समान अर्थवाली वा समान ध्वनिवाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ कहते हैं; जैसे, पढ़ना-लिखना, करना-धरना, समझना-बूझना, बोलना-चालना, पूछना-ताछना, खाना-पीना, होना-हवाना, मिलना-जुलना, देखना-भालना ।

(अ) जो क्रिया केवल यमक (ध्वनि) मिलाने के लिये आती है वह निरर्थक रहती है, जैसे, ताछना, भालना, हवाना ।

(आ) पुनरुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाओं का रूपांतर होता है; परंतु सहायक क्रिया केवल पिछली क्रिया के साथ आती है;

जैसे, अपना काम देखो-भालो, यह वहाँ जाया-आया करता है, जहाज यहाँ आयँ-जायँगे, मिल-जुलकर, बोलता-चालता हुआ ।

४२३—संयुक्त क्रियाओं में कभी-कभी सहकारी क्रिया के कृदंत के आगे दूसरी सहकारी क्रिया आती है जिससे तीन अथवा चार शब्दों की भी संयुक्त क्रिया बन जाती है; जैसे, “उसकी तत्काल सफाई कर लेना चाहिये” । (परी०) । “उन्हे वह काम करना पड़ रहा है ।” (आदर्श०) । “हम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं ।” इत्यादि ।

४२४—संयुक्त क्रियाओं में अंतिम सहकारी क्रिया के धातु को पिछले कृदंत वा विशेषण के साथ मिलाकर संयुक्त धातु मानते हैं; जैसे, “उठा ले जा सकते हैं” क्रिया में “उठा ले जा सक” धातु माना जायगा । संस्कृत में भी ऐसे ही संयुक्त धातु माने जाते हैं; जैसे, प्रमाणीकृ, पयोधरीभू, इत्यादि ।

४२५—संयुक्त क्रियाओं में केवल नीचे लिखी सकर्मक क्रियाएँ कर्मवाच्य में आती हैं—

(१) आवश्यकता-बोधक क्रियाएँ जिनमें “होना” और “चाहिये” का योग होता है; जैसे, चिट्ठी लिखी जानी थी । काम देखा जाना चाहिये, इत्यादि ।

(२) आरम्भ-बोधक, जैसे, वह विद्वान् समझा जाने लगा । आप भी बड़ों में गिने जाने लगे ।

(३) अवधारण-बोधक क्रियाएँ जो “लेना”, “देना”, “डालना”, “रखना” के योग से बनती हैं; चिट्ठी भेज दी जाती है, काम कर लिया गया, पत्र फाड़ डाला जायगा, इत्यादि ।

(४) शक्ति-बोधक क्रियाएँ, जैसे चिट्ठी भेजी जा सकती है, काम न किया जा सका, इत्यादि ।

(५) पूर्णता-बोधक क्रियाएँ; जैसे, पानी लाया जा चुका ।
कपड़ा सिया जा चुकेगा, इत्यादि ।

सू०—आर भ-बोधक, शक्ति-बोधक और पूर्णता-बोधक क्रियाओं में मुख्य क्रिया के पश्चात् “जाना” क्रिया के रूप आते हैं; और फिर सहकारी क्रिया जोड़ी जाती है ।

(६) नाम-बोधक क्रियाएँ जो बहुधा संस्कृत क्रियार्थक सज्ञा के योग से बनती हैं, जैसे, यह बात स्वीकार की गई, कथा श्रवण की जायगी, हाथी मोल लिया जाता है, इत्यादि ।

(७) पुनरुक्त क्रियाएँ, जैसे, काम देखा-भाला नहीं गया, बात समझी-बूझी जायगी, इत्यादि ।

(८) नित्यता-बोधक, जैसे, काम किया जाता रहेगा = होता रहेगा । चिट्ठी लिखी जाती रही ।

४२६—भाववाच्य में केवल नाम-बोधक और पुनरुक्त अकर्मक क्रियाएँ आती हैं, जैसे, अन्याय देखकर किसी से चुप नहीं रहा जाता । लडके से कैसे चला-फिरा जायगा, इत्यादि ।

आठवाँ अध्याय ।

विकृत अव्यय ।

[शब्दों के रूपांतर के प्रकरण में अव्ययों का उल्लेख न्यायस गत नहीं है, क्योंकि अव्ययो में लिङ्ग वचनादि के कारण विकार (रूपांतर) नहीं होता । पर भाषा में निरपवाद नियम बहुत थोड़े पाये जाते हैं । भाषा-सत्रधी शास्त्रों में बहुधा अनेक अपवाद और प्रत्यपवाद रहते हैं । पूर्व में अव्ययो को अविकारी शब्द कहा गया है, परंतु कोई-कोई अव्यय विकृत रूप में भी आते हैं । इस अध्याय में इन्हीं विकृत अव्ययो का विचार किया जायगा । ये सब अव्यय बहुधा आकारांत होने के कारण आकारांत विशेषणों के समान उपयोग में आते हैं और उन्हीं के समान लिङ्ग-वचन के कारण इनका रूप पलटता है ।]

४२७—**क्रियाविशेषण**—जब आकारांत विशेषणों का प्रयोग क्रियाविशेषणों के समान होता है तब उनमें बहुधा रूपांतर होता है। इस रूपांतर के नियम ये हैं—

- (अ) परिमाणवाचक वा प्रकारवाचक क्रियाविशेषण जिस विशेषण के विशेषता बताते हैं उसी के विशेषण के अनुसार उनमें रूपांतर होता है; जैसे, “जो जितने बड़े हैं उनकी ईर्ष्या उतनी ही बड़ी है”। (सत्य०)। “शालाभ्यास उमका जैसा बढा हुआ था, चद्योग भी उसका वैसा ही अद्भुत था” (रघु०)। “नर-पर्वत के कसूर बड़े भारी हैं”। (विचित्र०)।
- (आ) अकर्मक क्रियाओं के कर्त्तरि-प्रयोग में आकारांत क्रियाविशेषण कर्त्ता के लिंग-वचन के अनुसार बदलते हैं; जैसे, “वे उनसे दूतने हिल गये थे”। (रघु०)। “वृत्तों की जड़ पवित्र वरहों के प्रवाह से धुलकर **वैसी** चमकती है!” (शकु०)। “प्यादे तं फरजी भयो **तिरछे तिरछे** जात”। (रहीम०)। “**जैसी** चले वयाग”। (कुण्ड०)।

अप०—इस प्रकार के वाक्यों में कभी-कभी क्रियाविशेषण का रूप अविकृत ही रहता है, जैसे, “जितना वे पहले तैयार करते थे **उतना** पीछे नहीं रहते”। (म्या०)। “यहाँ की त्रियाँ ठरपोक और वेवकूफ होने से **उतना** ही लजाती हैं **जितना** कि पुरुष”। (विचित्र०)। ये प्रयोग अनुकरणीय नहीं हैं, क्योंकि इन वाक्यों में आये हुए शब्द शुद्ध क्रियाविशेषण नहीं हैं। वे मूल-विशेषण होने के कारण संज्ञा और क्रिया दोनों से समान संबंध रखते हैं।

- (इ) अकर्मक कर्त्तरि और कर्मणि-प्रयोगों में प्रकृत क्रिया-विशेषण कर्म के लिंग-वचन के अनुसार बदलते हैं; जैसे, “एक सगर किमी महाजन् के धाग में जा कर्म-पके फल **मनमाने** गाता था”। “मंथे जमीन में **मीधे** गाते मने”। (विचित्र०)।

“ समुद्र अपनी बड़ो-बड़ी लहरें ऊँची उठाकर तट की तरफ बढ़ता है” । (रघु०) ।

अप०—जब सकर्मक क्रिया में कर्म की विवक्षा नहीं रहती तब उसका प्रयोग अकर्मक क्रियाके समान होता है, और प्रकृत क्रियाविशेषण कर्त्ता के साथ अन्वित न होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन (अविकृत) रूप में रहता है, जैसे, “मैं इतना पुकारतो हूँ ।” (सत्य०) । “लडकी अच्छा गाती है” । “वे तिरछा लिखते हैं ।” “इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैं” । (रघु०) ।

(ई) सकर्मक भावेप्रयोग में पूर्वोक्त क्रियाविशेषण विकल्प से विकृत अथवा अविकृत रूप में आते हैं, और अकर्मक भावेप्रयोग में बहुधा अविकृत रूप में, जैसे, “एकमात्र नंदिनी ही को उसने सामने खड़ी देखा” । (रघु०) । “इसको (हमने) इतना बड़ा बनाया ।” (मर०) । “मुझसे सीधा नहीं चला जाता” । (अ०—५६२) ।

सू०—सदा, सर्वदा, बहुधा, वृथा, आदि आकारात क्रियाविशेषणों का रूपांतर नहीं होता, क्योंकि ये शब्द मूल में विशेषण नहीं हैं ।

४२८—संबंध सूचक अव्यय—जो संबध-सूचक अव्यय मूल में विशेषण हैं (अ०—३४०) उनमें आकारता शब्द विशेष्य के लिंगवचनानुसार बदलते हैं । विशेष्य विभक्त्यंत किंवा संबधसूचकात् हो तो संबध-सूचक विशेषण विकृत रूप में आता है, जैसे, “तुम सरीखे छोकडे”, “यह आप ऐसे महात्माओं ही का काम है”, इत्यादि ।



दूसरा भाग ।

शब्द-साधन ।

तीसरा परिच्छेद ।

व्युत्पत्ति ।

पहला अध्याय ।

विषयारंभ ।

४२६—शब्द-साधन के तीन भाग हैं—वर्गीकरण, रूपांतर और व्युत्पत्ति । इनमें से पहले दो विषयों का विवेचन दूसरे भाग के पहले और दूसरे परिच्छेदों में हो चुका है । इस तीसरे परिच्छेद में व्युत्पत्ति अर्थात् शब्द-रचना का विचार किया जायगा ।

सू०—व्युत्पत्ति-प्रकरण में केवल यौगिक शब्दों की रचना का विचार किया जाता है, रूढ शब्दों का नहीं । रूढ शब्द किस भाषा के किस शब्द से बना है, यह बताना इस प्रकरण का विषय नहीं है । इस प्रकरण में केवल इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि भाषा का प्रचलित शब्द भाषा के अन्य प्रचलित शब्द से किस प्रकार बना है । उदाहरणार्थ, “हठीला” शब्द “हठ” शब्द से बना हुआ एक विशेषण है, अर्थात् “हठीला” शब्द यौगिक है, रूढ नहीं है, और केवल यही व्युत्पत्ति इस प्रकरण में बताई जायगी । “हठ” शब्द किस भाषा से किस प्रकार हिंदी में आया, इस बात का विचार इस प्रकरण में न किया जायगा । “हठ” शब्द दूसरी भाषा में, जिससे वह निकला है, चाहे यौगिक भी हो, पर हिंदी में यदि उसके कोई सार्थक नहीं है तो वह रूढ ही माना जायगा । इसी प्रकार “रसोई-घर” शब्द में केवल यह बताया जायगा कि यह शब्द “रसोई” और “घर” शब्दों

के समास से बना है, परंतु “रसोई” और “घर” शब्दों की व्युत्पत्ति किन भाषाओं के किन शब्दों से हुई है, यह बात व्याकरण-विषय के बाहर की है ।

४३०—एक ही भाषा के किसी शब्द से जो दूसरे शब्द बनते हैं वे बहुधा तीन प्रकार से बनाये जाते हैं । किसी-किसी शब्द के पूर्व एक-दो अक्षर लगाने से नये शब्द बनते हैं, किसी-किसी शब्द के पश्चात् एक-दो अक्षर लगाकर नये शब्द बनाये जाते हैं, और किसी-किसी शब्द के साथ दूसरा शब्द मिलाने से नये संयुक्त शब्द तैयार होते हैं ।

(अ) शब्द के पूर्व जो अक्षर वा अक्षर-समूह लगाया जाता है उसे **उपसर्ग** कहते हैं, जैसे, “वन” शब्द के पूर्व “अन” निषंधार्थी अक्षर-समूह लगाने से “अनवन” शब्द बनता है । इस शब्द, में “अन” (अक्षर-समूह) को उपसर्ग कहते हैं ।

सू०—संस्कृत में शब्दों के पूर्व आनेवाले कुछ नियत अक्षरों ही को उपसर्ग कहते हैं और बाकी को अव्यय मानते हैं । यह अक्षर उस भाषा की दृष्टि से महत्त्व का भी हो, पर हिंदी में ऐसा अक्षर मानने का कोई कारण नहीं है । इसलिए हिंदी में “उपसर्ग” शब्द की योजना अधिक व्यापक अर्थ में होती है ।

(आ) शब्दों के पश्चात् (आगे) जो अक्षर वा अक्षर-समूह लगाया जाता है उसे **प्रत्यय** कहते हैं, जैसे, “बड़ा” शब्द में “आई” (अक्षर-समूह) से “बड़ाई” शब्द बनता है, इसलिए “आई” प्रत्यय है ।

सू०—रूपांतर-प्रकरण में जो कारक-प्रत्यय और काल-प्रत्यय कहे गये हैं उनमें और व्युत्पत्ति-प्रत्ययों में अक्षर हैं । पहले दो प्रकार के प्रत्यय चरम-प्रत्यय हैं अर्थात् उनके पश्चात् और कोई प्रत्यय नहीं लग सकते । हिंदी में अधिकरण कारक के प्रत्यय इस नियम के अपवाद हैं, तथापि विभक्तियों का साधारणतया चरम-प्रत्यय मानते हैं । परन्तु व्युत्पत्ति में जो प्रत्यय आते हैं वे

चरम-प्रत्यय नहीं हैं; क्योंकि उनके पश्चात् दूसरे प्रत्यय आ सकते हैं। उदाहरण के लिये “चतुराई” शब्द में “आई” प्रत्यय है और इस प्रत्यय के पश्चात् ‘से’ ‘को’, आदि प्रत्यय लगाने से “चतुराई से” “चतुराई को” आदि शब्द सिद्ध होते हैं, पर “से” “को”, आदि के पश्चात् “आई” अथवा और कोई व्युत्पत्ति-प्रत्यय नहीं लग सकता।

यौगिक शब्दों में जो अव्यय हैं (जैसे, चुपके, लिये, धीरे, आदि) उनके प्रत्ययों के आगे भी बहुधा दूसरे प्रत्यय नहीं आते, परन्तु उनको चरम-प्रत्यय नहीं कहते, क्योंकि उनके पश्चात् विभक्तियों का लोप हो जाता है। सारांश यह है कि कारक-प्रत्यय और काल-प्रत्ययो ही को चरम-प्रत्यय कहते हैं।

(इ) दो अथवा अधिक शब्दों के मिलने से जो संयुक्त शब्द बनता है उसे समास कहते हैं; जैसे, रसोई-वर, मँझधार, पैसेरी, इत्यादि।

स०—एक अक्षर का शब्द भी होता है, और अनेक अक्षरों के उपसर्ग और प्रत्यय भी होते हैं, इसलिए बाह्य स्वरूप देखकर यह बताना कठिन है कि शब्द कौनसा है और उपसर्ग अथवा प्रत्यय कौनसा है। ऐसी अवस्था में उनके अर्थ के अंतर पर विचार करना आवश्यक है। जिस अक्षर या अक्षर-समूह में स्वतंत्रतापूर्वक कोई अर्थ पाया जाता है उसे शब्द कहते हैं, और जिस अक्षर या अक्षर-समूह में स्वतंत्रतापूर्वक कोई अर्थ नहीं पाया जाता अर्थात् स्वतंत्रता-पूर्वक जिसका प्रयोग नहीं होता और जो किसी शब्द के आश्रय से उसके पीछे अथवा आगे आकर अर्थवान् होता है, उसे प्रत्यय अथवा उपसर्ग कहते हैं।

४३१—उपसर्ग प्रत्यय और समास से बने हुए शब्दों के सिवा हिंदी में और दो प्रकार के यौगिक शब्द हैं जो क्रमशः पुनरुक्त और अनुकरण-वाचक कहलाते हैं। पुनरुक्त शब्द किसी शब्द को दुहराने से बनते हैं, जैसे, घर-घर, मारामारी, कामधाम, उर्दू-सुर्दू, काट-कूट, इत्यादि। अनुकरण-वाचक शब्द, जिनको कोई-कोई वैयाकरण पुनरुक्त शब्दों का ही भेद मानते हैं, किसी पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं; जैसे, गवटगवटाना, घडाम, चट, इत्यादि।

४३२—प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के दो मुख्य भेद हैं—
कृदंत और तद्धित । धातुओं से परे जो प्रत्यय लगाये जाते हैं
 उन्हें कृत् कहते हैं, और कृत् प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं
 वे कृदंत कहलाते हैं । धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे
 प्रत्यय लगाने से जो शब्द तैयार होते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं ।

सू०—हिंदी-भाषा में जो शब्द प्रचलित हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके
 विषय में यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई । इस
 प्रकार के शब्द देशज कहलाते हैं । इन शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी है
 और संभव है कि आधुनिक आर्यभाषाओं की वदना के नियमों की अधिक
 खोज और पहचान होने से अंत में इनकी संख्या बहुत कम हो जायगी ।
 देशज शब्दों को छोड़कर हिंदी के अधिकांश शब्द दूसरी भाषाओं से आये
 हैं जिनमें संस्कृत, उर्दू और आजकल अँगरेजी मुख्य है । इनके सिवा मराठी
 और बंगला भाषाओं से भी हिंदी का थोड़ा बहुत ससागम हुआ है ।
 व्युत्पत्तिप्रकरण में पूर्वोक्त भाषाओं के शब्दों का अलग-अलग विचार किया
 जायगा ।

दूसरी भाषाओं से और विशेषकर संस्कृत से जो शब्द मूल शब्दों में
 कुछ विकार होने पर हिंदी में रूढ़ हुए हैं वे तद्भव कहलाते हैं । दूसरे
 प्रकार के संस्कृत-शब्दों को तत्सम कहते हैं । हिंदी में तत्सम शब्द भी
 आते हैं । इस प्रकरण में केवल तत्सम शब्दों का विचार किया जायगा,
 क्योंकि तद्भव शब्दों की व्युत्पत्ति का विचार करना व्याकरण का विषय नहीं,
 किंतु कोश का है ।

हिंदी में जो यौगिक शब्द प्रचलित हैं वे बहुधा उर्दू एक भाषा के
 प्रत्ययों और शब्दों के योग से बने हैं जिस भाषा से वे आये हैं, परंतु कोई
 कोई शब्द ऐसे भी हैं जो दो भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों और प्रत्ययों के योग
 से बने हैं । इस बात का स्पष्टीकरण यथास्थान किया जायगा ।

दूसरा अध्याय ।

उपसर्ग ।

४३३—पहले संस्कृत उपसर्ग मुख्य अर्थ और उदाहरण सहित दिये जाते हैं । संस्कृत में इन उपसर्गों को धातुओं के साथ जोड़ने से उनके अर्थ में हेरफेर होता है*, परंतु उस अर्थ का स्पष्टीकरण हिंदी-व्याकरण का विषय नहीं है । हिंदी में उपसर्ग-युक्त जो संस्कृत तत्सम शब्द आते हैं उन्हीं शब्दों के संबंध में यहाँ उपसर्गों का विचार करना कर्तव्य है । ये उपसर्ग कभी-कभी निरे हिंदी शब्दों में लगे हुए भी पाये जाते हैं जिनके उदाहरण यथास्थान दिये जायेंगे ।

(क) संस्कृत उपसर्ग ।

अति = अधिक, उस पार, ऊपर, जैसे, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार ।

सू०—हिंदी में 'अति' इसी अर्थ में स्वतंत्र शब्द के समान भी प्रयुक्त होता है, जैसे, "अति बुरी होती है ।" "अति संघर्ष" (राम०) ।

अधि = ऊपर, स्थान में, श्रेष्ठ, जैसे, अधिकरण, अधिकार, अधिपाठक, अधिराज, अधिष्ठाता, अध्यात्म ।

अनु = पीछे, समान, जैसे, अनुकरण, अनुक्रम, अनुग्रह, अनुचर, अनुज, अनुताप, अनुरूप, अनुशासन, अनुस्वार ।

अप = बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, इत्यादि, जैसे, अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपराध, अपशब्द, अपसव्य, अपहरण ।

अभि = ओर, पास, सामने; जैसे, अभिप्राय, अभिमुख, अभिमान, अभिलाष, अभिसार, अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय ।

* उपसर्गों के धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते ।

अव = नीचे, हीन, अभाव, जैसे, अवगत, अवगाह, अवगुण, अवतार, अवनत, अवलोकन, अवसान, अवस्था ।

सू०--प्राचीन कविता में "अव" का रूप बहुधा "आ" पाया जाता है, जैसे, आगुन, आसर ।

आ = तक, ओर, समेत, उलटा, जैसे, आकर्षण, आकार, आकाश, आक्रमण, आगमन, आचरण, आजन्म, आवालवृद्ध, आरंभ, इत्यादि ।

उत्—**द्** = ऊपर, ऊँचा श्रेष्ठ, जैसे, उत्कर्ष, उत्कठा, उत्तम, उद्यम, उद्देश्य, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख ।

उप—निकट, सदृश, गौण, जैसे, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपनेत्र, उपभेद, उपयोग, उपवन, उपवेद ।

दुर्, **दुस्**—बुरा, कठिन, दुष्ट, जैसे, दुराचार, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्दिन, दुर्बल, दुर्लभ, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, दुःसह ।

नि—भीतर, नीचे, बाहर, जैसे, निकृष्ट, निदर्शन, निदान, निपात, निवध, नियुक्त, निवास, निरूपण ।

निर्, **निस्**—बाहर, निषेध, जैसे, निराकरण, निर्गम, निशक, निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निश्चल, निर्दोष, नीरोग (हि०—निरोगी) ।

सू०—हिंदी में यह उपसर्ग बहुधा "नि" हो जाता है, जैसे, निधन, निवल, निडर, इत्यादि ।

परा—पीछें, उलटा, जैसे, पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, परावर्त्तन, इत्यादि ।

परि—आसपास, चारों ओर, पूर्ण, जैसे, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, परिमाण, परिवर्त्तन, परिणय, पर्याप्त ।

प्र—अधिक, आगे, ऊपर, जैसे, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रवल, प्रभु, प्रयाग, प्रसार, प्रस्थान, प्रलय ।

प्रति—विरुद्ध, सामने, एक-एक; जैसे, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, प्रत्येक ।

वि—भिन्न, विशेष, अभाव; जैसे, विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण (हि०—विसरना) ।

सम्—अच्छा, साथ, पूर्ण, जैसे, संकल्प, सगम, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार ।

सु—अच्छा, सहज, अधिक, जैसे, सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुशिक्षित, सुदूर, स्वागत ।

हिदी—सुडौल, सुजान, सुघर, सपूत ।

४३४—कभी-कभी एक ही शब्द के साथ दो-तीन उपसर्ग आते हैं, जैसे, निराकरण, प्रत्युपकार, समालोचना, समभिव्याहार (भा० प्र०) ।

४३५—संस्कृत शब्दों में कोई-कोई विशेषण और अव्यय भी उपसर्गों के समान व्यवहृत होते हैं । इनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुधा स्वतंत्र रूप से उपयोग में नहीं आते ।

अ—अभाव, निषेध; जैसे, अगम, अज्ञान, अधर्म, अनीति, अलौकिक, अव्यय ।

स्वरादि शब्दों के पहले “अ” के स्थान में “अन्” हो जाता है और “अन्” के “न्” में आगे का स्वर मिल जाता है । उदा०—अनन्तर, अनिष्ट, अनाचार, अनादि, अनायास, अनेक ।

हि०—अछूत, अजान, अटल, अथाह, अलग ।

अधस्—नीचे, उदा०—अधोगति, अधोमुख, अधोभाग, अधःपतन, अधस्तल ।

अंतर—भीतर; उदा०—अंतःकरण, अंतःस्थ, अंतर्दशा, अंतर्धान, अंतर्भाव, अंतर्वेदी ।

अमा—पास, उदा०—अमात्य, अमावास्या ।

अलम्—सुंदर, उदा०—अलंकार, अलंकृत, अलकृति । यह अव्यय बहुधा कृ (करना) धातु के पूर्व आता है ।

आविर—प्रकट, बाहर, उदा०—आविर्भाव, आविष्कार ।

इति—ऐसा, यह, उदा०—इतिवृत्त, इतिहास, इतिकर्तव्यता ।

सू०—“इति” शब्द हिंदी में बहुधा इसी अर्थ में स्वतंत्र शब्द के समान भी आता है (अ०—२२७) ।

कु (का, कद)—बुरा, उदा०—कुकर्म, कुरूप, कुशकुन, कापुरुष, कदाचार ।

हि०—कुचाल, कुठौर, कुडौल, कुढगा, कपूत ।

चिर—बहुत, उदा०—चिरकाल, चिर जीव, चिरायु ।

तिरस्—तुच्छ, उदा०—तिरस्कार, तिरोहित ।

न—अभाव; उदा०—नक्षत्र, नग, नपुसक, नास्तिक ।

नाना—बहुत, उदा०—नानारूप, नानाजाति ।

सू०—हिंदी में “नाना” बहुधा स्वतंत्र शब्द के समान प्रयुक्त होता है, जैसे, “लागे विटप मनोहर नाना (राम०) ।

पुरस्—सामने, आगे, जैसे, पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरोहित ।

पुरा—पहले जैसे पुरातत्त्व, पुरातन, पुरावृत्त ।

पुनर्—फिर, जैसे, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुक्त ।

प्राक्—पहले का, जैसे प्राक्थन, प्राक्कर्म, प्राक्तन ।

प्रातर्—सवेरे, जैसे, प्रात काल, प्रातःस्नान, प्रातःस्मरण ।

प्रादुर्—प्रकट; जैसे प्रादुर्भाव ।

वहिल्—बाहर जैसे, वहिर्द्वार, वहिष्कार ।

स—सहित; जैसे, सगौत्र, सजातीय, सजीव, सरस, सावधान, सफल (हि०—सुफल) ।

हिंदी—सचेत, सबेरा, मलग, सहेली, साढ़े (सं०—साढ़),
डयादि ।

सत्—अच्छा ; जैसे, सज्जन, सत्कर्म, सत्पात्र, सद्गुरु ।

सह—साथ, जैसे, सहकारी, सहगमन, सहज, सहचर,
सहानुभूति, सहोदर ।

स्व—अपना, निजी, उदा०—स्वतंत्र, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाव,
स्वभाषा, स्वराज्य, स्वरूप ।

स्वयं—खुद, अपने आप ; जैसे, स्वयं-भू, स्वयंवर, स्वयं-सिद्ध,
स्वयं-सेवक ।

सू०—कृ और भू (संस्कृत) धातुओं के पूर्व कई शब्द—विशेषकर संज्ञाएँ
और विशेषण—ईकारांत अव्यय होकर आते हैं ; जैसे, स्वीकार, वर्गीकरण,
वशीकरण, द्रवीभूत, फलीभूत, भस्मीभूत, वशीभूत, समीकरण ।

(ख) हिंदी उपसर्ग

ये उपसर्ग बहुधा संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं और विशेष-
कर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं ।

अ = अभाव, निषेध ; उदा०—अचेत, अजान, अथाह, अवेर,
अलग ।

अपवाद—संस्कृत में स्वरादि शब्दों के पहले अ के स्थान में अन्
हो जाता है, परंतु हिंदी में अन् व्यंजनादि शब्दों के पूर्व आता
है ; जैसे, अनगिनती, अनघेरा (कुं०), अनवन, अनमल (राम०),
अनमोल, अनहित (राम०) ।

सू०—(१) अनूठा, अनाखा और अनैसा शब्द संस्कृत के अपभ्रंश
जान पड़ते हैं जिनमें अन् उपसर्ग आया है ।

(२) कभी-कभी यह प्रत्यय भूल से लगा दिया जाता है जैसे अलोप,
अचपल ।

अध—(स०—अर्द्ध) = आधा, उदा०—अधकच्चा, अधपई, अधपका, अधमरा, अधसेरा ।

सू०—“अधूरा” शब्द “अध + पूरा” का अपभ्रंश जान पड़ता है ।

उन (स० उन)— एक कम; जैसे उन्नोस, उन्तोम, उनचास उनमठ, उनहत्तर, उन्नासी ।

औ (सं०—अव) = हीन, निषेध, इत्यादि, उदा०—औगुन, औघट, औदसा, औढर, औसर ।

दु (सं०—दुर्) = बुरा, हीन, उदा०—दुकाल (राम०), दुवला ।

नि (स०—निर्) = रहित, उदा०—निकम्मा निखरा, निडर, निधडक, निरोगी, निहत्था । यह प्रत्यय उर्द्ध के ‘खालिस’ (= शुद्ध), शब्द में व्यर्थ ही जोड़ दिया जाता है, जैसे, निखालिस ।

विन (स०—विना) = निषेध, अभाव, इत्यादि, उदा०—विनजाने, विन-बोया, विन-व्याहा ।

भर = पूरा, ठीक, उदा०—भरपेट, भर-दौड (शकु०), भरपूर, भरसक, भरकोर ।

(ग) उर्द्ध उपसर्ग ।

अल (अ०) = निश्चित, उदा०—अलगरज अलवत्ता, ।

ऐन (अ०) = ठीक, पूरा, उदा०—ऐनजवानी, ऐनवक्त ।

सू०—यह उपसर्ग हिंदी “भर” का पर्यायवाची है ।

कम = थोड़ा, हीन, उदा०—कमउम्र, कमकीमती, कमजोर, कमवस्त, कमहिम्मत ।

सू०—कभी-कभी यह उपसर्ग एक-दो हिंदी शब्दों में लगा हुआ मिलता है जैसे, कमसमक, कमदाम ।

खुश = अच्छा; उदा०—खुशवू, खुशदिल, खुश-किस्मत ।

गैर (अ०—गैर) = भिन्न, विरुद्ध, उदा०—गैरमनकूला, गैर-मुल्क, गैरवाजिब, गैरसरकारी ।

स०—“वगैरह” शब्द में “व” (और) समुच्चय-बोधक है और “गैरह” “गैर” का बहुवचन है । इस शब्द का अर्थ है “और दूसरे ।”

दर = में; उदा०—दरअसल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत ।

ना—अभाव (सं०—न); उदा०—नाउम्मेद, नादान, नाप-सन्द, नाराज, नालायक, नासाज ।

फी (अ०)—में, पर, जैसे, फिलहाल (फी + अल + हाल) = हाल में, फी आदमी ।

ब = और, मे, अनुसार; उदा०—बनाम, ब-इजलाम, बदस्तूर, बदैलत ।

बद = बुरा; उदा०—बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदफैल, बदबू, बदमाश, बदराह (सत०), बदहजमी, इत्यादि ।

बर = ऊपर; उदा०—बरखास्त, बरदाश्त, बरतरफ, बरवक्त, बराबर ।

बा = साथ, उदा०—बाजाबता, बाकायदा, बातमीज ।

बिल (अ०) = साथ; उदा०—बिलकुल, बिलमुकता ।

बिला (अ०) = बिना; उदा०—बिलाकुसूर, बिलाशक ।

बे = बिना, उदा०—बेईमान, बेचारा (हि०—बिचारा), बेतरह, बेवकूफ, बेरहम ।

स०—यह उपसर्ग बहुधा हिंदी-शब्दों में भी लगाया जाता है जैसे, बेकाम, बेचैन, बेजोड़, बेमन, बेडौल, बेसुर । “बाहियात” और “फुजूल” शब्दों के साथ यह उपसर्ग भूल से जोड़ दिया जाता है; जैसे, बे-बाहियात बेफुजूल ।

ला (अ०) = विना, अभाव, उदा०—लाचार, लावारिस, लाजवाब, लामजहब, इत्यादि ।

सर = मुख्य, उदा०—सरकार, सरताज (हिं०—सिरताज), सरदार, सरनाम (हिं०—सिर-नामा), सरखत, सरहद ।

हि०—सरपञ्चम ।

हम—साथ, समान, उदा०—हमउम्र, हमदर्दी, हमनाम हमराह, हमवजन ।

हर—प्रत्येक; उदा०—हररोज, हरमाह, हरचीज हरसाल, हर-तरह ।

[सू०—इस उपसर्ग का उपयोग हिंदी शब्दों के साथ अधिकता से होता है, जैसे, हरकाम, हरघडी, हरबार, हरदिन, हर एक, हर कोई ।]

(घ) अँगरेजी उपसर्ग

सब—अधीन, भीतरी, उदा०—सब-इंस्पेक्टर, सब-रजिस्ट्रार, सब-जज, सब-आफिस, सब-कमेटी ।

हिन्दी में अँगरेजी शब्दों का भरती अभी हो रही है, इसलिए आज ही यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कही जा सकती कि उस भाषा से आये हुए शब्दों में से कौनसे शब्द रूढ़ और कौनसे यौगिक हैं । अभी इस विषय के पूर्ण विचार की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए हिंदी व्याकरण का यह भाग इस समय अधूरा ही रहेगा । ऊपर जो उदाहरण दिया गया है वह अँगरेजी उपसर्गों का केवल एक नमूना है ।

[सू०—इस अध्याय में जो उपसर्ग दिये गये हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो कभी-कभी स्वतंत्र शब्दों के समान भी प्रयोग में आते हैं । इन्हें उपसर्गों में सम्मिलित करने का कारण केवल यह है कि जब इनका प्रयोग उपसर्गों के समान होता है तब इनके अर्थ अथवा रूप में कुछ अंतर पड़ जाता है । इस प्रकार के शब्द इति, स्वयं, सर, विन, भर, कम, आदि हैं ।]

[टी०—राजा शिवप्रसाद ने अपने हिंदी-व्याकरण में प्रत्यय, अव्यय, विभक्ति और उपसर्ग, चारों को उपसर्ग माना है; परंतु उन्होंने इसका कोई कारण नहीं लिखा और न उपसर्ग का कोई लक्षण ही दिया जिससे उनके मत की पुष्टि होती। ऐसी अवस्था में हम उनके किये वर्गीकरण के विषय में कुछ नहीं कह सकते। भाषा-प्रभाकर में राजा साहब के मत पर आक्षेप किया गया है, परंतु लेखक ने अपनी पुस्तक में संस्कृत-उपसर्गों को छोड़ और किसी भाषा के उपसर्गों का नाम तक नहीं लिया। उर्दू-उपसर्ग तो भाषा-प्रभाकर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि लेखक महाशय स्वयं लिखते हैं कि “हिंदी में वस्तुतः पारसी, अरबी आदि शब्दों का प्रयोग कहां !” पर संबंधसूचकों की तालिका में “बदले” शब्द न जाने उन्होंने कैसे लिख दिया ? जो हो, इस विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि उपसर्गयुक्त उर्दू शब्द हिंदी में आते हैं। हिंदी-उपसर्गों के विषय में भाषा-प्रभाकर में केवल इतना ही लिखा है कि “स्वतंत्र हिंदी-शब्दों में उपसर्ग नहीं लगते हैं।” इस उक्ति का खडन इस अध्याय में दिये हुए उदाहरणों से हो जाता है। भट्टजी ने अपने व्याकरण में उपसर्गों की तालिका दी है, परंतु उनके अर्थ नहीं समझाये, यद्यपि प्रत्ययों का अर्थ उन्होंने विस्तारपूर्वक लिखा है। उन दोनों पुस्तकों में दिये हुए उपसर्ग के लक्षण न्यय-संगत नहीं जान पड़ते।]

तीसरा अध्याय ।

संस्कृत प्रत्यय ।

(क) संस्कृत कृदंत ।

अ (कर्तृवाचक)—

चुर् (चुराना)—चोर चर् (चलना)—चर (दूत)

दीप् (चमकना)—दीप दिव् (चमकना)—देव

नद् (शब्द करना)—नद धृ (धरना)—धर (पर्वत)

सृप् (सरकना)—सर्प बुध् (जानना)—बुध

ह्र (हरना)—हर स्मृ (चाहना)—स्मर

ग्रह (पकडना)—प्राह व्यध् (मारना)—व्याध
रम् (क्रोड़ा करना)—राम

(भाववाचक)—

कम् (इच्छा करना)—काम	क्रुध् (क्रोध करना)—क्रोध
खिद् (उदास होना)—खेद	चि (इकट्टा करना)—(सं)चय
जि (जीतना)—जय	मुह् (अचेत होना)—मोह
नी (ले जाना)—नय	रु (शब्द करना)—रव
अक् (कर्तृवाचक)—	

कृ—कारक

नृत्—नर्तक

गै—गायक

पू (पवित्र करना)—पावक

दा—दायक

युज् (जोड़ना)—योजक

लिख्—लेखक

वृ (तरना)—तारक

मृ (मरना)—मारक

पठ्—पाठक

नी—नायक

पच्—पाचक

अत्—इस प्रत्यय के लगाने से (संस्कृत में) वर्तमानकालिक कृदन्त बनता है, परतु उसका प्रचार हिंदी में नहीं है। तथापि जगत्, जगती, दमयंती आदि कई सझाएँ मूल कृदन्त हैं।

अन (कर्तृवाचक)—

नन्द (प्रसन्न होना)—नदन

मद् (पागल होना)—मदन

रम्—मरण

श्रु—श्रवण

रु—रावण

मुह्—मोहन

सूद्(मारना)—(मधु) सूदन

साध्—साधन

पू—पावन

भाववाचक)—

सह्—सहनशी

शी(सोना)—शयन

भू—भवन

स्था—स्थान

पाल्—पालन

मृ—मरण रच्—रक्षण

भुज्—भोजन

हु (होम करना)—हवन

(करण-वाचक)

नी—नयन

चर्—चरण

भू—भूषण ।

या—यान

वह्—वाहन

अना (भाववाचक)—

विद् (चेतना)—वेदना

रच्—रचना

घट् (होना)—घटना

तुल्—तुलना

सूच्—सूचना

प्र + अर्थ—प्रार्थना

बन्द्—बन्धना

आ + राध्—आराधना

अव + हेल (तिरस्कार करना)

गवेष् (खोजना)—गवेषणा

—अवहेलना

अनीय (योग्यार्थक)—

दृश्—दर्शनीय

स्मृ—स्मरणीय

रम्—रमणीय

वि + चर्—विचारणीय

आ + ह्—आदरणीय

मन्—माननीय

कृ—करणीय

शुच्—शोचनीय

[सू०—हि दी का 'सराहनीय' शब्द इसी आदर्श पर बना है ।]

आ (भाववाचक)—

इष् (इच्छा)—इच्छा

कथ्—कथा

गुह् (छिपना)—गुहा

पूज्—पूजा

क्रीड्—क्रीड़ा

चित्—चिंता

व्यथ्—व्यथा

शिक्ष्—शिक्षा

वृत्—वृषा

अस् (विविध अर्थ में)—

सृ (चलना)—सरस्

वच् (बोलना)—वचस्

वम् (खेद करना)—तमम्

तिज् (टेना)—तेजस्

पय् (जाना)—पयस्

श्र् (सताना)—शिरस्

व् (जाना)—वयस्

ञ् (जाना)—उरस्

छद् (प्रसन्न करना)—छंदस्

[सू०—इन शब्दों के अंत का स् अथवा इसीका विसर्ग हि दी में आनेवाले संस्कृत सामासिक शब्दों में दिखाई देता है; जैसे, सरसिज, तेज पुंज, पयोद, छंदशास्त्र, इत्यादि। इस कारण से हि दी व्याकरण में इन शब्दों का मूल रूप बताना आवश्यक है। जब ये शब्द स्वतंत्र रूप से हिंदी में आते हैं तब इनका अन्त्य स् छोड़ दिया जाता है और ये सर, तम, तेज, पय, आदि अकारांत शब्दों का रूप ग्रहण करते हैं।]

आलु (गुणवाचक)—

दय्—दयालु, शी (सेना)—शयालु।

इ—(कर्तृवाचक)—

हृ—हरि, कु—कवि।

इन्—इस प्रत्यय के लगाने से जो (कर्तृवाचक) सझाएँ बनती हैं उनकी प्रथमा का एकवचन ईकारांत होता है। हिंदी में यही ईकारांत रूप प्रचलित है, इसलिए यहाँ ईकारांत ही के उदाहरण दिये जाते हैं।

त्यज् (छोड़ना)—त्यागी। दुष् (भूलना)—दोषी। युज्—योगी। वद् (बोलना) = वादी। द्विष् (वैर करना)—द्वेषी। उप + कृ—उपकारी। सम् + यम्—संयमी। सह + चर = सहचारी।

इस्—

द्युत् (चमकना)—ज्योतिस्, हु—हविस्।

[सू०—अस् प्रत्यय के नीचेवाली सूचना देखो।]

इष्णु—(याग्यार्थक कर्तृवाचक)—

सह—सहिष्णु। वृष् (बढ़ना)—वर्धिष्णु।

“स्थाणु” और “विष्णु” में केवल “नु” प्रत्यय हैं; और जिष्णु में णु प्रत्यय है। नु और णु प्रत्यय इष्णु के शेष भाग हैं।

उ (कर्तृवाचक)—

भिक्ष्—भिक्षु । इच्छ्—इच्छु (हितेच्छु) । साध्—साधु

उक् (कर्तृवाचक)—

भिक्ष्—भिक्षुक, हन् (मार डालना)—घातुक ।

भू—भावुक, कम्—कामुक ।

उर् (कर्तृवाचक)—

भास् (चमकना)—भासुर । भंज् (टूटना)—भंगुर ।

उस् (विविध अर्थों में)—

चक्ष् (कहना; देखना)—चक्षुस् । ई (जाना)—आयुस् ।

यज् (पूजा करना)—यजुस् (यजुर्वेद) । वप् (उत्पन्न करना) वपुस् । धन् (शब्द करना)—धनुस् ।

[सू०—अस् प्रत्यय के नीचे की सूचना देखो ।]

त—इस प्रत्यय के योग से भूतकालिक कृदन्त बनते हैं । हिंदी में इनका प्रचार अधिकता से है ।

गम्—गत	भू—भूत	कृ—कृत
मृ—मृत	मद्—मत्त	जन्—जात
हन्—हत	च्यु—च्युत	ख्यात—ख्यात
त्यज्—त्यक्त	श्रु—श्रुत	वच्—उक्त
गुह्—गूढ़	सिध्—सिद्ध	वृप्—वृत्त
दुष्—दुष्ट	नश्—नष्ट	दृश्—दृष्ट
विद्—विदित	कथ्—कथित	ग्रह—गृहीत

(अ) त के बदले कहीं-कहीं न वा ण होता है ।

ली (लगना)—लीन कृ (फैलाना)—कीर्ण (सकीर्ण)

जू (वृद्ध होना)—जीर्ण बद् + विज्—उद्विग्न

खिद्—खिन्न हा (छोड़ना)—हीन अद् (खाना)—अन्न

(आ) किसी-किसी धातुओं में त और न दोनों प्रत्ययो के लगने से दो-दो रूप होते हैं ।

पूर्-पूरित, पृष्ण, त्रा-त्रात, त्राण ।

(इ) त के स्थान में कभी-कभी क, म, व आते हैं ।

शुष् (सूखना) = शुष्क, चै-चाम, पच्-पक्व ।

ता (तृ) — (कर्तृवाचक) —

मूल प्रत्यय तृ है, परतु इस प्रत्ययवाले शब्दों की प्रथमा के पुल्लिङ्ग एकवचन का रूप ताकारात् होता है, और वही रूप हिन्दी में प्रचलित है । इसलिए यहाँ ताकारात् उदाहरण दिये जाते हैं ।

दा-दाता	नी-नेता	श्रु-श्रोता
वच्-वक्ता	जि-जेता	भू-भर्ता
कृ-कर्ता	भुज्-भोक्ता	हृ-हर्ता

[सू०-इन शब्दों का स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए (हिन्दी में) तृ प्रत्ययात् शब्द में ई लगाते हैं (अ०-२७६ इ) । जैसे, ग्रंथकर्त्री, धात्री, कवयित्री ।]

तव्य (योग्यार्थक) —

कृ-कर्तव्य	भू-भवितव्य	ज्ञा-ज्ञातव्य
दृश-दृष्टव्य	श्रु-श्रोतव्य	दा-दातव्य
पठ्-पठितव्य	वच्-वक्तव्य	

ति (भाववाचक) —

कृ-कृति	प्री-प्रीति	शक्-शक्ति
स्मृ-स्मृति	री-रीति	स्था-स्थिति

(अ) कई-एक नकारात् और मकारात् धातुओं के अंत्याक्षर का लोप हो जाता है, जैसे,

मन्-मति, क्षण्-क्षति, गम्-गति, रम्-रति, यम्-यति ।

(आ) कहीं-कहीं सधि के नियमों से कुछ रूपांतर हो जाता है ।

बुध्-बुद्धि, युज्-युक्ति, सृज्-सृष्टि, दृश्-दृष्टि, स्था-स्थिति ।

(इ) कहीं-कहीं ति के बदले नि आती है ।

हा-हानि, ग्लै-ग्लानि, इत्यादि ।

ञ (करणवाचक)—

नी-नेत्र, श्रु-श्रोत्र, पा-पात्र, शास्-शास्त्र ।

अस्-अस्त्र, शस्-शस्त्र, क्षि-क्षेत्र ।

(ई) किसी किसी धातु से त्र के बदले इत्र पाया जाता है ।

खन्-खनित्र, पृ-पवित्र, चर्-चरित्र ।

ञिञ (निवृत्ति के अर्थ में)—

कृ-कृत्रिम ।

न् (भाववाचक)—

यत् (उपाय करना)—यत्न स्वप्-स्वप्न प्रच्छ-प्रश्न

यज्-यज्ञ

याच्-याच्चा तृष्-तृष्णा

मन् (विविध अर्थ में)—

दा-दाम

कृ-कर्म

सि(बाँधना)—सीमा

धा-धाम

छद् (छिपाना)—छद्म

चर्-चर्म

वृह्-ब्रह्म

[सू०—ऊपर लिखे अकारात शब्द 'मन्' प्रत्यय के न् का लोप करने से बने हैं । हिंदी में मूल व्यंजनांत रूप का प्रचार न होने के कारण प्रथमा के एकवचन के रूप दिये गये हैं ।]

मान—

यद् प्रत्यय अत् के समान वर्तमानकालिक कृदंत का है । इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द हिंदी में बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं ।

यज्—यजमान

वृत्—वर्तमान

वि + रज्—विराजमान

विद्—विद्यमान

दीप्—देदीप्यमान

ज्वल्—जाज्वल्यमान

[सू०—इन शब्दों के अनुकरण पर हिंदी के “चलायमान” और “शोभायमान” शब्द बने हैं ।]

थ (योग्यार्थक)—

कृ—कार्य	त्यज्—त्याज्य	वध्—वध्य
पठ—पाठ्य	वच्—वाच्य वाक्य	
क्षम्—क्षम्य	गम्—गम्य	गद् (बोलना)—गद्य
वि + धा—विधेय	शास्—शिष्य	पद्—पद्य
खाद्—खाद्य	दृश्—दृश्य	सह्—सह्य

या (भाववाचक)—

विद्—विद्या	चर्—चर्या	कृ—क्रिया
शी—शय्या	मृग्—मृगया	सम् + अस्—समस्या

र् (गुणवाचक)—

नम्—नम्र, हिंस् (मार डालना)—हिंस् ।

रु (कर्त्वाचक)—

दा—दारु, मि—मेरु

वर (गुणवाचक)—

भान्—भास्वर, स्था—स्थावर, ईश्—ईश्वर, नश्—नश्वर ।

स् + ञ् (इच्छा-बोधक)—

पा (पीना)—पिपासा	कृ (करना)—चिकीर्षा
ज्ञा (जानना)—जिज्ञासा	कित् (च गा करना)—चिकित्सा
लल् (इच्छा करना)—लालसा	मन् (विचारना) मीमांसा ।

(ख) स स्कृत-तद्धित

अ (अपत्यवाचक)—

रघु—राघव	कश्यप—काश्यप	कुरु—कौरव
पाण्डु—पाण्डव	पृथा—पार्थ	सुमित्र—सौमित्र,
पर्वत—पार्वती (स्त्री०)	दुहितृ—दौहित्र	वसुदेव—वासुदेव

(गुणवाचक)—

शिव—शैव विष्णु—वैष्णव चंद्र—चांद्र (मास, वर्ष)

मनु—मानव पृथिवी—पार्थिव व्याकरण—वैयाकरण

लिंग

(जाननेवाला) निशा—नैश सूर—सौर

(भाववाचक)—

इस अर्थ मे यह प्रत्यय बहुधा अकारांत, इकारांत और उकारांत शब्दों में लगता है ।

कुशल—कौशल पुरुष—पौरुष मुनि—मौन

शुचि—शौच लघु—लाघव गुरु—गौरव

युवन्—यौवन

अक (उसको जाननेवाला)—

मीमांसा—मीमांसक, शिक्षा—शिक्षक ।

आमह (उसका पिता)—

पितृ—पितामह, मातृ—मातामह ।

इ (उसका पुत्र)—

दशरथ—दाशरथि (राम), मरुत्—मारुति (हनुमान्) ।

इक (उसको जाननेवाला)—

तर्क—तार्किक, अलंकार—आलंकारिक, न्याय—नैयायिक,
वेद—वैदिक ।

(गुणवाचक)—

वर्ष—वार्षिक

मास—मासिक

दिन—दैनिक

लोक—लौकिक

इतिहास—ऐतिहासिक

धर्म—धार्मिक

सेना—सैनिक

नौ—नाविक

मनस्—मानसिक

पुराण—पौराणिक

समाज—सामाजिक

शरीर—शारीरिक

समय—सामयिक

तत्काल—तात्कालिक

धन—धनिक

अध्यात्म—आध्यात्मिक

अधिदेव—आधिदैविक

इत् (गुणवाचक)—

पुष्प—पुष्पित

फल—फलित

दुःख—दुःखित

कंटक—कटकित

कुसुम—कुसुमित

पल्लव—पल्लवित

हर्ष—हर्षित

आनन्द—आनन्दित

प्रतिविम्ब—प्रतिविवित

पुलक—पुलकित

इन् (कर्तृवाचक)—

इस प्रत्ययवाले शब्दों की प्रथमा के एकवचन में न का लोप होने पर ईकारान्त रूप हो जाता है। यही रूप हिन्दी में प्रचलित है; इसलिए यहाँ इसी के उदाहरण दिये जाते हैं। यह प्रत्यय बहुधा अकारान्त शब्दों में लगाया जाता है।

शास्त्र—शास्त्री हल—हली

तरंग—तरंगिणी (स्त्री०)

धन—धनी

अर्थ—अर्थी (विद्यार्थी) पक्ष—पक्षी

क्रोध—क्रोधी

योग—योगी

सुख—सुखी

हस्त—हस्ती

पुष्कर—पुष्करिणी

(स्त्री०) दत्त—दत्ती ।

इन्—यह प्रत्यय फल, मल और वर्ह में लगाया जाता है ।

फल—फलिन, मल—मलिन, वर्ह—वर्हिण (मोर) । वर्हिण

शब्द का रूप वर्हीं भी होता है ।

(अ) अधि—अधीन,

प्राच् (पहले)—प्राचीन,

अर्वाच (पीछे)—अर्वाचीन, सम्यच् (भली भाँति)—समीचीन

इम (गुणवाचक)—

अग्र—अग्रिम, अंत—अंतिम, पश्चान्—पश्चिम ।

इमा (भाववाचक)—

महत्—महिमा

गुरु—गरिमा

लघु—लघिमा

रक्त—रक्तिमा

अरुण—अरुणिमा

नील—नीलिमा

इथ (गुणवाचक)

यज्ञ—यज्ञिय, राष्ट्र—राष्ट्रिय, क्षत्र—क्षत्रिय ।

इल (गुणवाचक)

तुंद—तुंदिल (हि० तोंदल), पंक—पंकिल, जटा—जटिल, फेन—फेनिल ।

इष्ट (श्रेष्ठता के अर्थ में)

वली—वलिष्ठ, स्वादु—स्वादिष्ठ, गुरु—गरिष्ठ, श्रेयस्—श्रेष्ठ ।

ईन (गुणवाचक)—

कुल—कुलीन

नव—नवीन

शाला—शालीन

ग्राम—ग्रामीण

पार—पारीण

ईय (संबंधवाचक)—

त्वत्—त्वदीय

तद्—तदीय

मत्—मदीय

भवत्—भवदीय

नारद—नारदीय

पाणिनि—पाणिनीय

अ) स्व, पर और, राजन् में इस प्रत्यय के पूर्व क् का आगम होता है । जैसे, स्वकीय, परकीय, राजकीय ।

उल (संबंधवाचक)—

मातृ—मातुल (मामा) ।

एय (अपत्यवाचक)—

विनता—वैनतेय

कुन्तो—कौन्तेय

गंगा—गांगेय

भगिनी—भागिनेय

मृकंडु—मार्कण्डेय

राधा—राधेय

(विविध अर्थ में)—

अग्नि—आग्नेय

पुरुष—पौरुषेय

पथिन्—पाथेय

अतिथि—आतिथेय

क (ऊनवाचक)—

पुत्र—पुत्रक, बाल—बालक, वृत्त—वृत्तक, नौ—नौका (स्त्री०) ।

(समुदाय-वाचक)—

पंच—पचक,

सप्त—सप्तक,

अष्ट—अष्टक ।

कट (विविध अर्थ में)—

यह प्रत्यय कुछ उपसर्गों में लगाने से ये शब्द बनते हैं—

संकट, प्रकट, विकट, निकट, उत्कट ।

कल्प (ऊनवाचक)—

कुमारकल्प, कविकल्प, मृतकल्प, विद्वत्कल्प ।

चित् (अनिश्चयवाचक)—

कचित्, कदाचित्, किंचित् ।

ठ (कर्तृवाचक)—

कर्मन्—कर्मठ, जरा—जरठ ।

तन (काल-संबंधवाचक)—

सदा (सना)—सनातन,

पुरा-पुरातन,

नव-नूतन,

प्राच्-प्राक्तन,

अद्य-अद्यतन ।

तस् (रीतिवाचक)

प्रथम—प्रथमतः, स्वतः, उभयत, तन्वतः, अंशतः ।

त्य (संबंधवाचक)—

दक्षिणा—दक्षिणत्य

पश्चात्—पश्चात्य

अमा—अमात्य

नि—नित्य

अत्र—अत्रत्य

तत्र—तत्रत्य

[सू०—पाश्चिमात्य और पैर्वात्य शब्द इन शब्दों के अनुकरण पर हिंदी में प्रचलित हुए हैं । पर ये अशुद्ध हैं ।]

त्र (स्थानवाचक)—

यद्—यत्र, तद्—तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र ।

ता (भाववाचक)—

गुरु—गुरुता लघु—लघुता कवि—कविता
मधुर—मधुरता सम—समता आवश्यक—आवश्यकता
नवीन—नवीनता विशेष—विशेषता ।

(समूहवाचक)—

जन—जनता, ग्राम—ग्रामता, बंधु—बंधुता, सहाय-सहायता ।

“सहायता” शब्द हिंदी में केवल भाववाचक है ।

त्व (भाववाचक)—

गुरुत्व	ब्राह्मणत्व
पुरुषत्व	सतीत्व
राजत्व	बंधुत्व

था (रीतिवाचक)

तद्—तथा	यद्—यथा
सर्वथा	अन्यथा
वृथा	

दा (कालवाचक)—

सर्व—सर्वदा, यद्—यदा, किम्—कदा, सदा ।

धा (प्रकारवाचक)—

द्वि—द्विधा, शत—शतधा, बहुधा ।

धेय (गुणवाचक)—

नाम—नामधेय, भाग—भागधेय ।

म् (गुणवाचक)—

मध्य—मध्यम, आदि—आदिम, अधस्—अधम, द्रु (शाखा)—द्रुम ।

मत् (गुणवाचक)—

श्रीमान्

मतिमान्

बुद्धिमान्

आयुष्मान्

गोमती(स्त्री०)

धीमान् ।

‘बुद्धिवान्’ शब्द अशुद्ध है ।

[सू०—मत् (मात्) के सदृश वत् (वान्) प्रत्यय है जो आगे लिखा जायगा ।]

मय (विकार और व्याप्ति के अर्थ में)—

काष्ठमय, विष्णुमय, जलमय, मांसमय, तेजोमय ।

मात्र—नाममात्र, पलमात्र, लेशमात्र, क्षणमात्र ।

मिन्—(कर्तृवाचक)—

स्व—स्वामी, वाक्—वाग्मी (वक्ता) ।

य—(भाववाचक)—

मधुर—माधुर्य चतुर—चातुर्य पण्डित—पाण्डित्य

वणिज—वाणिज्य स्वस्थ—स्वास्थ्य अधिपति—आधिपत्य

धीर—धैर्य वीर—वीर्य ।

(अपत्यवाचक, सबधवाचक)—

शंडल—शांडिल्य पुलस्ति—पौलस्त्य दिति—दैत्य

जमदग्नि—जामदग्न्य चतुर्मास—चातुर्मास्य (हि० चौमासा)

धन—धान्य

मूल—मूल्य

तालु—ताल व्य

मुख—मुख्य

ग्राम—ग्राम्य

अंत—अंत्य

र—(गुणवाचक)—

मधु—मधुर

मुख—मुखर

कुंज—कुंजर

नग—नगर

पांडु—पांडुर

ल (गुणवाचक)—

वत्स—वत्सल

शीत—शीतल

श्याम—श्यामल

मंजु—मंजुल

मास—मांसल

लु (गुणवाचक)—

श्रद्धालु, दयालु, कृपालु, निद्रालु ।

व (गुणवाचक)—

केश—केशव (सुन्दर केशवाला, विष्णु), विषु (समान)—
विषुव (दिन-रात समान होने का काल वा वृत्त), राजी (रेखा)—
राजीव (रेखा में बढ़नेवाला, कमल), अर्णस (पानी)-अर्णव (समुद्र) ।

वत् (गुणवाचक)—

यह प्रत्यय अकारांत वा आकारांत संज्ञाओं के पश्चात् आता है ।
धनवान्, विद्यावान्, ज्ञानवान्, गुणवान्, रूपवान्, भाग्य-
वती (स्त्री०) ।

(अ) किसी-किसी सर्वनामो में इस प्रत्यय को लगाने से अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण बनते हैं ।

यद्—यावत्, तद्—तावत् ।

(आ) यह प्रत्यय “तुल्य” के अर्थ में भी आता है और इससे
क्रिया-विशेषण बनते हैं ।

मातृवत्, पितृवत्, पुत्रवत्, आत्मवत् ।

बल (गुणवाचक)—

कृषीबल, रजस्बला (स्त्री०), शिखाबल (मयूर), दंताबल (हाथी)

ऊर्जस्बल (बलवान्) ।

बिन् (गुणवाचक)—

तपस्—तपस्वी यशस्—यशस्वी तेजस्—तेजस्वी

माया—मायावी मेधा—मेधावी पयस्—पयस्विनी

(स्त्री०, दुधार गाय)

व्य (संबंधवाचक)—

पितृव्य (काका) भ्रातृव्य (भतीजा) ।

श (विविध अर्थ में)—

रोम—रोमश, कर्क—कर्कश ।

शः (रीतिवाचक)—

क्रमशः, अक्षरशः, शब्दशः, अल्पशः, कोटिश ।

सात् (विकारवाचक)—

भस्म—भस्मसात्,

अग्नि—अग्निसात्,

जल—जलसात्,

भूमि—भूमिसात् ।

[सू०—ये शब्द बहुधा होना या करना क्रिया के साथ आते हैं ।]

[सू०—हिंदी भाषा दिन-दिन बढ़ती जाती है और हमे अपनी वृद्धि के लिए बहुधा संस्कृत के शब्द और उनके साथ उसके प्रत्यय लेने की आवश्यकता पड़ती है; इसलिए इस सूची में समय-समय पर और भी शब्दों तथा प्रत्ययों का समावेश हो सकता है । इस दृष्टि से इस अध्याय को अभी अपूर्ण ही समझना चाहिये । तथापि वर्तमान हिंदी की दृष्टि से इसमें प्रायः वे सब शब्द और प्रत्यय आ गये हैं जिनका प्रचार अभी हमारी भाषा में है ।]

४३६—ऊपर लिखे प्रत्ययों के सिवा संस्कृत में कई एक शब्द ऐसे हैं जो समास में उपसर्ग अथवा प्रत्यय के समान प्रयुक्त होते हैं । यद्यपि इन शब्दों में स्वतंत्र अर्थ रहता है जिसके कारण इन्हें शब्द कहते हैं, तथापि इनका स्वतंत्र प्रयोग बहुत कम होता है । इस-लिए इन्हे यहाँ उपसर्गों और प्रत्ययों के साथ लिखते हैं ।

जिन शब्दों के पूर्व * यह चिह्न है उनका प्रयोग बहुधा प्रत्ययों ही के समान होता है ।

अधीन—स्वाधीन, पराधीन, दैवाधीन, भाग्याधीन ।

अंतर—देशांतर, भाषांतर, मन्वंतर, पाठांतर, अर्थांतर, रूपांतर ।

अन्वित—दुःखान्वित, दोषान्वित, भयान्वित, क्रोधान्वित, मोहान्वित, लोभान्वित ।

* अपह—शोकापह, दुःखापह, सुखापह, मानापह ।

अध्यक्ष—दानाध्यक्ष, कोशाध्यक्ष, सभाध्यक्ष ।

अतीत—कालातीत, गुणातीत, आशातीत, स्मरणातीत ।

अनुरूप—गुणानुरूप, योग्यतानुरूप, मति-अनुरूप (राम०),
आज्ञानुरूप ।

अनुसार—कर्मानुसार, भाग्यानुसार, इच्छानुसार, समयानुसार, धर्मानुसार ।

अभिमुख—दक्षिणाभिमुख, पूर्वाभिमुख, मरणाभिमुख ।

अर्थ—धर्मार्थ, संमत्यर्थ, प्रोत्यर्थ, समालोचनार्थ ।

अर्थी—धनार्थी, विद्यार्थी, शिष्यार्थी, फलार्थी, मानार्थी ।

* अर्ह—पूजार्ह, दडार्ह, मानार्ह, विचारार्ह ।

आक्रांत—रोगाक्रांत, पादाक्रांत, चिंताक्रांत, क्षुधाक्रांत,
दुःखाक्रांत ।

आतुर—प्रेमातुर, कामातुर, चिंतातुर ।

आकुल—चिंताकुल, भयाकुल, शोकाकुल, प्रेमाकुल ।

आचार—देशाचार, पापाचार, शिष्टाचार, कुलाचार ।

आत्म—आत्म-स्तुति, आत्म-श्लाघा, आत्म-घात, आत्म-हत्या,
आत्म-त्याग, आत्म-हित, आत्म-संयम, आत्म-ज्ञान, आत्म-समर्पण ।

आपन्न—दोषापन्न, खेदापन्न, सुखापन्न, स्थानापन्न ।

* आवह—हितावह, गुणावह, फलावह, सुखावह ।

आर्त्त—दुःखार्त्त, शोकार्त्त, क्षुधार्त्त, तृषार्त्त ।

आशय—महाशय, नीचाशय, क्षुद्राशय, जलाशय ।

आस्पद—दोषास्पद, निंदास्पद, लज्जास्पद, हास्यास्पद ।

* आढ्य—बलाढ्य, धनाढ्य, गुणाढ्य ।

उत्तर—लोकोत्तर, भोजनोत्तर ।

* कर—प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, हितकर, सुखकर ।

* कार—चर्मकार, कर्मकार, ग्रंथकार, भाष्यकार, नाटककार, इत्यादि ।

* कालीन—समकालीन, पूर्वकालीन, जन्मकालीन ।

* ग (गम् धातु का अंश = जानेवाला)—

उरग, तुरग (तुरग), विहग (विहंग), दुर्ग, खग, अग, नग ।

गत—गतवैभव, गतायु, गतश्रो, मनोगत, दृष्टिगत, कंठगत, व्यक्तिगत ।

* गम—तुरंगम, विहंगम, दुर्गम, सुगम, अगम, संगम, हृदयगम ।

गम्य—बुद्धिगम्य, विचारगम्य ।

ग्रस्त—वादग्रस्त, चिंताग्रस्त, व्याधिग्रस्त, भयग्रस्त ।

घात—विश्वासघात, प्राणघात, आशाघात ।

* घ्न—(हन् धातु का अंश = मार डालनेवाला)—

कृतघ्न, पापघ्न, शत्रुघ्न, मातृघ्न, वातघ्न ।

* चर—जलचर, निशाचर, खेचर, अनुचर ।

चिंतक—शुभचिंतक, हितचिंतक, लाभचिंतक ।

जन्य—क्रोध-जन्य, अज्ञान-जन्य, स्पर्श-जन्य, प्रेम-जन्य ।

* ज (जन् धातु का अंश = उत्पन्न होनेवाला)—

अडज, पिंडज, स्वेदज, जलज, वारिज, अनुज, पूर्वज, पित्तज, जारज, द्विज ।

जाल—शब्दजाल, कर्मजाल, जगजाल, मायाजाल, प्रेमजाल ।

* जीवी—श्रमजीवी, धनजीवी, कष्टजीवी, क्षणजीवी ।

* दर्शी—दूरदर्शी, कालदर्शी, सूक्ष्मदर्शी ।

* द (दा धातु का अंश = देनेवाला)—

सुखद, जलद, धनद, वारिद, मोक्षद, नर्मदा (ली०) ।

* **दायक**—सुखदायक, गुणदायक, आनन्ददायक, मंगल-
दायक, भयदायक ।

* **दायी**—दायक के समान । (स्त्री०—दायिनी ।)

* **धर**—महीधर, गिरिधर, पयोधर, हलधर, गंगाधर, जल-
धर, धाराधर ।

* **धार**—सूत्रधार, कर्णधार ।

धर्म—राजधर्म, कुलधर्म, सेवाधर्म, पुत्रधर्म, प्रजाधर्म, जाति-
धर्म ।

नाशक—रुफनाशक, कृमिनाशक, धननाशक, विघ्नविनाशक ।

निष्ठ—कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, राजनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ ।

पर—तत्पर, स्वार्थपर, धर्मपर ।

परायण—भक्ति-परायण, धर्म-परायण, स्वार्थ-परायण, प्रेम-
परायण ।

बुद्धि—पापबुद्धि, पुण्यबुद्धि, धर्मबुद्धि ।

भाव—मित्रभाव, शत्रुभाव, बंधुभाव, स्त्रीभाव, प्रेमभाव, कार्य-
कारणभाव, विब-प्रतिविब-भाव ।

भेद—पाठ-भेद, अर्थभेद, मतभेद, बुद्धिभेद ।

युत—श्रीयुत, अयुत, धर्मयुत ।

[सू०—'युत' का 'त' हलन्त नहीं है ।]

रहित—ज्ञानरहित, धनरहित, प्रेमरहित, भावरहित ।

रूप—वायुरूप, अग्निरूप, मायारूप, नररूप, देवरूप ।

शील—धर्मशील, सहनशील, पुण्यशील, दानशील, विचार-
शील, कर्मशील ।

* **शाली**—भाग्यशाली, ऐश्वर्यशाली, बुद्धिशाली, वीर्यशाली ।

शून्य—ज्ञानशून्य, द्रव्यशून्य, अर्थशून्य ।

शूर—कर्मशूर, दानशूर, रणशूर, आरंभशूर ।

साध्य—द्रव्यसाध्य, कष्टसाध्य, यत्नसाध्य ।

* **स्थ** (स्था धातु का अंश = रहनेवाला)—

गृहस्थ, मार्गस्थ, तटस्थ, स्वस्थ, उदरस्थ, अंतःस्थ ।

हत—हतभाग्य, हतवीर्य, हतबुद्धि, हताश ।

हर (हर्ता, हारक, हारी)=पापहर, रोगहर, दुःखहर, दोषहर्ता, दुःखहर्ता, श्रमहारी, तापहारी, वातहारक ।

हीन—हीनकर्म, हीनबुद्धि, हीनकुल, गुणहीन, धनहीन, सति-हीन, विद्याहीन, शक्तिहीन ।

* **ज्ञ** (ज्ञा धातु का अंश = जाननेवाला)—

शास्त्रज्ञ, धर्मज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, विज्ञ, नीतिज्ञ, विशेषज्ञ, अभिज्ञ (ज्ञाता) ।

चौथा अध्याय ।

हि'दी-प्रत्यय ।

(क) हि'दी-कृदन्त ।

अ —यह प्रत्यय अकारांत धातुओं में जोड़ा जाता है और इसके योग से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

लूटना—लूट ।

मारना—मार ।

जाँचना—जाँच ।

चमकना—चमक ।

पहुँचना—पहुँच ।

समझना—समझ ।

देखना भालना—देखभाल ।

उछलना कूदना—उछलकूद

[सू०—“हिदी-व्याकरण” में इस प्रत्यय का नाम ‘शून्य’ लिखा गया है जिसका अर्थ यह है कि धातु में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता और उन्मीका प्रयोग भाववाचक संज्ञा के समान होता है । यद्यपि में यह बात ठीक है, पर हमने शून्य के बदले ‘अ’ इसलिये लिखा है कि शून्य शब्द में होनेवाला अम

दूर हो जावे । इस अ प्रत्यय के आदेश से धातु के अंत्य अ का लोप सम-
रूपना चाहिये ।

(अ) किसी-किसी धातु की उपांत्य ह्रस्व इ और उ का गुणादेश
होता है ; जैसे,

मिलना—मेल, हिलना-मिलना—हेलमेल, भुक्ना—भोक ।

(आ) कहीं-कहीं धातु के उपांत्य अ की वृद्धि होती है ; जैसे,

अड़ना—आड़ ।

लगना—लाग ।

चलना—चाल ।

फटना—फाट ।

बढ़ना—बाढ़ ।

(इ) इसके योग से कोई-कोई विशेषण भी बनते हैं ; जैसे,

बढ़ना—बढ़ । घटना—घट । भरना—भर ।

(ई) इस प्रत्यय के योग से पूर्वकालिक कृदंत अव्यय बनता है ;
जैसे, चलना—चल । जाना—जा । देखना—देख

[सू०—प्राचीन कविता में इस अव्यय का इकारांत रूप पाया जाता है ;
जैसे, देखना—देखि । फेकना—फेकि । उठना—उठि । स्वरान्त धातुओं के
साथ इ के स्थान में बहुधा य का आदेश होता है ; जैसे, स्नाय, गाय ।]

अक्कड़ (कर्त्वाचक)—

बूझना—बुझकड़

कूदना—कुदकड़

भूलना—भुलकड़

पीना—पियकड़

अंत (भाववाचक)—

गढ़ना—गढंत

लिपटना—लिपटंत

लड़ना—लड़ंत

रटना—रटंत

आ—इस प्रत्यय के योग से बहुधा भाववाचक संज्ञाएँ बनती
हैं ; जैसे,

घेरना—घेरा

फेरना—फेरा

जोड़ना—जोड़ा

भगड़ना—भगड़ा छापना—छापा रगड़ना—रगड़ा
भटकना—भटका उतारना—उतारा तोड़ना—तोड़ा

(अ) इस प्रत्यय के लगने के पूर्व किसी-किसी धातु के उपांत्य स्वर में गुण होता है ; जैसे,

मिलना—मेला दूटना—टोटा भुकना—भोका

(आ) समास में इस प्रत्यय के योग से कई एक कर्तृवाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे,

(घुड—) चढ़ा (अँग—) रखा (भड़—) भूँजा
(कठ—) फोड़ा (गँठ—) कटा (मन—) चला
(मिठ—) बोला ले—लेवा दे—देवा

(इ) भूतकालिक कृदंत इसी प्रत्यय के योग से बनाये जाते हैं, जैसे,

मरना—मरा धोना—धोया खीचना—खींचा
पढ़ना—पढ़ा बनाना—बनाया बैठना—बैठा

(ई) कोई-कोई करणवाचक संज्ञाएँ, जैसे,

भूलना—भूला ठेलना—ठेला फाँसना—फाँसा
भारना—भारा पोतना—पोता घेरना—घेरा

आई—इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं जिनसे (१) क्रिया के व्यापार और (२) क्रिया के दामों का बोध होता है ।

(१) लड़ना—लड़ाई समाना—समाई चढना—चढ़ाई
दिखना—दिखाई सुनना—सुनाई पढ़ना—पढ़ाई
खुदना—खुदाई जुतना—जुताई

(२) लिखाना—लिखाई पिसाना—पिसाई
चराना—चराई कमाना—कमाई
खिलाना—खिलाई धुलाना—धुलाई

बनवाना—बनवाई ।

[सू०—‘अना’ से ‘अवाई’ और ‘जाना’ से ‘जवाई’ भाववाचक सज्ञाप (क्रिया के व्यापार के अर्थ में) बनती हैं ।]

आऊ—यह प्रत्यय किसी-किसी धातु में योग्यता के अर्थ में लगता है; जैसे,

टिकना—टिकाऊ

बिकना—बिकाऊ

चलना—चलाऊ

दिखना—दिखाऊ

जलना—जलाऊ

गिरना—गिराऊ

(अ) किसी-किसी धातु में इस प्रत्यय का अर्थ कर्तृवाचक होता है; जैसे,

खाना—खाऊ

उड़ाना—उड़ाऊ

जुमाना—जुभाऊ

अंकू, आक, आकू, (कर्तृवाचक)—

उड़ना—उड़कू

लड़ना—लड़कू

पैरना—पैराक

तैरना—तैराक

लड़ना—लड़ाक (लड़ाका, लड़ाकू) उड़ना—उडाक (उड़ाकू)

दौड़ना—दौड़ाक ।

आन (भाववाचक)—

बठना—बठान

उडना—उडान

लगना—लगान

मिलना—मिलान

चलना—चलान ।

आप (भाववाचक)—

मिलना—मिलाप

जलना—जलापा

पूजना—पुजापा ।

आव (भाववाचक)—

चढ़ना—चढ़ाव

बचना—बचाव

छिड़कना—छिड़काव

वहना—बहाव

लगना—लगाव

जमना—जमाव

पड़ना—पडाव

घूमना—घुमाव

रुकना—रुकाव ।

आवट (भाववाचक)—

लिखना—लिखावट

थकना—थकावट

रुकना—रुकावट

वनना—वनावट

सजना—सजावट

दिखना—दिखावट

लगना—लगावट

मिलना—मिलावट

कहना—कहावट ।

आवना (विशेषण) —

सुहाना—सुहावना

लुभाना—लुभावना

डराना—डरावना ।

आवा (भाववाचक)—

छुडाना—छुडावा

मुलाना—मुलावा

छलना—छलावा

बुलाना—बुलावा

चलना—चलावा

पहिरना—पहिरावा

पछताना—पछतावा ।

आस (भाववाचक)—

पीना—प्यास

ऊँघना—ऊँघास

रोना—रोआस

आहट (भाववाचक)—

चिल्लाना—चिल्लाहट

घवराना—घवराहट

गड़गड़ाना—गड़गड़ाहट

भनभनाना—भनभनाहट

गुरीना—गुरीहट

जगमगाना—जगमगाहट

[सू०—यह प्रत्यय बहुधा अनुकरणवाचक शब्दों के साथ आता है, और “शब्द” के अर्थ में इसका स्वतंत्र प्रयोग भी होता है ।]

इयल (कर्तृवाचक)—

अडना—अडियल

सडना—सडियल

मरना—मरियल

बढ़ना—बढ़ियल

पड़ना—पड़ियल ।

ई (भाववाचक)—

हँसना—हँसी

कहना—कही

बोलना—बोली

मरना—मरी ।

धमकाना—धमकी

घुड़कना—घुड़की

(करणवाचक)—

रेतना—रेती

फाँसना—फाँसी

गोंसना—गोंसी

चिमटना—चिमटी

टाँकना—टाँकी ।

इया (कर्तृवाचक)—

जड़ना—जड़िया

लखना—लखिया

धुनना—धुनिया

नियारना—नियारिया ।

(गुणवाचक)—

बढ़ना—बढ़िया

घटना—घटिया ।

ऊ (कर्तृवाचक)—

खाना—खाऊ

रटना—रटू

उतरना—उतारू (तैयार)

चलना—चालू

बिगाड़ना—बिगाड़ू

मारना—मारू

काटना—काटू

लगना—लागू (मराठी)

भगना—भगू

(करणवाचक)—भाड़ना—भाड़ू ।

ए—यह प्रत्यय सब धातुओं में लगता है और इसके योग से अव्यय बनते हैं । इससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है ; इसलिए इससे बने हुए शब्दों को बहुधा पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत कहते हैं । इन अव्ययों का प्रयोग क्रिया-विशेषण के

समान तीनों कालों में होता है । ये अव्यय संयुक्त क्रियाओं में भी आते हैं जिनका विचार यथा-स्थान हो चुका है ।

उदा०—देखे, पाये, लिये. समेटे, निकाले ।

एरा (कर्तृवाचक)—

कमाना—कमेरा

लूटना—लुटेरा

(भाववाचक)—निबटाना—निबटेरा

बसना—बसेरा

ऐया (कर्तृवाचक)—

काटना—कटैया

बचाना—बचैया

परोसना—परोसैया

भरना—भरैया

[सू०—इस प्रत्यय का प्रचार प्राचीन हिंदी में अधिक है । आधुनिक हिंदी में इसके बदले 'वैषा' प्रत्यय आता है जो यथास्थान लिखा जायगा ।]

ऐत (कर्तृवाचक)—

लडना—लडैत

चढ़ना—चढ़ैत

फँकना—फिकैत

ओड़ा (कर्तृवाचक)—

भागना—भगोड़ा

हँसना—हँसोड़ा (हँसोड)

चाटना—चटोरा

औता, औती (भाववाचक)—

समझाना—समझौता

मनाना—मनौती

छुडाना—छुडौती

चुकाना—चुकौता, चुकौती

कसना—कसौटी

चुनना—चुनौती (प्रेरणा०)

औना, औनी, आवनी (विविध अर्थ में)—

खेलना—खिलौना

विछाना—विछौना

ओढ़ना—उढ़ौना

पहराना—पहरौनी (पहरावनी)

छाना—छावनी

ठहरना—ठहरौनी,

कहना—कहानी

(आँख) मीचना—(आँख) मीचौनी

औवल (भाववाचक)—

बूझना—बुझौवल

बनना—बनौवल

मीचना—मिचौवल

क (भाववाचक, स्थानवाचक)—

बैठना—बैठक

फाड़ना—फाटक

(कर्त्तृवाचक)—

मारना—मारक

घालना—घालक

घोलना—घोलक

जाँचना—जाँचक

[सू०—किसी-किसी अनुकरणवाचक मूल अव्यय के आगे इस प्रत्यय के योग से धातु भी बनते हैं, जैसे, खड-खडकना, धड़-धड़कना, तड-तडकना धम-धमकना, खट-खटकना ।]

कर, के, करके—ये प्रत्यय सब धातुओं में लगते हैं और इनके योग से अव्यय बनते हैं । इन प्रत्ययों में 'कर' अधिक शिष्ट समझा जाता है और गद्य में बहुधा इसी का प्रयोग होता है । इन प्रत्ययों से बने हुए अव्यय पूर्वकालिक कृदंत कहलाते हैं और उनका उपयोग बहुधा क्रिया-विशेषण के समान तीनों कालों में होता है । पूर्वकालिक कृदंत अव्यय का उपयोग बहुधा संयुक्त क्रियाओं की रचना में होता है, जिसका वर्णन संयुक्त क्रियाओं के अध्याय में आ चुका है । उदा०—देकर, जाकर, उठके, दौड़ करके, इत्यादि ।

[सू०—किसी-किसी की सम्मति में "कर" और "करके" प्रत्यय नहीं है, किंतु स्वतंत्र शब्द हैं; और कदाचित् इसी विचार से वे लोग "चलकर" शब्द को "चल कर" (अलग-अलग) लिखते हैं । यदि यह भी मान लिया जावे कि "कर" स्वतंत्र शब्द है—पर कई एक स्वतंत्र शब्द भी अपनी स्वतंत्रता त्यागकर प्रत्यय हो गये हैं—तो भी उसे अलग-अलग लिखने के लिये कोई कारण नहीं है; क्योंकि समास में भी तो दो या अधिक शब्द एकत्र लिखे जाते हैं ।]

का (विविध अर्थ में)—छीलना—छिलका,

की (विविध अर्थ में)—फिरना—फिरकी, फूटना—फूटकी.
डूबना—डुबकी ।

गी (भाववाचक)—देना—देनगी ।

त (भाववाचक)—

वचना—वचत

खपना—खपत

पडना—पड़त

रँगना—रगत

ता—इस प्रत्यय के द्वारा सब धातुओं से वर्तमानकालिक कृदन्त बनते हैं जिनका प्रयोग विशेषण के समान होता है और जिनमे विशेष्य के लिंग-वचन के अनुसार विकार होता है । काल-रचना में इस कृदन्त का बहुत उपयोग होता है । उदा०—जाता, आता, देखता, इत्यादि ।

ती (भाववाचक)—

बढ़ना—बढ़ती

घटना—घटती

चढ़ना—चढ़ती

भरना—भरती

चुकना—चुकती

गिनना—गिनती

झड़ना—झड़ती

पाना—पावती

फवना—फवती

ते—इस प्रत्यय के द्वारा सब धातुओं से अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त बनाये जाते हैं जिनका प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है । इससे बहुधा मुख्य क्रिया के समय होनेवाली घटना का बोध होता है । कभी कभी इससे “लगातार” का अर्थ भी निकलता है ; जैसे, मुझे आपको खोजते कई घंटे हो गये । उनको यहाँ रहते तीन वरस हो चुके ।

न (भाववाचक)—

चलना—चलन

कहना—कहन

मुस्क्याना—मुस्क्यान

लेना-देना—लेनदेन

खाना-पीना—खानपान

व्याना—व्यान

सीना—सियन, सीवन

(करणवाचक)—

भाड़ना—भाड़न बेलना—बेलन जमाना—जामन

[सू०—(१) कभी-कभी एक ही करणवाचक शब्द कई अर्थों में आता है; जैसे भाड़न = भाड़ने का हथियार अथवा भाड़ा हुआ पदार्थ (कूड़ा) ।

(२) न प्रत्यय संस्कृत के अन कृदंत प्रत्यय से निकला है ।]

ना—इस प्रत्यय के योग से क्रियार्थक, कर्मवाचक और करणवाचक संज्ञाएँ बनती हैं । हिंदी में इस कृदंत से धातु का भी निर्देश करते हैं; जैसे, बोलना, लिखना, देना, खाना, इत्यादि ।

[सू०—संस्कृत के अन प्रत्ययांत कृदंतों से हिंदी के कई नाप्रत्ययांत कृदंत निकले हैं, पर ऐसा भी जान पड़ता है कि संस्कृत से केवल अन प्रत्यय लेकर उसे “ना” कर लिया है, क्योंकि यह प्रत्यय उर्दू शब्दों में भी लगा दिया जाता है और हिंदी के दूसरे शब्दों में भी जोड़ा जाता है; जैसे, उर्दू शब्द—‘बदल’ से बदलना, ‘गुज़र’ से गुज़रना, दाग से दागना, गर्म से गर्माना । हिंदी शब्द—अलग से अलगाना, अपना से अपनाना, लाली से ललियाना, रिस से रिसाना, इत्यादि ।]

(कर्मवाचक)—

खाना—खाना (भोज्य पदार्थ)—इस अर्थ में यह शब्द बहुधा मुसलमानों और उनके सहवासियों में प्रचलित है । गाना—गाना (गीत), बोलना—बोलना (बात), इत्यादि ।

(अ)—(करणवाचक)—

बेलना—बेलना कसना—कसना

ओढ़ना—ओढ़ना घोटना—घोटना

(आ) किसी-किसी धातु का आद्य स्वर ह्रस्व हो जाता है; जैसे,

घोंधना—घँधना छानना—छनना, कूटना—कुटना

(इ)—(विशेषण)—

उड़ना (उड़नेवाला) हँसना (हँसनेवाला) सुहावना

रोना (रौनेवाला, रौनीसूरत) लदना (बिल)

(ई)—(अधिकरणवाचक)—भिरना, रमना, पालना ।

नी—इस प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग कृदन्त संज्ञाएँ बनती हैं ।

(अ)—(भाववाचक)—

करना—करनी

भरना—भरनी

कटना—कटनी

बोना—बोनी

(आ)—(कर्मवाचक)—चटनी, सुँघनी, कहानी, इत्यादि ।

(इ)—(करणवाचक)—

धौंकनी, ओढ़नी, कतरनी, छननी, कुरेदनी, लेखनी, ढकनी, सुमरनी, इत्यादि ।

(ई)—(विशेषण)—

कहनी (कहने के योग्य), सुननी (सुनने के योग्य)

वाँ—(विशेषण)—

ढालना—ढलवाँ

काटना—कटवाँ

पीटना—पिटवाँ

चुनना—चुनवाँ

वाला—यह प्रत्यय सब क्रियार्थक संज्ञाओं में लगता है और इसके योग से कर्तृवाचक विशेषण और संज्ञाएँ बनती हैं । इस प्रत्यय के पूर्व अंत्य आ के स्थान में ए हो जाता है; जैसे, जानेवाला, रोकनेवाला, खानेवाला, देनेवाला ।

वैया—यह प्रत्यय ऐया का पर्यायी है और “वाला” का समानार्थी है । इसका प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है, जैसे, खवैया, गवैया, छवैया, दिवैया, रखवैया ।

सार—मिलनहार । (यह प्रत्यय उर्दू है ।)

हार—यह वाला के स्थान में कुछ धातुओं से होता है, जैसे, मरनहार, होनहार, जानहार, इत्यादि ।

हारा—यह प्रत्यय “वाला” का पर्यायी है; पर इसका प्रचार गद्य में कम होता है ।

हा—(कर्तृवाचक)—

काटना—कटहा, मारना—मरकहा, चराना—चरवाहा ।

(ख) हिंदी-तद्धित ।

आ—यह प्रत्यय कई एक संज्ञाओं में लगाकर विशेषण बनाते हैं; जैसे,

भूख—भूखा प्यास—प्यासा मैल—मैला
प्यार—प्यारा ठंड—ठंडा खार—खारा

(अ) कभी-कभी एक संज्ञा से दूसरी भाववाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा बनती है; जैसे,

जोड़—जोड़ा चूर—चूरा सराफ—सराफा
बजाज—बजाजा बोझ—बोझा

(आ) नाम और जातिसूचक संज्ञाओं में यह प्रत्यय अनादर अथवा दुलार के अर्थ में आता है; जैसे,

शंकर—शंकरा ठाकुर—ठाकुरा बलदेव—बलदेवा

[सू०—रामचरित-मानस तथा दूसरी पुरानी पुस्तकों की कविता में यह प्रत्यय मात्रा-पूर्ति के लिये, संज्ञाओं के अंत में लगा हुआ पाया जाता है; जैसे, हंस—हंसा, दिन—दिना, नाम—नामा]

(इ) पदार्थों की स्थूलता दिखाने के लिये पदार्थ-वाचक शब्दों के अत्यन्त स्वर के स्थान में इस प्रत्यय का आदेश होता है; जैसे, लकड़ी—लकड़ा, चिमटी—चिमटा, घड़ी—घड़ा (विनोद में)

[सू०—यह प्रत्यय बहुधा ईकारात् स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, पुल्लिंग बनाने के लिये लगाया जाता है। इसका बल्लेख लिंग-प्रकरण में किया गया है।]

(ई) द्वार—द्वारा; इस उदाहरण में आ के योग से अव्यय बना है।

आँ—यह, वह, जो और कौन के परे इस प्रत्यय के योग से स्थानवाचक क्रियाविशेषण बनते हैं, जैसे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ ।

आइँद (भाववाचक)—जैसे, कपडा—कपड़ाइँद (जले कपड़े की बास), सड़ाइँद, घिनाइँद, मघाइँद ।

आईँ—इस प्रत्यय के योग से विशेषणों और संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

भला—भलाई	बुरा—बुराई	ढीठ—ढिठाई
चतुर—चतुराई	चिकना—चिकनाई	पंडित—पंडिताई
ठाकुर—ठकुराई	वनिया—वनियाई	

[सू०—(१) इस प्रत्यय से कुछ जातिवाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं । मिठाई, खटाई, चिकनाई, ठंडाई, आदि शब्दों से उन वस्तुओं का भी बोध होता है जिनमें वह धर्म पाया जाता है । मिठाई = पेढा, बर्फी, आदि । ठंडाई—भंग ।

(२) यह प्रत्यय कभी-कभी सस्कृत की 'ता' (प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाओं में भूट से जोड़ दिया जाता है, जैसे, मूर्खताई, कोमलताई, शूरताई, जडताई।

(३) 'आईँ' प्रत्ययांत सब तद्धित शब्द खीलि ग हैं ।]

आनंद—विनोद में नामों के साथ जोड़ा जाता है—गडबडा-नंद, मेडकानंद, गोलमालानंद ।

आऊ (गुणवाचक)—

आगे—अगाऊ	घर—घराऊ
बाट—बटाऊ	पंडित—पंडिताऊ

आका—अनुकरणवाचक शब्दों से इस प्रत्यय के द्वारा भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे,

सन—सनाका	धम—धमाका	सड़—सड़ाका
भड़—भड़ाका	धड़—धड़ाका	

आटा—यह उपयुक्त प्रत्यय का समानार्थी है और कुछ शब्दों में लगाया जाता है; जैसे, अर्राटा, भर्राटा, सर्राटा, घर्राटा ।

आन (भाववाचक)—

घमस—घमासान ऊँचा—ऊँचान नीचा—निचान
लंवा—लंवान चौड़ा—चौड़ान

[सू०—यह प्रत्यय बहुधा परिमाणवाचक विशेषणों में लगता है ।]

आना (स्थानवाचक)—

राजपूत—राजपूताना हिंदू—हिंदुआना
तिलंगा—तिलंगाना उड़िया—उड़ियाना
सिरहाना, पैताना ।

आनी—यह प्रत्यय स्त्रीलिंग का है । इसके प्रयोग के लिए लिंग-प्रकरण देखो ।

आयत (भाववाचक)—

बहुत—बहुतायत पंच—पंचायत
तीनरा—तिसरायत; तिहायत अपना-अपनायत

आर—(अ) यह प्रत्यय संस्कृत के “कार” प्रत्यय का अप-भ्रंश है । उदा०—कुम्हार (कुंभकार), सुनार (सुवर्णकार), लुहार, चमार, सुआर (सूपकार) ।

(आ) कभी-कभी इस प्रत्यय से विशेषण बनते हैं; जैसे,

दूध—दुधार, गाँव—गँवार ।

आरी, **आरा**, **आड़ी**, ये “आर” के पर्यायी हैं और थोड़े से शब्दों में लगते हैं; जैसे, पूजा—पुजारी, खेल—खिलाड़ी, वनिज-वनिजारा, घसियारा, भिखारी, हत्यारा, मटियारा, कोठारी ।

(अ)—(भाववाचक)—छूट—छूटकारा ।

आल—(अ) इस प्रत्यय से विशेषण और संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

लाठी—लठियाल भाठा—भठियाल

जौआला (जौ और अनाज का मिश्रण)

दया—दयाल

कृपा—कृपाल

डाढी—डड़ियल

(आ) किसी किसी शब्दों में यह प्रत्यय संस्कृत आलय का अपभ्रंश है, जैसे, ससुराल (श्वशुरालय), ननिहाल, गंगाल, घड़ियाल (घड़ी का घर), दिवाला, शिवाला, पनारा (पनाला) ।

आली—संस्कृत “आवली” का अपभ्रंश है और समूह के अर्थ में प्रत्युक्त होता है, जैसे, दिवाली ।

आलू—भगड़ा—भगड़ालू, लाज—लजालू, डर—डरालू ।

आवट (भाववाचक)—अमावट, महावट ।

आस (भाववाचक)—

मीठा—मिठास खट्टा—खटास नींद—निंदास ।

आसा—(विविध अर्थ में)—मुँडासा, मुँहासा ।

आहट (भाववाचक)—

कडुवा—कडुवाहट

चिकना—चिकनाहट

गरम—गरमाहट

इन—खीलिंग का प्रत्यय है । इसका प्रयोग लिंग-प्रकरणा में दिया गया है ।

इया—(अ) कुछ संज्ञाओं से इस प्रत्यय के द्वारा कर्तृवाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे,

आढ़त—आढ़तिया

मखन—मखनिया

बखेड़ा—बखेडिया

गाड़र—गाड़रिया मुख—मुखिया

दुख—दुखिया

रसोइया रसिया

(स्थानवाचक)—

मथुरा—मथुरिया

कलकत्ता—कलकतिया

सरवार—सरवरिया

कनौज—कनौजिया

(आ)—(ऊनवाचक)—

खाट—खटिया

फोहा—फुडिया

डब्बा—डबिया गठरी—गठरिया
 आम—अंबिया बेटी—बिटिया

(इ)—(वस्त्रार्थी)—जाँघिया, आँगया ।

(ई) ईकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अनादर अथवा दुलार के लिये यह प्रत्यय लगाते हैं; जैसे,
 हरी—हरिया तेली—तिलिया
 धोबी—धुबिया राधा—रधिया
 दुर्गा—दुर्गिया माई—मैया
 भाई—भैया सिपाही—सिपहिया

(उ) प्राचीन कविता के कई शब्दों में यह प्रत्यय स्वार्थ में लगा हुआ मिलता है; जैसे,

आँख—अँखिया भाँग—भँगिया आग—अगिया
 पाँव—पैयाँ जी—जिया पी—पिया

ई—(अ) यह प्रत्यय कई एक संज्ञाओं में लगाने से विशेषण बनते हैं; जैसे, भार—भारी, ऊन—ऊनी, देश—देशी । इसी प्रकार जंगली, विदेशी, बँगनी, गुलाबी, बैसाखी, जहाजी, सरकारी आदि शब्द बनते हैं । देश के नाम से जाति और भाषा के नाम भी इस प्रत्यय के योग से बनते हैं; जैसे, मारवाड़ी, बंगाली, गुजराती, विलायती, नेपाली, अरबी, पंजाबी ।

(आ) कई एक अकारांत वा आकारांत संज्ञाओं में यह प्रत्यय लगाने से ऊनवाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,
 पहाड़—पहाड़ी घाट—घाटी ढोलकी डोरी
 टोकरी रस्ती चपली

(इ) कोई-कोई व्यापारवाचक संज्ञाएँ इसी प्रत्यय के योग से बनी हैं; जैसे, तेली (तेल निकालनेवाला), माली, धोबी, तमाखी ।

(ई) किसी-किसी विशेषणों में यह प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएँ बनाते हैं, जैसे, गृहस्थ—गृहस्थी, बुद्धिमान—बुद्धिमानी, सावधान—सावधानी, चतुर—चातुरी । इस अर्थ में यह प्रत्यय उर्दू शब्दों में बहुतायत से आता है, जैसे, गरीब—गरीबी, नेक—नेकी, बंद—बंदी, सुस्त—सुस्ती ।

इस प्रत्यय के और उदाहरण अगले अध्याय में दिये जायेंगे ।

(उ) कुछ संख्यावाचक विशेषणों से इस प्रत्यय के द्वारा समुदायवाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे, बीस—बीसी, बत्तीसी, पच्चीसी, इत्यादि ।

(ऊ) कई-एक संज्ञाओं में भी यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे,

चोर—चोरी

खेत—खेती

किसान—किसानी

महाजन—महाजनी

दलाल—दलाली

डाक्टर—डाक्टरी

सवार—सवारी

“सवारी” शब्द यात्री के अर्थ में जाति-वाचक है ।

(ऋ) भूषणार्थक—अँगूठी, कंठी, पहुँची, पैरी, जीभी (जीभ साफ करने की सलाई), अगाड़ी, पिछाड़ी ।

दूँला—इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं, जैसे,

रंग—रँगोला

छवि—छवीला

लाज—लजीला

रस—रसीला

जहर—जहरीला

पानी—पनीला

(अ) कोई-कोई संज्ञाएँ; जैसे, गोबर-गोवरीला ।

ईसा—मूँड-मुँडीसा, उसीसा ।

उआ—इस प्रत्यय से महुआ, गेरुआ, खारुआ, फगुआ, टह-लुआ, आदि विशेषण अथवा संज्ञाएँ बनती हैं ।

ज—इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं—

हाल—हालू	घर—घरू	बाजार—बाजारू
पेट—पेटू	गरज—गरजू	भाँसा—भाँसू
नाक—नाकू (बदनाम)		

(अ) रामचरित-मानस तथा दूसरी प्राचीन कविताओं में यह प्रत्यय संज्ञाओं में लगा हुआ पाया जाता है; जैसे, रामू, श्यापू, प्रतापू, लोंगू, योगू, इत्यादि। “ऊ” के बदल कर्मा-कर्मो उ आता है; जैसे, आपु, पितु, मातु, रामु।

(आ) कोई-कोई व्यक्तित्वक तथा सम्बन्धावक संज्ञाओं में यह प्रत्यय प्रेम अथवा आदर के लिये लगाया जाता है, जैसे,

जगन्नाथ—जगु	श्याम—श्यामू
बलदा—बलू	सन्ता—सन्तू
नन्दा—नन्द	

(इ) नीच जाति के लोगों अथवा बन्धों के नामों में बहुधा यह प्रत्यय पाया जाता है; जैसे, कन्तू, गण्डू, मरुतू, मुल्लू।

गू—(कामधावक)—गीं, मातं, आठं, नों, दगं।

खू—कई एक आकारित संज्ञायों और विशेषणों में यह प्रत्यय लगाने में आस्यय बनते हैं तिनका प्रयोग संबंधमूयक अथवा जिषा-विशेषण के समान होता है; जैसे,

सागना—सागनो	धीरा—धीरं	गदगा—गदगं
केला—केलं	मड़का—मड़कं	तीला—तीलं
	पीला—पीलं	

खरू—खूँ—खूँडा, खरू—खेरु :

खरू—(उदात्तावक)—

खरूँ—खेरुंग, खरूँसा—खेरुसा, खरूँ—खेरु, खरूँ—खेरुँ :

(गुणधावक)—खरूँ—खरूँगा, खरूँ—खरूँगा :

(भाववाचक)—अंध—अंधेरा ।

(संबंधवाचक)—

काका—ककरोरा

मामा—ममेरा

फूफा—फुफेरा

चाचा—चचेरा

मौसा—मौसेरा

एडो (कर्तृवाचक)—भाँग—भँगेडो, गाँजा—गँजेडो ।

एली—हाथ—हथेली ।

एल (विविध)—फूल—फुलेल, नाक—नकेल ।

ऐत (व्यवसाय-वाचक)—

लट्ट—लठैत

बरछा—बरछैत

बरद (विरद)—बरदैत (गवैया)

भाला—भालैत

कड़खा—कड़खैत

नाता—नतैत

दंगा—दंगैत

डाका—डकैत

ऐल—(गुणवाचक)—

खपरा—खपरैल

दूध—दुधैल,

दाँत—दतैल,

तोँद—तोँदैल,

एला—(विविध)—

बाध—बधेला

एक—अकेला

मोर—मुरेला

आधा—अधेला

सैत—सैतेला ।

ऐला—(गुणवाचक)—वन—वनैला, धूम—धुमैला,

मूँछ—मुँछैला ।

आँ—साकल्य और बहुत के अर्थ में; जैसे, दोनों, चारों, सैकड़ों, लाखों ।

ओट, ओटा—ल ग—लँगोट, चम—चमोटा ।

ओटी—हाथ—हथौटी, सच—सचौटी, अचर—अछरीटी,

चूना—चुनौटी ।

श्रौड़ा (श्रौड़ी)—हाथ—हथौड़ा, बरस—बरसौड़ा ।

श्रौती (भाववाचक)—बाप—बपौती, बूढ़ा—बुढ़ौती ।

श्रौता (पात्र के अर्थ में)—काठ—कठौता, काजर—कजरौटा ।

श्रौला (ऊनवाचक)—

सॉप—सॉपोला

खाट—खटोला

बात—बतोला

माँझ—मँझोला

घडा—घड़ोला

गढ़—गढ़ोला

श्रौटा (उसका बच्चा)—हिरन—हिरनौटा, बिल्ली—बिलौटा, पहिला—पहलौटा ।

क—(अ) अव्यय से नाम ; जैसे, धड़—धड़क, भड़—भड़क, धम—धमक ; इत्यादि ।

(आ) समुदायवाचक—चौक, पंचक, सप्तक, अष्टक ।

(इ) स्वार्थक—ठंड—ठंडक, ढोल—ढोलक, कहुँ—कहुँक (कविता में) ।

कर—करके—इसे कुछ शब्दों में लगाने से क्रिया-विशेषण बनते हैं, जैसे, खास—खासकर, विशेष—विशेषकर, बहुत-करके, क्यौंकर ।

का (स्वार्थ में)—

छोटा—छुटका

बड़ा—बड़का

चुप—चुपका

छाप—छपका

बूँद—बुँदका ।

(समुदाय-वाचक)—इक्का, दुक्का, चौका ।

(विविध)—मा—मैका, माटी—मटका, लाड़—लड़का ।

की—(ऊनवाचक)—कन—कनकी, टिम—टिमकी ।

चन्द—विनोद अथवा आदर में संज्ञाओं के साथ आता है ; जैसे, गीदड़चन्द, मूसलचन्द, वामनचन्द ।

जा—भाई अथवा बहिन का बेटा; जैसे, भतीजा, भानजा ।

(क्रमवाचक) दूजा, तीजा ।

जी—आदरार्थ, जैसे, गुरुजी, पंडितजी, बाबूजी ।

टा, टी—(ऊनवाचक)—

रोआँ—रोंगटा

काला—कलूटा

चार—चोट्टा

बहू—बहूटी

ठो—सख्यावाचक शब्दों के साथ अनिश्चय में; जैसे, दो-ठो, चारठो, इत्यादि ।

ड़ा, डी—(ऊनवाचक)—

चाम—चमड़ा

बच्छा—बच्छड़ा

दुख—दुखड़ा

मुख—मुखड़ा

टुक—टुकड़ा

लँग—लँगड़ा

टाँग—टाँगड़ी

पलँग—पलँगड़ी

पँख—पँखड़ी

लाल—लालड़ी

आँत—आँतड़ी ।

(स्थानवाचक)—आगा—अगाड़ी, पीछा—पिछाड़ी ।

त—(भाववाचक)—चाह—चाहत, रंग—रगत, मेल—मिछत, इत्यादि ।

ता—(विविध)—पाँयता, रायता (राई से बना) ।

ती—(भाववाचक)—कम—कमती । यह प्रत्यय यहाँ फारसी शब्द में लगा है और इस यौगिक शब्द का उपयोग कभी-कभी विशेषण के समान भी होता है ।

तना—यह, वह, जो और कौन के परे परिमाण के अर्थ में; जैसे, इतना, उतना, जितना, कितना ।

था—चार और छः से परे सख्या-क्रम के अर्थ में; जैसे, चौथा; छः से छठा ।

नी—(विविध अर्थ मे)—चाँद—चाँदनी, पाँव—पैजनी,
नथ—नथनी ।

पन—(भाववाचक)—

काला—कालापन

लड़का—लड़कपन

बाल—बालपन

पागल—पागलपन

गँवार—गँवारपन

पा—(भाववाचक)—बूढ़ा—बुढ़ापा, राँड़—रँड़ापा, बहिन—
बहिनापा, मोटा—मोटापा ।

ब—यह, वह, जो और कौन के परे काल के अर्थ मे; जैसे,
अब, तब, जब, कब ।

भगवान—आदर अथवा विनोद मे; जैसे, वेद-भगवान, बंदर-
भगवान (विचित्र०) ।

राम—कुछ शब्दों में आदर के लिये और कुछ मे निरादर
अथवा विनोद के लिये जोड़ा जाता है; जैसे, माताराम, पिताराम,
दूतराम, मेढकराम, गीदड़राम, इत्यादि ।

री—(ऊनवाचक)—कोठा—कोठरी, छत्ता—छतरी, बाँस—
बाँसुरी, मोट—मोटरी ।

ला—(गुणवाचक)—

आगे—अगला

पीछे—पिछला

साँझ—मँझला

धुंध—धुँधला

लाड़—लाड़ला

बाब्र—बावला

ली—(ऊनवाचक)—टीका—टिकली, सूप—सुपली, खाज—
खुजली, घटा—घंटाली, डफ—डफली ।

ल—(विविध)—घाव—घायल, पाँव—पायल ।

येँ—यह, वह, जो और कौन के परे प्रकार के अर्थ मे; जैसे,
येँ, त्योँ, ज्योँ, क्योँ ।

वंत—गुण-अर्थ में, दया—दयावंत, धन—धनवंत, गुण—
गुणवंत, शील—शीलवंत ।

वाल—यह प्रत्यय “वाला” का शेष है; जैसे,

गया—गयावाल

प्रयाग—प्रयागवाल

पल्ली—पल्लीवाल

कोत (कोट)—कोटवाल

वाला—कर्तृ—अर्थ में,

टोपी—टोपीवाला

गाड़ी—गाड़ीवाला

धन—धनवाला

काम—कामवाला

वाँ—(क्रमवाचक)—पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ, नवाँ, दसवाँ,
सौवाँ ।

वा (ऊनवाचक)—बेटा—बिटवा, बच्छा—बछवा, बच्चा—
बचवा, पुर—पुरवा ।

[सू०—यह प्रत्यय प्रातिक है ।]

स—(भाववाचक)—आप—आपस, धाम—धमस ।

(क्रमवाचक)—ग्यारह—ग्यारस, बारह—बारस, तेरस, चौदह—

सा—(प्रकारवाचक)—यह, वह, सो, जो, कौन के साथ;
जैसे, ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, तैसा ।

(ऊनवाचक)—लालसा, अच्छासा, उड़तासा, एकसा, दूसरा,
ऊँचासा ।

(परिमाणवाचक)—थोड़ासा, बहुतसा, छोटासा

[सू०—इस प्रत्यय का प्रयोग कभी-कभी संबंध-सूत्र के द्वारा होता है
(अ०—२४१)] ।

सरा—(क्रमवाचक)—दूसरा, तीसरा ।

सों—(पूर्व दिनवाचक) परसों, नरहों

हर—(घर के अर्थ में)—खडहर, फंदहर, कठहरा ।

हरा—(परत के अर्थ में) इकहरा, दुकहरा, तिहरा, चौहरा

(विभिन्न अर्थ में) —ककहरा ।

(गुणवाचक) —सोना—सुनहरा, रूपा—रुपहरा ।

हा—(गुणवाचक) —हल—हलवाहा, पानी—पनिहा, कबीर—कविराहा ।

हारा—यह प्रत्यय वाला का पर्यायी है, परन्तु इसका उपयोग उसकी अपेक्षा कम होता है; जैसे, लकड़ी—लकड़हारा, पनहारा, चुडिहारा, मनिहारा ।

ही—(निश्चयवाचक) —कई एक सर्वनामों और क्रियाविशेषणों में यह प्रत्यय ई होकर मिल जाता है; जैसे, आजही, सभी, मैंही, तुम्हीं, उसी, वही, कभी, अभी, किसी, यहीं, इत्यादि

नगर, पुर, गढ़, गाँव, नेर, शेर, वाड़ा, कोट आदि प्रत्यय स्थानों का नाम सूचित करते हैं, जैसे, रामनगर, शिवपुर, देवगढ़, चिरगाँव, बोकानेर, अजमेर, रजवाड़ा, नगरकोट ।

पाँचवा अध्याय

उर्दू प्रत्यय

४३७—संस्कृत और हिंदी के समान उर्दू यौगिक शब्द भी कृदंत और तद्धित के भेद से दो प्रकार के होते हैं । ये शब्द मुख्य करके दो भाषाओं अर्थात् फारसी और अरबी के हैं । इसलिए इनका विवेचन अलग-अलग किया जाता है ।

(१) फारसी प्रत्यय

(क) फारसी कृदंत

अ (भाववाचक) —

आमद (आया) — आमद (अवाई)

खरीद (खरीदा)—	खरीद (क्रय)
वरदाशत (सहा)—	वरदाशत (सहन)
दरख्वास्त (मँगा)—	दरख्वास्त (प्रार्थना)
रसीद (पहुँचा)—	रसीद (पहुँच), रसद
आ (कर्तृवाचक)—	

दान (जानना)—दाना (जाननेवाला, चतुर), रिह (छूटना)
रिहा (छूटनेवाला, मुक्त) ।

आन (आँ)—(वर्तमानकालिक कृदत)—

पुस (पूछना)—पुसँ (पूछता हुआ), चस्प (चिपकाना)—
चस्पॉ (चिपकता हुआ) ।

इन्दा (कर्तृवाचक)—

कुन (करना)—कुनिन्दा (करनेवाला), जी (जीना)—जिन्दा
(जीतनेवाला, जीता), वाश (रहना) वाशिंदा, परिंदा (उड़ने-
वाला, पक्षी) ।

[सू०—हि दी क्रिया “कुनना” के साथ यह प्रत्यय लगाने से कुनि दा
शब्द बना है; पर यह अशुद्ध है ।]

इश (भाववाचक)—

परवर (पालना)—परवरिश, कोश (उपाय करना)—कोशिश,
नाल (रोना)—नालिश, माल (मलना)—मालिश, फरमाय (आज्ञा
देना)—फरमाइश ।

ई (भाववाचक)—

रफतन (जाना)—रफतनी, आमदन (आना)—आमदनी ।

ह (भूतकालिक कृदत)—

शुद (हुआ)—शुदह, मुर्द (मरा)—मुर्दह, दाशत (रक्खा)—
दाशता (रक्खी हुई स्त्री) ।

(ख) फारसी तद्धित ।

(अ) संज्ञाएँ

आ—इस प्रत्यय के द्वारा कुछ विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, गरम—गरमा, सफ़ेद—सफ़ेदा, खराब—खराबा ।

आनह (आना)—(रूपये के अर्थ में)—

जुर्म—जुर्माना

तलब—तलबाना

नज़र—नज़राना

हर्ज—हर्जाना

बय (बिक्री) बयाना

मिहनत—मिहनताना,

शुक्राना ।

(विविध अर्थ में)—

दस्त—दस्ताना (हाथ का मोजा), मौला (प्रभु)—मौलाना (महाशय) ।

ई—विशेषणों में यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे,

खुश—खुशी

सियाह—सियाही (कालापन, मसी)

नेक—नेकी

बद—बदी

(अ) इसी प्रत्यय के द्वारा संज्ञाओं से अधिकार, गुण, स्थिति अथवा मोल सूचित करनेवाली संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

नवाब—नवाबी

फकीर—फकीरी

सौदागर—सौदागरी

दोस्त—दोस्ती

दुश्मन—दुश्मनी

दलाल—दलाली

मंजूर—मंजूरी

(आ) शब्दांत का 'ह' बदलकर ग हो जाता है, जैसे,

बंदह—बंदगी

जिंदह—जिंदगी

रवानह—रवानगी

परवानह—परवानगी

ताज़ह—ताज़गी

(इ) ज्यादह—ज्यादती ।

क (ऊनवाचक); जैसे, तोप—तुपक ।

कार—इससे कर्तृवाचक सझाएँ बनती हैं, जैसे, पंश (सामने)—
पंशकार (सहायक), बद् (बुरा)—बद्कार (दुष्ट), काश्त (खेती)—
काश्तकार (किसान), मलाह—सलाहकार ।

[सू०—हि दी “जानकार” में यही प्रत्यय जान पडता है ।]

गर—(कर्तृवाचक), जैसे,

सौदा—सौदागर

जिल्द—जिल्दगर

कार—कारीगर

कलई—कलईगर, जीनगर ।

गार—(कर्तृवाचक)—

मदद—मददगर

याद—यादगर

खिदमत—खिदमतगर

गुनाह—गुनाहगर ।

चा अथवा दूचा (ऊनवाचक)—

बाग—बागचा अथवा बागीचा (हिं०—बगीचा)

गाली (कालीन = शतरंजी)—गालीचा (हिं०—गलीचा)

देग (हिं०—डेग)—देगचा (बटलोई), चमचा ।

दान (पात्रवाचक)—

कलम—कलमदान

शमअ (मोमवत्ती)—शमअदान

इत्रदान, नावदान, खानदान ।

[सू०—यह प्रत्यय हि दी शब्दों में भी लगाया जाता है और इसका रूप
बहुधा दानी हो जाता है, जैसे, पानदान, पीकदान, (पीकदानी), चायदान,
मच्छडदानी, गोंददानी, उगालदान ।

वान (कर्तृवाचक)—

बाग—बागवान

दर (द्वार)—दरवान

मिहर (दया) मिहरवान, मेज़वान (पाहुने का सत्कार करनेवाला) ।

[सू०—हिंदी-शब्दों में भी यह प्रत्यय लगता है; पर इसका रूप संस्कृत के अनुकरण पर बान हो जाता है; जैसे, गाड़ीवान, हाथीवान ।]

ह (विविध अर्थ में)—

हफ्त (सात)—

हफ्तह (सप्ताह)

चश्म (आँख)—चश्मह

दस्त (हाथ)—दस्तह (मूठ)

पेश (सामने)—पेशह

रोज़—रोज़ह (उपास)

[सू०—हिंदी में ह के स्थान में बहुधा आ हो जाता है, जैसे, हफ्ता, पेशा ।]

४३७ (क)—नीचे लिखे शब्दों का उपयोग बहुधा प्रत्ययों के समान होता है—

नामा (चिट्ठी)—इकरारनामा, सरनामा, मुख्तारनामा ।

आब (पानी)—गुलाब, गिलाब (गिल = मिट्टी), शराब ।

(आ) विशेषण

आनह (आना)—

साल—सालाना

रोज—रोजाना

मर्द—मर्दाना

जन—जनाना

शाह—शाहाना

'व्यापाराना' अशुद्ध प्रयोग है

इंदा—

शर्म—शर्मिंदा,

कार—कारिंदा ।

आवर—

जेरावर,

दिलावर (साहसी)

बख्तावर (भाग्यवान)

दस्तावर (रेचक)

नाक—

दर्द—दर्दनाक,

खौफ—खौफनाक ।

ई—

ईरानी खुनी, देहाती, खाकी, आसमानी ।

ईन—

रगीन

शौकीन

नमकीन

संग (पत्थर)—सगीन (भारी)

पोस्त (चमड़ा)—पोस्तीन

मद—

अक्लमद

दौलतमद

दानिश (ज्ञान)—दानिशमद

वार—उम्मीदवार (हि०—उम्मेदवार), माहवार, तफ़सील-
वार, तारीखवार ।

वर—

जानवर

नामवर

ताकतवर

हिम्मतवर

ईना—

कम—कमीना

माह (चंद्रमा)—महीना

पशम—पशमोना (कपड़ा)

ज़ादह (उत्पन्न हुआ)—शाहज़ादा, हरामज़ादा ।

४३८—सज़ाओं में कुछ क़दत जोड़ने से दूसरी सज़ाएँ और विशेषण बनते हैं । ये यथार्थ में समान हैं ; पर सुभीते के कारण यहाँ लिखे जाते हैं ।

अंदाज़ (फेंकनेवाला)—

बर्क (विजली)—बर्कंदाज़ (सिपाही), तोर—तीरंदाज़, गोला
(हि०)—गोलंदाज़, दस्तंदाज़ ।

आवेज़ (लटकानेवाला)—दस्तावेज़ (हाथ का काग़ज़ जिससे सहारा मिलता है) ।

कुन (करनेवाला)—कारकुन, नसीहतकुन ।

खोर (खानेवाला)—हलालखोर (भंगी), हरामखोर, सूद-
खोर, चुगलखोर ।

गीर (पकड़नेवाला)—राहगीर (बटोही), जहाँगीर (जगत्-
प्राही), दस्तगीर (सहायक) ।

दान (जाननेवाला)—

कारदान, कदरदान, हिसाबदान इत्यादि ।

[सू०—अतिरिक्त न का उच्चारण बहुधा अनुनासिक होता है; जैसे, कदरदाँ ।]

दार (रखनेवाला) -

जमींदार

दूकानदार

चोबदार

तरहदार

फौजदार

मालदार

[सू०—यह प्रत्यय हिंदी शब्दों में भी लगा हुआ मिलता है; जैसे, चमकदार, नातेदार, थानेदार, फलदार ।]

नुमा (दिखानेवाला)—

कुतुबनुमा

किबलानुमा

किशतीनुमा (नाव के आकार का)

नवीस (लिखनेवाला)—

अरजीनवीस

स्याहनवीस

वासिलबाक्कीनवीस

चिटनवीस

नशीन (बैठनेवाला)—तख्तनशीन, परदानशीन ।

बंद (बाँधनेवाला)—

नालबंद, कमरबंद, इज़ारबंद, बिस्तरबंद ।

[सू०—हिंदी-शब्दों में भी यह प्रत्यय पाया जाता है, जैसे, हथियारबंद, गलाबंद, नाकेबंदी ।]

पोश (पहिननेवाला, छुपानेवाला)—जीनपोश, पापोश (जूता), सरपोश (ढक्कन), सफेदपोश (सभ्य) ।

साज (वनानेवाला)—जालसाज, जीनसाज, घडोसाज ।
पिछले उदाहरण में 'घड़ी' हिंदी है ।

बर (लेनेवाला)—

पैगम (पैगम = सदेशा)—पैगवर (ईश्वर-दूत), दिल-दिलवर ।

बरदार (उठानेवाला)—

हुक्का—हुक्कावरदार, खासवरदार (मालिक की बटूक ले जानेवाला), इत्यादि ।

बाज (खेत्तनेवाला, प्रेम करनेवाला)—

दगाबाज, नशेबाज, शतरजबाज

[सू०—यह प्रत्यय बहुधा हिं दी-शब्दों में भी लगा दिया जाता है, जैसे, षट्बाज, धोखेबाज, चालबाज ।]

बीन (देखनेवाला)—

खुर्द (छोटा)—खुर्दबीन, दूरबीन, तमाशबीन ।

माल (मलनेवाला, पोछनेवाला)—

रू (मुँह)—रूमाल, दस्तमाल ।

४३६—सज्ञाओं में नीचे लिखे शब्दों और प्रत्ययों को जोड़ने से स्थानवाचक सज्ञाएँ बनती हैं—

आवाद (वसा हुआ)—

हैदरावाद इलाहावाद अहमदावाद, शाहजहानावाद

खाना (स्थान)—

कारखाना दौलतखाना कैदखाना

गाड़ीखाना

दवाखाना

गाह—

ईदगाह, शिकारगाह, वदरगाह, चरागाह, हरगाह ।

इस्तान—

अरबिस्तान

अफगानिस्तान

तुर्किस्तान

हिंदुस्तान

कनिस्तान

[सू०—फारसी का “इस्तान” प्रत्यय रूप और अर्थ में संस्कृत के “स्थान” शब्द के सदृश होने के कारण, हिंदी शब्दों के साथ बहुधा “स्थान” ही का प्रयोग करते हैं; जैसे, हिंदुस्थान, राजस्थान इत्यादि ।]

शन—गुलशन (बाग) ।

जार—गुलजार (पुष्प-स्थान) । (हिंदी में गुलजार शब्द का अर्थ बहुधा “रमणीय” होता है ।) बाजार (अवा = भोजन) ।

बार—दरबार, जंगबार (जंजीबार) ।

[सू०—फारसी समासों के उदाहरण आगे समास-प्रकरण में दिए जायेंगे ।]

(२) अरबी प्रत्यय ।

(क) अरबी कृदंत ।

४४०—अरबी के प्रायः सभी शब्द किसी न किसी धातु से बने हुए होते हैं और अधिकांश धातु त्रिवर्ण रहते हैं । कुछ धातु चार वर्णों के और कुछ पाँच वर्णों के भी होते हैं । धातुओं के अक्षरों के मान (वजन) के अक्षर सब कृदंतों में पाये जाते हैं और वे मूलाक्षर कहाते हैं । इन मूलाक्षरों के सिवा कुछ और भी अक्षर कृदंतों की रचना में प्रयुक्त होते हैं जिन्हें अधिकाक्षर कहते हैं । ये अधिकाक्षर सात हैं—अ, त, स, म, न, ऊ, य और इन्हें स्मरण रखने के लिये इनसे “अतसमनूय” शब्द बना लिया गया है । एक धातु से बने हुए सभी कृदंत हिंदी में नहीं आते; और जो आते हैं उनमें भी बहुधा उच्चारण की सुगमता के लिये रूपांतर कर लिया जाता है ।

अरबी में धातुओं और कृदंतों के संपूर्ण रूप वजन अर्थात् नमूने पर बनाये जाते हैं; और फ़ अ ल को मूलाक्षर मानकर इन्हीं-

से सब प्रकार के वजन बनाते हैं । जब कभी चार या पाँच मूला-
चरों का काम पड़ता है तब ल को दो वा तीन बार काम में लाते हैं ।

४४० (क)—त्रिवर्ण धातु के मूल रूप से कई एक क्रियार्थक
सझाएँ बनती हैं । इनमें से जो हिंदी में प्रचलित हैं उनके वजन
और उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

नं०	वजन	उदाहरण
१	फ़अल	फ़ल = मार डालना
२	फ़िअल	इल्म = जानना
३	फुअल	हुक्म = आज्ञा देना
४	फअल	तलब = खोजना
५	फअलत	रहमत = दया करना
६	फ़िअलत	खिमत = सेवा करना
७	फुअलत	कुद्रत = योग्य होना
८	फअलत	हरकत = चलना
९	फइलत	सरिका = चोरी
१०	फअला	दअवा (दावा) = हक
११	फअाल	सलाम = कुशल होना
१२	फिअाल	कियाम = ठहरना
१३	फुअाल	सुवाल = पूछना
१४	फऊल	कवूल = स्वीकार
१५	फुऊल	जुहूर = रूप
१६	फअलान	दवरान = सचार
१७	फअालत	वगावत = बलवा
१८	फिअालत	किताबत = लिखना
१९	फऊलत	जरूरत = आवश्यकता
२०	मफअलत	मरहमत = दया

[सू०—(१) एक ही धातु से ऊपर लिखे सब वजनों के शब्द व्युत्पन्न नहीं होते, किसी-किसी से दो वा तीन, और किसी-किसी से केवल एक ही वजन बनता है।

(२) जिन क्रियार्थक, संज्ञाओं के अंत में त रहता है वे बहुधा दूसरी क्रियार्थक संज्ञाओं में इन प्रत्यय के जोड़ने से बनती हैं; जैसे, रह्म = रह्मत ।]

कृदंत-विशेषण ।

४४१—दूसरे मुख्य व्युत्पन्न शब्द कृदंत-विशेषण हैं। अधिक प्रचलित शब्दों के वजन ये हैं—

(१) फ़ाइल—अपूर्ण कृदंत अथवा कर्तृवाचक संज्ञा, जैसे, आलिम = विद्वान् (अलम = जानना से), हाकिम = अधिकारी (हकम = न्याय करना से), गाफिल = भूलनेवाला (गफल = भूलना से) ।

(२) मफ़्जल—भूतकालिक (कर्मवाचक) कृदंत; जैसे, मअलूम = जाना हुआ (अलम = जानना से), मनज़ूर = स्वीकृत (नज़र = देखना से), मशहूर = प्रसिद्ध (शहर = प्रसिद्ध करना से) ।

(३) फ़ईल—इस रूप से गुण की स्थिरता अथवा अधिकता का बोध होता है; जैसे, हकीम = साधु वैद्य (हकम = न्याय करना से), रहीम = बड़ा दयालु (रहम = दया करना से) ।

[सू०—ऊपर लिखे तीनों वजनों के शब्द बहुधा संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं ।]

(४) फ़जल—इसका अर्थ तीसरे रूप के समान है, जैसे, गफूर = अधिक क्षमाशील (गफर = क्षमा करने से), जरूर = आवश्यक (जर्र = सताना से) ।

(५) अफ़्जल—इस वजन पर त्रिवर्ण कृदंत विशेषण से उत्कर्ष-बोधक विशेषण बनते हैं; जैसे, अकबर = बहुत बड़ा (कबीर = बड़ा से), अहमद = परम प्रशंसनीय (हमीद = प्रशंसनीय से)

(६) फञ्श्चाल—इस नमूने पर व्यापार की कर्तृवाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, जल्लाद, (जलद = कोडा मारना), सर्राफ (सरफ = बदलना, हिं०—सराफ), बज्जाज (हिं०—बजाज), वकाल ।

४४२—त्रिवर्ण धातुओं से क्रियार्थक संज्ञाओं के और भी रूप बनते हैं जिनमें दो वा अधिक अधिकात्तर आते हैं । मूल क्रियार्थक संज्ञाओं के अनुरूप इन क्रियार्थक संज्ञाओं से भी कर्तृवाचक और कर्म-वाचक विशेषण बनते हैं । दोनो के मुख्य माँचे नीचे दिये जाते हैं ।

(क) क्रियार्थक संज्ञाओं के अन्य रूप ।

(१) तफूर्ईल—जैसे, तअलीम = शिचा (अलम = जानना से, हिं०—तालीम), तहसील = प्राप्ति (हसल = पाना से) ।

(२) मुफाअलत—मुकावला = मामना (कवल = सामने होना से), मुशामला = विषय, उद्योग (अमल = अधिकार चलाना से) ।

(३) इफ्श्चाल—इन्कार = नार्ही (नकर = न जानना से), इन्साफ = न्याय (नसफ = न्याय करना से) ।

(४) तफउल्ल—जैसे, तअल्लुक = सवध (अलक = आसरा करना से), तखल्लुस = उपनाम (खलस = रक्षित होना से), तकल्लुफ (कलफ = आदर करना से) ।

(५) इफ्तिश्चाल—जैसे, इम्तिहान = परीक्षा (महन = परीक्षा करना से), ऐतराज = आपत्ति (अरज = आगे रखना से), ऐतवार = विश्वास (अवर = विश्वास करना से) ।

(६) इस्तिफ्श्चाल—इस्तिश्चाल = उपयोग (अमल = काम से लाना से), इस्तिमरार = स्थिरता (मर्र = होता रहना से) ।

(ख) क्रियार्थक विशेषणों के अन्य रूप ।

कर्तृवाचक और कर्मवाचक विशेषणों के वजन नीचे लिखे जाते हैं । इनके रूपों में यह अंतर है कि पहले के अत्यात्तर में इ और दूसरे के अत्यात्तर में अ रहता है—

कर्तृवाचक विशेषण का वजन	उदाहरण	कर्मवाचक विशेषण का वजन	उदाहरण
१ मुफह्लइ	मुअल्लिम = शिक्षक ('हल्म' से)	मुफअअल	मुअल्लम = शिष्य
२ मुफाइल	मुहाफिज्ज = रक्षक ('हिफज्ज' से)	मुफाअल	मुहाफज्ज = रक्षित
३ मुफइल	मुन्सिफ़ = न्यायाधीश ('नसफ' से)	मुफअल	मुनसफ़ = न्याय पानेवाला
४ मुत्फइइल	मुत्बदिल = बदलनेवाला ('बदल' से)	मुतफअअल	मुतबदल = बदला हुआ
५ मुन्फइल	मुन्सरिम = शासक ('सरम' से)	मुन्फअल	मुन्सरम = शासित
६ मुत्फाइल	मुत्वातिर = लगातार ('वतर' से)	मुत्फाअल	मुत्वातर = निर्विघ्न
७ मुस्तफइल	मुस्तकबिल = भविष्य ('कवल' से)	मुस्तफअल	मुस्तकबल = चित्र

स्थानवाचक और कालवाचक संज्ञाएँ ।

४४३—स्थानवाचक और कालवाचक संज्ञाएँ बहुधा मफअल या मफइल के वजन पर होती हैं और उनके आदि में म अवश्य रहता है, जैसे, मक़तब = वह स्थान जिसमें लिखना सिखाया जाता है। (क़तब = लिखना से); मक़तल = क़तल करने की जगह (क़तल = मार डालना से), मजलिस = वह स्थान जहाँ अथवा वह समय जब कई लोग बैठते हैं (जलस = बैठना से), मस्जिद = पूजा की जगह (सजद = पूजा करना से), मंजिल = पड़ाव (नजल = उतरना से)

[सू०—स्थानवाचक संज्ञाओं में कभी-कभी ह जोड़ दिया जाता है; जैसे, मक़्बरह, मद्रसह ।]

(ख) अरबी तद्धित ।

आनी—इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं, जैसे, जिस्म (शरीर)—जिस्मानी (शारीरिक), रूह (आत्मा)—रूहानी (आत्मिक) ।

इयत्—(भाववाचक), जैसे, इंसान (मनुष्य)—इसानियत् (मनुष्यत्व), कैफ (कैसे ?)—कैफियत्, मा (क्या ?)—माहियत् (मूल) ।

ई—(गुणवाचक); जैसे, इल्म—इल्मी, अरब—अरबी, ईसा—ईसवी, इसान—इसानी ।

ची—इम तुर्की प्रत्यय से व्यापारवाचक सज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, मशअलची (हिं०—मशालची), तवलची, खजानची, बावर (विश्वास)—बावरची (रसोइया) ।

४४४—अरबी में समास के लिये दो सज्ञाओं के बीच में उल् (का) संबंध-सूचक रख दंते हैं और भेद्य को भेदक के पहले लाते हैं, जैसे, जलाल (प्रभुत्व) + उल् + दीन (धर्म) = जलालु-दीन (धर्म-प्रभुत्व) । इस उदाहरण में उल् का अंत्य ल् अरबी भाषा की सधि के अनुसार द् होकर “दीन” के आद्य “द” में मिल गया है । इसी प्रकार दार (घर) + उल् + सल्तनत (राज्य) = दारुसल्तनत (राजधानी), हबीब (मित्र) + उल् + अल्लाह (ईश्वर) = हबीबुल्लाह (ईश्वर-मित्र), निजामुल्-मुल्क (राज्य-व्यवस्थापक) ।

(क)—वलद (अ० वल्द = पुत्र) दो हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बीच में पिता-पुत्र का संबंध बताने के लिये आता है, जैसे, मोहन वल्द सोहन (सोहन का पुत्र मोहन) । यह कानूनी हिंदी का एक उदाहरण है ।

छठा अध्याय

समास ।

४४५—दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतानेवाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है । उदा०—प्रेमसागर अर्थात् प्रेम का समुद्र । इस उदाहरण में प्रेम और सागर, इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बतानेवाले संबंधकारक के 'का' प्रत्यय का लोप होने से 'प्रेमसागर' एक स्वतंत्र शब्द बना है, इसलिए 'प्रेमसागर' सामासिक शब्द है और इस शब्द में प्रेम और सागर, इन दो शब्दों का संयोग है; इसलिये इस संयोग को समास कहते हैं ।

समास के और उदाहरण—रसोईघर, राजकुमार, कालीमिर्च, मिठबोला ।

[सू०—यद्यपि "समास" शब्द का मूल अर्थ वही है जो ऊपर दिया गया है, तथापि वह सामासिक शब्द के अर्थ से भी आता है और इस पुस्तक में भी कहीं-कहीं यह अर्थ लिया गया है ।]

४४६—जब दो या अधिक शब्द इस प्रकार जोड़े जाते हैं तब उनमें संधि के नियमों का प्रयोग होता है । सस्कृत शब्दों में संधि अवश्य होती है, पर हिंदी और दूसरी भाषाओं के शब्दों में बहुधा नहीं होती ।

उदा०—राम + अवतार = रामावतार, पत्र + उत्तर = पत्रोत्तर, मनस् + योग = मनोयोग । वयस् + वृद्ध = वयोवृद्ध । परंतु घर + आँगन = घर-आँगन, राम + आसरे = राम-आसरे, बे + ईमान = बेईमान ही रहता है ।

[सू०—छोटे-छोटे और साधारण सामासिक शब्द बहुधा दूसरे से मिलाकर लिखे जाते हैं, पर बड़े-बड़े और असाधारण सामासिक शब्द योजक चिह्न के द्वारा, जो अँगरेजी के 'हाईफन' का अनुकरण है, मिलाए जाते हैं, जैसे, (१) रामपुर, धूपघड़ी, स्त्रीशिक्षा, आसपास, रसोईघर, कैदखाना, (२) चित्र रचना, नाटक-शाला, पथ-प्रदर्शक, सास-ससुर, भला-चगा । कभी-कभी संस्कृत के ऐसे सामासिक शब्द भी जो संधि के नियमों से मिल सकते हैं, केवल योजक (हाईफन) के द्वारा मिलाए जाते हैं, जैसे, वस्त्र-आमृषण, मत-एकता, हरि-इच्छा । कविता में यह बात विशेष रूप से पाई जाती है, जैसे,

“पराधीन-सम दीन कुमुद मुद-हीन हुए है,
पर-उन्नति को देख शोक मे लीन हुए है ।—सर० ।]

४४७—सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं । “धन-सपन्न” समास का विग्रह “धन से सपन्न” है, जिससे जान पड़ता है कि “धन” और “सपन्न” शब्द करण-कारक से संबद्ध हैं । इसी प्रकार जाति-भेद, चंद्रमुख, और त्रिभुज शब्दों का विग्रह यथाक्रम “जाति का भेद”, “चंद्र के समान मुख” और “तीन हैं भुज जिसमें” है ।

४४८—किसी भी सामासिक शब्द में विभक्ति लगाने का प्रयाजन हो तो उसे समास के अंतिम शब्द में जोड़ते हैं, जैसे, मावाप से, राजकुल में, भाई-बहिनों को ।

[सू०—(१) संस्कृत में इस नियम का एक भी अन्वय नहीं है, परंतु हिंदी के किसी-किसी द्व द्व समास में उपात्य आकारात् शब्द विकृत रूप में आता है; जैसे, भले-बुरे से, छोटे-बड़ों ने, लडके-बच्चे को । इस विषय का और विवेचन द्व द्व-समास के प्रकरण में मिलेगा ।

(०) हिंदी में संस्कृत सामासिक शब्दों का प्रचार साधारण है, पर आजकल यह प्रचार बढ़ रहा है । दूसरी भाषाओं और विशेष कर अँगरेजी के विचारों को हिंदी में व्यक्त करने के लिये संस्कृत के सामासिक शब्दों का उपयोग करने में सुभीता है, जिससे इस प्रकार के बहुत से शब्द आजकल हिंदी

में प्रयुक्त होने लगे हैं। निरं हिंदी सामासिक शब्द बहुत कम मिलते हैं और वे बहुधा दोही शब्दों से बने रहते हैं। संस्कृत-समास बहुधा लंबे होते हैं और कोई-कोई लेखक अथवा कवि आग्रह-पूर्वक लंबे-लंबे समासों का उपयोग करने में अपनी कुशलता समझते हैं। “जनमनमंजु-मुकुर-मल-हरनी” (राम०) हिंदी में प्रचलित एक सबसे बड़े समास का उदाहरण है, पर इस प्रकार के समासों के लिये हिंदी की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। हमारी भाषा में तो दो अथवा अधिक से अधिक तीन शब्दों ही के समास उचित और मधुर जान पड़ते हैं।]

४४६—समासों के मुख्य चार भेद हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभाग-तत्त्व पर ये भेद किए गए हैं।

जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे **अव्ययीभाव** समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे **तत्पुरुष** कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह **द्वंद्व** कहलाता है। और जिसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता उसे **बहुव्रीहि** कहते हैं।

इन चार मुख्य भेदों के कई उपभेद भी हैं जो न्यूनाधिक महत्त्व कें हैं। इन सबका विवेचन आगे यथास्थान किया जायगा।

अव्ययीभाव ।

४५०—जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया-विशेषण अव्यय होता है, उसे **अव्ययीभाव** समास कहते हैं; जैसे, यथाविधि, प्रतिदिन, भरसक।

[सू०—संस्कृत में अव्ययीभाव-समास का पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा अथवा विशेषण रहता है। पर हिंदी में इस समास के उदाहरणों में पहले अव्यय के बदले बहुधा संज्ञा ही पाई जाती है। यह बात आगे अं० ४५२ में स्पष्ट होगी।]

४५१—(अ) जिन समासों में यथा (अनुसार), आ (तक), प्रति (प्रत्येक), यावत् (तक), वि (विना) पहले आते हैं, ऐसे संस्कृत अव्ययीभाव-समास हिंदी में बहुधा आते हैं; जैसे,

यथाविधि	आजन्म
यथास्थान	आमरण
यथाक्रम	यावज्जीवन
यथासभव	प्रतिदिन
यथाशक्ति	प्रतिमास
यथासाध्य	व्यर्थ

(आ) अच् (नेत्र) शब्द अव्ययीभाव-समास के अंत में अच् हो जाता है, जैसे, प्रत्यच् (आँख के आगे), समच् (सामने), परोच् (आँख के पीछे, पीठ-पीछे) ।

४५२—हिंदी में संस्कृत पद्धति के निरं हिंदी-अव्ययीभाव समास बहुत ही कम पाये जाते हैं । इस प्रकार के जो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं वे तीन प्रकार के हैं ।

(अ) हिंदी—जैसे, निडर, निधडक, भरपेट, भरदौड, अनजाने ।

(आ) उर्दू अर्थात् फारसी अथवा अरबी, जैसे, हररोज, हर-साल, वेशक, बेफायदा, वजिस, बखुवी, नाहक ।

(इ) मिश्रित अर्थात् भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए, जैसे, हरघड़ी, हरदिन, बेकाम, बेखटक ।

[सू०—ऊपर के उदाहरणों में जो “हर” शब्द आया है, वह यथार्थ में विशेषण है, इसलिये उसके योग से बने हुए शब्दों को कर्मधारय मानने का अम हो सकता है । पर इन समस्त शब्दों का उपयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है, इसलिये इन्हें अव्ययीभाव ही मानना चाहिए ।]

४५३—प्रतिदिन, प्रतिवर्ष इत्यादि संस्कृत अव्ययीभाव-समासों के विग्रह (उदा०—दिने दिने, प्रतिदिनम्) पर ध्यान करने से जाना जाता है कि यद्यपि प्रति शब्द का अर्थ प्रत्येक है तो भी वह अगली संज्ञा की द्विरुक्ति मिटाने के लिये लाया जाता है। पर हिंदी में प्रति का उपयोग न कर अगली संज्ञा की ही द्विरुक्ति करके अव्ययी-भाव-समास बनाते हैं। इस समास में हिंदी का प्रथम शब्द बहुधा विकृत रूप में आता है। उदा०—घरघर, हाथोंहाथ, पल-पल, दिनोंदिन, रातोंरात, कोठेकोठे, इत्यादि।

(अ) पुस्तानपुस्त, साल-दरसाल आदि शब्दों में दर (फारसी) और आन (सं०—अनु) अव्ययों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं।

(आ) कभी-कभी द्विरुक्त शब्दों के बीच में ही वा ही अथवा आ आता है; जैसे, मनहीं-मन, घरही-घर, आपही-आप, मुँहा-मुँह, सरासर (पूर्णतया), एकाएक।

[सू०—ऊपर लिखे शब्दों का उपयोग संज्ञाओं और विशेषणों के समान भी होता है; जैसे कौड़ी-कौड़ी जोड़कर, उसकी नस-नस में गेव भरा है, "तिल-तिल भारत भूमि जीत यवनों के कर से" (सर०)। ये समास कर्मधारय है।]

४५४—संज्ञाओं के समान अव्ययों की द्विरुक्ति से भी अव्ययी-भाव समास होता है; जैसे, बीचोंबीच, धड़ाधड़, पहले-पहल, बराबर, धीरे-धीरे।

तत्पुरुष ।

४५५—जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ शेष कारकों की विभक्तियाँ लगती हैं।

४५६—तत्पुरुष-समास के मुख्य दो भेद हैं, एक **व्यधिकरण** तत्पुरुष और दूसरा **समानाधिकरण** तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष-समास के विग्रह में उसके अवयवों में भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती हैं उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में तत्पुरुष के नाम से जिस समास का वर्णन रहता है वह यही व्यधिकरण तत्पुरुष है। समानाधिकरण तत्पुरुष के विग्रह में उसके दोनों शब्दों में एक ही विभक्ति लगती है। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम **कर्मधारय** है और यह कोई अलग समास नहीं है, किंतु तत्पुरुष का केवल एक उपभेद है।

४५७—व्यधिकरण तत्पुरुष के प्रथम शब्द में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के कारक के अनुसार इस समास का नाम* होता है। यह समास नीचे लिखे विभागों में विभक्त हो सकता है—

कर्म-तत्पुरुष (सस्कृत-उदाहरण)—

स्वर्गप्राप्त, जलपिपासु, आशातीत (आशा को लाँघकर गया हुआ), देश-गत ।

करण तत्पुरुष—

(सस्कृत) ईश्वरदत्त, तुलसी-कृत, भक्तिवश, मदांध, कष्टसाध्य, गुणहीन, शराहत, अकालपीडित, इत्यादि ।

(हिंदी) मनमाना, गुडभरा, दर्डमारा, कपड़छन, मुँहमाँगा, दुगुना, मदमाता, इत्यादि ।

(उर्दू) दस्तकारी, ज्यादमात, हैदरावाद ।

संप्रदान-तत्पुरुष—(सस्कृत) कृष्णार्पण, देशभक्ति, वलि-पशु, रण-निमंत्रण, विद्यागृह, इत्यादि ।

* सस्कृत में विभक्ति ही का नाम दिया जाता है, जैसे, द्वितीया-तत्पुरुष, षष्ठी-तत्पुरुष, इत्यादि ।

(हिंदी) रसेईघर, घुड़बच, ठकुर-सुहातो, हथकडी, रोकड-वही ।

(उर्दू) राहखर्च, शहरपनाह, कारवाँ-सराय ।

अपादान-तत्पुरुष—

(संस्कृत) जन्मान्ध, ऋणमुक्त, पदच्युत, जातिभ्रष्ट, धर्म-विमुख, भवतारण, इत्यादि ।

(हिंदी) देश-निकाला, गुरुभाई, कामचोर, नाम-साख, इत्यादि ।

(उर्दू) शाहजादह ।

संबंध-तत्पुरुष—

(संस्कृत) राजपुत्र, प्रजापति, देवालय, नरेश, पराधीन, विद्याभ्यास, सेनानायक, माधव (लक्ष्मीपति) पितृ-गृह, इत्यादि ।

(हिंदी) बनमानुस, घुड़-दौड़, बैलगाडो, राजपूत, लखपती, पनचक्की, रामकहानी, मृगछौना, राजदरवार, रेतघड़ी, अमचूर, इत्यादि ।

(उर्दू) हुकमनामा, बंदरगाह, आवरू, नूरजहाँ, शकरपारा, (शक्कर का टुकडा = मेवा, पकवान) ।

[सू०—पछी तत्पुरुष के उदाहरण प्राय सभी भाषाओं में बहुतायत से मिलते हैं । अधिकांश व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ इसी समास से बनती हैं ।]

अधिकरण-तत्पुरुष—

(संस्कृत) ग्रामवास, गृहस्थ, निशाचर, कलाप्रवीण कविश्रेष्ठ, गृहप्रवेश, वचनचातुरी, जलज, दानवीर, कूपमंडूक, खग, देशाटन, प्रेम-मग्न, इत्यादि ।

(हिंदी) मनमौजी, आप-श्रीती, कानाफूसी, इत्यादि ।

(उर्दू) हर-फन-मौला ।

[सू०—इन सब प्रकार के उदाहरणों में विभक्तियों के संबंध से मतभेद होने की संभावना है, पर वह विशेष महत्त्व का नहीं है। जब तक इस विषय में संदेह नहीं है कि ऊपर के सब उदाहरण तत्पुरुष के हैं तब तक यह बात अप्रधान है कि कोई एक तत्पुरुष इस कारक का है या उस कारक का। “वचन-चातुरी” शब्द अधिकरण-तत्पुरुष का उदाहरण है, परंतु यदि कोई इसका विग्रह “वचन की चातुरी” करके इसे संबंध-तत्पुरुष माने, तो इस (हिंदी के) विग्रह के अनुसार उस शब्द को संबंध-तत्पुरुष मानना अशुद्ध नहीं है। कोई एक तत्पुरुष समास किस कारक का है, इस बात का निर्णय उस समास के योग्य विग्रह पर अवलंबित है।]

४५८—जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अल्लुक् समास कहते हैं, जैसे, मनसिज, युधिष्ठिर, खेचर, वाचस्पति, कर्त्तरिप्रयोग, आत्मनेपद।

हिं०—ऊटपटांग (यह शब्द बहुधा बहुव्रीहि में आता है), चूहेमार।

(क)—‘दीनानाथ’ शब्द व्याकरण की दृष्टि से विचारणीय है। यह शब्द यथार्थ में ‘दीननाथ’ होना चाहिए, पर “दीन” शब्द के “न” को दीर्घ बोलने (और लिखने) की रूढ़ि चल पड़ी है। इस दीर्घ आ की योजना का यथार्थ कारण विदित नहीं हुआ है, पर संभव है कि दो ह्रस्व न अक्षरों का उच्चारण एकसाथ करने की कठिनाई से पूर्व न दीर्घ कर दिया गया हो। ‘दीनानाथ’ समास अवश्य है और उसे संबंध-तत्पुरुष ही मानना ठीक होगा।

४५९—जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, तब उस समास को उपपद समास कहते हैं, जैसे, ग्रंथकार, तटस्थ, जलद, उरग, कृतघ्न, कृतज्ञ, नृप। जलधर, पापहर, जलचर आदि उपपद समास नहीं हैं, क्योंकि इनमें जो धर, हर और चर कृदंत हैं उनका प्रयोग अन्यत्र स्वतंत्रतापूर्वक होता है।

हिंदी-उपपद समासों के उदाहरण—लकड़फोड़, तिलचट्टा, कनकटा (कान काटनेवाला), मुँड़चीरा, बटमार, चिड़ीमार, पनडुब्बी, धर-धुसा, घुड़चढ़ा ।

उर्दू-उदाहरण—गरीब-निवाज (दीन-पालक), कलम-तराश (कलम काटनेवाला, चाकू), चोबदार (दंडधारी), सौदागर ।

[सू०—हिंदी में स्वतंत्र कर्मादि तत्पुरुषों की संख्या अधिक न होने के कारण बहुधा उपपद समास को इन्हीं के अंतर्गत मानते हैं ।]

४६०—अभाव किंवा निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व अ वा अन लगाने से जो तत्पुरुष बनता है उसे नञ् तत्पुरुष कहते हैं ।

उदा०—(सं०) अधर्म (न धर्म), अन्याय (न न्याय), अयोग्य (न योग्य), अनाचार (न आचार), अनिष्ट (न इष्ट) ।

हिंदी—अनबन, अनभल, अनचाहा, अधूरा, अनजाना, अटूट, अनगढ़ा, अकाज, अलग, अनरीत, अनहोनी ।

उर्दू—नापसंद, नालायक, नाबालिग, गैरहाजिर, गैरवाजिव ।
(अ) किसी-किसी स्थान में निषेधार्थी न अव्यय आता है; जैसे, नञ्त्र, नास्तिक, नपुंसक ।

[सू०—निषेध के नीचे लिखे अर्थ होते हैं—

(१) भिन्नता—अब्राह्मण अर्थात् ब्राह्मण से भिन्न कोई जाति; जैसे, वैश्य, शूद्र, आदि ।

(२) अभाव—अज्ञान अर्थात् ज्ञान का अभाव ।

(३) अयोग्यता—अकाल अर्थात् अनुचित काल ।

(४) विरोध—अनीति अर्थात् नीति का उलटा ।]

४६१—जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है उसे संस्कृत व्याकरण में प्रादि समास कहते हैं ।

उदा०—प्रतिध्वनि (समान ध्वनि), अतिक्रम (भाग जाना) ।
इसी प्रकार प्रतिध्वि, अतिवृष्टि, उपवेद, प्रगति, दुर्गुण ।

(क) 'ई' के योग से बने हुए संस्कृत-समास भी एक प्रकार के तत्पुरुष हैं, जैसे, वशीकरण, फलीभूत, स्पष्टीकरण, शुचीभाव ।

समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात् कर्मधारय

४६२—जिम तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही (कर्त्ता-कारक की) विभक्ति आती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय समास दो प्रकार का है—

(१) जिस समास से विशेष्य-विशेषण भाव सूचित होता है उसे विशेषतावाचक कर्मधारय कहते हैं, और (२) जिससे उपमानोपमेय-भाव जाना जाता है उसे उपमावाचक कर्मधारय कहते हैं ।

४६३—विशेषतावाचक कर्मधारय समास के नीचे लिखे सात भेद हो सकते हैं—

(१) विशेषण-पूर्वपद—जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है ।

संस्कृत-उदाहरण—महाजन, पूर्वकाल, पीतांबर, शुभागमन, नीलकमल, सद्गुण, पूर्णेन्दु, परमानंद ।

हिंदी-उदाहरण—नीलगाय, कालीमिर्च, मझधार, तलघर, खड़ी-बोली, सुंदरलाल, पुच्छलतारा, भलामानस, कालापानी, छुट-भैया, साढेतीन ।

उदू-उदाहरण—खुशबू, बदबू, जवाँमर्द, नौरोज ।

[सू०—विशेषण पूर्व-पद कर्मधारय-समास के संबन्ध में यह कह देना आवश्यक है कि हिंदी में इस समास के केवल जुने हुए उदाहरण मिलते हैं । इसका कारण यह है कि हिंदी में, संस्कृत के समान, विशेष्य के साथ विशेषणों में विभक्ति का योग नहीं होता—अर्थात् विशेषण विभक्ति त्यागकर विशेष्य में नहीं मिलता । इसलिए हिंदी में कर्म-धारय समास वन्हीं विशेषणों के साथ होता है जिनमें कुछ रूपांतर हो जाता है; अथवा जिनके कारण विशेष्य से किसी विशेष्य वस्तु का बोध होता है । जैसे, छुटभैया, कालीमिर्च, बडाघर ।]

(२) विशेषणोत्तर-पद—जिसमें दूसरा पद विशेषण होता है ।

संस्कृत-उदा०—जन्मांतर (अंतर = अन्य), पुरुषोत्तम, नराधम, मुनिवर । पिछले तीन शब्दों का विग्रह दूसरे प्रकार से करने से ये तत्पुरुष ही जाते हैं; जैसे, पुरुषों में उत्तम = पुरुषोत्तम ।

हिंदी-उदा०—प्रभुदयाल, शिवदीन, रामदहिन ।

(३) विशेषणोभयपद—जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं ।

संस्कृत-उदाहरण—नीलपीत, शीतोष्ण, श्यामसुंदर, शुद्धाशुद्ध, मृदु-मंद ।

हिंदी-उदा०—लालपीला, भलाबुरा, ऊँचनीच, खटमिट्टा, बड़ा-छोटा, मोटाताजा ।

उर्दू-उदा०—सख्त-सुस्त, नेक-बद, कम-वेश ।

(४) विषयपूर्वपद—धर्मबुद्धि (धर्म है, यह बुद्धि—धर्म-विषयक बुद्धि), विंध्य-पर्वत* ।

(५) अव्ययपूर्वपद—दुर्वचन, निराशा, सुयोग, कुवेश ।

हिंदी-उदा०—अधमरा, दुकाल ।

(६) संख्यापूर्वपद—जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और जिससे समुदाय (समाहार) का बोध होता है उसे संख्यापूर्वपद कर्मधारय कहते हैं । इसी समास को संस्कृत व्याकरण में द्विगु कहते हैं ।

उदा०—त्रिभुवन (तीन भुवनों का समाहार), त्रैलोक्य (तीनों लोकों का समाहार)—इस शब्द का रूप त्रिलोकी भी होता है । चतुष्पदी (चार पदों का समुदाय), पंचवटी, त्रिकाल, अष्टाध्यायी ।

हिंदी-उदा०—पंसेरी, दोपहर, चौबोला, चौमासा, सतसई, सतनजा, चौराहा, अठवाड़ा, छटाम, चौघड़ा, दुपट्टा, दुअजो ।

उदू-उदा०—सिमाही (अप०—तिमाही), चहार-दीवारी, शशमाही (अप०—छमाही) ।

(७) **मध्यमपदलोपी**—जिस समास में पहले पद का संबंध दूसरे पद से बतानेवाला शब्द अध्याहृत रहता है उस समास को **मध्यमपदलोपी** अथवा **लुप्त-पद** समास कहते हैं । इस समास के विग्रह में समासगत दोनों पदों का संबंध स्पष्ट करने के लिए उस अध्याहृत शब्द का उल्लेख करना पड़ता है ; नहीं तो विग्रह होना संभव नहीं है । इस समास में अध्याहृत पद बहुधा बीच में आता है, इसलिए इस समास को **मध्यमपदलोपी** कहते हैं ।

संस्कृत-उदाहरण—घृतान्न (घृत-मिश्रित अन्न), पर्यशाला (पर्यनिर्मित शाला), छायातरु (छाया-प्रधान तरु), देव-ब्राह्मण (देव-पूजक ब्राह्मण) ।

हिंदी-उदा०—दही-बडा (दही में डूबा हुआ बडा), गुडम्बा (गुडमें उबाला आम), गुडधानी, तिलचाँवली, गोबरगनेश, जेवघडी, चितकबरा, पनकपड़ा, गीदडभवकी ।

४६४—उपमावाचक कर्मधारय के चार भेद हैं—

(१) **उपमान-पूर्वपद**—जिस वस्तु की उपमा देते हैं उसका वाचक शब्द जिस समास के आरंभ में आता है उसे **उपमान-पूर्व-पद** समास कहते हैं ।

उदा०—चंद्रमुख (चंद्र सरीखा मुख), घनश्याम (घन सरीखा श्याम), वज्रदेह, प्राण-प्रिय ।

(२) **उपमानोत्तरपद**—चरण-कमल, राजर्षि, पाणिपल्लव ।

(३) **अवधारणापूर्वपद**—जिस समास में पूर्वपद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित होता है उसे **अवधारणापूर्वपद** कर्म-धारय कहते हैं, जैसे, गुरुदेव (गुरु ही देव अथवा गुरु-रूपी देव), कर्म-बंध, पुरुष-रत्न, धर्म-सेतु, बुद्धि-बल ।

(४) अवधारणोत्तरपद—जिस समास में दूसरे पद के अर्थ पर पहले पद का अर्थ अवलम्बित रहता है उसे अवधारणोत्तर पद कहते हैं; जैसे, साधु-समाज-प्रयाग (साधु-समाज-रूपी प्रयाग) । (राम०) । इस उदाहरण में दूसरे शब्द 'प्रयाग' के अर्थ पर प्रथम शब्द साधु-समाज का अर्थ अवलम्बित है ।

[सू०—कर्म-धारय समास में वे रंग-वाचक विशेषण भी आते हैं जिनके साथ अधिकता के अर्थ में उनका समानार्थी कोई विशेषण वा संज्ञा जोड़ी जाती है; जैसे, लाल-सुख, काला-भुजंग, फक-वजला । (अ० ३४४—ए) ।]

द्वंद्व ।

४६५—जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं । द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है—

(१) इतरेतर-द्वंद्व—जिस समास के सब पद "श्रौर" समुच्चय-बोधक से जुड़े हुए हों, पर इस समुच्चयबोधक का लोप हो, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं, जैसे, राधाकृष्ण, ऋषि-मुनि, कंद-मूल-फल ।

हिंदी-उदा०—

गाय-त्रैल	बेटा-बेटी	भाई-बहिन
सुख-दुःख	घटी-बढ़ी	नाक-कान
माँ-बाप	दाल-भात	दूध-रोटी
चिट्ठी-पाती	तन-मन-धन	इकतीस
तेंतालीस		

(अ) इस समास में द्रव्यवाचक हिंदी समस्त संज्ञाएँ बहुधा एकवचन में आती हैं । यदि दोनों शब्द मिलकर प्रायः एक ही वस्तु सूचित करते हैं तो वे भी एकवचन में आते हैं; जैसे,

दुःख-सुख	दाल-रोटी	दूध-भाव
घो-गुड	नोन-मिर्च	हुक्का-पानी
खान-पान	गेंद-डंडा	

शेष द्वंद्व-समास बहुधा बहुवचन में आते हैं ।

(आ) एक ही लिंग के शब्द से बने समास का लिंग मूल लिंग रहता है, परंतु भिन्न-भिन्न लिंगों के शब्दों में बहुधा पुँल्लिंग होता है; और कभी-कभी अंतिम और कभी-कभी प्रथम शब्द का भी लिंग आता है; जैसे, गाय-बैल (पु०), नाक-कान (पु०), घो-शकर (पु०), दूध-रोटी (स्त्री०), चिट्ठी-पाती (स्त्री०), भाई-बहिन (पु०), माँ-बाप (पु०) ।

[सू०—उर्दू के आबो-हवा, नामो-निशान, आमदो-रफ्त आदि शब्द समास नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनमें 'ओ' समुच्चय-बोधक का लोप नहीं होता । हिं दी में 'ओ' का लोप कर इन शब्दों को समास बना लेते हैं; जैसे, नाम-निशान, आव-हवा, आमद-रफ्त ।]

(२) **समाहार-द्वंद्व**—जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा वही प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार-द्वंद्व कहते हैं; जैसे, आहार-निद्रा-भय (केवल आहार, निद्रा और भय ही नहीं, किंतु प्राणियों के सब धर्म), सेठ-साहूकार (सेठ और साहूकारों के सिवा और-और भी दूसरे धनी लोग), भूल-चूक, हाथ-पाँव, दाल-रोटी, रुपया-पैसा, देव-पितर, इत्यादि । हिंदी में समाहार द्वंद्व की संख्या बहुत है और उसके नीचे लिखे भेद हो सकते हैं—

(क) प्रायः एक ही अर्थ के पदों के मेल से बने हुए—

कपड़े-लत्ते	वासन-वर्त्तन	चाल-चलन
मार-पीट	लूट-मार	घास-फूस

दिया-बत्तो	साग-पात	मंत्र-जंत्र
चमक-दमक	भला-चंगा	मोटा-ताजा
हृष्ट-पुष्ट	कूड़ा-कचरा	कील-काँटा
कंकर-पत्थर	भूत-प्रेत	काम-काज
बोल-चाल	बाल-बच्चा	जीव-जन्तु
दान-धर्म	मेल-मिलाप	

[सू०—इस प्रकार के सामासिक शब्दों में कभी-कभी एक शब्द हि दी और दूसरा उर्द्ध रहता है; जैसे, धन-दौलत, जी-जान, मोटा-ताजा, चीज-वस्तु, तन-बदन, कागज-पत्र, रीति-रसम, बैरी-दुरंमन, भाई-विरादर ।]

(ख) मिलते-जुलते अर्थ के पदों के मेल से बने हुए—

अन्न-जल	आचार-त्रिचार	घर-द्वार
पान-फूल	गोला-बारूद	नाच-रंग
मोल-तोल	खाना-पीना	पान-तमाखु
जंगल-भाड़ी	तीन-तेरह	दिन-दोपहर
जैसा-तैसा	साँप-बिच्छू	नोन-तेल
कुरता-टोपी		

(ग) परस्पर विरुद्ध अर्थवाले पदों का मेल ; जैसे,

आगा-पीछा	चढ़ा-उतरी
लेन-देन	कहा-सुनी

[सू०—इस प्रकार के कोई-कोई विशेषणोभयपद भी पाये जाते हैं । जब इनका प्रयोग संज्ञा के समान होता है तब ये द्वंद्व होते हैं, और जब ये विशेषण के समान आते हैं तब कर्मधारय होते हैं । उदा०—लँगडा-लूला, भूखा-प्यासा, जैसा-तैसा, नंगा-उधारा, ऊँचा-पूरा, भरा-पूरा ।]

(घ) ऐसे समास जिनमें एक शब्द सार्थक और दूसरा शब्द अर्थहीन, अप्रचलित अथवा पहले का समानुप्रास हो—जैसे,

आमने-सामने, आस-पास, अडोस-पडोस, वात-चीत, देख-भाल, दौड़-धूप, भीड़-भाड़, अदला-बदला, चाल-ढाल, काट-कूट ।

[सू०—(१) अनुप्रास के लिए जो शब्द लाया जाता है उसके आदि में दूसरे (मुख्य) शब्द का स्वर रखकर उस (मुख्य) शब्द के शेष भाग को पुनरुक्त कर देते हैं, जैसे, ढेरे-परे, घोड़ा-ओड़ा, कपड़े-अपड़े । कभी-कभी मुख्य शब्द के आद्य वर्ण के स्थान में स का प्रयोग करते हैं, जैसे, उलटा-सुलटा, रविवार-सँवार, मिठाई-सिठाई । उर्दू में बहुधा 'व' लाते हैं; जैसे, पान-वान, खत-वत, कागज-वागज । हुँदेखड़ी में बहुधा म का प्रयोग किया जाता है, जैसे, पान-मान, चिट्ठी-मिट्ठी, पागल-मागल, गाँव-माँव ।

(२) कभी-कभी पूरा शब्द पुनरुक्त होता है और कभी प्रथम शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के अंत में ई कर देते हैं, जैसे, काम-काम, भागा-भाग, देखादेखी, तडातडी, देखा-भाली, टोआटाई ।]

(३) वैकल्पिक-द्वंद्व—जब दो पद “वा”, “अथवा”, आदि विकल्पसूचक समुच्चयबोधक के द्वारा मिले हों और उस समुच्चयबोधक का लोप हो जाय, तब उन पदों के समास को वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं । इस समास में बहुधा परस्पर-विरोधी शब्दों का मेल होता है, जैसे, जात-कुजात, पाप-पुण्य, धर्माधर्म, ऊँचा-नीचा, थोड़ा-बहुत, भला-बुरा ।

[सू०—दो-तीन, नौ-दस, बीस-पच्चीस, आदि अनिश्चित गणनावाचक सामासिक विशेषण कभी-कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं । उस समय उन्हें वैकल्पिक द्वंद्व कहना उचित है; जैसे, मैं दो-चार को कुछ नहीं समझता ।]

बहुब्रीहि

४६६—जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे, चंद्रमौलि (चंद्र है सिर पर जिसके

हिंदी-उदा०—कनफटा, दुधमुँहा, मिठवोला, बारहसिंगा, अन-मोल, हँसमुख, सिरकटा, टुटपुँजिया, बडभागी, बहुरूपिया, मनचला, घुडमुँहा, इत्यादि ।

उर्दू—कमजोर, बदनसीव, खुशदिल, नेकनाम ।

अधिकरण बहुव्रीहि—प्रफुल्ल-कमल (खिले हैं कमल जिसमें—वह तालाव), इंद्रादि (इंद्र है आदि में जिनके—वे देवता), स्वरात (शब्द) ।

हिंदी-उदा०—त्रिकोन, सतखंडा, पतभङ्ग, चौलडी ।

[सू०—अधिकांश पुस्तकों और सामयिक पत्रों के नाम इसी समास में समाविष्ट होते हैं ।]

४६८—जिस बहुव्रीहि-समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है उसे **समानाधिकरण** बहुव्रीहि कहते हैं, और जिसके विग्रह में दोनों पदों के साथ भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ आती हैं वह **व्यधिकरण** बहुव्रीहि कहलाता है । ऊपर के उदाहरणों में कृतकृत्य, दशानन, नीलकंठ, सिरकटा, समानाधिकरण बहुव्रीहि हैं और चंद्रमौलि इंद्रादि, सतखंडा व्यधिकरण बहुव्रीहि हैं । 'नीलकंठ' शब्द में 'नील' और 'कंठ' (नीला है कंठ जिसका) एक ही अर्थात् कर्ता-कारक में हैं, और 'चंद्रमौलि' शब्द में 'चंद्र' तथा 'मौलि' (चंद्र है मौलि में जिसके) अलग-अलग, अर्थात् क्रमशः कर्ता और अधिकरण-कारकों में हैं ।

४६९—बहुव्रीहि समास के पदों के स्थान अथवा उनके अर्थ की विशेषता के आधार पर उसके नीचे लिखे भेद हो सकते हैं—

(१) **विशेषण-पूर्वपद**—पीतावर, मद-बुद्धि, लंघ-कर्ण, दीर्घवाहु ।

हिंदी-उदा०—बडपेटा, लाल-कुर्ती, लमटंगा, लगातार, मिठवोला ।

उर्दू-उदा०—साफदिल, जवरदस्त, वदरंग ।

(२) विशेषणोत्तर-पद—शाकप्रिय (शाक है प्रिय जिसको), नाट्यप्रिय ।

हिंदी-उदा०—कनफटा, सिरकटा, मनचला ।

(३) उपमान-पूर्वपद—राजीव-लोचन, चंद्रमुखी, पाषाण-हृदय, वज्रदेही ।

(४) विषय-पूर्वपद—शिवशब्द (शिव है शब्द जिसका—वह तपस्वी), अहमभिमान (अहम् अर्थात् मैं, यह अभिमान है जिसको) ।

(५) अवधारणा-पूर्वपद—यशोधन (यश ही धन है जिसका), तपोबल, विद्याधन ।

(६) मध्यमपदलोपी—कोकिलकंठा (कोकिल के कंठ के समान कंठ है जिसका वह स्त्री), मृगनेत्रा, गजानन, अभिज्ञान-शाकुंतल, मुद्राराक्षस ।

उर्दू-उदा०—गावदुम, फीलपा ।

हिंदी-उदा०—घुड़मुँहा, भौरकली (गहना), बालतोड़ (फोड़ा), हाथी-पाँव (बीमारी) ।

(७) नञ्बहुब्रीहि—असार (सार नहीं है जिसका), अद्वितीय, अव्यय, अनाथ, अकर्मक, नाक (नहीं है अक-दुख जिसमें—वह स्वर्ग) ।

हिंदी—अनमोल, अजान, अथाह, अचेत, अमान, अनगिनती ।

(८) संख्यापूर्वपद—एकरूप, त्रिभुज, चतुष्पद, पंचानन, दशमुख ।

हिंदी—एकजी, दुनाली, चौकोन, तिमंजला, सतलड़ी, दुसुती ।

उर्दू-उदा०—सितार (तीन हैं तार जिसमें), पंजाव, दुआव ।

(९) संख्योत्तरपद—उपदश (दश के पास है जो अर्थात् नौ वा ग्यारह), त्रिसप्त (तीन सात हैं जिसमें, वह संख्या—इफोन) ।

(१०) सह बहुब्रीहि—सपुत्र (पुत्र के साथ), सकर्मक, सदेह, सावधान, सपरिवार, सफल, सार्थक ।

हिंदी-उदा०—सबेरा, सचेत, साढे ।

(११) दिगंतराल बहुब्रीहि—पश्चिमोत्तर (वायव्य), दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) ।

(१२) व्यतिहार बहुब्रीहि—जिस समास से एक प्रकार का युद्ध, दोनों दलों के समान युद्ध-साधन और उनका आघात-प्रत्याघात सूचित होता है उसे व्यतिहार-बहुब्रीहि कहते हैं ।

सं० उदा०—मुष्टामुष्टि (एक दूसरे को मुष्टि अर्थात् मुक्का मारकर किया हुआ युद्ध), हस्ताहस्ति, दंढादंढि । संस्कृत में ये समास नपुंसक लिंग, एक वचन और अव्यय रूप में आते हैं ।

हिंदी-उदाहरण—लठालठी, मारामारी, बदाबदी, कहाकही, घकाधकी, घूसाघूसी, इत्यादि ।

[सू०—(क) हि दी में ये समास स्त्रीलिंग और एकवचन में आते हैं । इनमें पहले शब्द के अंत में बहुधा आ और दूसरे शब्द के अंत में ई आदेश होती है । कभी-कभी पहले शब्द के अंत में म और दूसरे शब्द के अंत में आ आता है ; जैसे, लट्टमलट्टा, धक्कमधक्का, कुरतमकुरता, घुस्समघुस्सा । इस प्रकार के शब्द पुँल्लिग, एकवचन में आते हैं ।

(ख) कभी-कभी दूसरा शब्द भिन्नार्था, अर्थहीन अथवा समानुप्रास होता है ; जैसे, माराकूटी, कहासुनी, खींचातानी, ऐंचालेंची, मारामृरी । इस प्रकार के शब्द बहुधा दो कृदंतों के योग से बनते हैं ।]

(१३) प्रादि अथवा अव्ययपूर्व बहुब्रीहि—निर्दय (निर्गता अर्थात् गई हुई है दया जिसकी), विफल, विधवा, कुरूप, निर्धन ।

हिंदी-उदा०—सुडौल, कुढंगा, रंगविरंगा । पिछले शब्द में संज्ञा की पुनरुक्ति हुई है ।

संस्कृत-समासों के कुछ विशेष नियम ।

४७०—किसी-किसी बहुब्रीहि समास का उपयोग अव्ययीभाव-समास के समान होता है; जैसे, प्रेमपूर्वक, विनयपूर्वक, सादर, सविनय, सप्रेम ।

४७१—तत्पुरुष समास में नीचे लिखे विशेष नियम पाये जाते हैं—

(अ) अहन् शब्द किसी-किसी समास के अंत में अह् हो जाता है; जैसे, पूर्वाह्, अपराह्, मध्याह् ।

(आ) राजन् शब्द के अंत्य व्यंजन का लोप हो जाता है; जैसे, राजपुरुष, महाराज, राजकुमार, जनकराज ।

(इ) इस समास में जब पहला पद सर्वनाम होता है तब भिन्न-भिन्न सर्वनामों के विकृत रूपों का प्रयोग होता है—

हिंदी	संस्कृत	विकृत रूप	उदाहरण
मैं	अहम्	मत्	मत्पुत्र
हम	वयम्	अस्मत्	अस्मत्पिता
तू	त्वम्	त्वत्	त्वद्गृह
तुम	{ यूयम्	युष्मत्	युष्मत्कुल
	{ भवान्	भवत्	भवन्माया
वह, वे	तद्	तत्	तत्काल, तद्रूप
यह, ये	एतद्	एतत्	एतद्देशीय
जो	यद्	यत्	यत्कृपा

(ई) कभी-कभी तत्पुरुष-समास का प्रधान पद पहले ही आता है; जैसे, पूर्वकाय (काया अर्थात् शरीर का पूर्व अर्थात् अगला भाग), मध्याह् (अह्: अर्थात् दिन का मध्य), राजहंस (हंसों का राजा) ।

(ष) जब अन्नंत और इन्नंत शब्द तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में आते हैं तब उनके अंत्य न् का लोप होता है, जैसे, आत्म-बल, ब्रह्मज्ञान, हस्तिदंत, योगिराज, स्वामिभक्त ।

(ऊ) विद्वान्, भगवान्, श्रीमान्, इत्यादि शब्दों के मूल रूप विद्वस्, भगवत्, श्रीमत् समास में आते हैं, जैसे, विद्वज्जन, भगवद्भक्त, श्रीमद्भागवत ।

(ऋ) नियम-विरुद्ध शब्द—वाचस्पति, बलाहक (वारीयां वाहक, जल का वाहक—मेघ), पिशाच (पिशित अर्थात् मांस भक्षण करनेवाले), बृहस्पति, वनस्पति, प्रायश्चित्त, इत्यादि ।

४७२—कर्मधारय-समास के संबंध में नीचे लिखे नियम पाये जाते हैं—

(अ) महत् शब्द का रूप महा होता है, जैसे, महाराज, महादशा, महादेव, महाकाव्य, महालक्ष्मी, महासभा ।

अपवाद—महद तर, महदुपकार, महत्कार्य ।

(आ) अन्नंत शब्द के द्वितीय स्थान में आने पर अंत्य नकार का लोप हो जाता है, जैसे, महाराज, महोच्च (बड़ा वैल) ।

(इ) रात्रि शब्द समास के अंत में रात्र हो जाता है; जैसे, पूर्वरात्र, अपररात्र, मध्यरात्र, नवरात्र ।

(ई) कु के बदले किसी-किसी शब्द के आरंभ में कत्, कव और का हो जाता है, जैसे, कदन्न, कदुष्ण, कवोष्ण, कापुरुष ।

४७३—बहुव्रीहि समास के विशेष नियम ये हैं—

(अ) सह और गमान के स्थान में प्रायः स आता है, जैसे, सादर, सविस्मय, सवर्ण, सजात, सरूप ।

(आ) अक्षि (आँख), सखि (मित्र), नाभि इत्यादि कुछ इकारांत शब्द समास के अंत में अकारांत हो जाते हैं, जैसे, पुंडरीकाक्ष, मरुत्सख, पद्मनाभ (पद्म है नाभि में जिसके अर्थात् विष्णु) ।

(इ) किसी-किसी समास के अंत में क जोड़ दिया जाता है; जैसे, सपत्नीक, शिक्षाविषयक, अल्पवयस्क, ईश्वरकर्त्तृक, सकर्मक, अकर्मक, निरर्थक ।

(ई) नियम-विरुद्ध शब्द—द्वीप (जिसके दोनों ओर पानी है अर्थात् टापू), अंतरीप (द्वीप; हिंदी में स्थल का अग्रभाग जो पानी में चला गया हो), समीप (पानी के पास, निकट), शत-धन्वा, सपत्नी (समान पति है जिसका, सौत), सुगंधि, सुदंती, (सुंदर दाँत हैं जिसके वह स्त्री) ।

४७४—द्वंद्व समास के कुछ विशेष नियम—

(अ) कहीं-कहीं प्रथम पद के अन्त में दीर्घ आ हो जाता है; जैसे, मित्रावरुण ।

(आ) नियम-विरुद्ध शब्द—जाया + पति = दंपती ; जंपती जायापती ; अन्य + अन्य = अनोन्य, पर + पर = परस्पर, अहन् + रात्रि = अहोरात्र ।

४७५—यदि किसी समास के अन्त में आ वा ई स्त्री प्रत्यय हो और समास का अर्थ उसके अवयवों से भिन्न हो तो उस प्रत्यय को ह्रस्व कर देते हैं, जैसे, निर्लज्ज, सकरुण, लब्धप्रतिष्ठ, दृढ़प्रतिज्ञ ।

हिंदी समासों के विशेष नियम ।

४७६—तत्पुरुष-समास में यदि प्रथम पद का आद्य स्वर दीर्घ हो तो वह बहुधा ह्रस्व हो जाता है और यदि पद आकारांत वा ईकारांत हो तो वह अकारांत हो जाता है, जैसे, घुड़दौड़, पन-भरा, मुँहचीरा, कनकटा, रजवाड़ा, अमचूर, कपड़छन ।

अप०—घोड़ागाड़ी, रामकहानी, राजदरवार, सोनामाखी ।

४७७—कर्मधारय-समास में प्रथम स्थान में आनेवाले छोटा, बड़ा, लंबा, खट्टा, आधा, आदि आकारांत विशेषण बहुधा अका-

रांत हो जाते हैं, और उनका आद्य स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे, छुटभैया, बड़गाँव, लमडोर, खटमिट्टा, अधपका ।

अपवाद—भोलानाथ, भूरामल ।

[सू०—“लाल” शब्द के साथ छोटा, गोरा, भूरा, नन्हा, बाँका आदि विशेषणों के अन्त्य आ के स्थान में ए होता है, जैसे, भूरेलाल, छोटेलाल, बाँकेलाल, नन्हेलाल । “काला” के बदले कालू अथवा कल्लू जाता है; जैसे, कालूराम, कल्लूसिंह ।]

४७८—बहुव्रीहि-समास के प्रथम स्थान में आनेवाले आकारांत शब्द (सज्ञा और विशेषण) अकारांत हो जाते हैं और दूसरे शब्द के अंत में बहुधा आ जोड़ दिया जाता है । यदि दोनों पदों के आद्य स्वर दीर्घ हों तो उन्हें बहुधा ह्रस्व कर देते हैं, जैसे, दुधमुँहा, बड़पेटा, लमकना (चूहा), नकटा (नाक है कटी हुई जिनकी), कनफटा, टुटपुँजिया, मुँछमुडा ।

अपवाद—लालकुर्ती, बडभागी, बहुरंगी ।

[सू०—बहुव्रीहि-समासों का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है और आकारांत शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं । स्त्रीलिङ्ग में इन शब्दों के अंत में ई वा नी कर देते हैं, जैसे, दुधमुँही, नकटी, बड़पेटी, टुटपुँजनी ।]

४७९—बहुव्रीहि और दूसरे समासों में जो संख्यावाचक विशेषण आते हैं उनका रूप बहुधा बदल जाता है । ऐसे कुछ विकृत रूपों के उदाहरण ये हैं—

मूल शब्द	विकृत रूप	उदाहरण
दो	दु	दुलडो, दुचित्ता, दुगुना, दुराज, दुपट्टा ।
तीन	ति, तिर	तिपाई, तिरसठ, तिवासी, तिखँटी ।
चार	चौ	चौखँटा, चौदह

पाँच	पच	पचमेल, पचमहला, पचलोना, पचलड़ी ।
छः	छ	छप्पय, छटाँक, छदाम, छकड़ी ।
सात	सत	सतनजा, सतमासा, सतखंडा, सतसैया ।
आठ	अठ	अठखेली, अठन्नी, अठोतर ।

४८०—समास में बहुधा पुँल्लिग शब्द पहले और स्त्रोलिग शब्द पीछे आता है; जैसे, भाई-बहिन, दूध-रोटा, घो-शक्कर, बेटा-बेटी, देखा-देखी, कुरता-टोपी, लोटा-थाली ।

अप०—मा-बाप, घंटी-वंटा, सास-सुसुर ।

समासों के सामान्य नियम

४८१—हिंदी (और उर्दू) समास जो पहले से बने हैं वे ही भाषा में प्रचलित हैं । इनके सिवा शिष्ट लेखक किसी विशेष कारण से नये शब्द बना सकते हैं ।

४८२—एक समास में आनेवाले शब्द एक ही भाषा के होने चाहिए । यह एक साधारण नियम है; पर इसके कई अपवाद भी हैं; जैसे, रेलगाड़ी, हरदिन, मनमौजी, इमामवाड़ा, शाहपुर, धन-दौलत ।

४८३—कभी-कभी एक ही समास का विग्रह अर्थ-भेद से कई प्रकार का होता है; जैसे, “त्रिनेत्र” शब्द “तीन आँखों” के अर्थ में कर्मधारय है; परन्तु “महादेव” के अर्थ में बहुव्रीहि है । “सत्य-व्रत” शब्द के और भी अधिक विग्रह हो सकते हैं; जैसे,

सत्य और व्रत = द्वंद्व

सत्य ही व्रत
सत्य व्रत } = कर्मधारय

सत्य का व्रत = तत्पुरुष

सत्य है व्रत जिसका = बहुव्रीहि

ऐसी अवस्था में समास का विग्रह केवल पूर्वापर संबन्ध से हो सकता है ।

(अ) कभी-कभी विना अर्थ-भेद के एक ही समास के एक ही स्थान में दो विग्रह हो सकते हैं; जैसे, लक्ष्मीकांत शब्द तत्पुरुष भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी । पहले में उसका विग्रह लक्ष्मी का कांत (पति) है; और दूसरे में यह विग्रह होता है कि लक्ष्मी है कान्ता (स्त्री) जिसकी । इन दोनों विग्रहों का एक ही अर्थ है, इसलिए एक विग्रह स्वीकृत हो सकता है और उसीके अनुसार समास का नाम रक्खा जा सकता है ।

४८४—कई-एक तद्भव हिंदी सामासिक शब्दों के रूप में इतना अंग-भंग हो गया है कि उनका मूल रूप पहचानना संस्कृतानभिज्ञ लोगों के लिए कठिन है । इसलिए इन शब्दों को समास न मानकर केवल यौगिक अथवा रूढ ही मानना ठीक है, जैसे, ससुराल शब्द यथार्थ में संस्कृत अशुरालय का अपभ्रंश है, परंतु आलय शब्द आल बन गया है जिसका प्रयोग केवल प्रत्यय के समान होता है । इसी प्रकार “पड़ोस” शब्द प्रतिवास का अपभ्रंश है, पर इसके एक भी मूल अवयव का पता नहीं चलता ।

(अ) कई एक ठेठ हिंदी सामासिक शब्दों में भी उनके अवयव एक दूसरे से ऐसे मिल गये हैं कि उनका पता लगाना कठिन है । उदाहरण के लिए “दहेंडो” एक शब्द है जो यथार्थ में दही-हाँडो है, पर उसके “हाँडो” शब्द का रूप केवल एँडो रह गया है । इसी प्रकार अँगोछा शब्द है जो अँगपोंछा का अपभ्रंश है, पर पोंछा शब्द “ओछा” हो गया है । ऐसे शब्दों को सामासिक शब्द मानना ठीक नहीं जान पड़ता ।

४८५—हिंदी में सामासिक शब्दों के लिखने की रीति में बड़ी गड़बड़ है । जिन शब्दों को सटाकर लिखना चाहिए वे योजक

चिह्न (हाईफन) से मिलाये जाते हैं और जिन्हे केवल योजक से मिलाना उचित है वे सटाकर लिख दिये जाते हैं । फिर, जिस सामासिक शब्द को किसी न किसी प्रकार मिलाकर लिखने की आवश्यकता है, वह अलग-अलग लिखा जाता है ।

[टी०—हिंदी-व्याकरणों में व्युत्पत्ति-प्रकरण बहुत ही सचेप रीति से दिया गया है । इसका कारण यह है कि उनमें पुस्तकों के परिमाण के अनुसार इस विषय को स्थान मिला है । अन्यान्य पुस्तकों को छोड़कर हम यहाँ केवल “हिंदी-व्याकरण-प्रवेशिका” के इस विषय के कुछ अंश की परीक्षा करते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में यह विषय दूसरी पुस्तकों की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार से दिया गया है । स्थानाभाव के कारण हम इस व्याकरण में दिए गए समासों ही के कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे । तत्पुरुष समास के उदाहरणों में लेखक ने “दम भरना”, “भूख (?) भरना”, “ध्यान करना”, “काम आना”, इत्यादि कृदन्त-वाक्यांशों को सम्मिलित किया है, और इनका नियम संभवतः भट्टजी के “हिंदी-व्याकरण” से लिया है । संस्कृत में राशीकरण, वक्रीभवन आदि संयुक्त कृदन्तों को समास मानते हैं, क्योंकि इनमें विभक्ति का लोप और पूर्व-पद में रूपांतर हो जाता है, पर हिंदी के पूर्वोक्त कृदन्त-वाक्यांशों में न विभक्ति का नियमित लोप ही होता है और न रूपांतर ही पाया जाता है । “काम आना” को विकल्प से “काम में आना” भी कहते हैं । फिर इन वाक्यांशों के पदों के बीच, समास के नियम के विरुद्ध, अन्यान्य शब्द भी आ जाते हैं; जैसे, काम न आना, ध्यान ही करना, दम भी भरना, इत्यादि । संस्कृत में केवल कृ, भू आदि दो-तीन धातुओं से ऐसे नियमित समास बनते हैं, पर हिंदी में ऐसे प्रयोग अनियमित और अनेक हैं । इसके सिवा यदि “काम करना” को समास मानें तो “आगे चलना” को भी समास मानना पड़ेगा, क्योंकि “आगे” के पश्चात् भी विकल्प से विभक्ति प्रकट वा लुप्त रह सकती है । ऐसी अवस्था में उन शब्दों को भी समास मानना होगा जिनमें विभक्ति का लोप रहने पर भी स्वतंत्र व्याकरणीय संबंध है । “हिंदी व्याकरण-प्रवेशिका” में दिए हुए इन कृदन्त-वाक्यांशों को पूर्वोक्त कारणों से संयुक्त धातु भी नहीं मान सकते (अ०—४२०—सू०) । अतएव इन सब उदाहरणों को समास मानना भूल है ।]

सातवाँ अध्याय

पुनरुक्त शब्द

४८६—पुनरुक्त शब्द यौगिक शब्दों का एक भेद हैं और इनमें से बहुत से सामासिक भी हैं। इनका विवेचन पुस्तक में यत्र-तत्र बहुत कुछ हो चुका है। बोलचाल में इनका प्रचार सामासिक शब्दों ही के लगभग है, और इनकी व्युत्पत्ति में सामासिक शब्दों से बहुत-कुछ भिन्नता भी है। अतएव इनके एकत्र और नियमित विवेचन की आवश्यकता है। इन शब्दों का संयोग बहुधा विभक्ति अथवा संबंधी शब्द का लोप करने से नहीं होता।

४८७—पुनरुक्त शब्द तीन प्रकार के हैं—पूर्ण-पुनरुक्त, अपूर्ण-पुनरुक्त और अनुकरणवाचक।

४८८—जब कोई एक शब्द एकही-माथ लगातार दो-बार अथवा तीन-बार प्रयुक्त होता है तब उन सबको **पूर्ण-पुनरुक्त शब्द** कहते हैं, जैसे, देश-देश, बड़े-बड़े, चलते-चलते, जय-जय-जय।

४८९—जब किसी शब्द के साथ कोई समानुपास सार्थक वा निरर्थक शब्द आता है तब वे दोनों शब्द **अपूर्ण-पुनरुक्त** कहाते हैं, जैसे आप्रपास, आमने-सामने, देख-भाल, इत्यादि।

४९०—पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाये जाते हैं उन्हें **अनुकरणवाचक** शब्द कहते हैं, जैसे, फटफट, गड़गड़ाहट, अर्रांना।

पूर्ण पुनरुक्त-शब्द

४९१—ये शब्द कई प्रकार के हैं। कभी-कभी समूचे शब्द की पुनरुक्ति ही से एक शब्द बनता है, और कभी-कभी दोनों शब्दों के बीच में एकाध अक्षर का आदेश हो जाता है।

[सू०—पुनरुक्त शब्दों को, प्रथम शब्द के पश्चात् २ लिखकर, सूचित करना अशुद्ध है, जैसे, धीरे २, राम २।]

४६२—संज्ञा की पुनरुक्ति नीचे लिखे अर्थों में हांती है—

(१) संज्ञा से सूचित होनेवाली वस्तुओं का अलग-अलग निर्देश—जैसे, घर-घर बोलत दीन हूँ. जन-जन जोचत जाय। कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी। मेरे रोम-रोम प्रसन्न हो रहे हैं।

[सू०—यदि इन पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा विशेषण के समान हो तो इन्हें कर्मधारय और क्रिया-विशेषण के समान हो तो अव्ययी-भाव कहना चाहिए। ऊपर के उदाहरणों में “जन-जन” (संज्ञा), “कौड़ी-कौड़ी” विशेषण तथा “रोम-रोम” (संज्ञा) कर्मधारय समास है और “घर-घर” (क्रि० वि०) अव्ययीभाव-समास है।]

(२) अतिशयता—जैसे, बर्तन टुकड़े-टुकड़े हो गया, राम-राम कहि राम कहि, उसने मुझे दाने-दाने को कर दिया, हँसी-हँसी में लड़ाई हो पड़ी, इत्यादि।

(३) परस्पर-संबंध—भाई-भाई का प्रेम, बहिन-बहिन की बात-चीत, मित्र-मित्र का व्यवहार, ठठेरे-ठठेरे बदलाई।

(४) एकजातीयता—जैसे, फूल-फूल अलग रख दो, ब्राह्मण-ब्राह्मण की जेवनार, लड़के-लड़के यहाँ बैठे हैं।

(५) भिन्नता—“आदमी-आदमी अंतर”, “देश-देश के भूपति नाना,” बात-बात में भेद है, ग-रंग के फूल, इत्यादि।

(६) रीति—पाँव-पाँव चलना, लोटे-लोटे जल भरना (पहले एक लोटा, फिर दूसरा लोटा और इसी क्रम से आगे)।

[सू०—(१) पूर्ण-पुनरुक्त-शब्दों के अल्प शब्द में विभक्ति का योग होता है, परन्तु उसके पूर्व दोनों शब्द विकृत रूप में आते हैं; जैसे, लड़के-लड़के की लड़ाई, फूलों-फूलों को अलग रख दो। यह विकृत रूप आकारात् शब्दों के दोनों वचनों में और दूसरे शब्दों के केवल बहुवचन में होता है।

(२) कभी-कभी विभक्ति का लोप हो जाता है, और विकृत रूप केवल प्रथम शब्द में अथवा कभी-कभी दोनों शब्दों में पाया जाता है । जैसे, हाथोंहाथ, रातोंरात, बीचोंबीच, दिनोंदिन, गलों-जंगलों, इत्यादि ।]

४६३—सर्वनामों की पुनरुक्ति संज्ञाओं ही के समान होती है । यह विषय सर्वनामों के अध्याय में आ चुका है ।

४६४—विशेषणों की भी पुनरुक्ति का विचार विशेषणों के अध्याय में हो चुका है । यहाँ गुणवाचक विशेषणों की पुनरुक्ति के कुछ विशेष अर्थ लिखे जाते हैं—

(१) भिन्नता—जैसे, “हरी-हरी पुकारती हरी-हरी लतान में ।” नये-नये सुख, अनूठे-अनूठे खेल ।

(२) एकजातीयता—बड़े-बड़े लोगों को कुरसी दी गई, छोटे-छोटे लड़के अलग बिठाये गये ।

(३) अतिशयता—मीठे-मीठे आम, अच्छे-अच्छे कपड़े, ऊँचे-ऊँचे घर, काले-काले केश, फूले-फूले चुन लिये । (कबीर) ।

(४) न्यूनता—फोका-फोका खाद, तरकारी खट्टी-खट्टी लगती है, छोटी-छोटी आँखें, इत्यादि ।

४६५—क्रिया की पुनरुक्ति से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(१) हठ—मैं यह काम करूँगा, करूँगा और फिर करूँगा । वह आयगा, आयगा और फिर आयगा । तुम आओगे, आओगे और फिर आओगे ।

(२) संशय—आप आयँगे आयँगे कहते हैं, पर आते नहीं । वह गया, गया, न गया न गया । पिछले वाक्य में कुछ शब्दों का अध्याहार भी माना जा सकता है, जैसे, (जो) वह गया (तो) गया (और) न गया (तो) न गया ।

(३) विधिकाल की द्विरुक्ति से आदर, उतावली, आग्रह और अनादर सूचित होता है; जैसे, आइये आइये, आज किधर भूल पड़े ! देखो, देखो, वह आदमी भाग रहा है । जाओ, जाओ ।

४-६६—सहायक क्रियाओं का काम करनेवाले कृदंतों की भी पुनरुक्ति होती है और उनसे नीचे लिखे अर्थ पाये जाते हैं—

(१) पौनःपुन्य—पत्ते वह-वहकर आते हैं, वह मेरे पास आकर बैठता है, घर मे कौन लड़कियाँ छोटी न्योत-न्योत लावेगी, मैं तुम्हारा घर पृछता-पृछता यहाँ तक आया हूँ ।

(२) अतिशयता—लडका चलते-चलते थक गया, इंद्र रो-रोकर कहने लगा, वह मारा-मारा फिरता है ।

(३) निरंतरता—हम बैठे-बैठे क्या करे ? श्रीकृष्ण को बंधे-बंधे पूर्व जन्म की सुधि आई । पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते आयु बीत गई । लडका सोते-सोते चौंक पड़ा ।

(४) अवधि—इस रीति से चले-चले राज-मंदिर में जा विराजे । आपके आते-आते सभा विसर्जन हो गई । वहाँ पहुँचते-पहुँचते त हो जायगी ।

(५) “ होते-होते ” का अर्थ “ धीरे-धीरे ” है ।

(६) कभी-कभी अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंतों के बीच मे ‘ न ’ का आगम होता है ; जैसे, उसके आते न आते काम हो जायगा ।

४-६७—अवधारण के अर्थ मे कभी-कभी निषेधवाचक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बना हुआ भूतकालिक अथवा पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत आता है, जैसे, सो किसी भाँति मेटे न मिटेंगे, यह आदमी उठाये नहीं उठता, (धनुष) टरै न टारा, वह किसी का बचाया न बचेगा ।

४-६८—क्रियाविशेषणों की पुनरुक्ति पौनःपुन्य, अतिशयता, न्यूनता आदि अर्थों मे होती है ; जैसे, धीरे-धीरे, कभी-कभी, जब-जब, नीचे-

नीचे, ऊपर-ऊपर, पास-पास, आगे-आगे, पीछे-पीछे, साथ-साथ, कहाँ-कहाँ, कहीं-कहीं, पहले-पहले, अभी-अभी ।

[सू०—“पहले-पहले” शब्द का अर्थ प्रथम बार है ।]

(अ) जिन क्रियाविशेषणों का उपयोग संबंधसूचकों के समान होता है वे इस (दूसरे) अर्थ में भी पुनरुक्त होते हैं; जैसे, सड़क के पास-पास, नौकर के साथ-साथ, कपड़े के ऊपर-ऊपर, पानी के नीचे-नीचे ।

४६६—विस्मयादिवोधक अव्ययों की पुनरुक्ति मनोविकारों का उत्कर्ष अथवा आवेग सूचित करने के लिए होती है, जैसे, हा-हा ! हाय-हाय ! छिः-छि ! अरे-अरे ! राम-राम !

(अ) कोई-कोई विस्मयादिवोधक तीन बार उक्त होते हैं, जैसे, जय-जय-जय गिरिराज किशोरी । देख री मा, देख री मा, देख लिए जाय । फाड़ के दो टूक किये, हाय हाय हाय !

५००—समुच्चयबोधक अव्ययों की पुनरुक्ति नहीं होती ।

५०१—अतिशयता के अर्थ में कभी-कभी शब्दों की पुनरुक्ति के साथ-साथ उनके बीच में 'ही' का आगम होता है, जैसे, मन ही मन में, बातों-ही-बातों में, आगे-ही-आगे, साथ-ही-साथ, काला-ही काला, दूध-ही-दूध । इस रचना से कभी-कभी निश्चय भी सूचित होता है ।

५०२—कभी-कभी पुनरुक्त शब्दों के बीच में संबंधकारक की विभक्तियाँ आती हैं । इस प्रकार की पुनरुक्ति विशेष कर संज्ञाओं में होती है, इसलिए इसका विवेचन कारक-प्रकरण में किया जायगा । यहाँ केवल अव्ययों की इस पुनरुक्ति के अर्थों का विचार किया जाता है—

(१) अव्यय की और वाच्य अवस्थाओं को छोड़ केवल मूल दशा का स्वीकार—जैसे, सेना पीछे की पीछे रह गई, नौकर बाहर

का बाहर लौट गया, कपड़े भीतर के भीतर खो गए, लड़का अभी का अभी कहॉ गया ।

(२) दशांतर—गाड़ी कहॉ की कहॉ पहुँची । तुमने वह पुस्तक कहॉ की कहीं रख दी । यह काम कब का कब हुआ ।

[सू०—कभी-कभी दूसरा शब्द अवधारण-बोधक रूप में (ही के साथ) आता है, जैसे, नीचे का नीचे ही, यहाँ का यहीं, वहाँ का वहीं ।]

अपूर्ण-पुनरुक्त-शब्द

५०३—इन शब्दों का बहुत-कुछ विचार द्वंद्व-समास के विवेचन में हो चुका है । यहाँ इनके रूपों का विस्तृत विवेचन किया जाता है । ये शब्द नीचे लिखी रीतियों से बनते हैं—

(अ) दो सार्थक शब्दों के मेल से, जिनमें दूसरा शब्द पहिले का समानुप्रास होता है; जैसे,

संज्ञाएँ—बीच-बचाव, बाल-बच्चे, दाल-दलिया, भगड़ा-भाँसा, काम-काज, धौल-धप, जोर-शोर, हलचल ।

विशेषण—लूला-लँगड़ा, ऐसा-वैसा, काला-कलूटा, फटा-टूटा, चौड़ा-चकरा, भरा-पूरा ।

क्रियाँ—समझना-बूझना, लेना-देना, लड़ना-भिड़ना, बोलना-चालना, सोचना-विचारना ।

अव्यय—यहाँ-वहाँ, इधर-उधर, जहाँ-तहाँ, दाएँ-बाएँ, आर-पार, साँझ-सबेरे, जब-तब, सदा-सर्वदा, जैसे-तैसे ।

[सू०—ऊपर दिए हुए अव्यय के उदाहरणों में समूचे शब्द का अर्थ उसके अवयवों के अर्थ से प्रायः भिन्न है, जैसे, जहाँ-तहाँ = सर्वत्र, जब तब = सदा; जैसे तैसे = किसी न किसी प्रकार ।]

आ) एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द के मेल से, जिसमें निरर्थक शब्द बहुधा सार्थक शब्द का समानुप्रास रहता है; जैसे,

संज्ञाएँ—टालमटोल, पूछताछ, ढूँढ़-ढाँढ़, झाड़-झंखार, गाली-गलौज, बातचीत, चाल-ढाल, भीड़-भाड़ ।

विशेषण—टेढ़ा-मेढ़ा, सीधा-साधा, भोला-भाला, ठीक-ठाक, ढोला-ढाला, उल्टा-पुलटा ।

क्रिया—देखना-भालना, घोना-धाना, खींचना-खाँचना, होना-हवाना, पूछना-चाछना, इत्यादि ।

अव्यय—औने-पौने, आमने-सामने, आस-पास ।

[सू०—द्वंद्व-समास के विवेचन में दी हुई रीति के अनुसार जो पुनरुक्त निरर्थक शब्द बनते हैं उनका भी ऐसा ही उपयोग होता है; जैसे, पानी-आनी, चिट्ठी-इट्ठी,]

(इ) दो निरर्थक शब्दों के मेल से, जो एक-दूसरे के समानु-प्रास रहते हैं, जैसे, अटर-सटर, अट-सट, अगड़-बगड़, टोम-टाम, सटर-पटर, हट्टा-कट्टा, इत्यादि ।

[सू०—अपूर्ण-पुनरुक्त शब्दों का प्रचार बोलचाल की भाषा में अधिक होता है और शिष्ट तथा शिचित्त लोग भी इनका उपयोग करते हैं । उप-न्यासों तथा नाटकों में, बहुधा बोलचाल की भाषा लिखी जाने के कारण, इन शब्दों के प्रयोग से एक प्रकार की स्वाभाविकता तथा सुंदरता आती है ।]

अनुकरणवाचक शब्द

५०४—अनुकरणवाचक शब्दों का लक्षण पहले (अं०—४६०में) कह दिया गया है । यहाँ उनके सब प्रकार के उदाहरण दिये जाते हैं—

(अ) संज्ञा—बड़बड़, भनभन, खटखट, चींचो, गिटपिट, गड़गड़, झनझन, पटपट, बकबक इत्यादि ।

[सू०—कई एक आहट-प्रत्ययात् शब्द भी अनुकरणवाचक हैं, जैसे, गडगडाहट, भरभराहट, सनसनाहट, गुडगुडाहट ।]

(आ) विशेषण—कुछ अनुकरणवाचक संज्ञाओं में इया प्रत्यय जोड़ने से अनुकरणवाचक विशेषण बनते हैं; जैसे, गड़बड़िया, खट-पटिया, भरभरिया ।

(इ) क्रिया—हिनहिनाना, सनसनाना, बकबकाना, पटपटाना, भनभनाना, भिनभिनाना, गड़गड़ाना, छरछराना, इत्यादि ।

(ई) क्रियाविशेषण—ये शब्द बहुत प्रचलित हैं—

उदा०—भटपट, तड़तड़, पटपट, छमछम, थरथर, गटगट, लपलप, भदभद, खदखद, सड़सड़, दनादन, भड़ाभड़, कटाकट, धड़ाधड़, कड़ाकड़, छमाछम, इत्यादि ।

५०५—यहाँ तक जिन यौगिक शब्दों का विचार किया गया है उनके सिवा एक और प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे कोई स्पष्ट अर्थ सूचित नहीं होता और जो अनियमित रूप से मनमाने रचे जा सकते हैं । इन शब्दों को **अनर्गल** शब्द कहते हैं ।

उदा०—टॉय-टॉय-फिस, लबड़धौधौ, लट्टपाँडे, जल-कुकुडा, ठपोलशंख, अगडंबगडं ।

[सू०—ये शब्द यद्यार्थ में अनुकरणवाचक शब्दों के अंतर्गत हैं; इसलिए इनका अलग भेद मानने की आवश्यकता नहीं है । अपूर्णपुनरुक्त और अनुकरणवाचक शब्दों के समान इनका प्रचार बोलचाल की भाषा में अधिक होता है, पर साहित्यिक भाषा में इनके प्रयोग से एक प्रकार की हीनता पाई जाती है ।]

[टी०—हिंदी के प्रचलित व्याकरणों में पुनरुक्त शब्दों का विवेचन बहुत कम पाया जाता है । इस कमी का कारण यह जान पड़ता है कि लेखक लोग कदाचित् ऐसे शब्दों को निरे साधारण मानते हैं और इनके आधार पर व्याकरण के (उच्च) नियमों की रचना करना अनावश्यक समझते हैं । इस उदासीनता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे लेखक इन शब्दों को अपनी मातृभाषा के होने के कारण कदाचित् इतने कठिन न समझते हों कि इनके लिए नियम बनाने की आवश्यकता हो । जो हो, ये शब्द इस प्रकार के नहीं हैं कि व्याकरण में इनका संग्रह और विचार न किया जाय । पुनरुक्त शब्द हिंदी भाषा की एक विशेषता है और यह विशेषता भरतखंड की दूसरी आर्य्य-भाषाओं में भी पाई जाती है । हमने इन शब्दों का जो विवेचन किया है उसमें अपूर्णता, असंगति आदि दोष संभव हैं; तो भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस पुस्तक में इनका पूर्ण विवेचन करने की चेष्टा की गई है और वह हिंदी की अन्य व्याकरण-पुस्तकों में नहीं पाई जाती ।

पुनरुक्त शब्दों के संबंध में यह संदेह हो सकता है कि जब कई एक पुनरुक्त शब्द सामासिक शब्द भी हैं तब उनका अलग वर्ग मानने की क्या आवश्यकता है । इस शका का समाधान इसी अध्याय के आदि में किया गया है । इस विषय में यहाँ पर इतना और लिखा जाता है कि सभी पुनरुक्त शब्द सामासिक नहीं हैं, इसलिए इनका अलग वर्ग मानने की आवश्यकता है ।]

तीसरा भाग ।

वाक्य-विन्यास ।

पहला परिच्छेद ।

वाक्य-रचना ।

पहला अध्याय ।

प्रस्तावना ।

५०६—व्याकरण का मुख्य उद्देश्य वाक्यार्थ का स्पष्टीकरण है और इस स्पष्टीकरण के लिए वाक्य के अवयवों का केवल रूपांतर और प्रयोग ही नहीं, किंतु उनका परस्पर-संबंध भी जानना आवश्यक है । यह पिछला विषय व्याकरण के उस भाग में आता है जिसे वाक्य-विन्यास कहते हैं । वाक्य-विन्यास में, शब्दों को उनके परस्पर सम्बन्ध के अनुसार यथाक्रम रखने की और उनसे वाक्य बनाने की रीति का भी वर्णन किया जाता है ।

वाक्य का लक्षण पहले लिखा जा चुका है । (अ०—८६ अ) ।

(क) अर्थ के अनुसार वाक्य आठ प्रकार के होते हैं—

- (१) विधानार्थक—जिससे किसी बात का होना पाया जाय; जैसे, इंदौर पहले एक गाँव था । मनुष्य अन्न खाता है ।
- (२) निषेध-वाचक—जो किसी विषय का अभाव सूचित करता है; जैसे, बिना पानी के कोई जीवधारी नहीं जी सकता । आपका जाना उचित नहीं है ।

- (३) **आज्ञार्थक**—जिससे आज्ञा, विनती या उपदेश का अर्थ सूचित होता है; जैसे, यहाँ आओ। वहाँ मत जाना। माता-पिता का कहना मानो।
- (४) **प्रश्नार्थक**—जिससे प्रश्न का बोध होता है; जैसे, यह लड़का कौन है ? यह काम कैसे किया जायगा ?
- (५) **विस्मयादिबोधक**—जो आश्चर्य, विस्मय, आदि भाव बताता है; जैसे, वह कैसा मूर्ख है ! ऐँ । घंटा बज गया !
- (६) **इच्छाबोधक**—जिससे इच्छा वा आशीष सूचित होती है; जैसे, ईश्वर सबका भला करे। तुम्हारी बढ़ती हो।
- (७) **संदेहसूचक**—जो संदेह या संभावना प्रकट करता है; यथा, शायद आज पानी बरसे। यह काम उस लड़के ने किया होगा। गाड़ी आती होगी।
- (८) **संकेतार्थक**—जिससे संकेत अर्थात् शर्त पाई जाती है, जैसे, आप कहें तो मैं जाऊँ। पानी न बरसता तो धान सूख जाता।
- ५०७—वाक्य में शब्दों का परस्पर ठीक-ठीक संबंध जानने के लिए उनका एक दूसरे से अन्वय, एक दूसरे पर उनका अधिकार और उनका क्रम जानने की आवश्यकता होती है, इसलिए वाक्य-विन्यास में इन तीनों विषयों का विचार किया जाता है।
- (क) दो शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, अथवा काल की जो समानता रहती है उसे अन्वय कहते हैं; जैसे, छोटा लड़का रोता है। इस वाक्य में “छोटा” शब्द का “लड़का” शब्द से लिंग और वचन का अन्वय है; और “रोता है” शब्द “लड़का” शब्द से लिंग, वचन और पुरुष में अन्वित है।
- (ख) **अधिकार** उस संबंध को कहते हैं जिसके कारण किसी एक शब्द के प्रयोग से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेष कारक में आती है; जैसे, लड़का वंदर से डरता है।

इस वाक्य में डरना क्रिया के योग से “वंदर” शब्द अपादान-कारक में आया है ।

(ग) शब्दों को, उनके अर्थ और संबंध की प्रधानता के अनुसार, वाक्य में यथा-स्थान रखना **क्रम** कहलाता है ।

[सू०—इस पुस्तक में अन्वय, अधिकार और क्रम के नियम अलग-अलग लिखने का पूरा प्रयत्न नहीं किया गया है; क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक शब्द-भेद के विषय में कई बार विचार करना पड़ता और इन विषयों के अलग-अलग विभाग करने में कठिनाई होती है । इसलिए अधिकांश शब्द-भेदों की वाक्य-विन्यास-संबंधी प्रायः सभी वातों एक शब्द-भेद के साथ एक ही स्थान में लिखी गई है ।]

५०८—वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध दो रीतियों से बतलाया जा सकता है—(१) शब्दों को उनके अर्थ और प्रयोग के अनुसार मिलाकर वाक्य बनाने से और (२) वाक्य के अवयवों को उनके अर्थ और प्रयोग के अनुसार अलग-अलग करने से । पहली रीति को **वाक्य-रचना** और दूसरी रीति को **वाक्य-पृथक्करण** कहते हैं । यह पिछली रीति हिंदी में अँगरेजी से आई है; और वाक्य के अर्थ-बोध में इससे बहुत सहायता मिलती है । (इस पुस्तक में दोनों रीतियों का वर्णन किया जायगा ।)

५०९—वाक्य में मुख्य दो शब्द होते हैं—(१) उद्देश्य और (२) विधेय । वाक्य में जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाले शब्द को **उद्देश्य** कहते हैं; और उद्देश्य के विषय में विधान करनेवाला शब्द **विधेय** कहलाता है । उदा०—“पानी गिरा” । इस वाक्य में “पानी” शब्द उद्देश्य और “गिरा” विधेय है । जब वाक्य में दो ही शब्द रहते हैं तब उद्देश्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम और विधेय में क्रिया आती है । उद्देश्य की संज्ञा बहुधा कर्त्ता-कारक में रहती है और क्रिया किसी एक काल, पुरुष,

लिंग, वचन, वाच्य, अर्थ और प्रयोग में आती है। यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसके साथ **कर्म** भी आता है; जैसे, लडका चित्र खींचता है। इस वाक्य में चित्र कर्म है। वाक्य के और भी खंड होते हैं, पर वे सब मुख्य दोनों खंडों के आश्रित रहते हैं। बिना इन दोनों अवयवों (अर्थात् उद्देश्य और विधेय) के वाक्य नहीं बन सकता और प्रत्येक वाक्य में एक **संज्ञा** और एक **क्रिया** अवश्य रहती है।

[६०—उद्देश्य और विधेय का विशेष विवेचन इसी भाग के दूसरे परिच्छेद में किया जायगा।]

दूसरा अध्याय ।

कारकों के अर्थ और प्रयोग ।

५१०—संज्ञाओं (और सर्वनामों) का, दूसरे शब्दों के साथ, ठीक-ठीक संबंध जानने के लिए उनके कारकों के भिन्न-भिन्न अर्थ और प्रयोग जानना आवश्यक है ।

(१) कर्त्ता-कारक ।

५११—हिंदी में कर्त्ता-कारक के दो रूप हैं—(१) अप्रत्यय (प्रधान), (२) सप्रत्यय (अप्रधान) ।

अप्रत्यय कर्त्ता-कारक नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(क) प्रातिपादिक के अर्थ में (किसी वस्तु के उल्लेख मात्र में); जैसे, पुण्य, पाप, लड़का, वेद, सत्संग, कागज ।

[सू०—शब्द-कोशों और लेखों के शीर्षकों में संज्ञाएँ इसी रूप में आती हैं । इस पुस्तक में अलग-अलग अक्षरों और शब्दों के जो उदाहरण दिए गए हैं वे सब इसी अर्थ में कर्त्ता-कारक हैं ।]

(ख) उद्देश्य में—**पानी** गिरा, **नौकर** काम पर भेजा जायगा; **हम** तुम्हें बुलाते हैं ।

(ग) उद्देश्य-पूर्ति में—घोड़ा एक **जानवर** है, मंत्री **राजा** हो गया; साधु **चोर** निकला, सिपाही **सेनापति** बनाया गया ।

(घ) स्वतंत्र कर्त्ता के अर्थ में—इस भगवती की कृपा से सब **चिंताएँ** दूर होकर बुद्धि निर्मल हुई (शिव०), रात बीतकर आस्मान के किनारों पर लाली दौड़ आई थी (गुटका०), इससे **आहार** पचकर उदर हलका हो जाता है (शकु०), **कोयला** जल भई राख, **नौ** बजकर दस मिनट हुए हैं; हमारे **मित्र**, जो काशी में रहते हैं, उनके लड़के का विवाह है, **मामला** अदालत के सामने पेश होकर, कई **आदमी** इलजाम में पकड़े गये (सर०) ।

[सू०—जिस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी शब्द से संबंध नहीं रहता, अथवा जो केवल पूर्वकालिक अथवा अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत से संबंध रखता है और कर्त्ता-कारक में आता है उसे स्वतंत्र कर्त्ता कहते हैं। हिंदी में इस स्वतंत्र कर्त्ता का प्रयोग अधिक नहीं होता। कभी-कभी क्रियार्थक संज्ञा के साथ भी स्वतंत्र कर्त्ता आता है, जैसे, मालवे पर गुजरात-वालों का अधिकार होना सिद्ध है। (सर०)।]

(ड) स्वतंत्र उद्देश्य-पृति में—मंत्री का राजा होना सबको बुरा लगा, लड़के का स्त्री बनना ठीक नहीं है।

५१२—कुछ कालवाचक संज्ञाएँ, बहुवचन के विकृत रूप में ही कर्त्ता-कारक में आती हैं; जैसे, मुझे परदेश में बरसों बीत गये, इस काम में सहीनों लगते हैं।

५१३—नहाना, छींकना, खाँसना, आदि कुछ शरीर-व्यापार-सूचक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों को छोड़ शेष अकर्मक क्रियाओं के और वकना, भूलना, आदि कई एक सकर्मक क्रियाओं के सब कालों में अप्रत्यय कर्त्ता-कारक आता है। उदा०—मैं जाता हूँ, लड़का आया, स्त्री सोती थी, वह कुछ नहीं बोला। (संयुक्त क्रियाओं के साथ इस कारक के प्रयोग के लिए ६३८ वाँ अंक देखो।)

५१४—सप्रत्यय कर्त्ताकारक वाक्य में केवल उद्देश्य ही के अर्थ में आता है; जैसे, लड़के ने चिट्ठी लिखी, मैंने नौकर को बुलाया, हमने अभी नहाया है।

५१५—बोलना, भूलना, वकना, लाना, समझना, जनना, आदि सकर्मक क्रियाओं को छोड़ शेष सकर्मक क्रियाओं के और नहाना, छींकना, खाँसना, आदि अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों के साथ सप्रत्यय कर्त्ता-कारक आता है; जैसे, तुमने क्यों छींका, रानी ने ब्राह्मण को दक्षिणा दी, नौकर ने

कोठा भाड़ा होगा, यदि मैंने उसे देखा होता तो मैं उसे अवश्य बुलाता ।

५१६—सप्रत्यय कर्त्ता-कारक केवल नीचे लिखी संयुक्त सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों के साथ आता है—

(क) अनुमति-बोधक—उसने मुझे बोलने न दिया और न वहाँ रहने दिया ।

(ख) इच्छा-बोधक—हमने उसे देखा (देखना) चाहा, राजा ने कन्या लेनी चाही ।

(ग) अवकाश-बोधक—(विकल्प से) जब वह पूर्वकालिक कृदंत के योग से बनती है; जैसे, मैंने उससे यह बात न कह पाई । (अथवा) मैं उससे यह बात न कह पाया । (अं०—६३७) ।

(घ) अवधारण-बोधक—जब उसका उत्तरार्द्ध सकर्मक होता है; जैसे, लड़के ने पाठ पढ़ लिया, उसने अपने साथी को मार दिया, नौकर ने चिट्ठी फाड़ डाली, हमने सो लिया, इत्यादि ।

५१७—प्राचीन हिंदी के पद्य में और बहुधा गद्य में भी सप्रत्यय कर्त्ता-कारक का प्रयोग बहुत कम मिलता है, जैसे, “सीतहिं चितै कही प्रभु बाता”, “संन्यासियन मेरे विल तें सब धन काढ़ि लियो” (राज०) ।

(२) कर्म-कारक ।

५१८—कर्म-कारक का प्रयोग बहुधा सकर्मक क्रिया के साथ होता है और कर्त्ता-कारक के समान वह दो रूपों में आता है—
(१) अप्रत्यय (२) सप्रत्यय ।

अप्रत्यय-कर्म-कारक से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(क) मुख्य कर्म—राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, गुरु शिष्य को गणित पढ़ाता है, नट ने लोगों को खेल दिखाया ।

(ख) कर्म-पूर्ति—अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया, मैंने चोर को साधु समझ लिया, राजा ब्राह्मण को गुरु मानता है ।

(ग) सजातीय कर्म (बहुधा अकर्मक क्रियाओं के साथ)—सिपाही कई लड़ाइयाँ लडा, “सोओ सुख-निँदिया, प्यारे ललन” (नील०), किसान ने चोर को खूब मार मारी, वही यह नाच नाचते हैं (विचित्र०) ।

(घ) अपरिचित वा अनिश्चित कर्म—मैंने शेर देखा है, पानी लाओ, लडका चिट्ठी लिखता है, हम एक नौकर खोजते हैं ।

५१-६—नामबोधक सयुक्त सकर्मक क्रियाओं का सहकारी शब्द अप्रत्यय कर्म-कारक में आता है; जैसे, स्वीकार करना, नाश करना, त्याग करना, दिखाई देना, सुनाई देना ।

५२०—सप्रत्यय कर्म-कारक बहुधा नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(क) निश्चित कर्म में—चोर ने लडके को मारा, हमने शेर को देखा है, लडका चिट्ठी को पढ़ता है, मालिक ने नौकर को निकाल दिया, चित्र को बनाओ ।

(ख) व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक तथा संबंध-वाचक कर्म में, जैसे, हम ओहन को जानते हैं, राजा ने ब्राह्मण को देखा, डाकू गाँव के सुखिया को खोजते थे, महाजन ने अपने भाई को अलग कर दिया, गुरु शिष्य को बुलावेंगे ।

(ग) मनुष्यवाचक सार्वनामिक कर्म में—राजा ने उसे निकाल दिया, सिपाही तुमको पकड लेगा, लडका किसी को देखता है, आप किसको खोजते हैं ?

(घ) करना, बनाना, समझना, मानना इत्यादि अपूर्ण क्रियाओं का कर्म, जब उसके साथ कर्म-पूर्ति आती है; जैसे, ईश्वर राई को पर्वत करता है; अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया ।

(ङ) कर्मवाच्य के भावेप्रयोग के उद्देश्य में—फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता (सर०), भारत के प्रदर्शन में बालक कृष्णसूति को उसका सिर और मिसेज एनी बिसेन्ट को उसका संरक्षक बनाया गया है (नागरी०), कभी-कभी डाक्टर कैलास बाबू को तो सभा की ओर से निमंत्रित किया जाया करे (शिव०) । (अं०—३६८)

५२१—जिन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के समान होता है उनमें सप्रत्यय कर्मकारक आता है; जैसे, दीन को मत सताओ, अनार्यों को पालो, धनवाले को सब चाहते हैं ।

५२२—जब वाक्य में अपादान, संबंध अथवा अधिकरण-कारक की विवक्षा नहीं होती, तब उनके बदले कर्म-कारक आता है, जैसे, मैं गाय दुहता हूँ (अर्थात् गाय से दूध), थाली परोसे (अर्थात् थाली से भोजन), नौकर कोठा खोलेंगा (अर्थात् कोठे के किवाड़) ।

५२३—बुलाना, पुकारना, कोसना, सुलाना, जगाना, आदि कुछ रूढ़ और यौगिक क्रियाओं के साथ सप्रत्यय कर्मकारक आता है; जैसे, वह कुत्ते को बुलाता है; स्त्री बच्चे को सुलाती थी, नौकर ने मालिक को जगाया ।

५२४—“मारना” के साथ कर्मकारक के दोनों रूपों का प्रयोग होता है; पर उनके अर्थ में बहुत अन्तर पड़ जाता है; जैसे, चोर ने लड़का मारा, चोर ने लड़के को मारा, चोर ने लड़के को पत्थर मारा ।

५२५—निश्चित कालवाचक संज्ञा में और गतिवाचक क्रिया के साथ बहुधा अधिकरण के अर्थ में सप्रत्यय कर्म-कारक आता है; जैसे, रात को पानी गिरा, सोमवार को सभा होगी, हम दो-

पहर को घर में थे, राम वन को गये, हस्तिनापुर को चलिये ।
वह कचहरी को नहीं आया ।

[सू०—कभी-कभी इस अर्थ में कर्म-कारक की विभक्ति का लोप भी हो जाता है, जैसे, हम घर गये, वह गाँव में रात रहा, गत वर्ष खूब वर्षा हुई, इसी देह से हम तुमको स्वर्ग भेजेंगे (सत्य०) ।]

५२६—कविता में ऊपर लिखे नियमों का बहुधा व्यतिक्रम हो जाता है, जैसे, नारद देखा विकल जयन्ता, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाहि । (सत०) । किन्तु कभी हत-भाग्य नहीं सुख को पाता है (सर०) ।

(३) कारण-कारक ।

५२७—करण-कारक से नीचे लिखे अर्थ पाये जाते हैं—

(क) करण अर्थात् साधन—नाक से साँस लेते हैं, पैरों से चलते हैं, शिकारी ने शेर को बन्दूक से मारा, इत्यादि ।

(ख) कारण—आपके दर्शन से लाभ हुआ, धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है, वह किसी पाप से अजगर हुआ था ।

[सू०—इस अर्थ में कारण, हेतु, इच्छा, विचार आदि शब्द भी करण-कारक में आते हैं, जैसे, इस कारण से, इस हेतु से ।]

(ग) रीति—लड़के क्रम से बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने उनकी ओर क्रोध से दृष्टि की, नौकर धीरज से काम करता है ।

[सू०—(१) इस अर्थ में बहुधा रीति, प्रकार, विधि, भाँति, तरह, आदि शब्द करण-कारक में आते हैं । (२) अनुकरणवाचक शब्दों में इस कारक के योग से क्रियाविशेषण बनते हैं; जैसे, धम से, फक से, घडाम से ।]

(घ) साहित्य—विवाह धूम से हुआ, आम खाने से काम या पेट गिनने से, सर्वसम्मति से निश्चय हुआ, सबसे राखो प्रेम,

उनसे मेरा संबंध है, घी से रोटी खाना, हम यह बात धर्म से कहते हैं ।

(ङ) विकार—हम क्या से क्या हो गये, वह आदमी शूद्र से क्षत्रिय बन गया; मनुष्य बालक से वृद्ध होता है, इत्यादि ।

(च) दशा—शरीर से हटा-कटा, स्वभाव से क्रोधी, हृदय से दयालु, इत्यादि ।

[सू०—इस अर्थ में कारण-कारक का प्रयोग बहुधा विशेषण के साथ होता है ।]

(छ) भाव और पलटा—गोहूँ किस भाव से विकता है, तुमन व्याज किस हिसाब से लिया, वे अनाज से घी बदलते हैं ।

(ज) कर्मवाच्य, भाववाच्य और प्रेरणार्थक क्रियाओं का कर्ता-सुभसे चला नहीं जाता, राम से रावण मारा गया, यह काम किसी से न किया जायगा, राजा ने ब्राह्मण से यज्ञ करवाया, दासी से और कोई उपाय न बन पड़ा ।

५२८—कहना, पूछना, बोलना, बकना, प्रार्थना करना, बात करना, आदि क्रियाओं के साथ गौण कर्म के अर्थ में कारण-कारक आता है; जैसे, रानी ने दासी से सब हाल कहा, मैंने उससे लड़ाई का कारण पूछा, हम आप से इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, साथी नीच तुम्हारे सुभसे जब तब अनुचित बकते हैं (हि० प्र०) ।

[सू०—बताना क्रिया के साथ विकल्प से कारण अथवा संप्रदान कारक आता है; जैसे, मैं तुमसे (तुमको) यह भेद बताता हूँ ।]

५२९—प्राचीन कविता में इन क्रियाओं के साथ बहुधा संप्रदान-कारक आता है; जैसे, भोकहँ कहा कहक रघुनाथा (राम०), वृक्षत यशुदहिं नंद डराई (ब्रज०) ।

५३०—करण-कारक की विभक्ति का लोप हो जाने के कारण चल, भरोसे, सहारे, द्वारा, कारण, निमित्त, आदि शब्दों का प्रयोग

संबंध-सूचक-अव्यय के समान होता है (अं०-२३६), जैसे, लडका पेड़ के सहारे खड़ा है, डाक के द्वारा, धर्म के कारण ।

५३१—भूख, प्यास, जाड़ा, हाथ, आँख, कान आदि शब्द इस कारक में बहुधा बहुवचन में आते हैं और इनके पश्चात् विभक्ति का लोप हो जाता है; जैसे, भूखें मरना, जाड़ों मरना, मैंने नौकर के हाथों रुपया भेजा, न आँखों देखा न कानों सुना ।

(४) संप्रदान-कारक ।

५३२—संप्रदान-कारक नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(क) द्विकर्मक क्रिया के गौण कर्म में—राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, गुरु शिष्य को व्याकरण सिखाता है, ढोरों को मैला पानी न पिलाना चाहिये, सौपि गये सोहिं रघुवर थाती ।

(ख) अपूर्ण सकर्मक क्रिया के मुख्य कर्म में (विकल्प से)—अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया, मैं चार को साधु समझा, राम गोविंद को अपना भाई बताता है, वे तुम्हें मूर्ख कहते हैं, हम जीव को ईश्वर नहीं मानते, नृपहिं दास दासहिं नृपति (करत) ।

[सू०—“कहना” क्रिया कभी द्विकर्मक और कभी अपूर्ण सकर्मक होती है, और दोनों अर्थों में और और द्विकर्मक क्रियाओं के समान, इसके दो कर्म होते हैं, जैसे, मैं तुमसे समाचार कहता हूँ, और मैं तुमसे (तुमको) भाई कहता हूँ । इन दोनों अथा में इस क्रिया के साथ जहाँ संप्रदान-कारक आता है वहाँ कभी-कभी विकल्प से करण-कारक भी आता है, जैसा ऊपर के उदाहरणों में आया है । इस क्रिया के पिछले अर्थ के दोनों प्रयोगों का एक उदाहरण यह है—देवता ते सुर और असुर कहं दानव ते, दांड को सु-धाय दाल पैतिये लहत है ।]

(ग) फल वा निमित्त—ईश्वर ने सुनने को दो कान दिये हैं, लड़के सैर को गये राजा लोग इसे शोभा के लिए पानते हैं, वह

धन के लिए मरा जाता है, हम अभी आश्रम के दर्शन को जाते हैं, लड़का विद्वान होने को विद्या पढ़ता है ।

[सू०—फल वा निमित्त के अर्थ में बहुधा क्रियार्थक संज्ञा के संप्रदान कारक का प्रयोग होता है ; जैसे, जा रहे हैं वीर लड़ने के लिए (हित०), मुझे कहीं रहने को ठौर बताइये (प्रेम०), तुम क्या मुझे मारने को लाये हो (चंद्र०) । “होना” क्रिया के साथ क्रियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक तत्परता अथवा शेष का अर्थ सूचित करता है; जैसे, गाड़ी आने को है, बरात चलने को हुई, अभी बहुत काम होने को है, इत्यादि ।]

(घ) प्राप्ति—मुझे बहुत काम रहता है, उसे भरपूर आदर मिला, लड़के को पढ़ना आता है, लिखना मुझे न आता है (सर०) ।

(ङ) विनिमय वा मूल्य—हमको तुम एक अनेक तुम्हें हम, जैसे को तैसा मिले, यह पुस्तक चार आने को मिलती है ।

[सू०—मूल्य के अर्थ में विकल्प से अधिकरण-कारक भी आता है; जैसे, यह पुस्तक चार आने में मिलती है । (अं०—१४६-घ-सू०)]

(च) मनोविकार—उसको देह की सुध न रही, तुमहिं न सोच सोहाग बल, करुणाकर कों करुणा कछु आई । इस बात में किसीको शंका न होगी, इत्यादि ।

(छ) प्रयोजन—मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, उसको इसमें कुछ लाभ नहीं, तुमको इसमें क्या करना है ?

(ज) कर्त्तव्य, आवश्यकता और योग्यता—मुझे वहाँ जाना चाहिये, यह बात तुमको कब योग्य है (शकु०), ऐसा करना मनुष्यको उचित नहीं है, उनको वहाँ जाना था ।

(झ) अवधारण के अर्थ में मुख्य क्रिया की क्रियार्थक संज्ञा के साथ संप्रदान-कारक आता है; जैसे, जाने को तो मैं जा सकता हूँ, लिखने को तो यह चिट्ठी अभी लिखी जायगी ।

५३३—संबंध के अर्थ में कोई-कोई लेखक संप्रदान-कारक का प्रयोग करते हैं, जैसे, **राजा को नौ पुत्र थे (मुद्रा०), जमदग्नि को परशुराम हुए (सत्य०)** । इस प्रकार की रचना बहुधा काशी और विहार के लेखक करते हैं और भारतेन्दु जी इसके प्रवर्तक जान पड़ते हैं । मराठी में इस रचना का बहुत प्रचार है, जैसे, त्याला देण भाऊ आहेत । हिंदी में यह रचना इसलिए अशुद्ध है कि इसका प्रयोग न तो पुरानी भाषा में पाया जाता है और न आधुनिक शिष्ट लेखक ही इसका अनुमोदन करते हैं । इस रचना के बदले हिंदी में **स्वतंत्र संबंध-कारक** आता है, जैसे,

एक बार भूपति मन माहों । भई ग्लानि मोरे सुत नाहीं । (राम०)

मधुकर शाह नरेश के इतने भये कुमार । (कवि०) ।

चाहे साहूकार के संतान हो चाहे न हो (शकु०) ।

इस अंतर में उनके एक लड़की और एक लड़का भी हो गया (गुटका०), इस समय इनके केवल एक कन्या है (हि० को०) ।

५३४—नीचे लिखे शब्दों के योग से बहुधा संप्रदान-कारक आता है—

(क) लगना, रचना, मिलना, दिखना, भामना, आना, पढ़ना, होना, आदि अकर्मक क्रियाएँ, जैसे, क्या तुमको बुरा लगा, मुझे खटाई नहीं भाती, हमें ऐसा दिखता है, राजा को स कट पडा, तुमको क्या हुआ है, मोहि' न बहुत प्रपंच सुहाहीं (राम०) ।

(ख) प्रणाम, नमस्कार, धन्य, धन्यवाद, वधाई, धिक्कार, आदि सज्ञाएँ, जैसे, गुरु को प्रणाम है, जगदीश्वर को धन्य है, इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद है, तुलसी, ऐसे पतित को बार बार धिक्कार, इत्यादि । सस्कृत उदा०—श्रोगणेशाय नमः ।

(ग) चाहिये, उचित, योग्य, आवश्यक, सहज, कठिन आदि विशेषण; जैसे, अंतहुँ उचित **नृपहिँ** बनवासु, **सुभे** उपदेश नहीं चाहिये, मेरे **मित्र** को कुछ धन आवश्यक है; **सबहिँ** सुलभ ।

५३५—नीचे लिखी संयुक्त क्रियाओं के साथ उद्देश्य बहुधा संप्रदान-कारक में आता है—

(क) आवश्यकता-बोधक क्रियाएँ—जैसे, **सुभे** वहाँ जाना पड़ा, **तुमको** यह काम करना होगा, उसे ऐसा नहीं कहना था ।

[सू०—यदि इन क्रियाओं का उद्देश्य अप्राणिवाचक हो, तो वह अप्रत्यक्ष कर्त्ता-कारक में आता है, जैसे, घटा बजना चाहिए, अभी बहुत काम होना है । चिट्ठी भेजी जानी थी ।]

(ख) पढ़ना और आना के योग से बनी हुई कुछ अवधारण-बोधक क्रियाएँ—जैसे, बहिन, **तुम्हें** भी देख पड़ेंगी ये सब बातें आगे (सर०), **रोगी** को कुछ न सुन पड़ा, उसकी दशा देखकर **सुभे** रो आया, इत्यादि ।

(ग) देना अथवा पढ़ना के योग्य से बनी हुई नाम-बोधक क्रियाएँ—जैसे, **सुभे** शब्द सुनाई पड़ा, **उसै** रात को दिखाई नहीं देता ।

५३६—क्रिया की अवधि के अर्थ में उसका कर्त्ता संप्रदान-कारक में आता है; जैसे, **सुभे** सारी रात तलफते बीती, **उनको** गये एक साल हुआ, **नौकर** को लौटते रात हो जायगी, **तुम्हें** यहाँ कई दिन हुए, **सहाराज** को आकर एक महीना होता है ।

(५) अपादान-कारक ।

५३७—अपादान-कारक के अर्थ और प्रयोग नीचे लिखे अनुसार होते हैं—

(क) काल तथा स्थान का आरंभ—वह **लखनऊ** से आया है, मैं **कल** से बेकल हूँ, गंगा **हिमालय** से निकलती है ।

(ख) उत्पत्ति—ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, दूध से दही बनता है, कोयला खदान से निकाला जाता है, जन से कपड़े बनाये जाते हैं, दीपक तें काजल, प्रगट कमल कीच तें होय ।

(ग) काल वा स्थान का अंतर—अटक से कटक तक, सबेरे से साँझ तक, नख से शिख तक, इत्यादि ।

[सू०—इस अर्थ में कभी-कभी “लेकर” (“ले”) पूर्वकालिक कृद त का प्रयोग किया जाता है, जैसे, हिमालय से लेकर सेतुबंध-रामेश्वर तक ।]

(घ) भिन्नता—यह कपड़ा उससे अलग है, आत्मा देह से भिन्न है, गोकुल से मथुरा न्यारी ।

(ङ) तुलना—मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा ? कुलिश अस्थि तें, उपल ते लोह कराल कठोर, भारी से भारी वजन, छोटे से छोटा प्राणी ।

(च) वियोग—वह मुझसे अलग रहता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मेरे हाथ से छडी छूट पड़ी ।

(छ) निर्द्धारण (निश्चित करना)—इन कपड़ों में से आप कौन सा लेते हैं, हिंदुओं में से कई लोग विलायत को गये हैं ।

[सू०—निर्द्धारण में बहुधा अधिकरण कारक भी आता हं, जैसे, की तुम तीन देव महीं कोऊ । हिंदी के कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ है । अधिकरण और अथादान के मेल से कभी-कभी “वहाँ होकर” का अर्थ निकलता है; जैसे, पानी नाली में से बहता है, रास्ता जंगल में से था, खी कोठे पर से तमाशा देखती है, घोडे पर से = घोडे से ।]

(ज) माँगना, लेना, लाना, बचना, नटना, रोकना, छूटना, ढरना, छिपना, आदि क्रियाओं का स्थान वा कारण, जैसे, ब्राह्मण ने मुझसे सारा राज्य माँग लिया, गाड़ी से बचकर चलो, मैं लोटे

से जल लेता हूँ, तुम मुझे वहाँ जाने से क्यों रोकते हो ? लड़का बिल्ली से डरता है ।

[सू०—“डरना” क्रिया के कारण के अर्थ में विकल्प से कर्म-कारक भी आता है; जैसे, मैं शेर को नहीं डरता, अभय होय जो तुमहिं डराई, इत्यादि ।]

(भू) परे, बाहर, दूर, आगे, हटकर, आदि अव्ययों के साथ; जैसे; जाति से बाहर, दिल्ली से परे, घर से दूर, गाँवसे आगे, सड़क से हटकर ।

[सू०—परे, बाहर और आगे संबंध कारक के साथ भी आते है, जैसे, ज्ञान के परे, गाँव के बाहर, सड़क के आगे ।]

(६) संबंध-कारक ।

५३८—संबंध-कारक से अनेक प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं, जिनका पूरा-पूरा वर्गीकरण कठिन है; इसलिए यहाँ केवल मुख्य-मुख्य अर्थ लिखे जाते हैं—

(क) स्व-स्वामिभाव*—देश का राजा, राजा का देश, मालिक का घर, घर का मालिक, मेरा घर ।

(ख) अंगगिभाव—लड़के का हाथ, स्त्री के केश, हाथ की अँगुलियाँ, दस पन्ने की पुस्तक, तीन खंड का मकान ।

(ग) जन्य-जनक-भाव—राजा का बेटा, लड़के का बाप, तुम्हारी माता, ईश्वर की सृष्टि, जगत् का कर्ता ।

(घ) कर्तृकर्मभाव—तुलसीदास की रामायण, रविवर्मा के चित्र, पुस्तक का लेखक, नाटक का कवि, विहारी की सतसई ।

(ङ) कार्यकारणभाव—सोने की अँगूठी, चाँदी का पलंग, मूर्ति का पत्थर, किवाड़ की लकड़ी, लकड़ी का किवाड़, मूठ की चाँदी ।

* स्व = धन, सम्पत्ति ।

(च) आधाराधेयभाव—नगर के लोग, ब्राह्मणों का पुरा, दूध का कटोरा, कटोरे का दूध, नहर का पानी, पानी की नहर ।

(छ) सेव्य-सेवक-भाव—राजा की सेना, ईश्वर का भक्त, गाँव का जोगी, आन गाँव का सिद्ध ।

(ज) गुणगुणीभाव—मनुष्य की बड़ाई, आम की खटाई, नौकर का विश्वास, भरोसे का नौकर, बड़ाई का काम ।

(झ) वाह्य-वाहकभाव—घोड़े की गाड़ी, गाड़ी का घोड़ा, कोल्हू का बैल, बैल का छकड़ा, गधे का बोझ, सवारी का ऊँट ।

(ञ) नाता—राजा का भाई, लड़के का फूफा, स्त्री का पति, मेरा काका, वह तुम्हारा कौन है ?

(ट) प्रयोजन—वैठने का कोठा, पीने का पानी, नहाने की जगह, तेल का वासन, दिये की बत्ती, खेती का बैल ।

(ठ) मोल वा माल—पैसे का गुड, गुड का पैसा, सात सेर का चावल, रुपये के सात सेर चावल, रुपये की लकड़ी, लकड़ी का रुपया ।

(ड) परिमाण—दो हाथ की लाठी, खेती एक हर की (गंगा०), दस बीघे का खेत, कम ऊँचाई की दीवाल, चार सेर की नाप ।

[सू०—दस सेर आटा, एक तोला सोना, एक गज कपड़ा, आदि वाक्यों में कोई-कोई वैयाकरण आटा, सोना, कपड़ा, आदि शब्दों को संबध कारक में समझकर दूसरे शब्दों के साथ उनका परिमाण का संबध मानते हैं, जैसे, आटे के दस सेर, सोने का एक तोला, कपड़े का एक गज । परंतु ये सब शब्द किसी और कारक में भी आ सकते हैं, जैसे, दस सेर आटे में दो सेर घी मिलाओ । यहाँ “आटा” शब्द अधिकरण-कारक और घी शब्द अप्रत्यय-कर्म-कारक है, इसलिए इन्हें केवल संबध-कारक मानना भूल है । ये शब्द-यद्यार्थ में समानाधिकरण के उदाहरण हैं (शं०—१४४) ।]

(ठ) काल और वयस—एक समय की बात, दो हजार वर्ष का इतिहास, दस बरस की लडकी, छः महीने का बच्चा, चार दिन की चाँदनी ।

(ण) अभेद किंवा जाति—असाढ़ का महीना, खजूर का पेड़, कर्म की फाँस, चन्दन की लकड़ी, प्लेग की बीमारी, क्या सौ रुपये की पूँजी, क्या एक बेटे की सन्तान, पाँच रोटियों का एक कौर, जय की ध्वनि, “मारो-मारो” का शब्द, जाति का शूद्र, जयपुर का राज्य, दिल्ली का शहर ।

(त) समस्तता—इस अर्थ में किसी एक शब्द के सम्बन्ध-कारक के पश्चात् उसी शब्द की पुनरुक्ति करते हैं, जैसे, गाँव का गाँव, घर का घर, मुहल्ला का मुहल्ला, कोठा का कोठा । “यह वार्तिक, सारा का सारा, पद्यात्मक है” (सर०) ।

(थ) अविकार—इस अर्थ में भी ऊपर की तरह रचना होती है; जैसे, मूख का मूख, दूध का दूध, पानी का पानी, जैसा का तैसा, जहाँ का तहाँ, ज्यों की त्यों, “मनुष्य अन्त में कैारा का कैारा बना रहे” (सर०), “नलबल जल ऊँचा चढै, अन्त नीच की नीच” (सत०) ।

(द) अवधारण—आम के आम, गुठलियों के दाम, वैल का वैल और डाँड़ का डाँड़, धन का धन गया और ऊपर से बदनामी हुई । घर के घर में लड़ाई होने लगी । बात की बात में = तुरन्त ।

[सू०—उपर्युक्त तीनों प्रकार की रचना में आकारान्त संज्ञा विभक्ति के योग से विकृत रूप में नहीं आती; पर बहुवचन में और वाक्यांश के पश्चात् विभक्ति आने पर नियम के अनुसार आ के स्थान में ए हो जाता है; जैसे, वे लोग खड़े के खड़े रह गये, लड़कें कोठे के कोठे में चले गये, समाज के समाज ऐसे पाये जाते हैं, सारे के सारे मुसाफिर (सर०) ।]

“जैसा का तैसा” और “जैसे का तैसा”, इन दो वाक्यांशों में रूप और अर्थ का सूक्ष्म भेद है। पहले से अविकार सूचित होता है, पर दूसरे से जन्य-जनक अथवा कार्य-कारण की समता पाई जाती है।]

(ध) नियमितपन—इस अर्थ में भी ऊपर लिखी रचना होती है; पर यह बहुधा विकृत कारकों में आती है और इसमें आकारान्त शब्द एकारान्त हो जाते हैं, जैसे, सोमवार के सोमवार मेला भरता है, महीने के महीने तनखाह मिलती है, दोपहर के दोपहर, होली के होली, दिवाली के दिवाली, दशहरे के दशहरे।

(न) दशांतर—राई का पर्वत, मंत्रो का राजा होना, दिन की रात हो गई, बात का बतकड़, कुछ का कुछ, फिर राँग का सोना हुआ (सर०)।

(प) विषय—कान का कच्चा, आँख का अन्धा, गाँठ का पूरा, बात का पक्का, धन की इच्छा, “शपथ तुम्हारे, भरत के आना” (राम०), गंगा की जय, नाम की भुख।

५३६—योग्यता अथवा निश्चय के अर्थ में क्रियार्थक संज्ञा का सम्बन्ध-कारक बहुधा “नहीं” के साथ आता है, जैसे, यह बात नहीं होने की (विचित्र०), मैं जाने का नहीं हूँ, यह राज्य अब टिकने का नहीं है, रोगी मरने का नहीं, मेरा विचार जाने का नहीं था।

५४०—क्रियार्थक संज्ञा और भूतकालिक कृदंत विशेषण के योग से बहुधा संबन्ध-कारक का प्रयोग होता है और उससे दूसरे कारकों का अर्थ पाया जाता है, जैसे,

कर्त्ता—मेरे जाने पर, कवि की लिखी हुई पुस्तक, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है।

कर्म—गाँव की लूट, कथा का सुनना, नौकर का भेजा जाना, ऊँट की चोरी।

करण—कलम का लिखना, भूख का मारा, कल का सिला हुआ, “मेल को लीन्हो,” चूने की छाप, दूध का जला ।

अपादान—डाल का टूटा, जेल का भागा हुआ, बंबई का चला हुआ, दिसावर का आया हुआ ।

(क) कई एक क्रियाओं और दूसरे शब्दों के साथ कालवाचक संज्ञाओं में अपादान के अर्थ में संबंध-कारक आता है; जैसे, बेटा, मैं कब की पुकार रही हूँ, वह कभी का आ चुका, मैं वहाँ सवेरे का बैठा हूँ, जन्म का दरिद्री, इत्यादि ।

अधिकरण—तांगे का बैठना, पहाड़ का चढ़ना, घर का बिगड़ा हुआ, गोद का खिलाया लड़का, खेत का उपजा हुआ अनाज, इत्यादि ।

५४१—क्रियाद्योतक और तत्कालबोधक कृदंत अव्ययों के साथ बहुधा कर्त्ता और कर्म के अर्थ में संबंध-कारक की “के” (स्वतंत्र) विभक्ति आती है, जैसे, सरकार अँगरेजी के बनाये सब कुछ बन सकता है (शिव०), मेरे रहते किसी का सामर्थ्य नहीं है, इतनी बात के सुनते ही हरि बोले (प्रेम०), राजा के यह कहते ही सब शांत हो गये ।

५४२—अधिकांश संबंध-सूचकों के योग से संबंध-कारक का प्रयोग होता है (अ०—२३३) ।

५४३—संबंध (अ०५३३), स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध-कारक का सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है और उसकी “के” विभक्ति आती है; जैसे अब इनके कोई संतान नहीं है, मेरे एक बहिन न हुई (गुटका०), महाजन के बहुत धन है, जिसके आखे न हों वह क्या जाने ? नाथ, एक बड़ संशय मेरे (राम०), ब्राह्मण यजमानों के राखी बाँधते हैं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हब्शी के तमाचा इस जोर से लगा (सर०), भाग, कही नहीं मार दे घोडा तेरे लात ।

[सू०—इस प्रकार की रचना का समाधान “के” के पश्चात् “पास” “यहाँ” अथवा इसी अर्थ के किसी और शब्द का अध्याहार मानने से हो सकता है। किसी-किसी का मत है कि इन उदाहरणों में “के” संवध-कारक की “के” विभक्ति नहीं है, किंतु उससे भिन्न एक स्वतंत्र संवध-सूचक अव्यय है, जो भेद्य के लिंग-वचन के अनुसार नहीं बदलता ।]

५४४—संवध-कारक को कभी-कभी (भेद्य के अध्याहार के कारण) आकारांत संज्ञा मानकर उसमें विभक्तियों का योग करते हैं (अं०—३०७ अ), जैसे इस **राँडके को** बकने दीजिए (शकु०), एक बार सब **घरकों ने** महाभारत की कथा सुनी, इत्यादि ।

(अ) राजा की चोरी हो गई = राजा के धन की चोरी ।

(आ) जेठ सुदी पंचमी = जेठ की सुदी पंचमी ।

[सू०—भेद्य के अध्याहार के लिये १२ वाँ अध्याय देखो ।]

(७) अधिकरण-कारक ।

५४५—अधिकरण-कारक की मुख्य दो विभक्तियाँ हैं—मे और पर । इन दोनों विभक्तियों के अर्थ और प्रयोग अलग-अलग हैं; इसलिए इनका विचार अलग-अलग किया जायगा ।

५४६—‘में’ का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(क) अभिव्यापक आधार—**दूध में** मिठास, **तिल में** तेल, **फूल में** सुगंध, **आत्मा सबमें** व्याप्त है ।

[सू०—आधार को व्याकरण में अधिकरण कहते हैं और वह बहुधा तीन प्रकार का होता है । अभिव्यापक आधार वह है जिसके प्रत्येक भाग में आधेय पाया जाय । इसे व्याप्ति आधार भी कहते हैं । औपश्लेषिक आधार वह कहलाता है जिसके किसी एक भाग में आधेय रहता है; जैसे, नौकर कोठे में सोता है, लडका घोड़े पर बैठा है । इसे एकदेशाधार भी कहते हैं । तीसरा आधार वैषयिक कहलाता है और उससे विषय का बोध होता है, जैसे, धर्म में रुचि, विद्या में प्रेम । इसका नाम विषयाधार भी है ।]

(ख) औपश्लेषिक आधार—वह वन में रहता है, किसान नदी में नहाता है, मछलियाँ समुद्र में रहती हैं, पुस्तक कोठे में रखी है ।

(ग) वैषयिक आधार—नौकर काम में है, विद्या में उसकी रुचि है, इस विषय में कोई मत-भेद नहीं है, रूप में सुंदर, डील में ऊँचा, गुण में पूरा ।

(घ) मोल—पुस्तक चार आने में मिली, उसने बीस रुपये में गाय ली, यह कपड़ा तुमने कितने में बेचा ?

[सू०—मोल के अर्थ में संप्रदान, संबध और अधिकरण-कारक आते हैं । इन तीनों प्रकार के अर्थों में यह अंतर जान पड़ता है कि संप्रदान-कारक से कुछ अधिक दामों का, अधिकरण-कारक से कुछ कम दामों का और संबध-कारक से उचित दामों का बोध होता है; जैसे, मैंने बीस रुपये की गाय ली, मैंने बीस रुपये में गाय ली और मैंने बीस रुपये को गाय ली ।]

(ङ) मेल तथा अंतर—हममें तुममें कोई भेद नहीं, भाई-भाई में प्रीति है, उन दोनों में अनबन है ।

(च) कारण—व्यापार में उसे टोटा पड़ा, क्रोध में शरीर छोड़ता है, बातों में बड़ाना, ऐसा करो जिसमें (वा जिससे) प्रयोजन सिद्ध हो जाय ।

(छ) निर्धारण—देवताओं में कौन अधिक पूज्य है ? सती स्त्रियों में पद्मिनी प्रसिद्ध है, सबमें छोटा, ग्रंथों में काने राजा, तिन-महँ रावण कवन तुम ? नव महँ जिनके एको होई ।
(अं०—५३७ छ)

(ज) स्थिति—सिपाही चिंता में है, उसका भाई युद्ध में मारा गया, रोगी होश में नहीं है, नौकर मुझे रास्ते में मिला, लड़के चैन में हैं ।

(भ) निश्चित काल की स्थिति—वह एक घंटे में अच्छा हुआ, दूत कई दिनों में लौटा, संवत् १८५३ में अकाल पड़ा था, प्राचीन समय में भोज नाम का एक प्रतापी राजा हो गया है ।

५४७—भरना, समाना, घुसना, भिदना, मिलना, आदि कुछ क्रियाओं के साथ व्याप्ति के अर्थ में अधिकरण का चिह्न 'में' आता है जैसे, घड़े में पानी भरो, लाल में नीला रंग मिल जाता है, पानी धरती में समा गया ।

५४८—गत्यर्थ क्रियाओं के साथ निश्चित स्थान की वाचक संज्ञाओं में अधिकरण कारक का 'में' चिह्न लगाया जाता है; जैसे, लड़का कोठे में गया, नौकर घर में नहीं आता, वे रात के समय गाँव में पहुँचे, चोर जंगल में जायगा ।

[सू०—गत्यर्थ क्रियाओं के साथ और निश्चित कालवाचक संज्ञाओं में अधिकरण के अ में कर्म-कारक भी आता है (अ०—५२५) । “वह घर को गया”, और “वह घर में गया”, इन दो वाक्यों में कारक के कारण अर्थ का कुछ अंतर है । पहले वाक्य से घर की सीमा तक जाने का बोध होता है, पर दूसरे से घर के भीतर जाने का अर्थ पाया जाता है ।]

५४९—“पर” नीचे लिखे अर्थ सूचित करता है—

(क) एकदेशाधार—सिपाही घोड़े पर बैठा है, लड़का खाट पर सोता है, गाड़ी सड़क पर जा रही है, पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं ।

[सू०—“में” विभक्ति से भी यही अर्थ सूचित होता है । “में” और “पर” के अर्थों में यह अंतर है कि पहले से अत स्थ और दूसरे से बाह्य स्पर्श का बोध होता है । यही विशेषता बहुधा दूसरे अर्थों में भी पाई जाती है ।]

(ख) सामीप्याधार—मेरा घर सड़क पर है, लड़का द्वार पर खड़ा है, तालाब पर मंदिर बना है, फाटक पर सिपाही रहता है ।

(ग) दूरता—एक कोस पर, एक एक हाथ के अंतर पर, कुछ आगे जाने पर, एक कोस की दूरी पर ।

(घ) विषयाधार—**नौकरों पर दया करो**, राजा उस कन्या पर मोहित हो गये, आप पर मेरा विश्वास है, इस बात पर बड़ा विवाद हुआ, जाकर **जेहि पर सत्य सनेहू**, जाति-भेद पर कोई आक्षेप नहीं करता ।

(ङ) कारण—**मेरे बोलने पर** वह अप्रसन्न हो गया । इस बात पर सब भगड़ा मिट जायगा, **लेन-देन पर** कहा-सुनी हो गई, अच्छे काम पर इनाम मिलता है, पानी के छोटे छींटों पर राजा को बटबीज की याद आई ।

(च) अधिकता—इस अर्थ में संज्ञा की द्विरुक्ति होती है; जैसे, घर से **चिट्ठियों पर** चिट्ठियाँ आती हैं (सर०), दिन पर दिन भाव बढ़ रहा है, **तगाड़े पर** तगाड़ा भेजा जा रहा है, लड़ाई में **सिपाहियों पर** सिपाही कट रहे हैं ।

(छ) निश्चित काल—**सस्य पर** वर्षा नहीं हुई, नौकर ठीक सस्य पर गया, गाड़ी नौ बजकर **पैंतालीस मिनट पर** आती है, एक एक घंटे पर दवा दी जावे ।

(ज) नियम-पालन—वह अपने जेठों की **खाल पर** चलता है, लड़के माँ-बाप के **स्वभाव पर** होते हैं, अंत में वह अपनी **जाति पर** गया, तुम अपनी बात पर नहीं रहते ।

(झ) अनंतरता—भोजन करने पर पान खाना, बात पर बात निकलती है, आपका पत्र **आने पर** सब प्रबंध हो जायगा ।

(ञ) विरोध अथवा अनादर—इस अर्थ में 'पर' के पश्चात् बहुधा 'भी' आता है; जैसे, यह औपधि वात रोग पर चलती है, जले पर नोन लगाना, लड़का छोटा होने पर भी चतुर है, इतना होने पर भी कोई निश्चय न हुआ, मेरे कई बार समझाने पर भी वह दुष्कर्म नहीं छोड़ता ।

५५०—जहाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ, ऊँचे, नीचे, आदि कुछ स्थान-वाचक क्रिया-विशेषणों के साथ विकल्प से “पर” आता है; जैसे, पहले जहाँ पर सभ्यता हो अंकुरित फूली-फली (भारत०), जहाँ अभी समुद्र है वहाँ पर किसी समय गल था (सर०), ऊपर-वाला पत्थर २० फुट से अधिक ऊँचे पर था (विचित्र०) ।

५५१—चढना, मरना (इच्छा करना), घटना, छोडना, वारना, निछावर, निर्भर, आदि शब्दों के योग से बहुधा “पर” का प्रयोग होता है, जैसे पहाड़ पर चढना, नास पर मरना, आज का काम कल पर मत छोडो, मेरा जाना आपके आने पर निर्भर है, तो-पर वारो उरवसी ।

५५२—ब्रजभाषा में “पर” का रूप “पै” है, और यह कभी-कभी “से” का पर्याया होकर करण-कारक में आता है; जैसे, मोषै चल्यो नाहिं जालु । कभी-कभी यह “पास” के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जैसे—निज भावते छै अवही मोहि जाने (जगत०), हमपै एक भी पैसा नहीं है । इस विभक्ति का प्रयोग बहुधा कविता में होता है ।

५५३—कभी-कभी ‘में’ और “पर” आपस में बदल जाते हैं; जैसे क्या आप घर पर (= घर में) मिलेंगे, नौकर दूकान पर (= दूकान में) बैठा है, उसकी देह में (= देह पर) कपडा नहीं है, जल में (= जल पर) गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव ।

५५४—अधिकरण-कारक की विभक्ति के साथ कभी-कभी अपादान और सवध-कारकों की विभक्तियों का योग होता है*, और जिस

* एक विभक्ति के पश्चात् दूसरी विभक्ति का योग होना दी भाषा की एक विशेषता है जिसके कारण कई एक वैयाकरण इस भाषा के विभक्ति-प्रत्ययों को स्वतंत्र अव्यय अथवा उनके अपभ्रंश मानते हैं । संस्कृत में विभक्ति के पश्चात् कभी-कभी दूसरा प्रत्यय तो आता है,—जैसे, अहंकार, ममत्व, आदि में—पर विभक्ति-प्रत्यय नहीं आता ।

शब्द के साथ ये विभक्तियाँ आती हैं, उससे दोनों विभक्तियों का अर्थ पाया जाता है; जैसे, वह घोड़े पर से गिर पड़ा, जहाज पर के यात्रियों ने आनंद मचाया, इस नगर में का कोई आदमी तुमको जानता है ? हिंदुओं में से कई लोग विलायत को गये हैं, डोरी पर का नाच मुझे बहुत ही भाया (विचित्र०) । (अं०—५३७ छ) ।

५५५—कई एक कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया-विशेषणों में और विशेषकर आकारांत संज्ञाओं में अधिकरण-कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है; जैसे, इन दिनों हर-एक चीज महँगी है, उस समय मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, मैं उनके दर-वाजे कभी नहीं गया, छः बजे सूरज निकलता है, उस जगह बहुत भीड़ थी, हम आपके पाँव पड़ते हैं ।

(अ) प्राचीन कविता में इन विभक्तियों का लोप बहुधा होता है, जैसे, पुत्रि, फिरिय बन बहुत कलेशू (राम०); ठाढ़ी अजिर यशोदा रानी (ब्रज०) ।

जो सिर धरि महिमा सही, लहिचत राजा-राव ।

प्रगटत जड़ता आपनी, मुकुट सु पहिरत पाव ॥ (सत०) ।

५५६—अधिकरण की विभक्तियों का नित्य लोप होने के कारण कई एक संज्ञाओं का प्रयोग संबंध-सूचक के समान होने लगा है; जैसे, वश, किनारे, नाम, विषय, लेखे, पलटे, इत्यादि । (अं०—२३६) ।

५५७—कोई-कोई वैयाकरण “तक”, “भर”, “वीच”, “तले”, आदि कई एक अव्ययों को अधिकरण-कारक की विभक्तियों में गिनते हैं, पर ये शब्द बहुधा संबंध-सूचक अथवा क्रिया-विशेषण के समान प्रयोग में आते हैं; इसलिए इन्हें विभक्तियों में गिनना भूल है । इनका विवेचन यथास्थान हो चुका है ।

(८) संबोधन-कारक ।

५५८—इस कारक का प्रयोग किसी को चिताने अथवा पुकारने में होता है, जैसे, भाई, तुम कहाँ गये थे ? मित्रो, करो हमारी शीघ्र सहाय (सर०) ।

५५९—संबोधन-कारक के साथ (आगे या पीछे) बहुधा कोई-एक विस्मयादि-बोधक आता है जो भूल से इस कारक की विभक्ति मान लिया जाता है ; जैसे, तजो, रे मन, हरि-विमुखन को संग(सूर०), हे प्रभु, रक्षा करो हमारी, भैया हो, यहाँ तो आओ ।

(क) कविता में कवि लोग बहुधा अपने नाम का प्रयोग करते हैं जिसे छाप कहते हैं और जिसका अर्थ कभी-कभी संबोधन-कारक का होता है, जैसे, रहिमान, निज मन की व्यथा । सूरदास, स्वामी करुणामय । यह शब्द अपने अर्थ के अनुसार और-और कारकों में भी आता है, जैसे, कहि गिरिधर कविराय, कलिकाल तुलसी से शठहि हठि राम सन्मुख करत को ?

तीसरा अध्याय ।

समानाधिकरण शब्द ।

५६०—जो शब्द या वाक्यांश किसी समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में आता है उसे उस शब्द का समानाधिकरण कहते हैं; जैसे, दशरथ के पुत्र, राम वन को गये, पिता-पुत्र दोनों वहीं बैठे हैं, भूले हुआ को पथ दिखाना, यह उमारा कार्य था (भारत०) ।

इन वाक्यों में राम, दोनों और यह क्रमशः पुत्र, पिता-पुत्र और पढ़ना के समानाधिकरण शब्द हैं ।

५६१—हिंदी में समानाधिकरण शब्द अथवा वाक्यांश बहुधा नीचे लिखे अर्थ सूचित करते हैं—

(अ) नाम, पदवी, दशा अथवा जाति—जैसे, महाराना प्रतापसिंह, नारद मुनि, गोसाईं तुलसीदास, रामशंकर त्रिपाठी, गोपाल नाम का लड़का, मुझ आफत को टालने के लिए ।

(आ) परिणाम—दो सैर आटा, एक तोला सोना, दो बीघे धरती, एक गज कपड़ा, दो हाथ चौड़ाई, इत्यादि ।

(इ) निश्चय—अच्छी तरह से पढ़ना, यह एक गुण है, पिता-पुत्र दोनों बैठे हैं, को यह चलो रुद्र सम आवत (सत्य०), इत्यादि ।

(ई) समुदाय—सोना, चाँदी, ताँबा आदि धातु कहते हैं, राज-पाट, धन-धाम सब छूटा (सत्य०), वे सबके सब भाग गये (विचित्र०), धन-धरती सबका सब हाथ से निकल गया । (गुटका०) ।

(उ) पृथक्ता—पौथी-पत्रा, पूजा-पाठ, दान-होम-जप, कुछ भी काम न आया (सत्य०), विपत्ति में भाई-बंधु, लो-पुत्र, कुटुंब-परिवार, कोई साथी नहीं होता ।

(ऊ) शब्दार्थ—जहाँ से नगरकोट (शहरपनाह) का फाटक सौ गज दूर था (विचित्र०), संवत् ११६३ (सन् ११०६) में (नागरी०), किस दशा में—किस हालत में, समाज के बनाने हुए नियम अर्थात् कायदे हर आदमी को मानना मुनासिब नमस्का जायगा (स्वा०) ?

(ऋ) भूल-संशोधन—इसका उपाय (उपयोग ?) सीमा के बाहर हो जाता है (सर०), मैं उस समय कचहरी को—नहीं बाजार को जा रहा था ।

(ऋ) अवधारण—चंद्रहास मेरी संपत्ति—अतुल संपत्ति का अधिकारी होगा (चंद्र०), अच्छी शिक्षा पाये हुए मुसलमान और हिंदू भी—विशेष करके **मुसलमान** फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं (सर०) ।

५६२—सब, कोई, कुछ, दोनों और यह बहुधा दूसरे शब्दों के समानाधिकरण होकर आते हैं, और आदि, नामक, अर्थात्, सरीखा, जैसे, बहुधा दो समानाधिकरण शब्दों के बीच में आते हैं । इन सबके उदाहरण ऊपर आ चुके हैं ।

५६३—समानाधिकरण शब्द जिस कारक में आता है वही उसका मुख्य शब्द भी रहता है; जैसे, राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया । इस वाक्य में मुख्य शब्द राजा और पुत्री संबंध-कारक में हैं, क्योंकि उनके समानाधिकरण शब्द जनक और सीता संबंध-कारक में आये हैं ।

(अ) समानाधिकरण शब्द का अर्थ और कारक मूल शब्द के अर्थ और कारक से भिन्न न होना चाहिए । नीचे लिखे वाक्य इस नियम के विरुद्ध होने के कारण अशुद्ध हैं—

जब राजकुमार सिद्धार्थ (गौतम बुद्ध का पहला नाम) २६ वर्ष के हुए (सर०), गत वर्ष का (सन् १८१४) हिमाव ।

(आ) कभी-कभी एक वाक्य भी समानाधिकरण होता है, जैसे, वह पूरा भरोसा रखता है कि मेरे श्रम का फल मुझे ही मिलेगा । इस वाक्य में “कि” से आरंभ होनेवाला उप-वाक्य “भरोसा” शब्द का समानाधिकरण है ।

[सू०—वाक्यों का विशेष विचार इस भाग के दूसरे परिच्छेद में किया जायगा ।]

चौथा अध्याय ।

उद्देश्य, कर्म और क्रिया का अन्वय ।

(१) उद्देश्य और क्रिया का अन्वय ।

५६४—जब अप्रत्यय कर्ता-कारक वाक्य का उद्देश्य होता है, तब उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं; जैसे, लड़का जाता है, तुम कब आओगे, स्त्रियाँ गीत गाती थीं, नौकर गाँव को भेजा जायगा, घंटी बजाई गई, इत्यादि, (अ०—३६६, ३६७) ।

[सू०—संभाव्य भविष्यत् तथा विधिकाल के कर्तृवाच्य में और स्थिति-दर्शक “होना” क्रिया के सामान्य वर्तमानकाल में लिंग के कारण क्रिया का रूपांतर नहीं होता; जैसे, लड़का जावे, स्त्रियाँ गीत गावे, हम यहाँ है, लड़की, तू जा ।

५६५—आदर के अर्थ में एक वचन उद्देश्य के साथ बहुवचन क्रिया आती है; जैसे, मेरे बड़े भाई आये हैं, बोले राम जोरि जुग पानी, महारानी दीन स्त्रियों पर दया करती थीं, राजकुमार सभा में बुलाये गये ।

(क) कविता में कभी-कभी विधिकाल अथवा संभाव्यभविष्यत् का मध्यम-पुरुष अन्य-पुरुष उद्देश्य के साथ आता है; जैसे, करहु सो मम उर धाम, जरौ सुसंपति, सदन, सुख ।

५६६—जब जातिवाचक संज्ञा के स्थान में कोई समुदायवाचक संज्ञा (एक-वचन में) आती है, तब क्रिया का लिंग-वचन समुदाय-वाचक संज्ञा के अनुसार होता है; जैसे, सिपाहियों का एक झुंड जा रहा है, उनके कोई संतान नहीं हुई, सभा में बहुत भीड़ थी, इत्यादि ।

५६७—यदि पूर्ण क्रिया की उद्देश्य-पूर्ति के लिंग-वचन-पुरुष उद्देश्य के लिंग-वचन-पुरुष से भिन्न हों तो क्रिया के लिंग-वचन-पुरुष बहुधा उद्देश्य ही के अनुसार होते हैं, जैसे, वह टकसाल न समझा जावेगा, (सत्य०), बेटी किसी दिन पराए घर का धन होती है (शकु०), हम क्या से क्या हो गये (सर०), काले कपड़े शोक का चिह्न माने जाते हैं । दूर देश में बसने-वाली जाति वहाँ के असली रहनेवालों नष्ट को करने का कारण हुई । (सर०) ।

अप०—यदि उद्देश्य-पूर्ति का अर्थ मुख्य हो अथवा उसमें उत्तम या मध्यम पुरुष सर्वनाम आवे तो क्रिया के लिंग-वचन-पुरुष उद्देश्य-पूर्ति के अनुसार होते हैं और उसके पूर्व संबंध-कारक की विभक्ति बहुधा उसीके लिंग के अनुसार होती है, जैसे,—हिज्जे और रूपांतर का प्रमाण हिंदी हो सकती है (सर०), उनकी एक रकावी मेरा एक निवाला होता (विचित्र०), इन सब सभाओं का मुख्य उद्देश्य मैं ही था, उनकी आशा तुम्हीं हो, भूठ बोलना उसकी आदत हो गई है, इस घोर युद्ध का कारण प्रजा की संपत्ति थी ।

[सू०—शिष्ट लेखक बहुधा इस बात का विचार रखते हैं कि उद्देश्य-पूर्ति के लिंग-वचन यथा-समव वही हों जो उद्देश्य के होते हैं, जैसे, मोड़ी लिपि कैथी की भी काकी है (सर०), उसका कवि भी हम लोगों का एक जीवन है (सत्य०), हम लोगों के पूर्व पुरुष महाराज हरिश्चंद्र भी थे (तथा), यह तुम्हारी सखी उनकी बेटी क्योंकर हुई (शकु०), महाराज उसके हाथ के खिलौने थे (विचित्र०) ।]

५६८—यदि सयोजक समुच्चय-त्रोधक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष और एक ही लिंग की एक से अधिक एकवचन प्राणिवचक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्ताकारक में आकर उद्देश्य हों, तो उनके योग से क्रिया उसी पुरुष और उसी लिंग के बहुवचन में आएगी; जैसे, किसी वन

में हिरन और कौआ रहते थे; मोहन और सोहन सड़क पर खेल रहे हैं; बहू और लड़की काम कर रही हैं; चांडाल के भेष में धर्म और सत्य आते हैं (सत्य०); नाई और ब्राह्मण टोका लेकर भेजे गये; घोड़ा और कुत्ता एक जगह बाँधे जाते थे; तितली और पंखी ऊँचे नहीं उड़ों ।

अप०—उद्देश्यों की पृथक्ता के अर्थ में क्रिया बहुधा एकवचन में आती है; जैसे, बैल और घोड़ा अभी पहुँचा है; मेरे पास एक गाय और एक भैंस है; राजधानी में राजा और उसका मंत्री रहता है; वहाँ एक बुढ़िया और लड़की आई; कुटुंब का प्रत्येक बालक और वृद्ध इस बात का प्रयत्न करता है (सर०) ।

५६६—संयोजक समुच्चय-बोधक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष और लिंग की दो वा अधिक अप्राणिवाचक अथवा भाववाचक संज्ञाएँ यदि एकवचन में आवें तो क्रिया बहुधा एकवचन ही में रहती है; जैसे, लड़के की देह में केवल लोहू और मांस रह गया है; उसकी बुद्धि का बल और राज का अच्छा नियम इसी एक काम से मालुम हो जावेगा (गुटका०); मेरी बातें सुनकर महारानी को हर्ष तथा आश्चर्य हुआ; कुएँ में से घड़ा और लोटा निकला; कठोर संकीर्णता में क्या कभी बालकों की मानसिक पुष्टि, चित्त की विस्तृति, और चरित्र की वलिष्ठता हो सकती है (सर०) ।

(अ) ऐसे उदाहरणों में कोई-कोई लेखक बहुवचन की क्रिया लाते हैं; जैसे, मन और शरीर नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं (सर०); माता के खान-पान पर भी बच्चे की नीरोगता और जीवन अवलंबित हैं (तथा०) ।

५७०—यदि भिन्न-भिन्न लिंगों की दो (वा अधिक) प्राणिवाचक संज्ञाएँ एकवचन में आवें तो क्रिया बहुधा पुल्लिंग, बहुवचन में आती है; जैसे, राजा और रानी भी मूर्च्छित हो गये (सर०); राज-

पुत्र और मलयवती उद्यान को जा रहे हैं (तथा), कश्यप और अदिति वातें करते हुए दिखाई दिये (शकु०), महाराज और महारानी बहुत प्यार करते थे (विचित्र०), बैल और गाय चरते हैं ।

(अ) कई एक द्वंद्व-समासों का प्रयोग इसी प्रकार होता है; जैसे, छो-पुत्र भी अपने नहीं रहते (गुटका०), बेटा-बेटी सबके घर होते हैं, उनके मा-बाप गरीब थे ।

[सू०—इस नियम का सिद्धांत यह है कि पुंलिङ्ग बहुवचन क्रिया से भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की केवल संख्या ही सूचित करने की आवश्यकता है, उनकी जाति नहीं । यदि क्रिया स्त्रीलिङ्ग, बहुवचन में रक्खी जायगी, तो यह अर्थ होगा कि स्त्री-जाति के दो प्राणियों के विषय में कहा गया है, जो बात यद्यर्थ में नहीं है ।]

५७१—यदि भिन्न-भिन्न लिङ्ग-वचन की एक से अधिक सजाएँ अपत्यय कर्त्ता-कारक में आवें तो क्रिया के लिङ्ग-वचन अंतिम कर्त्ता के अनुसार होते हैं, जैसे, महाराज और समूची सभा उसके दोषों को भली भाँति जानती है (विचित्र०), गर्मी और हवा के झकोरे और भी क्लेश देते थे (हित०), नदियों में रेत और फूल-फलियाँ खेतों में हैं (ठेठ०), इसके तीन नेत्र और चार भुजाएँ थीं, ईसा की जीवन्ती में उनके हिसाब का खाता तथा डायरी न मिलेगी (सर०), हास में मुँह, गाल और आँखें फूली हुई जान पड़ती हैं (नागरी०) ।

५७२—भिन्न-भिन्न पुरुषों के कर्त्ताओं में यदि उत्तम पुरुष आवे तो क्रिया उत्तम पुरुष होगी, और यदि मध्यम तथा अन्य पुरुष कर्त्ता हों तो क्रिया मध्यम पुरुष में रहेगी, जैसे, हम और तुम वहाँ चलेंगे; तू और वह कल आना, तुम और वे कब आओगे, वह और मैं साध पढती थी; हम और युरप के सभ्य देश इस दीप से बचे हैं (विचित्र०) ।

५७३—जब अनेक संज्ञाए कर्त्ता-कारक में आकर किसी एक ही प्राणी वा पदार्थ को सूचित करती हैं, तब उनकी क्रिया एकवचन में आती है; जैसे, यह प्रसिद्ध नाविक और प्रवासी सन् १५०६ ई० में परलोक को सिधारा; उसके वंश मे कोई नामलेवा और पानीदेवा नहीं रहा ।

(अ) यही नियम पुस्तकों आदि के संयुक्त नामों में घटित होता है; जैसे “पार्वती और यशोदा” इंडियन प्रेस मे छपी है; “यशोदा और श्रीकृष्ण” किसका लिखा हुआ है ।

५७४—यदि कई कर्त्ता विभाजक समुच्चयबोधक के द्वारा जुड़े हों तो अंतिम कर्त्ता क्रिया से अन्वित होता है; जैसे, इस काम मे कोई हानि अथवा लाभ नहीं हुआ; मैं या मेरा भाई जायगा; माया मिली न राम; पोथियाँ या साहित्य किस चिड़िया का नाम है (विचित्र०); वे अथवा तुम वहाँ ठहर जाना ।

५७५—यदि एक वा अधिक उद्देश्यों का कोई समानाधिकरण शब्द हो तो क्रिया उसी के अनुसार होती है; जैसे, अष्टमहासिद्धि, नवनिधि और बारहों प्रयोग, आदि देवता आते हैं (सत्य०); मर्द, औरत सभी चौकोर चेहरे के होते हैं (सर०); धन, धरती सबका सब हाथ से निकल गया (गुटका०); स्त्री और पुत्र कोई साथ नहीं जाता; ऐसी पतिव्रता स्त्री, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, और ऐसे तुम आप—यह संयोग ऐसा हुआ मानो श्रद्धा और वित्त और विधि तीनों डकट्टे हुए (शकु०), सुरा और सुंदरी दो ही तो प्राणियों को पागल बनाने की शक्ति रखती हैं (तिलो०) ।

[सू०—“विचित्र-विचरण” में “ईमान और जान दोनों ही बची”, यह वाक्य-आया है । इसमें क्रिया पुल्लिङ्ग में चाहिये, क्योंकि उद्देश्य की दोनों संज्ञाएँ भिन्न-भिन्न लिङ्ग की हैं (अ०—२७०—सू०), और उनके लिए जो समुदायवाचक शब्द आया है वह भी दोनों का बोध कराता है । संभव है कि “बची” शब्द द्वापे की मूल हो ।]

(२) कर्म और क्रिया का अन्वय ।

५७६—सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्त से बने हुए कालों के साथ जब सप्रत्यय कर्त्ता-कारक और अप्रत्यय कर्म-कारक आता है तब कर्म के लिंग-वचन-पुरुष के अनुसार क्रिया की लिंगादि होते हैं; (अ०—५१८) जैसे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, हमने खेल देखा है, स्त्री ने चित्र बनाये थे, पंडितों ने यह लिखा होगा ।

५७७—कर्म-कारक और क्रिया के अन्वय के अधिकांश नियम उद्देश्य और क्रिया के अन्वय ही के समान हैं, इसलिए हम उन्हे यहाँ सन्क्षेप में लिखकर उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं—

(अ) एक ही लिंग और एकवचन की अनेक प्राणिवाचक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्म-कारक में आवे तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में आती है, जैसे, मैंने गाय और भैंस मोल ली, शिकारी ने भेड़िया और चीता देखे, महाजन ने वहाँ लडका और भतीजा भेजे, हमने नाती और पोता देखे ।

[सू०—अप्रत्यय कर्म-कारक में उत्तम और मध्यम पुरुष नहीं आते ।]

(आ) यदि अनेक संज्ञाओं से पृथक्ता का बोध हो तो क्रिया एकवचन में आयगी, जैसे, मैंने एक घोड़ा और एक बैल बेचा; महाजन ने अपना लडका और भतीजा भेजा, किसान ने एक गाय और एक भैंस मोल ली; हमने नाती और पोता देखा ।

(इ) यदि एक ही लिंग की एकवचन अप्राणिवाचक अथवा भाववाचक संज्ञाएँ कर्म हों तो क्रिया एकवचन में आयगी; जैसे, मैंने कुँएँ में से घड़ा और लोटा निकाला; उसने सुई और कंघी संदूक में रख दी, सिपाही ने युद्ध में साहस और धीरज दिखाया था ।

(ई) यदि भिन्न-भिन्न लिंगों की अनेक प्राणिवाचक संज्ञाएँ एकवचन में आवे तो क्रिया बहुधा पुल्लिङ्ग बहुवचन में आती है;

जैसे, हमने लड़का और लड़की देखे; राजा ने दास और दासी भेजे; किसान ने बैल और गाय बेचे थे ।

(ब) यदि भिन्न-भिन्न लिंग-वचन की एक से अधिक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्म-कारक में आवें तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी; जैसे, उसने मेरे वास्ते सात कमीजें और कई कपड़े तैयार किये थे (विचित्र०); मैंने किशती मे एक सौ मरे बैल, तीन सौ भेड़ें और खाने-पीने के लिए रोटियाँ और शराब भरपूर रख ली थी (तथा), उसने वहाँ देखरेख और प्रबंध किया ।

(ऊ) जब अनेक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्म-कारक में आकर किसी एक ही वस्तु को सूचित करती हैं तब क्रिया एकवचन में आती है; जैसे, मैंने एक अच्छा पड़ोसी और मित्र पाया है; लड़की ने “माता और कन्या” पढ़ी ।

(ऋ) यदि कई कर्म विभाजक समुच्चय-बोधक के द्वारा जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होती है, जैसे, तुमने टोपी या कुर्ता लिया होगा; लड़के ने पुस्तक, कागज अथवा पेंसिल पाई थी ।

(ए) यदि कर्म या कर्मों का कोई समानाधिकरण शब्द हो तो क्रिया इसी के अनुसार होती है; जैसे, उसने धन, संतान, आरोग्यता आदि सब सुख पाया; हरिश्चंद्र ने राज-पाट, पुत्र-छों, घर-द्वार सब कुछ त्याग दिया ।

(ऐ) यदि अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं की पूर्ति (अ०-१६५) के लिंग-वचन से कर्म के लिंग-वचन भिन्न हों तो क्रिया के लिंग-वचन-पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, जैसे, उसने अपना शरीर मिट्टी कर लिया; हमने अपनी छाती पथर कर ली, क्या तुमने मेरा घर अपनी बपौती समझ लिया ?

(ओ) यदि कर्म-पूर्ति के अर्थ की प्रधानता हो तो कभी-कभी क्रिया के लिंग-वचन उसी के अनुसार होते हैं; जैसे, हृदय भी ईश्वर ने क्या ही वस्तु बनाई है (सत्य०) !

५७८—नीचे लिखी रचनाओं में क्रिया सदैव पुल्लिङ्ग, एकवचन और अन्य पुरुष में रहती है (अ०—३६८) ।

(क) यदि अकर्मक क्रिया का उद्देश्य सप्रत्यय हो, जैसे, मैंने नहीं नहाया, लडकी को जाना था, रोगी से बैठा नहीं जाता, यह बात सुनते ही उसे रो आया; इत्यादि ।

(ख) यदि सकर्मक क्रिया का उद्देश्य और मुख्य कर्म, दोनों सप्रत्यय हो, जैसे, मैंने लडकी को देखा, उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता (सर०); मिसेज ऐनी बेसे ट को उसका संरक्षक बनाया गया है (नागरी०), रानी ने महेलियों को बुलाया, विधाता ने इसे दासी बनाया (सत्य०), साधु ने स्त्री को रानी समझा, मीर कासिम ने मुंगेर ही को अपनी राजधानी बनाया (सर०) ।

(ग) जब वाक्य अथवा अकर्मक क्रियार्थक संज्ञा उद्देश्य हो, जैसे, मालूम होता है कि आज पानी गिरेगा, हो सकता है कि हम वहाँ से लौट आयें, सबेरे उठना लाभकारी होता है ।

(घ) जब सप्रत्यय उद्देश्य के साथ वाक्य अथवा क्रियार्थक संज्ञा कर्म हो, जैसे, लडके ने कहा कि मैं आऊँगा, हमने नदों का बाँस पर नाचना देखा, तुमने बात करना न सीखा; इत्यादि ।

५७९—यदि दो वा अधिक संयोजक समानाधिकरण वाक्य “और” (संयोजक समुच्चयबोधक) से जुड़े हों और उनमें भिन्न-भिन्न रूपों के (सप्रत्यय तथा अप्रत्यय) कर्त्ता-कारक आवें तो बहुधा पिछले कर्त्ता-कारक का अध्याहार हो जाता है; परन्तु क्रिया के लिंग-वचन-पुरुष यथा-नियम (कर्त्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार)

रहते हैं; जैसे, मैं बहुत देश-देशांतरों में घूम चुका हूँ; पर () ऐसी आवाही कहीं नहीं देखी (विचित्र०); मैंने यह पद त्याग दिया और () एक दूसरे स्थान में जाकर धर्म-ग्रंथों का अध्ययन करने लगा (सर०)।

[सू०—इस प्रकार की रचना से जान पड़ता है कि हिंदी में सप्रत्यय कर्त्ता-कारक की सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य नहीं मानी जाती और न सप्रत्यय कर्त्ता-कारक करण-कारक माना जाता है, जैसा कि कोई-कोई वैयाकरण समझते हैं ।]

पाँचवाँ अध्याय ।

सर्वनाम ।

५८०—सर्वनामों के अधिकांश अर्थ और प्रयोग तथा वर्गीकरण शब्द-साधन के प्रकरणों में लिखे जा चुके हैं । यहाँ उनके प्रयोगों का विचार दूसरे शब्दों के संबंध से किया जाता है ।

५८१—पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम जिन संज्ञाओं के बदले में आते हैं उनके लिंग और वचन सर्वनामों में पाये जाते हैं; परन्तु संज्ञाओं का कारक सर्वनामों में होना आवश्यक नहीं है; जैसे, लड़के ने कहा कि मैं जाता हूँ; पिता ने पुत्रियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो; जो न सुनै तेहि का कहिये, लड़के बाहर खड़े हैं, उन्हें भीतर बुलाओ ।

(क) यदि अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम व्यापक अर्थ में उद्देश्य वा कर्म होकर आवे तो क्रिया बहुधा पुल्लिङ्ग रहती है; जैसे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ; सब अपनी बड़ाई चाहते हैं; क्या हुआ ? उसने जो किया सो ठीक किया ।

५८२—जब कोई लेखक वा वक्ता दूसरे के भाषण को उद्धृत करता अथवा दुहराता है तब मूल भाषण के सर्वनामों में नीचे लिखा परिवर्तन और अर्थ-भेद होता है—

(क) यदि मूल भाषण का दूरवर्ती अन्यपुरुष स्वयं उस भाषण का संवाददाता हो अथवा भाषण दुहराये जाने के समय उपस्थित हो, तो उसके लिए निकटवर्ती अन्यपुरुष का प्रयोग होगा; जैसे, (कृष्ण ने कहा कि) गोपाल (मेरे विषय में) कहता था कि यह (कृष्ण) बड़ा चतुर है। (हरि ने राम से कहा कि) गोपाल (तुम्हारे विषय में) कहता था कि यह (राम) बड़ा चतुर है।

(ख) पुनरुक्त भाषण में जो उत्तम पुरुष सर्वनाम आता है उसका यथार्थ सकेत तो प्रसंग ही से जाना जाता है; पर संभाषण में जिस व्यक्ति की प्रधानता होती है बहुधा उसी के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, जैसे, (१) विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से पूछा कि क्या तू (मुझे) नहीं जानता कि मैं कौन हूँ ? (२) वाल्मीकि ने राम से कहा कि तुमने मुझसे (अपने विषय में) पूछा कि मैं कहाँ रहूँ (पर) मैं आपसे पूछते हुए सकुचाता हूँ।

(ग) किसी की ओर से दूसरे को सदेशा सुनाने में संवाददाता दोनों के लिए विकल्प से क्रमशः अन्यपुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग करता है, जैसे, वावू साहव ने मुझसे आपको यह लिखने के लिए कहा था कि हम (वावू साहव) उनके (आपके) पत्र का उत्तर कुछ विलंब से देंगे, (अथवा) वावू साहव ने मुझसे आपको यह लिखने के लिए कहा था कि वे (वावू साहव) आपके पत्र का उत्तर कुछ विलंब से देंगे।

[सू०—जहाँ सर्वनामों का अर्थ सदिग्ध रहता है वहाँ जिस व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, उसका कुछ भी उल्लेख कर देने से सदिग्धता मिट जाती है, जैसे क्या तुम (मेरे विषय में) समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ ? क्या तुम (अपने विषय में) सोचते हो कि मैं विद्वान् हूँ ? गोपाल ने राम से कहा कि क्या मैं तेरी नौकरी करूँगा ?]

५८३—आदरसूचक "आप" शब्द वाक्य में उद्देश्य हो तो क्रिया अन्य पुरुष बहुवचन में आती है; और परोक्ष विधि में गात

नर आता है; जैसे, आन क्या चाहते हैं; आन वहाँ अवश्य
प्यारियेगा ।

अपः—अंतः—इरः (अ) ।

१८४—जब एक ही वाक्य में उद्देश्य को और संकेत करनेवाले
सर्वनाम के संबंध-कारक का प्रयोग, कर्ता को छोड़कर शेष कारकों
में आत्मवाची संज्ञा के साथ होता है, तब उससे बड़े निजवाचक
सर्वनाम का संबंध-कारक लगा जाता है; जैसे, मैं अपने घर से
आ रहा हूँ; आन अपने भाई के नौकर को क्यों नहीं बुलाते ? कोई
ने अपनी पूँछ से मखियाँ बड़ाईं; कोई अपने दही को लड़ा
नहीं कहता : लड़के से अपना काम नहीं लिया जाता ।

(अ) यदि वाक्य में दो अलग-अलग उद्देश्य हों और पहले
उद्देश्य के संबंध से दूसरे उद्देश्य की संज्ञा का उल्लेख करना हो तो
निजवाचक के संबंध-कारक का प्रयोग नहीं होता, किन्तु पुरुषवाचक
के संबंध-कारक का प्रयोग होता है; जैसे, एक बड़का सटुप्य और
उसका लड़का बाजार को जाते थे । एक महाजन आया और
उसके पीछे उसका नौकर आया ।

(आ) जब कर्ता-कारक को छोड़कर अन्य कारकों में आते
वही संज्ञा (वा सर्वनाम) के संबंध से किसी दूसरी संज्ञा का उल्लेख
करना हो तो विनय से निजवाचक अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम का
संबंध-कारक आता है; जैसे, मैंने लड़के को अपने (वा उसने)
घर सेज दिया; तुम किसी से अपना (उसका) मंद नर पूछो; साहिब
नौकर को अपनी (उसकी) राठा के साथ नहीं रहने देता ।

(इ) यदि 'अपना' का संकेत वाक्य के उद्देश्य के बड़े विषय
के उद्देश्य को और हो तो उसका प्रयोग कर्ता-कारक में आत्मवाची
संज्ञा के साथ हो सकता है; जैसे, अपनी बड़ाई सबका भावो है
(शकुं०) : अपना शेष किसी को नहीं दियाई देता ।

(ई) सर्वसाधारण के उल्लेख में “अपना” का प्रयोग स्वतंत्रता से होता है; जैसे, अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग, अपना दुख अपने साथ है ।

(उ) बोलचाल में कभी-कभी “अपना” का संकेत वक्ता की ओर होता है, जैसे, यह देखकर अपना (मेरा) भी चित्त चलायमान हो गया; इतने में अपने (हमारे) नौकर आ गये ।

(ऊ) बहुधा बुँदेलखंड में (जहाँ “हम लोग” के लिए मराठी “आपण” के अनुकरण पर “अपन” शब्द भी व्यवहृत होता है) “हमारा” के प्रतिनिधि अर्थ में “अपना” का प्रयोग होता है; जैसे, यह चित्र अपने (हम लोगों के) महाराजा का है, यह सब अपने देश में नहीं होता, प्राचीन और नवीन अपनी सब दशा आलोच्य है (भारत०), आराम और खुशी से कटती है उम्र अपनी, बिरतानिया ने हमको हमलों से है बचाया (सर०) ।

[सू०—ऊपर (उ) और (ऊ) में दिये गये प्रयोग अनुकरणीय नहीं हैं, क्योंकि इनका प्रचार एकदेशीय है । ऐसे प्रयोगों में बहुधा अर्थ की अस्पष्टता पाई जाती है, जैसे, शत्रु ने अपने (हमारे अथवा निज के) सब सिपाही मार डाले ।]

(ऋ) कहीं-कहीं आदराधिक्य में “आपका” के बदले “अपना” आता है, जैसे, महाराज, अपना (आपका) घर कहीं है । यह प्रयोग भी एकदेशीय है, अतएव अनुकरणीय नहीं है ।

(ए) कभी-कभी अवधारण के लिए “निज” के अर्थ में सहा अथवा सर्वनाम के संबंध-कारक के साथ “अपना” जोड़ दिया जाता है, जैसे, यह सम्मति मेरी अपनी (निज की) है ।



छठा अध्याय ।

विशेषण और संबंध-कारक ।

५८५—यदि विशेष्य विकृत रूप में आवे (अ०—३३६), तो आकारांत विशेषणों में उसके लिंग, वचन, कारक के कारण विकार होता है ; जैसे, छोटे लड़के, ऊँचे घर में, छोटी लड़की ।

५८६—विशेष्य-विशेषण और विशेष्य का अन्वय नीचे लिखे नियमों के अनुसार होता है—

(१) यदि अनेक विशेष्यों का एक ही विकारी विशेषण हो तो वह प्रथम विशेष्य के लिंग-वचनानुसार बदलता है ; जैसे, वह कौन सा जप-तप, तीर्थ-यात्रा, होम-यज्ञ और प्रायश्चित्त है (गुटका०); आपने छोटी-छोटी रिकावियाँ और प्याले रख दिये (विचित्र०); उसकी स्त्री और लड़के ।

(२) यदि एक विशेष्य के पूर्व अनेक विशेषण हो तो सभी विशेष्य-निम्न विशेषणों में विशेष्य के अनुसार विकार होगा ; जैसे, एक लंबी, मोटी और गोल छड़ी लाओ ; पैसे और टेढ़े काँटे ।

(३) काल, दूरता, माप, धन, दिशा और रीति-वाचक संज्ञाओं के पहले जब संख्यावाचक विशेषण आता है और संज्ञाओं से समुदाय का बोध नहीं होता है, तब वे विकृत कारकों में भी बहुधा एक-वचन ही के रूप में आती हैं ; जैसे, तीन दिन में ; दो कोस का अंतर ; चार मन की गौन, दो हजार रुपये में ; दो प्रकार से ; तीन और से ।

(४) तीन दिन में, तीन दिनों में, तीनों दिन में और तीनों दिनों में—इन वाक्यांशों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है । पहले में साधारण गिनती है, दूसरे में अवधारण है और तीसरे तथा चौथे में समुदाय का अर्थ है ।

(४) विशेषण बहुधा प्रत्ययात संज्ञा की भी विशेषता बतलाता है और इसके अनुसार उसका रूपांतर होता है, जैसे, बड़ी आम-दनीवाला; चार घोड़ेवाली गाड़ी ।

५८७—संबंध-कारक में आकारांत विशेषण के समान विकार होता है । संबंध-कारक को भेदक और उसके संबंधी शब्द को भेद्य कहते हैं (अ०—३०६—४) । यदि भेद्य विकृत रूप में आवे तो भेदक में भी वैसा ही विकार होता है; जैसे, राजा के महल में; सिपाहियों के कपड़े; लड़के की छड़ी ।

५८८—यदि अनेक भेद्यों का एक ही भेदक हो तो यह प्रथम भेद्य से अन्वित होता है, जैसे, जाति के सर्वगुण-संपन्न बालक और बालिकाओं ही का विवाह होने देना चाहिये (सर०); जिसमें शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन हो ।

५८९—यदि भेद्य से केवल वस्तु की जाति का अर्थ इष्ट हो (संख्या का नहीं), तो भेदक बहुवचन होने पर भी भेद्य एकवचन रहता है, जैसे, साधुओं का चित्त कामल होता है, राजाओं की नीति विलक्षण होती है, महात्माओं के उपदेश से हम लोग अपना आचरण सुधार सकते हैं ।

(अ) यद्यपि भेदक में उसका मूल लिंग-वचन रहता है तथापि उसमें भेद्य का लिंग-वचन माना जाता है, जैसे, लड़के ने कहा कि मेरी पुस्तकें खो गईं । इस वाक्य में 'मेरी' शब्द 'लड़का' संज्ञा के अनुरोध से पुल्लिंग और एकवचन है, परंतु 'पुस्तकें' संज्ञा के योग से उसे स्त्रीलिंग और बहुवचन कहेंगे ।

५९०—यदि विधेय-विशेषण आकारांत हो तो विभक्ति-रहित कर्त्ता के साथ उसमें उद्देश्य-विशेषण के समान विकार होता है; जैसे, सोना पीला होता है, घास हरी है; लड़की छोटी दीखती है; बात उलटी हो गई; मेरी बात पूरी होना कठिन है ।

(अ) यदि क्रियार्थक संज्ञा अथवा तात्कालिक कृदंत का कर्ता संबंध-कारक में आवे तो विधेय-विशेषण उसके लिंग-वचन के अनुसार विकल्प से बदलता है; जैसे, इनका (दुर्वासा का) थोड़ा खीधा होना भी बहुत है (शकु०), आँख का तिरछा (तिरछी) होना अच्छा नहीं है; माता के न्यारे (न्यारी) होते ही सब काम बिगड़ने लगा; पत्तों के पीला (पीले) पड़ते ही पौधे को पानी देना चाहिये ।

५-६१—विधेय में आनेवाले संबंध-कारक में विधेय-विशेषण के समान विकार होता है (अ०—५-६०); जैसे, यह छड़ी तुम्हारी दिखती है; वे घोड़े राजा के निकले, राजा को प्रजा के धर्म का होना आवश्यक है; आपका क्षत्रिय-कुल का (वा क्षत्रिय-कुल के) बनना ठीक नहीं है; वह स्त्री यहाँ से जाने की नहीं ।

(अ) यदि विधेय में आनेवाली संज्ञा उद्देश्य से भिन्न लिंग में आवे, भी तो उसके पूर्ववर्ती संबंध-कारक का लिंग बहुधा उद्देश्य के अनुसार होता है; जैसे, सरकार प्रजा की माँ-बाप है, पुलिस प्रजा की सेवक है; रानी पतिव्रता स्त्रियों की मुकुट थी, तुम मेरे गले के (गले का) हार हो, मैं तुम्हारी जान की (जान का) जंजाल हो गई हूँ (अ०—५-६७) ।

अप०—संतान घर का उजाला है, यह लड़का मेरे वंश की शोभा है ।

५-६२—विभक्ति-रहित कर्म के पश्चात् आनेवाला आकारांत विधेय-विशेषण उस कर्म के साथ लिंग-वचन में अन्वित होता है; जैसे, गाड़ी खड़ी करो; दरजी ने कपड़े ढीले बनाये; मैं तुम्हारी बात पक्की समझता हूँ; इत्यादि ।

(अ) यदि कर्म सप्रत्यय हो तो विधेय-विशेषण के लिंग-वचन कर्म के अनुसार विकल्प से होते हैं, जैसे, छोड़, होने दे, तड़पकर

अभी ठंडा हमको (हि० व्या०); रहे बात को अपनी करते बड़ी तुम (तथा), जहाँ मुनि, ऋषि देवताओं को बैठे पाता था (प्रेम०), इन्हें वन में अकेले मत छोड़ियो (तथा), आप हम लडकी को अच्छा (अच्छी) कर सकते हैं ?

(आ) कर्तृवाच्य के भावेप्रयोग में (अ०—३६८—१) विधेय-विशेषण के संबंध से तीन प्रकार की रचना पाई जाती है, जैसे—

(१) तुमने मुझ दासी को जंगल में अकेली छोड़ी (गुटका०) ।

(२) आपने मुझ अबला को अकेली जंगल में छोड़ा (गुटका०) ।

(३) (मैंने) इसको (लडकी को) इतना बड़ा बनाया (सर०) ।

इस विषय के अन्य उदाहरण

(१) तुमने मुझे वन में तजी अकेली (प्रेम०) ।

(२) रघु ने नन्दिनी को अपने सामने खड़ी देखा (रघु०) ।

(३) मैंने (इन्हें) कुछ सीधे कर लिये (शकु०) ।

(४) उसने सब गाड़ियो को खड़ा किया ।

इन रचनाओं में विधेय-विशेषण और क्रिया का एकसा रूपांतर कर्ण-मधुर जान पड़ता है, जैसे, रघु ने नन्दिनी को अपने सामने खड़ी देखी अथवा रघु ने नन्दिनी को अपने सामने खड़ा देखा । अनमिल विकार के लिए सिद्धांत का कोई आधार नहीं है ।

[सू०—इस प्रकार के विशेषणों को कोई-कोई वैयाकरण क्रिया-विशेषण मानते हैं (अ०—४२७—ई), क्योंकि इनसे कभी-कभी क्रिया की विशेषता सूचित होती है । जहाँ इनसे ऐसा अर्थ पाया जाता है, वहाँ इन्हें क्रिया-विशेषण मानना ठीक है, जैसे, पेड़ों को सीधे लगाओ ।]

सातवाँ अध्याय ।

कालों के अर्थ और प्रयोग ।

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल ।

५-६३—संभाव्य भविष्यत्-काल नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(अ) संभावना—आज (शायद) पानी बरसे; (कहीं) वह लौट न आवे; हो न हो; राम जाने ।

इस अर्थ में संभाव्य-भविष्यत् के साथ बहुधा “शायद” (कदाचित्), “कहीं” आदि आते हैं ।

(आ) निराशा अथवा परामर्श—अब मैं क्या कहूँ ? हम यह लड़की किसको दे ?

यह अर्थ बहुधा प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है ।

(इ) इच्छा, आशीर्वाद, शाप आदि—मैं यह बात राजा को सुनाऊँ, आपका भला हो, ईश्वर आपकी बढ़ती करें; मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की शाह लेवे (गुटका०); गाज परै उन लोगन पै ।

(ई) कर्त्तव्य, आवश्यकता—तुमको कब योग्य है कि वन में बसो; इस काम के लिए कोई उपाय अवश्य किया जावे ।

(उ) उद्देश, हेतु—ऐसा करो जिसमें बात वन जाय, इस बात की चर्चा हमने इसलिए की है कि उसकी शक्ति दूर हो जाय ।

(ऊ) विरोध—तुम हमें देखो न देखो, हम तुम्हें देखा करे; कोई कुछ भी कहे; चाहे जो हो; अनुभव ऐसे विरह का क्यों न करे बेहाल ।

(ऋ) उत्प्रेक्षा (तुलना)—तुम ऐसी बातें करते हो मानो कहीं के राजा होओ; ऋषि ने तुम्हारे अपराध को भूल अपनी कन्या ऐसे भेज दी है जैसे कोई चोर के पास अपना धन भेज दे,

जैसे किसी की रुचि छुहारों से हटकर इमली पर लगे जैसे ही तुम रन-वास की स्त्रियो को छोड़ इस गँवारी पर आसक्त हुए हो (शकु०) ।

(ए) अनिश्चय—जब मैं बोलूँ, तब तुम तुरंत उठकर भागना; जो कोई यहाँ आवे उसे आने दो ।

इस अर्थ में क्रिया के साथ बहुधा सवंध-वाचक सर्वनाम अथवा क्रिया-विशेषण आता है ।

(ऐ) सांकेतिक संभावना—तुम चाही तो अभी भगडा मिट जाय, आज्ञा हो तो हम घर जायँ, जो तू एक बेर उसको देखे तो फिर ऐसी न कहे (शकु०) ।

इस अर्थ में जो (अगर, यदि)—तो से मिले हुए वाक्य आते हैं ।

५६४—कविता और कहावतो में संभाव्य-भविष्यत् बहुधा सामान्य-वर्तमान के अर्थ में आता है । कभी-कभी इससे भूत-काल के अभ्यास का भी बोध होता है । उदा०—बढ़त-बढ़त सपति-सलिल मन-सरोज बढ़ि जाय (सत०); उतर देत छाड़ौं विनु मारे (राम०), वक्र चद्रमहि ग्रसै न राहू (तथा), देख न कोई सके खड़े हो इस प्रकार से (क० क०), नया नौकर हिरन मारै (कहा०), एक मास रितु आगे धावै (कहा०); सुखी उठूँ मैं रोज सवेरे (हि० प्र०), सुभे रहें सखियाँ नित घेरे (तथा); सबके गृह-गृह होइ पुराना (राम०) ।

(२) सामान्य भविष्यत् काल ।

५६५—इस काल से अनारंभ कार्य अथवा दशा के अतिरिक्त नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(घ) निश्चय की कल्पना—ऐसा वर और कहीं न मिलेगा, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा ।

(आ) प्रार्थना—प्रश्नवाचक वाक्यों में यह अर्थ पाया जाता है; जैसे, क्या आप कल वहाँ चलेंगे ? क्या तुम मेरा इतना काम कर दोगे ? क्या वे मेरी बात सुनेंगे ?

(इ) संभावना—वह मुझे कभी न कभी मिलेगा । किसी न किसी तरह यह काम हो जायगा । कबहुँ तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान ।

(ई) संकेत—यदि रोगी की सेवा होगी, तो वह अच्छा हो जायगा ; अगर हवा चलेगी तो गरमी कम हो जायगी ।

(ऋ) संदेह, उदासीनता—‘हीना’ क्रिया का सामान्य भविष्यत् काल बहुधा इस अर्थ में आता है, जैसे, कृष्ण गोपाल का भाई होगा ; नौकर इस समय बाजार में होगा ; क्या उनके लड़की है ? होगी ; क्या वह आदमी पागल है ? होगा ; कौन जाने ; अगर वह जायगा तो जायगा, नहीं तो मैं जाऊँगा ।

(३) प्रत्यक्ष विधि ।

५२६—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) अनुमति, प्रश्न—उत्तम पुरुष के दोनों वचनों में किसी की अनुमति अथवा परामर्श ग्रहण करने में इस काल का उपयोग होता है; जैसे, क्या मैं जाऊँ ? हम लोग यहाँ बैठें ?

(आ) सम्मति—उत्तम पुरुष के दोनों वचनों में कभी-कभी इस काल से श्रोता की सम्मति का बोध होता है; जैसे, चलें, उस रोगी की परीक्षा करें । हम लोग मोहन को यहाँ बुलावें ।

• “देखना” क्रिया से इस प्रयोग में कभी-कभी धमकी सूचित होती है; जैसे, देखें, तुम क्या करते हो ! देखें, वह कहाँ जाता है !

(इ) आज्ञा और उपदेश—यहाँ बैठो ; किसी को गाली मत दो ; तजो रे मन्व हरि-विमुखन को संग (सूर०); नौकर अभी यहाँ से जावे ।

(ई) प्रार्थना—आप मुझ पर कृपा करे, नाथ, मेरी इतनी विनती मानिये (सत्य०), नाथ करहु बालक पर छोडू (राम०) ।

(उ) आग्रह—अब चलो, देर होती है । उठो, उठो, जनि सोवत रहहु ।

[सू०—आग्रह के अर्थ में बहुधा “तो सही” क्रिया-विशेषण वाक्यांश जोड़ दिया जाता है; जैसे, चलो तो सही, उठो तो सही, आप बैठिये तो सही, वह आवे तो सही ।]

५६७—आदर के अर्थ में इस काल के अन्य पुरुष बहुवचन का, अथवा “इये”—प्रत्ययात् रूप का प्रयोग होता है, जैसे, महाराज इस मार्ग से आवें, आप यहाँ बैठिये, नाथ, मेरी इतनी विनती मानिये । इन दोनों रूपों में पहला रूप अधिक शिष्टाचार सूचित करता है ।

(अ) आदर-सूचक विधिकाल का रूप कभी-कभी संभाव्य-भविष्यत् के अर्थ में आता है, जैसे, मन में आती है कि सब छोड-छाड यहाँ बैठ रहिये (शकु०), मनुष्य-जाति की स्त्रियों में इतनी दमक कहाँ पाइये (तथा), देखिये, इसका फल क्या होता है ? अगर दिये के आसपास गधक और फिटकरी छिड़क दीजिये, तो (कैसी ही हवा चले) दिया न बुझेगा (अं०—३८६—३—ई) ।

इन उदाहरणों में ‘रहिये’ भाववाच्य और ‘पाइये,’ ‘देखिये’ तथा ‘दीजिये’ कर्मवाच्य हैं ।

(आ) “चाहिए” भी एक प्रकार का कर्मवाच्य संभाव्य-भविष्यत्-काल है, क्योंकि इसका उपयोग आदर-सूचक विधि के अर्थ में कभी नहीं होता, किंतु इनसे वर्तमानकाल की आवश्यकता ही का बोध होता है (अं०—४०५) ।

(इ) “लेना” और “चलना” क्रियाओं का प्रत्यक्ष विधिकाल बहुधा उदासीनता के अर्थ में विस्मयादि-बोधक के समान प्रयुक्त होता

है; जैसे, ले, मैं जाता हूँ; लो, मैं यह चला; मैंने कहा कि लो, अब कुछ देरी नहीं है; चलो, आपने यह काम कर लिया।

(४) परोक्ष विधि ।

५६८—परोक्ष विधि से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना आदि के साथ भविष्यत्-काल का अर्थ पाया जाता है; जैसे, कल मेरे यहाँ आना; हमारी शीघ्र ही सुधि लीजियो; (भारत०); कीजो सदा धर्म से शासन, स्वत्व प्रजा के मत हरियो (सर०)।

५६९—“आप” के साथ परोक्ष विधि में गांत आदरसूचक विधि का प्रयोग होता है; जैसे, कल आप वहाँ जाइयेगा। “आप जाइयो” शुद्ध प्रयोग नहीं है।

६००—निषेध के लिए विधि-कालों में बहुधा न, नहीं और मत तीनों अव्ययों का प्रयोग होता है, पर “आप” के साथ परोक्ष विधि में और उत्तम तथा अन्य-पुरुषों में “मत” नहीं आता। “न” से साधारण निषेध, “मत” से कुछ अधिक और “नहीं” से और भी अधिक निषेध सूचित होता है, जैसे, वहाँ न जाना, पुत्र (एकांत०); पुत्री, अब बहुत लाज मत कर (शकु०); ब्राह्मण देवता, बालकों के अपराध से नहीं रुष्ट होना (सत्य०); आप वहाँ न जाइयेगा (अं०—६४२)।

(५) सामान्य संकेतार्थ-काल ।

६०१—यह काल नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(अ) क्रिया की असिद्धता का संकेत (तीनों कालों में); जैसे, मेरे एक भी भाई होता, तो मुझे बड़ा सुख मिलता (भूत)। जो उसका काम न होता तो वह अभी न आता (वर्तमान)। यदि कल आप मेरे साथ चलते, तो वह काम अवश्य हो जाता (भविष्यत्)।

[सू०—सामान्य संकेतार्थ-काल में बहुधा दो वाक्य यदि-तो से जुड़े हुए आते हैं और दोनों वाक्यों की क्रियाएँ एक ही काल में रहती हैं। कभी-कभी मुख्य वाक्य की क्रिया सामान्य-भूत अथवा पूर्ण-भूत में आती है, जैसे, जो तुम उसके पास जाते तो अच्छा था। यदि मेरा नौकर न आता तो मेरा काम हो गया था।]

(आ) असिद्ध इच्छा—जैसे, हा। जगमोहनसिंह, आज तुम जीवित होते, कुछ दिन के पश्चात् नीद निज अन्तिम साते।

६०२—कभी-कभी सामान्य संकेतार्थ-काल से, संभाव्य भविष्यत्-काल के अर्थ में, इच्छा सूचित होती है; जैसे, मैं चाहता हूँ कि वह मुझे मिलता (= मिले)। यदि आप कहते (= कहे) तो मैं उसे बुलाता (= बुलाऊँ)। इसके लिए यही उपाय है कि आप जल्दी आते।

६०३—भूतकाल की किसी घटना के विषय में सदेह का उत्तर देने के लिए सामान्य संकेतार्थ-काल का उपयोग बहुधा प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य में होता है, जैसे, अर्जुन की क्या सामर्थ्य थी कि वह हमारी बहिन को ले जाता? मैं इस पेड़ को क्यों न सींचती ?

(६) सामान्य वर्तमान-काल।

६०४—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) बोलने के समय की घटना—जैसे, अभी पानी बरसता है। गाड़ी आती है। वे आपको बुलाते हैं।

(आ) ऐतिहासिक वर्तमान—भूतकाल की घटना का इस प्रकार वर्णन करना मानो वह प्रत्यक्ष हो रही हो, जैसे, तुलसी दासजी ऐसा कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र मंत्रियों सहित आते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी (राम०)।

(इ) स्थिर सत्य—साधारण नियम किंवा सिद्धांत बताने में, अर्थात् ऐसी बात कहने में जो सदैव और सत्य है, इस काल का

प्रयोग किया जाता है; जैसे, सूर्य पूर्व में उदय होता है। पक्षी अंडे देते हैं। सोना पीला होता है। आत्मा अमर है। “विंता से सब आशा रोगी निज जीवन की खोता है” (सर०)। हवशो काले होते हैं।

(ई) वर्तमान-काल की अपूर्णता, जैसे, पंडितजी खान करते हैं (कर रहे हैं)। मैं अभी लिखता हूँ।

(उ) अभ्यास—जैसे, हम बड़े तड़के उठते हैं। सिपाही रात को पहरा देता है। गाड़ी दोपहर को आती है। दुखित-दोष-गुन गनहि न साधू (राम०)।

(ऊ) आसन्न-भूत—आपको राजा सभा में बुलाते हैं। मैं अभी अयोध्या से आता हूँ (सत्य०)। क्या हम तेरी जाति-पाँति पृछते हैं (शकु०) ?

(ऋ) आसन्न-भविष्यत्—मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। अब तो वह मरता है ! लो, गाड़ी अब आती है।

(ए) संज्ञेत-वाचक वाक्यों में भी सामान्य-वर्तमान का प्रयोग होता है; जैसे, चींटी की मौत आती है तो पर निकलते हैं। जो मैं उससे कुछ कहता हूँ तो वह अप्रसन्न हो जाता है।

(ऐ) बोलचाल की कविता में कभी-कभी संभाव्य-भविष्यत् के आगे होना क्रिया के योग से बने हुए सामान्य-वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं; जैसे, कहाँ जलै है वह आगी (एकांत०)। यह रचना अब अप्रचलित हो रही है (अं०—३८८, ३—आ)।

(७) अपूर्ण भूत-काल ।

६०५—इस काल से नीचे लिखे अर्थ सूचिन होते हैं—

(अ) भूतकाल की किसी क्रिया की अपूर्ण दशा—किसी जगह कथा होती थी। चिल्लाती थी वह रो-रोकर।

(आ) भूतकाल की किसी अवधि में एक काम का बार-बार होना—जहाँ-जहाँ रामचन्द्रजी जाते थे, वहाँ-वहाँ आकाश में मेघ छाया करते थे। वह जो-जो कहता था उसका उत्तर मैं देता जाता था।

(इ) भूतकालिक अभ्यास—पहले यह बहुत सोता था। मैं उसे जितना पानी पिलाता था, उतना वह पीता था।

(ई) 'कव' के साथ इस काल से अयोग्यता सूचित होती है; जैसे, वह वहाँ कब रहता था? राजा की आँखें इस पर कब ठहर सकती थीं? वह राजपूत (उसे) कब छोड़ता था?

(उ) भूतकालीन उद्देश्य—मैं आपके पास आता था। वह कपड़े पहिनता ही था कि नौकर ने उसे पुकारा।

[सू०—इस अर्थ में क्रिया के साथ बहुधा 'ही' अव्यय का प्रयोग होता है।]

(ऊ) वर्तमान-काल की किसी बात को दुहराने में इसका प्रयोग होता है, जैसे, हम चाहते थे (और फिर भी चाहते हैं) कि आप मेरे साथ चलें। आप कहते थे कि वे आनेवाले हैं।

(ङ) सभाव्य वर्तमान-काल ।

६०६—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) वर्तमान-काल की (अपूर्ण) क्रिया की सभावना—कदाचित् इस गाड़ी में मेरा भाई आता हो। मुझे डर है कि कहीं कोई देखता न हो।

[सू०—आशंका सूचित करने के लिए इस काल के साथ बहुधा "न" का अयोग्य करते हैं।]

(आ) अभ्यास (स्वभाव वा धर्म)—ऐसा घोड़ा लाओ जो घटे में दस मील जाता हो। हम ऐसा घर चाहते हैं जिसमें धूप आती हो।

(इ) भूत अथवा भविष्यत्-काल की अपूर्णता की संभावना—
जब आप आये, तब मैं भोजन करता होऊँ । अगर मैं लिखता
होऊँ तो मुझे न बुलाना ।

(ई) उत्प्रेक्षा—आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते
हैं । ऐसा शब्द हो रहा था कि जैसे मेघ गरजता हो ।

(उ) सांकेतिक वाक्यों में भी बहुधा इस काल का प्रयोग
होता है, जैसे, अगर वे आते हो, तो मैं उनके लिए रसोई का
प्रबंध करूँ ।

[सू०—उपर्युक्त वाक्यों में कभी-कभी सहायक क्रिया 'होना' भूतकाल के
रूप में आती है; जैसे, अगर वह आता हुआ, तो क्या होगा ?]

(८) सन्दिग्ध वर्तमान-काल ।

६०७—यह काल नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(अ) वर्तमान-काल की क्रिया का संदेह—गाड़ी आती होगी ।
वे मेरी सब कथा जानते होंगे । तेरे लिए गौतमी अकुलाती होगी ।

(आ) तर्क—चाय पत्तियों से बनती होगी । यह तेल खदान से
निकलता होगा । आप सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते होंगे ।

(इ) भूतकाल की अपूर्णता का संदेह—उस समय मैं वह
काम करता होऊँगा । जब आप उनके पास गये, तब वे चिट्ठी
लिखते होंगे ।

(ई) उदासीनता वा तिरस्कार—यहाँ पंडितजी आते हैं ?—
आते होंगे ।

(१०) अपूर्ण संकेतार्थ-काल ।

६०८—इस काल से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(अ) अपूर्ण क्रिया की असिद्धता का संकेत—अगर वह काम
करता होता, तो अब तक चतुर हो जाता । अगर हम कमाते होते,
तो ये बातें क्यों सुनना पड़ती ।

[सू०—यह काल विशेष प्रचलित नहीं है, और इसके साथ उत्तर-वाक्य में बहुधा सामान्य संकेतार्थ-काल आता है।]

(आ) वर्तमान वा भूतकाल की कोई असिद्ध इच्छा—मैं चाहता हूँ कि यह लड़का पढ़ता होता। उसकी इच्छा थी कि मेरा भाई मेरे साथ काम करता होता।

(इ) कभी-कभी पूर्व वाक्य का लोप कर दिया जाता है और केवल उत्तर-वाक्य बोला जाता है, जैसे, इस समय वह लड़का पढ़ता होता (= अगर वह जीता रहता तो पढ़ने में मन लगाता)।

(११) सामान्य भूतकाल ।

६०६—सामान्य भूतकाल नीचे लिखे अर्थ सूचित करता है—

(अ) बोलने वा लिखने के पूर्व क्रिया की स्वतंत्र घटना—जैसे, विधना ने इस दुख पर भी वियोग दिया। गाड़ी सवेरे आई। अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी।

(आ) आसन्न-भविष्यत्—आप चलिए, मैं अभी आया। अब यह वेमैत मरा।

(इ) सांकेतिक अथवा सवधवाचक वाक्यों में इस काल से साधारण वा निश्चित भविष्यत् का बोध होता है, जैसे, अगर तुम एक भा कदम बढ़े (बढ़ोगे), तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। ज्योंही पानी रुका (रुकेगा), त्यों ही हम भागे (भागेंगे)। जहाँ मैंने कुछ कहा, वहाँ वह तुरंत उठकर चला।

(ई) अभ्यास, संबोधन अथवा स्थिर नृत्य सूचित करने के लिए इस काल का उपयोग सामान्य-वर्तमान के समान होता है, जैसे, ज्योंही वह उठा (उठता है) त्योंही उसने पानी माँगा (माँगता है)। लो, मैं यह चला। जिसने न पी गँजे का कली (जो नहीं पीता है)। पढ़ा जिन्होंने छद-प्रभाकर, काया पलट चुए पद्माकर।

[सू०—(१) 'होना' क्रिया के सामान्य भूतकाल के निषेधवाचक रूप से वर्त्तमान-काल की इच्छा सूचित होती है; जैसे, आज मेरे कोई बहिन न हुई, वही तो आज मैं भी उसके घर जाकर खाता (गुटका०) । मेरे पास तलवार न हुई, नहीं तो उन्हें अन्याय का स्वाद चखा देता ।

(२) होना, ठहरना, कहलाना के सामान्य भूतकाल से वर्त्तमान का निश्चय सूचित होता है; जैसे, आप लोग साधु हुए (ठहरे वा कहलाये), आपको कोई कमी नहीं हो सकती ।]

(३) 'घाना' क्रिया के भूतकाल से कभी-कभी तिरस्कार के साथ वर्त्तमान-कालिक अवस्था सूचित होती है; जैसे, ये आये दुनिया भर के होशियार । दाता को बिकवाकर छोड़ा, आये विश्वामित्र बड़े (सर०) !

(४) प्रश्न करने में समझना, देखना, आदि क्रियाओं के सामान्य भूत से वर्त्तमान-काल का बोध होता है; जैसे, वह आपको वहाँ भेजता है—समझे ? देखा, कैसी बात कहता है ?

[सू०—कल्पना में मानना क्रिया का सामान्य-भूत वर्त्तमान-काल सूचित करता है; जैसे, माना कि उसे स्वर्ग लेने की इच्छा न हो ।]

(५) संकेतार्थक वाक्यों में इस काल से बहुधा संभाव्य-भविष्यत्-काल का अर्थ सूचित होता है, जैसे, यदि मैं वहाँ गया भी, तो कोई लाभ नहीं है । यह काम चाहे उसने किया, चाहे उसके भाई ने किया, पर वह पूरा न होगा ।

(१२) आसन्न भूतकाल (पूर्ण वर्त्तमान-काल) ।

६१०—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) किसी भूतकालिक क्रिया का वर्त्तमान-काल में पूरा होना, जैसे, नगर में एक साधु आये हैं । उसने अभी नहाया है ।

(आ) ऐसी भूतकालिक क्रिया की पूर्णता जिसका प्रभाव वर्त्तमान-काल में पाया जावे, जैसे, विहारी कवि ने सतसई

लिखी है। दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का अनुवाद किया है। भारतवर्ष में अनेक दानी राजा हो गये हैं।

(इ) बैठना, लेटना, सोना, पड़ना, चठना, थकना, मरना, आदि शरीर-व्यापार अथवा शरीरस्थिति-सूचक क्रियाओं के आसन्न-भूत-काल के रूप से बहुधा वर्तमान स्थिति का बोध होता है, जैसे, राजा बैठे हैं (बैठे हुए हैं), मरा घोडा खेत में पडा है (पडा हुआ है), लडका थका है।

[सू०—यथार्थ में ऊपर लिखे वाक्यों के भूतकालिक कृत स्वतंत्र विशेषण हैं और उनका प्रयोग विधेय के साथ हुआ है। ऐसी अवस्था में उन्हें क्रिया के साथ मिलाकर आसन्न भूतकाल मानना भूल है। इन क्रियाओं के आसन्न भूतकाल के शुद्ध उदाहरण ये हैं—राजा अभी बैठे हैं (अर्थात् वे अब तक खड़े थे)। लडका अभी सोया है।]

(ई) भूतकालिक क्रिया की आवृत्ति सूचित करने में बहुधा आसन्न भूतकाल आता है, जैसे, जव-जव अनावृष्टि हुई है, तव-तव अकाल पडा है। जव-जव वह मुझे मिला है, तव-तव उसने घोखा दिया है।

(उ) किसी क्रिया का अभ्यास—जैसे, उसने बढ़ई का काम किया है। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं।

(१३) पूर्ण भूतकाल ।

६११—इस काल का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(अ) बोलने वा लिखने के बहुत ही पहिले की क्रिया, जैसे, सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढाई की थी। लडकपन में हमने अँगरेजी सीखी थी। सं० १८५६ में इस देश में अकाल पडा था। आज सवेरे मैं आपके यहाँ गया था।

[सू०—भूतकाल की निकटता वा दूरता अपेक्षा और आशय से जानी जाती है। वक्ता की दृष्टि से एक ही समय कभी-कभी निकट और कभी-कभी दूर प्रतीत होता है। आठ बजे सवेरे आनेवाले किसी आदमी से, दिन के

वारह बजे, दूसरा आदमी इस अवधि को दीर्घ मानकर यह कह सकता है कि तुम सबेरे आठ बजे आये थे; और फिर उस अवधि को अल्प मानकर वह यह भी कह सकता है कि तुम सबेरे आठ बजे आये हो ।]

(आ) दो भूतकालिक घटनाओं की समकालीनता—वे थोड़ी ही दूर गये थे कि एक और महाशय मिले । कथा पूरी न होने पाई थी कि सब लोग चले गये ।

(इ) सांकेतिक वाक्यों में इस काल से असिद्ध संकेत सूचित होता है; जैसे, यदि नौकर एक हाथ और मारता, तो चार मर ही गया था । जो तुमने मेरी सहायता न की तो होती, तो मेरा काम बिगड़ चुका था ।

(ई) यह काल कभी-कभी आसन्न भूत के अर्थ में भी आता है; जैसे, अभी मैं आपसे यह कहने आया था कि मैं घर में रहूँगा (आया था = आया हूँ) । हमने आपको इसलिए बुलाया था कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देवे ।

(१४) संभाव्य भूतकाल ।

६१२—इस काल से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(अ) भूतकाल की (पूर्ण) क्रिया की संभावना—जैसे, हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो । जो कुछ तुमने सोचा हो उसे साफ-साफ कहो ।

(आ) आशंका वा संदेह—कहीं चोरों ने उसे मार न डाला हो; विवाह की बात सखी ने हँसी में न कही हो । पठवा वालि होइ मन मैला (राम०) ।

(इ) भूतकालीन उत्प्रेक्षा में—वह मुझे ऐसे दयाता ही मानो मैंने कोई भारी अपराध किया हो । वह ऐसी बातें धनाता ही मानो उसने कुछ भी न देखा हो ।

(ई) सांकेतिक वाक्यों में भी इस काल का प्रयोग होता है; जैसे, यदि मुझसे कोई दोष हुआ हो तो आप उसे क्षमा कीजियेगा। अगर तुमने मेरी किताब ली हो तो सच-सच क्यों नहीं कह देते।

(१५) स'दिग्ध भूतकाल ।

६१३—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) भूतकालिक क्रिया का सदेह—जैसे, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी।

(आ) अनुमान—कहीं पानी बरसा होगा, क्योंकि ँडी हवा चल रही है। गेहिताश्व भी अब इतना बड़ा हुआ होगा। लाट साहब कल उदयपुर पहुँचे होंगे।

(इ) जिज्ञासा—श्रीकृष्ण ने गोवर्द्धन कैसे उठाया होगा ? कण्व मुनि ने क्या संदेशा भेजा होगा ?

[सू०—यह प्रयोग बहुधा प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है ।]

(ई) तिरस्कार वा घृणा—पंडितजी ने एक पुस्तक लिखी है—लिखी होगी।

(उ) सांकेतिक वाक्यों में इस काल से सभावना की कुछ मात्रा सूचित होती है, जैसे यदि मैंने आपकी बुराई की होगी, तो ईश्वर मुझे दंड देगा। अगर उसने मुझे बुनाया होगा, तो मुझसे उसका कुछ काम अवश्य होगा।

(१६) पूर्ण संकेतार्थ-काल ।

६१४—इस संकेतार्थ काल से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं और इसका उपयोग बहुधा सांकेतिक वाक्यों में होता है—

(अ) पूर्ण क्रिया का असिद्ध संकेत—जैसे, जो मैंने अपनी लडकी न मारी होती, तो अच्छा था। यदि तूने भगवान् को इस मंदिर में बिठाया होता, तो यह अशुद्ध क्यों रहता।

[सू०—कभी-कभी पूर्ण संकेतार्थ-काल दोनों सांकेतिक वाक्यों में आता है; और कभी-कभी केवल एक में ।]

(आ) भूतकाल की अस्मिद्ध इच्छा—जब वह तुम्हारे पास आये थे, तब तुमने उन्हें बिठलाया तो होता । तुमने अपना काम एक बार तो कर लिया होता ।

[सू०—इस अर्थ में बहुधा अवधारण-बोधक क्रियाविशेषण 'तो' का प्रयोग होता है ।]

आठवाँ अध्याय ।

क्रियार्थक संज्ञा ।

६१५—क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग साधारणतः भाववाचक संज्ञा के समान होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता; जैसे, कहना सहज है, पर करना कठिन है ।

(अ) इस संज्ञा का रूपांतर आकारांत संज्ञा के समान होता है; और जब इसका उपयोग विशेषण के समान होता है, तब इसमें कभी-कभी लिंग और वचन के कारण विकार होता है । यह संज्ञा बहुधा संबोधन कारक में नहीं आती (अ०—३७२—अ) ।

(आ) क्रियार्थक संज्ञा का उद्देश्य संबंध कारक में आता है; परंतु अप्राणिवाचक कर्त्ता की विभक्ति बहुधा लुप्त रहती है; जैसे, लड़के का जाना ठीक नहीं है । हिन्दुओं को गाय का मारा जाना सहन नहीं होता । रात को पानी बरसना शुरू हुआ । पिछले उदाहरण में पानी का बरसना भी कह सकते हैं ।

सू०—दो भूतकालिक क्रियाओं की समकालीनता बताने के लिए पहली क्रिया “था” के साथ क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आती है; जैसे, उसका वही पहुँचना था कि चिट्ठी आ गई ।]

(इ) संज्ञा के समान क्रियार्थक संज्ञा के पूर्व विशेषण और पश्चात् संबंध-सूचक अव्यय आ सकता है; जैसे, सुन्दर लिखने के लिए उसे इनाम मिला ।

(ई) सकर्मक क्रियार्थक संज्ञा के साथ उसका कर्म और अपूर्ण क्रियार्थक संज्ञा के साथ उसकी पूर्ति आ सकती है और सब प्रकार की क्रियाओं से बनी क्रियार्थक संज्ञाओं के साथ क्रिया-विशेषण (अथवा अन्य कारक) आ सकते हैं, जैसे, यह काम जल्दी करने में लाभ है । मंत्री के अचानक राजा बन जाने से देश में गड़बड़ मच गई । भूठ को खूब कर दिखाना कोई हमसे सीख जाय । पत्नी का पति के साथ चिता पर भस्म होना हिंदुओं में प्राचीन काल से चला आता है ।

(उ) किसी-किसी क्रियार्थक संज्ञा का उपयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, जैसे, गाना (= गीत), खाना (= भोजन, मुसलमानों में), भरना (= सोता) ।

(ऊ) जब क्रियार्थक संज्ञा विधेय में आती है तब उसका प्राणिवाचक उद्देश्य संप्रदान-कारक में, और अप्राणिवाचक उद्देश्य कर्त्ता-कारक में रहता है, जैसे, मुझे जाना है । लड़के को अपना काम करना था । इस सगुन से क्या फल होना है । जो होना था सो हो लिया ।

६१६—जब क्रियार्थक संज्ञा का उपयोग, विकल्प से, विशेषण के समान होता है, उस समय उसके द्विग-वचन कर्त्ता अथवा कर्म के अनुसार होते हैं; जैसे, मुझे दवाई पीनी पड़ेगी । जो बात होनी थी, सो हो ली । मुझे सबके नाम लिखने होंगे । इन उदाहरणों में क्रमशः पीना, होना और लिखना भी शुद्ध हैं । होनी = भवनीया, पीनी = पानीया और लिखने = लेखनीयाः ।

६१७—क्रियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक बहुधा निमित्त वा प्रयोजन के अर्थ में आता है; पर कभी-कभी उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है; जैसे, वे उन्हें लेने को गये हैं। मैं इसी लडकी के मारने को तलवार लाया हूँ (गुटका०)। हम आपसे कुछ माँगने आय हैं।

(अ) बोलचाल में बहुधा वाक्य की मुख्य क्रिया से बनी हुई क्रियार्थक संज्ञा का संप्रदान कारक इच्छा वा विवशता का अर्थ सूचित करता है, जैसे, जाने को तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। लिखने को तो वह यह लेख लिख सकता है।

(आ) “कहना” क्रियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक प्रत्यक्षता अथवा उदाहरण के अर्थ में आता है; जैसे, कहने को तो उनके पास बहुत धन है; पर कर्ज भी बहुत है। उन्होंने कहने को मेरा काम कर दिया।

(इ) “होना” क्रिया के साथ विधेय में क्रियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक तत्परता के अर्थ में आता है; जैसे, नौकर आने को है। वह जाने को हुआ।

६१८—निश्चय के अर्थ में क्रियार्थक संज्ञा विधेय में नहीं के साथ संबंध-कारक में आती है। जैसे, वह वहाँ जाने की नहीं। मैं यहाँ से नहीं उठने का।

[सू०—इन उदाहरणों में मुख्य क्रिया का बहुधा लोप रहता है, और क्रियार्थक संज्ञा के लिंग-वचन उद्देश्य के अनुसार होते हैं।]

६१९—क्रियार्थक संज्ञाओं का उपयोग कई एक संयुक्त क्रियाओं में होता है जिसका विवेचन यथास्थान हो चुका है (अं०—४०५—६)।

(अ) क्रियार्थक संज्ञा का उपयोग परोक्षविधि के अर्थ में भी किया जाता है—(अं०—३८६।४)।

(आ) दशा अथवा स्वभाव सूचित करने में बहुधा मुख्य वाक्य के साथ आनेवाले निपेववाचक वाक्यों में क्रियार्थक संज्ञा का उपयोग होता है; जैसे, कुँअरजी का अनूप रूप क्या कहूँ ? कुछ

कहने में नहीं आता; न खाना, न पीना, न किसी से कुछ कहना, न सुनना । इन उदाहरणों में क्रियार्थक सज्ञा कर्ता कारक में मानी जा सकती है और उसके साथ “अच्छा लगता है” क्रिया अध्याहृत समझी जा सकती है ।

नवाँ अध्याय ।

कृदंत ।

६२०—क्रियार्थक सज्ञा को सिवा हिंदी में जो और कृदंत हैं वे रूपांतर के आधार पर दो प्रकार के हैं—(१) विकारी (२) अविकारी । फिर इनमें से प्रत्येक के अर्थ के अनुसार कई भेद होते हैं, यथा—

- | | | |
|---------------|---|---|
| (१) विकारी | {
(१) वर्त्तमान-कालिक कृदंत
(२) भूतकालिक कृदंत
(३) कर्तृवाचक कृदंत | |
| (२) अविकारी | | {
(१) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत
(२) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत
(३) तात्कालिक कृदंत
(४) पूर्वकालिक कृदंत |
| | | |
| | | |

(१) वर्त्तमान-कालिक कृदंत ।

६२१—इस कृदंत का उपयोग विशेषण वा संज्ञा के समान होता है और इसमें आकारात् शब्द की नाई विकार होते हैं, जैसे, चलती चको देखकर, बहता पानी, मारतों के आगे, भागतों के पीछे, डूबते को तिनके का सहारा ।

(अ) वर्त्तमानकालिक कृदंत विधेय में आकर कर्ता वा कर्म की विशेषता (दशा) बतलाता है, जैसे एक शूद्र गाय को मारता

हुआ आता है। सिपाही ने कई चोर भागते हुए देखे। दूसरा घोड़ा जीता हुआ लौट आया। स्त्रियाँ गीत गाती हुई गईं। सड़क पर एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। मैं लड़के को दौड़ाता लाऊँगा।

(आ) जाते समय, लौटते वक्त, मरती बेरा, जीते जी, फिरती बार, आदि उदाहरणों में वर्तमान-कालिक कृदंत का प्रयोग विशेषण के समान हुआ है। आकार के स्थान में ए होने का कारण यह है कि उस विशेषण के विशेष्य में विभक्ति का संस्कार है। इन उदाहरणों में समय, वक्त, बेरा, जी इत्यादि संज्ञाएँ यथार्थ विशेष्य नहीं हैं, किंतु केवल एक प्रकार की लक्षणा* से विशेष्य मानी जा सकती हैं। जाते = जाने के, लौटते = लौटने के। इस विचार से यहाँ जाते, लौटते, आदि संबंध-कारक हैं और संबंध-कारक विशेषण का एक रूपांतर ही है।

(इ) कभी-कभी वर्तमानकालिक कृदंत विशेषण विशेष्य-निम्न होने पर भी क्रिया की विशेषता बतलाता है; जैसे, हिरन चौकड़ो भरता हुआ भागा। हाथी भूमता हुआ चलता है। लड़की अटकती हुई बोलती है। इस अर्थ में वर्तमानकालिक कृदंत की द्विरुक्ति भी होती है; जैसे, यात्रो अनेक देशों में घूमता-घूमता लौटा। स्त्रियाँ रसोई करती-करती थक गईं।

(२) भूतकालिक कृदंत ।

६२२—अकर्मक क्रिया से बना हुआ भूतकालिक कृदंत कर्तृ-वाचक और सकर्मक क्रिया से बना हुआ कर्मवाचक होता है और दोनों का प्रयोग विशेषण के समान होता है; जैसे, मरा हुआ घोड़ा

* लक्षणा शब्द की वह वृत्ति (शक्ति) है जिससे उसके किसी अर्थ से मिलता-जुलता अर्थ सूचित होता है, जैसे, उसका हृदय पत्थर है।

खेत में पड़ा है; एक आदमी जलो हुई लकड़ियाँ बटोरता था, दूर से आया हुआ मुसाफिर ।

(अ) यह कृदंत विधेय-विशेषण होकर भी आता हैं, जैसे, वह मन में फूला नहीं समाता । वहाँ एक पलंग बिछा हुआ था । आप तो मुझसे भी गये बीते हैं । इसका सबसे ऊँचा भाग सदा बर्फ से ढँका रहता है । लड़के ने एक पेड़ में कुछ फल लगे हुए देखे । चोर घबराया हुआ भागा ।

(आ) कभी-कभी सकर्मक भूतकालिक कृदंत का उपयोग कर्तृवाचक होता है और तब उसका विशेष्य उसका कर्म नहीं, क्रि-कर्त्ता अथवा दूसरा शब्द होता है । कर्म विशेषण के पूर्व आकर विशेषण का अर्थ पूर्ण करता है, जैसे, काम सीखा हुआ नौकर; इनाम पाया हुआ लडका, पर कटा हुआ गिद्ध, (नीचे) नाम दी हुई पुस्तकें ।

[सू०—किसी-किसी की सम्मति में ये उदाहरण सामासिक शब्दों के हैं और इन्हें मिलाकर लिखना चाहिए, जैसे इनाम-पाया हुआ; नाम-दी हुई ।]

(इ) भूतकालिक कृदंत का प्रयोग बहुधा सज्ञा के समान भी होता है और उसके साथ कभी-कभी “विना” का योग होता है, जैसे, किये का फल । जले पर लोन । मरे को मारना । विना विचारे जो करै, सो पाछे पछताय । लडके इसका विना छेड़े न छोड़ते ।

(ई) भूतकालिक कृदंत बहुधा अपनी सबधी सज्ञा के संबंध-कारक के साथ आता है, जैसे, खेरी लिखी पुस्तकें, कपास का बना कपड़ा, घर का सिला कुरता (अं०—५४०) ।

(३) कर्तृवाचक कृदंत ।

६२३—इस कृदंत का उपयोग सज्ञा अथवा विशेषण के समान होता है और पिछले प्रयोग में इससे कभी-कभी आसन्न-भविष्यत् का

अर्थ सूचित होता है; जैसे, किसी लिखनेवाले को बुलाओ। झूठ बोलनेवाला मनुष्य आदर नहीं पाता। गाड़ी आनेवाली है।

(अ) और-और कृदंतों के समान सकर्मक क्रिया से बना हुआ यह कृदंत भी कर्म के साथ आता है और यदि यह अपूर्ण क्रिया से बना हो तो इसके साथ इसकी पूर्ति आती है; जैसे, घड़ी बनानेवाला; झूठ को सच बतानेवाला; बड़ा होनेवाला।

(४) अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत ।

६२४—यह कृदंत सदा अविकारी (एकारांत) रूप में रहता है और इसका प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, उसको वहाँ रहते (= रहने में) दो महीने हो गये। मुझे सारी रात तलफते बीती। यह कहते मुझे बड़ा हर्ष होता है।

(अ) अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत का उपयोग बहुधा तब होता है, जब कृदंत और मुख्य क्रिया के उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं और कृदंत का उद्देश्य (कभी-कभी) लुप्त रहता है; जैसे, दिन रहते यह काम हो जायगा। मेरे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ से लौटते रात हो जायगी। बात कहते दिन जाते हैं।

(आ) जब वाक्य में कर्ता और कर्म अपनी-अपनी विभक्ति के साथ आते हैं, तब उनका वर्तमानकालिक कृदंत उनके पीछे अविकारी रूप में आता है और उसका उपयोग बहुधा क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, उमने चलते हुए मुझसे यह कहा था। मैंने उन स्त्रियों को लौटते हुए देखा। मैं नौकर को कुछ बड़बड़ाते हुए सुन रहा था।

(इ) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत को बहुधा द्विरक्ति होती है, और उसमें नित्यता का बोध होता है, जैसे, बात करते-करते उसकी बोली बन्द हो गई; मैं डरते-डरते उसके पास गया; हँसते-

हँसते प्रसन्नतापूर्वक देवता के चरणों में अपने सारे सुखों का बलिदान कर देना ही परम धर्म है ।

वह सरते-सरते बचा = वह लगभग मरने से बचा ।

(ई) विरोध सूचित करने के लिए अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत के पश्चात् 'भी' अव्यय का योग किया जाता है, जैसे, मंगल-साधन करते भी जो विपत्ति आन पड़े तो संतोष करना चाहिये; वह धर्म करते हुए भी, दैवयोग से, धनहीन हो गया; नौकर सरते-सरते भी सच न बोला ।

(उ) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत का कर्त्ता कभी कर्त्ता-कारक में, कभी स्वतंत्र होकर, कभी सप्रदान-कारक में और कभी संबन्ध-कारक में आता है; जैसे, मुझे यह कहते आनंद होता है; दिन रहते यह काम हो जायगा, आपके होते कोई कठिनाई न होगी, उसने चलते हुए यह कहा ।

(ऊ) पुनरुक्त अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत का कर्त्ता कभी-कभी लुप्त रहता है, और तब यह कृदंत स्वतंत्र दशा में आता है, जैसे, होते-होते अपने अपने पते सबने खोले; चलते-चलते उन्हें एक गाँव मिला ।

(ऋ) वर्त्तमानकालिक कृदंत और अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत कभी-कभी समान अर्थ में आते हैं, जैसे, पार्वती को पुस्तक पढ़ते देखकर उसके शरीर में आग लग गई; (सर०); तुम इस चक्रवर्ती की सेवा-योग्य बालक और स्त्री को विकृता देखकर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? (सत्य०) ।

[सू०—वर्त्तमानकालिक कृदंत के पुँह्लि ग-बहुवचन का रूप अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत के समान होता है, पर दोनों के अर्थ और प्रयोग भिन्न-भिन्न हैं; जैसे, सड़क पर शैव्या और बालक फिरते हुए दिखाई देते हैं । (वर्त्तमानकालिक कृदंत) । (सत्य०) । तब रहते टप्साह दिग्भावेगा यह जीवन । (अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत) । (सर०) ।]

(५) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त ।

६२५—यह कृदन्त भी सदा अविकारी रूप में रहता है और क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आता है; जैसे, राजा को मरे दो वर्ष हो गये। उनके कहे क्या होता है ? सोना जानिये कैसे, आदमी जानिये बसे ।

(अ) इस कृदन्त का उपयोग भी बहुधा तभी होता है जब इसका कर्त्ता और मुख्य क्रिया का कर्त्ता भिन्न-भिन्न होते हैं; जैसे, पहर दिन चढ़े हम लोग बाहर निकले; कितने एक दिन बीते राजा फिर वन को गये ।

(आ) सकर्मक पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त से क्रिया और उद्देश्य की दशा सूचित होती है; जैसे, एक कुत्ता मुँह में रोटी का टुकड़ा दबाये जा रहा था; तुम्हारी लड़की छाता लिये जाती थी। यह कौन महा भयंकर भेष, अंग में भभूत पोते, एड़ी तक जटा लटकाये त्रिशूल घुमाता चला आता है; (सत्य०)। वह एक नौकर रखे है। साँप मुँह में मेढक दबाये था ।

(इ) नित्यता वा अतिशयता के अर्थ में इस कृदन्त की द्विरुक्ति होती है; जैसे, वह बुलाये-बुलाये नहीं आता; लड़की बैठे-बैठे उकता गई; बैठे-बिठाये यह आफत कहाँ से आई ? सिर पर बोझ लादे-लादे वह बहुत दूर चला गया ।

(ई) अपूर्ण और पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त बहुधा कर्त्ता से संबंध रखते हैं; पर कभी-कभी उनका संबंध कर्म से भी रहता है और यह बात उनके अर्थ और स्थान-क्रम से सूचित होती है; जैसे, मैंने लड़के को खेलते हुए देखा; सिपाही न चोर को माल लिये हुए पकड़ा; इन वाक्यों में कृदन्तों का संबंध कर्म से है। उसने चलते हुए नौकर का बुलाया; मैंने सिर झुकाये हुए

राजा को प्रणाम किया । ये वाक्य यद्यपि दुअर्थी जान पड़ते हैं, तो भी इनमें क्रुद तों का संबंध कर्त्ता से है ।

(उ) पूर्ण क्रियाद्योतक क्रुदंत का कर्त्ता, अपूर्ण क्रियाद्योतक क्रुदंत के कर्त्ता के समान, अर्थ के अनुसार अलग-अलग कारकों में आता है, जैसे, इनके मरं न रोइये ; मुझे घर छोड़े एक युग चीत गया । दस बजे गाडी आई ।

(ऊ) कभी-कभी इस क्रुदंत का प्रयोग 'विना' के साथ होता है, जैसे, विना आपके आये हुए यह काम न होगा ।

(ऋ) अपूर्ण और पूर्ण क्रियाद्योतक क्रुदंत बहुधा कर्मवाच्य में नहीं आते । यदि आवश्यकता हो तो कर्मवाच्य का अर्थ कर्त्तृ-वाच्य ही से लिया जाता है, जैसे, वह बुलाये (बुलाये गये) विना यहाँ न आयगा । गाते-गाते (गाये जाते-जाते) चुके नहीं वह । (एकात०) ।

(६) तात्कालिक क्रुदंत ।

६२६—इस क्रुदंत से मुख्य क्रिया के समय के साथ ही होने-वाली घटना का बोध होता है; और यह अपूर्ण क्रियाद्योतक क्रुदंत के अंत 'में' ही जोड़ने से बनता है, जैसे, बाप के मरतेही लड़कों ने दुरी आदते सीखीं; सूरज निकलतेही वे लोग भागे, इतना सुनतेही वह आग-बवूला हो गया, लड़का मुझे देखतेही छिप जाता है ।

(अ) इस क्रुदंत की पुनरुक्ति भी होती है और उससे काल की अवस्थिति का बोध होता है, जैसे, वह मूर्त्ति देखतेही-देखते लोप हो गई; आपको लिखतेही-लिखते कई घटे लग जाते हैं ।

(आ) इस क्रुदंत का कर्त्ता, अर्थ के अनुसार, कभी-कभी मुख्य क्रिया का कर्त्ता और कभी-कभी स्वतंत्र होता है; जैसे, उसने आतेही उपद्रव मचाया; उसके आतेही उपद्रव मच गया ।

(७) पूर्वकालिक कृदंत ।

६२७—पूर्वकालिक कृदंत बहुधा मुख्य क्रिया के उद्देश्य से संबंध रखता है जो कर्त्ता-कारक में आता है; जैसे, मुझे देखकर वह चला गया; काशी से कोई बड़े पंडित यहाँ आकर ठहरे हैं; देव ने उस मनुष्य की सचाई पर प्रसन्न होकर वे तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी ।

(अ) कभी-कभी पूर्वकालिक कृदंत कर्त्ता-कारक को छोड़ अन्य कारकों से संबंध रखता है; जैसे, आगे चलकर उन्हें एक आदमी मिला, भाई को देखकर उसका मन शांत हुआ ।

(आ) यदि मुख्य क्रिया कर्मवाच्य हो तो पूर्वकालिक कृदंत भी कर्मवाच्य होना चाहिये; पर व्यवहार से उसे कर्त्वाच्य ही रखते हैं; जैसे, धरती खोदकर एकसी कर दी गई (खोदकर = खोदी जाकर), उसका भाई मन्सूर पकड़कर अकबर के दरवार में लाया गया (सर०); (पकड़कर = पकड़ा जाकर) ।

[सू०—“कविता-कलाप” में पूर्वकालिक क्रिया के कर्मवाच्य का यह उदाहरण आया है—

फिर निज परिचय पूछे जाकर,
बोले यम यों उसमे सादर ।

इस वाक्य में ‘पूछे जाकर’ क्रिया का प्रयोग एक विशेष अर्थ (पृथुना = पर-चाह करना) में व्याकरण से शुद्ध माना जा सकता है, पर उसके साथ ‘परिचय’ कर्म का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि “परिचय पूछे जाकर” न संयुक्त क्रिया ही है और न समास है । इसके सिवा वह कर्मवाच्य की रचना के विरुद्ध भी है । (अ०—३५६)]

(इ) कभी-कभी पूर्वकालिक कृदंत के साथ स्वतंत्र कर्त्ता आता है जिसका मुख्य क्रिया से कोई संबंध नहीं रहता; जैसे, चार बजकर दस मिनट हुए; सर्च जाकर पाँच रुपये की बचत होगी; आज अर्जी पेश होकर यह हुकुम हुआ । इस राग से परिश्रमी

का दुःख मिटकर चित्त नया सा हो गया है ; (शकु०), हानि होकर यो हमारी दुर्दशा होती नहीं ; (भारत०) । (अ०— ५११—घ) ।

(ई) कभी-कभी स्वतंत्र कर्त्ता लुप्त रहता है और पूर्वकालिक कृदंत स्वतंत्र दशा में आता है, जैसे, आगे जाकर एक गाँव दिखाई दिया । समय पाकर उसे गर्भ रहा । सब मिलाकर इस पुस्तक में कोई दो सौ पृष्ठ हैं ।

(उ) कभी-कभी पूर्वोक्त क्रिया पूर्वकालिक कृदंत में दुहराई जाती है, जैसे, वह उठा और उठकर बाहर गया, अर्क वहकर वर्त्तन में जमा होता है और जमा होकर जम जाता है ।

(ऊ) बढ़ना, करना, हटना और होना क्रियाओं के पूर्वकालिक कृदंत कुछ विशेष अर्थों में भी आते हैं, जैसे, चित्र से बढ़कर चितरे की बढ़ाई कीजिए (सर०), (अधिक, विशेषण) ।

किला सबक से कुछ हटकर है, (दूर, क्रि० वि०) ।

वे शास्त्री करके प्रसिद्ध हैं (नाम से, स० सू०) ।

तुम ब्राह्मण होकर सस्कृत नहीं जानते (होने पर भी) ।

(वे) एक बार जंगल में होकर किसी गाँव को जाते थे (से) ।

(ऋ) लेकर—यह पूर्वकालिक कृदंत काल, संख्या, अवस्था और स्थान का आरंभ सूचित करता है, जैसे, सवेरे से लेकर साँझ तक; पाँच से लेकर पचास तक । हिमालय से लेकर सेतुबंध-रामेश्वर तक; राजा से लेकर रंक तक । इन सब अर्थों में इस कृदंत का प्रयोग स्वतंत्र होता है ।

[सू०—बँगला 'लइया' के अनुकरण पर कभी-कभी हिंदी में 'लेकर' विवाद का कारण सूचित करता है, जैसे, आगकल धर्म को लेकर कई बन्दे होते हैं । यह प्रयोग शिष्ट-सम्मत नहीं है ।]

दसवाँ अध्याय ।

संयुक्त क्रियाएँ ।

६२८—जिन अवधारण-बोधक संयुक्त क्रियाओं (बोलना, कहना, रोना, हँसना, आदि) के साथ अचानकता के अर्थ में “आना” क्रिया आती है, उनके साथ बहुधा प्राणिवाचक कर्त्ता रहता है और वह संप्रदान-कारक में आता है; जैसे, उसकी बात सुनकर मुझे रो आया; क्रोध में मनुष्य को कुछ का कुछ कह आता है ।

६२९—आवश्यकता-बोधक क्रियाओं का प्राणिवाचक उद्देश्य संप्रदान-कारक में आता है और अप्राणिवाचक उद्देश्य कर्त्ता-कारक में रहता है; जैसे, मुझको जाना है ; आपको बैठना पड़ेगा ; हमें यह काम करना चाहिये ; अभी बहुत काम होना है ; घंटा बजना चाहिये । ‘पढ़ना’ क्रिया के साथ बहुधा प्राणिवाचक कर्त्ता आता है ।

६३०—‘चाहिये’ क्रिया में कर्त्ता वा कर्म के पुरुष और लिंग के अनुसार कोई विकार नहीं होता; परंतु कर्म के वचन के अनुसार यह कभी-कभी बदल जाती है, जैसे, हमें सब काम करने चाहिये (परी०) । यह प्रयोग सार्वत्रिक नहीं है ।

(अ) सामान्य भूतकाल में ‘चाहिये’ के साथ ‘था’ क्रिया आती है, जो कर्म के अनुसार विकल्प से बदलती है; जैसे, मुझे उनकी सेवा करना चाहिये था अथवा करना चाहिये थी । यहाँ ‘करना’ क्रियार्थक संज्ञा का भी रूपांतर हो सकता है । (अ०—४०५) ।

६३१—देना अथवा पढ़ना के योग से बनी हुई नामबोधक क्रियाओं का उद्देश्य संप्रदान-कारक में आता है ; जैसे, मुझे शब्द सुनाई दिया ; लड़के को दिखाई नहीं देता ; उसे कम सुनाई पड़ता है । (अ०—५३५) ।

६३२—जिन सकर्मक अवधारण-बोधक क्रियाओं के साथ अकर्मक सहकारी क्रियाएँ आती हैं वे (कर्तृवाच्य में) सदैव कर्तरिप्रयोग में रहती हैं; जैसे, लड़का पुस्तक ले गया; सिपाही चोर को मार बैठा, दासी पानी ला रही है।

अप०—जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ 'आना' क्रिया अचानकता के अर्थ में आती है उनमें अप्रत्यय कर्म के साथ कर्मणिप्रयोग और सप्रत्यय कर्म के साथ भावेप्रयोग होता है, जैसे, मुझे वह बात कह आई, उसे नौकर को बुला आया।

(आ) अकर्मक क्रिया के साथ ऊपर लिखे अर्थ में 'आना' क्रिया सदैव भावेप्रयोग में रहती है, जैसे, बूढ़े को देखकर लड़के को हँस आया, लड़की को बात करने में रो आता है, इत्यादि।

६३३—जिन अकर्मक अवधारण-बोधक क्रियाओं के साथ सकर्मक सहकारी क्रियाएँ आती हैं उनके साथ सप्रत्यय कर्त्तृकारक रहता है, और वे भावेप्रयोग में आती हैं, जैसे, लड़के ने सो लिया, दासी ने हँस दिया, मेरी स्त्री और बहिन ने एक दूसरे को देखकर मुसकुरा दिया (सर०)।

अप०—(१) "होना" के साथ "लेना" क्रिया सदैव कर्त्तरि-प्रयोग में आती है, जैसे, वे साधु हो लिये। जो बात होनी थी सो हो ली।

अप०—(२) "चलना" क्रिया के साथ "देना" क्रिया विकल्प से कर्त्तरि वा भावेप्रयोग में आती है, जैसे, वह मनुष्य तत्काल वहाँ से चल दिया (परी०)। उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से रथ पर सवार होकर चल दिया (रघु०)।

(अ) अप्राणिवाचक कर्त्ता के साथ बहुधा कर्त्तरिप्रयोग ही आता है, जैसे, गाड़ी चल दी।

६३४—आवश्यकता-बोधक सकर्मक क्रियाएँ (कर्त्तृवाच्य में) विकल्प से कर्मणि वा भावेप्रयोग में आती हैं; जैसे, मुझे ये दान ब्राह्मणों को देने हैं (शकु०)। कहाँ तक दस्तन्दाजी करना चाहिये (स्वा०)। तुमको किताब लाना पड़ेगा, वा लाना पड़ेगी (अथवा लानी पड़ेगी ।)

६३५—आवश्यकता-बोधक अकर्मक क्रियाओं का कर्त्ता प्राणिवाचक हो तो बहुधा भावेप्रयोग और अप्राणिवाचक हो तो बहुधा कर्त्तरिप्रयोग होता है; जैसे, आपको बैठना पड़ेगा, घंटी बजना थी।

६३६—अनुमति-बोधक क्रिया सदा सकर्मक रहती है और यदि उसकी मुख्य क्रिया भी सकर्मक हो तो संयुक्त क्रिया द्विकर्मक होती है; जैसे, उसे यहाँ बैठने दो ; वाप ने लड़के को कच्चा फल न खाने दिया ; हमने उसे चिट्ठी न लिखने दी।

(अ) यदि अनुमति-बोधक संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया द्विकर्मक हो, तो उसके दोनों कर्मों के सिवा, सहायक क्रिया का कर्म भी वाक्य में आ सकता है; जैसे, मुझे उसको यह बात बताने दीजिए।

६३७—क्रियार्थक संज्ञा से बनी हुई अवकाशबोधक क्रियाएँ बहुधा कर्त्तरिप्रयोग में आती हैं; जैसे, वाते न होने पाईं; जल्दी के मारे मैं चिट्ठी न लिखने पाया। तात न देखन पायउँ तोही (राम०), इत्यादि।

(अ) पूर्वकालिक कृदंत के योग से बनी हुई सकर्मक अवकाशबोधक क्रिया बहुधा कर्मणि अथवा भावेप्रयोग में आती है; जैसे उसने अपना कथन पूरा न कर पाया था (सर०), कुछ लोगों ने बड़ी कठिनाई से श्रीमान् को एक दृष्टि देख पाया, इत्यादि।

(आ) यदि ऊपर (अ में) लिखी क्रिया अकर्मक हो तो कर्त्तरिप्रयोग होता है; जैसे, वैकुंठ बाबू की बात पूरी न हो पाई थी (सर०)।

६३८—नीचे लिखी (सकर्मक वा अकर्मक) संयुक्त क्रियाएँ (कर्तृवाच्य) में भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों में मदैव कर्त्तरिप्रयोग से आती हैं ।

(१) आरंभ-बोधक—लड़का पढ़ने लगा । लड़कियाँ काम करने लगीं ।

(२) नित्यताबोधक—हम वाते करते रहे । वह मुझे बुलाता रहा है ।

(३) अभ्यासबोधक—यां वह दीन दुःखिनी बाला रोया की दुख में उस रात (हिं० प्र०) । बारह बरस दिल्ली रहे, पर भाड ही भोंका किये (भारत०) ।

(४) शक्तिबोधक—लड़की काम न कर सकी, हम उसकी बात कठिनाई से समझ सके थे ।

(५) पूर्णताबोधक—नौकर कोठा झाड़ चुका । स्त्री रसोई बना चुकी है ।

(६) वे नामबोधक क्रियाएँ जो देना वा पढ़ना के योग से बनती हैं, जैसे, चार थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया, वह शब्द ही ठीक-ठीक न सुनाई पड़ा ।

ग्यारहवाँ अध्याय ।

अव्यय ।

६४०—संव धनाचक क्रिया-विशेषण क्रिया की विशेषता बताने के सिवा वाक्यों को भी जोड़ते हैं; जैसे, जहाँ न जाय रवि तहाँ जाय कवि, जब-तक जीना, तब-तक सीना ।

६४१—‘जब-तक’ क्रिया-विशेषण बहुधा संभाव्य भविष्यत् तथा दूसरे कालों के साथ आता है और क्रिया के पूर्व निषेधवाचक अव्यय

लाया जाता है; जैसे, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम यहाँ ठहरना; जब तक मैंने उनसे रुपये की बात नहीं निकाली, तब तक वे मेरे यहाँ आते रहे ।

(अ) जब 'जहाँ' का अर्थ काल वा अवस्था का होता है तब उसके साथ बहुधा अपूर्ण-भूतकाल आता है; जैसे, इस काम में जहाँ पहले दिन लगते थे, वहाँ अब घंटे लगते हैं; जहाँ वह मुझसे सीखते थे, वहाँ अब मुझे सिखाते हैं ।

६४२—न, नहीं, मत । "न" सामान्य-वर्तमान, अपूर्ण-भूत और आसन्न-भूत (पूर्ण-वर्तमान) कालों को छोड़कर बहुधा अन्य कालों में आता है । 'नहीं' संभाव्य-भविष्यत्, क्रियार्थक संज्ञा तथा दूसरे कृदन्त, विधि और संकेतार्थ कालों में बहुधा नहीं आता । 'मत' केवल विधिकाल में आता है । उदा०—लड़का वहाँ न गया; नौकर कभी न आवेगा; मेरे साथ कोई न रहे; हम कहीं ठहर नहीं सकते; "बदला" न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है!" (क० क०) । उसका धर्म सत लुड़ाओ (सत्य०) ।

६४३—संयोजक समुच्चय-बोधक समान शब्द-भेद, संज्ञाओं के समान कारक और क्रियाओं के समान अर्थ और कालों को जोड़ते हैं; जैसे, आलू, गोभी और बैंगन की तरकारी और दाल-भात । हड़ताल वास्तव में, मजदूरों के हाथ में एक बड़ा ही विकट और कार्य सिद्ध करानेवाला हथियार है । उन लोगों ने इसका खूब ही स्वागत किया होगा और बड़े चैन से दिन काटे होंगे ।

(अ) यदि वाक्य की क्रियाओं का संबंध भिन्न-भिन्न कालों से हो तो वे भिन्न-भिन्न कालों में रहकर भी संयोजक समुच्चय-बोधक के द्वारा जोड़ी जा सकती हैं; जैसे, मैं इस घर में रहा हूँ, रहता हूँ और रहूँगा; वह सबेरे आया था और शाम को चला जायगा ।

६४४—संकेतवाचक समुच्चय-बोधक बहुधा संभावनार्थ और संकेतार्थ कालों में आते हैं; जैसे, जो मैं न आऊँ तो तुम चले जाना । यदि समय पर पानी बरसता तो फसल नष्ट न होती ।

६४५—‘चाहे-चाहे’ संभाव्य भविष्यत्-काल के साथ और ‘मानो’ बहुधा संभाव्य-वर्तमान के साथ आता है; जैसे, आप चाहे दरवार में रहे, चाहे मनमाना खर्च लेकर तीर्थ-यात्रा को जावे; वहाँ अचानक ऐसा शब्द हुआ मानो वादल गरजते हों ।

६४६—जब न-न का अर्थ संकेतवाचक होता है, तब वह सामान्य संकेतार्थ अथवा भविष्यत्-काल के साथ आता है, जैसे, न आप यह बात कहते, न मैं आपसे अप्रसन्न होता, न मुझे समय मिलेगा न मैं आपसे मिलूँगा ।

६४७—जब ‘कि’ का अर्थ कालवाचक होता है तब भूतकाल की घटना सूचित करने में इसके पूर्व बहुधा पूर्ण-भूतकाल आता है, जैसे, वे थोड़ी ही दूर गये थे कि एक महाशय मिले । बात पूरी भी न होने पाई थी कि वह बोल उठा ।

(अ) इस अर्थ में कभी-कभी इसके पूर्व क्रियार्थक सज्ञा के साथ ‘था’ का प्रयोग होता है, जैसे, उसका बोलना था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया । सिपाही का आना था कि सब लोग भाग गये ।

६४८—यद्यपि—तथापि के बदले कभी-कभी “कितना” वा “कैसा” के साथ “ही” का प्रयोग करके क्रिया के पूर्व “क्यों न” क्रिया-विशेषण लाते हैं और क्रिया को संभावनार्थ के किसी एक काल में रखते हैं, जैसे, कोई कितना ही मूर्ख क्यों न हो, विद्या-भ्यास करने से उसमें कुछ बुद्धि आ ही जाती है; लडके कैसे ही चतुर क्यों न हों, पर माता-पिता उन्हें शिचा देते रहते हैं ।

६४९—जब वाक्य में दो शब्द-भेद संयोजक या विभाजक समुच्चय-बोधकों के द्वारा जोड़े जाते हैं तब ये अव्यय उन दो शब्दों

के बीच में आते हैं; और जब जुड़े हुए शब्द दो से अधिक होते हैं तब समुच्चय-बोधक अंतिम शब्द के पूर्व अथवा जोड़े से आये हुए शब्दों के मध्य में रखे जाते हैं; जैसे, युवक और युवती केवल एक दूसरे की ओर देखने में मग्न थे; मैं लंडन, न्यूयार्क और टोकियो से भारतीय यात्रियों, विद्यार्थियों और व्यवसायियों के लिए भारत-भवन बनवाऊंगा। दोनों मिलकर एक गीत गाओ या एक ही को गाने दो या दोनों मौन धारण करो, या आओ.तीनों मिलकर गावें।

६५०—संज्ञा और उसकी विभक्ति अथवा संबंध-सूचक अव्यय के बीच में कोई वाक्य या क्रिया-विशेषण वाक्यांश नहीं आ सकता, क्योंकि, इससे शब्दों का संबंध टूट जाता है, और वाक्य में दुर्बोधता आ जाती है; जैसे, फौली साहब के बाग (जिसका वर्णन किसी दूसरे लेख में किया जायगा) की झलक लेते पथिक आगे बढ़ता है (लक्ष्मी०)।

बारहवाँ अध्याय

अध्याहार ।

६५१—कभी-कभी वाक्य में संक्षेप अथवा गौरव लाने के लिए कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिये जाते हैं जो वाक्य के अर्थ पर से सहज ही जाने अथवा समझे जा सकते हैं। भाषा के इस व्यवहार को अध्याहार कहते हैं। उदा०—मैं तेरी एक भो () न सुनूँगा। दूर के ढोल सुहावने ()। कोई-कोई जंतु तैरते फिरते हैं, जैसे मछलियाँ ()।

६५२—अध्याहार दो प्रकार का होता है—(१)पूर्ण (२)अपूर्ण।

(१) पूर्ण अध्याहार में छोडा हुआ शब्द पहले कभी नहीं आता, जैसे, हमारी और उनकी () अच्छी निभी; मोरि () सुधारहि सो सब भाँती ।

(२) अपूर्ण अध्याहार में छोडा हुआ शब्द एक वार पहले आ चुकता है, जैसे, राम इतना चतुर नहीं है जितना श्याम () गरमी से पानी फैलता () और () हलका होता है ।

६५३—पूर्ण अध्याहार नीचे लिखे शब्दों में होता है—

(अ) देखना, कहना और सुनना क्रियाओं के सामान्य वर्तमान और आसन्न भूतकालों में कर्त्ता बहुधा लुप्त रहता है; जैसे, () देखते हैं कि युद्ध दिन-दिन बढ़ता जाता है, () कहा भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, () सुनते हैं कि वे आज जायँगे ।

(आ) विधि-काल में कर्त्ता बहुधा लुप्त रहता है, जैसे, () आइये, () वहाँ मत जाना ।

(इ) यदि प्रसंग से अर्थ स्पष्ट हो सके तो बहुधा कर्त्ता और संबन्ध-कारक का लोप कर देते हैं, जैसे, वहाँ वीरसिंह एक रघुवंशी राजपूत रहता था, उसका बाप बडा धनाढ्य था; () घर के आगे सदा हाथी भूमा करता था, पर हितू उसका कोई न था, () धन के मद में सबसे वैर-विरोध रखता था, () वीरसिंह को पाँच ही बरस का छोड के मर गया (गुटका०) ।

(ई) संबंधवाचक क्रियाविशेषण और संकेतवाचक समुच्चय-बोधक के साथ “होना” “हो सकता”, “बनना”, “बन सकता”, आदि क्रियाओं का उद्देश्य—जैसे, जहाँ तक () हो जल्दी आना; जो मुझसे () न हो सकता तो यह बात मुँह से क्यों निकालता; जैसे () घना, तैसे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न आप सदैव करते रहे ।

(ड) “जानना” क्रिया के संभाव्य भविष्यत्-काल में अन्यपुरुष कर्त्ता—जैसे, तुम्हारे मन में () न जाने क्या सोच है; () क्या जाने किसीके मन में क्या है ।

(ऊ) छोटे-छोटे प्रश्नवाचक तथा अन्य वाक्यों में जब कर्त्ता का अनुमान क्रिया के रूप से हो सकता है तब उसका लोप कर देते हैं; जैसे, क्या वहाँ जाते हो ? हाँ, जाता हूँ। अब तो मरते हैं ।

(ऋ) व्यापक अर्थवाली सकर्मक क्रियाओं का कर्म लुप्त रहता है; जैसे, बहिन तुम्हारी () भाड़ रही है। लड़का () पढ़ सकता है, पर () लिख नहीं सकता। बहिरो () सुनै, गूँग पुनि () बोलै ।

(ॠ) विशेषण अथवा संबंधकारक के पश्चात् “बात”, “हाल” “संगति” आदि अर्थवाले विशेष्य (भेद्य) का लोप हो जाता है; जैसे, दूसरों की क्या () चलाई, इसमें राजा भी कुछ नहीं कर सकता; जहाँ चारों इकट्ठी हों वहाँ का () क्या कहना; सुधरी () बिगरै वेगही, बिगरी () फिर सुधरै न; हमारी और उनकी () अच्छी निभी ।

(ए) “होना” क्रिया के वर्त्तमान-काल के रूप बहुधा कहावतों में, निषेधवाचक विधेय में तथा उद्गार में लुप्त रहते हैं; जैसे, दूर के ढोल सुहावने (); मैं वहाँ जाने का नहीं (); सज्जन किसी की बुराई नहीं करते (), महाराज की जय (); आपको प्रणाम () ।

(ऐ) कभी-कभी स्वरूप-बोधक समुच्चय-बोधक का लोप विकल्प से होता है, जैसे, नौकर बोला () महाराज, पुरोहितजी आये हैं। क्या जाने () किसी के मन में क्या भरा है। कविता में इसका लोप बहुधा होता है; जैसे, लपन लखेव, भा अनरथ आजू । तिय हँसिकै पिय सेां क्यौं, लखौ दिठैना दीन्ह ।

(ओ) “यदि” और “यद्यपि” और उनके नित्य-संबंधी समुच्चय-बोधकों का भी कभी कभी लोप होता है, जैसे, () आप बुरा न मानें तो एक बात कहूँ, हम जो ऐसे दुःख में हैं () हमें कोई छुड़ानेवाला चाहिये, इत्यादि ।

(औ) “और”, “इसलिए”, आदि समुच्चय-बोधक भी कभी-कभी लुप्त रहते हैं, जैसे, ताँबा खदान से निकलता है; इसका रंग लाल होता है । मेरे भक्तों पर भीड़ पडी है; इस समय चलकर उनकी चिता मेटा चाहिये ।

६५४—अपूर्ण अध्याहार नीचे लिखे स्थानों में होता है—

(अ) एक वाक्य में कर्त्ता का उल्लेख कर दूसरे वाक्य में बहुधा उसका अध्याहार कर देते हैं, जैसे, हम लोग रघुवंशी कन्या नहीं पालते, और () कभी किसी के साले-ससुरे नहीं कहलाते । आप अपने-अपने लडकों को भेजे और () व्यय आदि की कुछ चिन्ता न करे ।

(आ) यदि एक वाक्य में सप्रत्यय कर्त्ताकारक आवे और दूसरे में अप्रत्यय, तो पिछले कर्त्ता का अध्याहार कर दिया जाता है; जैसे, मैं बहुत देश-देशतारों में घूम चुका हूँ, पर () ऐसी आवादी कहीं नहीं देखो (विचित्र०), मैंने यह पद त्याग दिया और () एक दूसरे स्थान में जाकर धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करने लगा (सर०) ।

(इ) यदि अनेक विशेषणों का एक ही विशेष्य हो और उससे एकवचन का बोध हो, तो उसका एक ही बार उल्लेख होता है; जैसे, काली और नीली स्याही । गोल और सुंदर चेहरा ।

(ई) यदि एक ही क्रिया का अन्वय कई उद्देश्यों के साथ हो तो उसका उल्लेख केवल एक ही बार होता है, जैसे, राजा, रानी

और राजकुमार राजधानी को लौट आये; पेड़ में फल और फूल दिखाई देते हैं ।

(उ) अनेक मुख्य क्रियाओं की एक ही सहायक क्रिया हो तो उसका उपयोग केवल एक बार अंतिम क्रिया के साथ होता है; जैसे, मित्रता हमारे आनंद को बढ़ाती और कष्ट को घटाती है; यहाँ मिट्टी के खिलौने बनाये और बेचे जाते हैं ।

(ऊ) समतासूचक वाक्यों में उपमानवाले वाक्य के उद्देश्य को छोड़कर बहुधा और सब शब्दों का लोप कर देते हैं; जैसे, राजा ऐसे दीप्तमान हैं मानो सान का चढ़ा होरा । कोई-कोई जंतु तैरते फिरते हैं जैसे मछलियाँ ।

(ऋ) जब पक्षांतर के संबंध में प्रश्न करने के लिए 'या' के साथ 'नहीं' का उपयोग करते हैं तब पहले वाक्य का लोप कर देते हैं, जैसे, तुम वहाँ जाओगे या नहीं ? उसने तुम्हें बुलाया था या नहीं ?

(ॠ) प्रश्नार्थक वाक्य के उत्तर में बहुधा वही एक शब्द रक्खा जाता है जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है; जैसे, यह पुस्तक किसकी है ? मेरी ; क्या वह आता है ? हाँ, आता है ।

(ए) प्रश्नवाचक अव्यय "क्या" का बहुधा लोप हो जाता है; तब लेख में प्रश्न-चिह्न से और भाषण में स्वर के झटके से प्रश्न समझा जाता है, जैसे, तुम जाओगे ? नौकर घर में है ?

६५५—हिंदी में शब्दों के समान बहुधा प्रत्ययों का भी अध्याहार हो जाता है, और अन्यान्य प्रत्ययों की अपेक्षा विभक्ति-प्रत्ययों का अध्याहार कुछ अधिक होता है ।

(अ) यदि कई संज्ञाओं में एक ही विभक्ति का योग हो तो उसका उपयोग केवल अंतिम शब्द के साथ होता है और शेष

शब्द साधारण अथवा विकृत रूप में आते हैं; जैसे, इसके रंग, रूप और गुण में भेद हो चला (नागरी०)। वे फर्सी, कुर्सी और कोचों पर उठते बैठते हैं (विद्या०)। गायों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों आदि की नसल सुधारना (सर०)।

(आ) कर्म, करण और अधिकरण कारकों के प्रत्ययों का बहुधा लोप होता है, जैसे, पानी लाओ, यात्री वृत्त के सहारे खड़ा हो गया। लडका किस दिन आयगा ?

(इ) सामान्य भविष्यत्-काल का प्रत्यय कभी-कभी दो पास-पास आनेवाली क्रियाओं में से बहुधा पिछली क्रिया ही में जोड़ा जाता है, जैसे, वहाँ हम लोग कुछ खाए-पिएँगे। क्या यहाँ कोई आय-जायगा नहीं ?

(ई) कर, वाला, मय, पूर्वक, आदि प्रत्ययों का भी कभी-कभी अध्याहार होता है, जैसे, देख और सुनकर, आने और जानेवाले, जल अथवा चलमय प्रदेश, भक्ति तथा प्रेम-पूर्वक।

[सू०—अध्याहार के अन्यान्य उदाहरण तत्संबन्धी नियमों के साथ यथा-स्थान दिये गये हैं।]

तेरहवाँ अध्याय ।

पदक्रम ।

६५६—रूपांतरशील भाषाओं में पदक्रम पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनमें बहुधा शब्दों के रूपों ही से उनका अर्थ और संबंध सूचित हो जाता है। पर अल्पविकृत भाषाओं में पदक्रम का अधिक महत्त्व है। संस्कृत पहले प्रकार की और अँगरेजी दूसरे प्रकार की भाषा है। हिंदी-भाषा संस्कृत से निकली है; इसलिए इसमें पदक्रम का महत्त्व अँगरेजी के समान नहीं है।

तो भी वह इसमें एक प्रकार से स्वाभाविक और निश्चित है। विशेष प्रसंग पर (वक्ता और कविता में) वक्ता और लेखक की इच्छा के अनुसार पदक्रम में जो अंतर पड़ता है उसको आलंकारिक पदक्रम कहते हैं। इसके विरुद्ध दूसरा पदक्रम साधारण किंवा व्याकरणिक पदक्रम कहलाता है।

आलंकारिक पदक्रम के नियम बनाना बहुत कठिन है और यह विषय व्याकरण से भिन्न भी है; इसलिए यहाँ केवल साधारण पदक्रम के नियम लिखे जायेंगे।

६५७—वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण यह नियम है कि पहले कर्त्ता वा उद्देश्य, फिर कर्म वा पूर्ति और अंत में क्रिया रखते हैं; जैसे, लड़का पुस्तक पढ़ता है; सिपाही सूबेदार बनाया गया; मोहन चतुर जान पड़ता है; हवा चली।

६५८—द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे आता है; जैसे, हमने अपने मित्र को चिट्ठी भेजी; राजा ने सिपाही को सूबेदार बनाया।

६५९—इनके सिवा दूसरे कारकों में आनेवाले शब्द उन शब्दों के पूर्व आते हैं जिनसे उनका संबंध रहता है; जैसे, मेरे मित्र की चिट्ठी कई दिन में आई; यह गाड़ी बंबई से कलकत्ते तक जाती है।

६६०—विशेषण संज्ञा के पहले और क्रियाविशेषण (वा क्रिया-विशेषण-वाक्यांश) बहुधा क्रिया के पहले आते हैं; जैसे, एक भेड़िया किसी नदी में, ऊपर की तरफ पानी पी रहा था; राजा आज नगर में आये हैं।

६६१—अवधारण के लिए ऊपर लिखे क्रम में बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है; जैसे—

(अ) कर्त्ता और कर्म का स्थानांतर—लड़के को मैंने नहीं देखा। घड़ी कोई उठा ले गया।

(धा) सप्रदान का स्थानांतर—तुम यह चिट्ठी मंत्री को देना । उसने अपना नाम युभक्तो नहीं बताया; ऐसा कहना तुमको उचित न था ।

(इ) क्रिया का स्थानांतर—मैंने बुलाया एक को और आये दस । तुम्हारा पुण्य है बहुत और पाप है थोड़ा । धिक्कार है ऐसे जीने को । कपड़ा है तो सस्ता, पर मोटा है ।

(ई) क्रिया-विशेषण का स्थानांतर—आज सबेरे पानी गिरा, किसी समय दो बटोही साथ-साथ जाते थे, इत्यादि ।

६६२—समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पाछे आता है और पिछले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है; जैसे, कल्लू, तेरा भाई बाहर खड़ा है, भवानी सुनार को बुलाओ ।

६६३—अवधारण के लिए भेदक और भेद्य के बीच में संज्ञा-विशेषण और क्रिया-विशेषण आ सकते हैं; जैसे, मैं तेरा क्योंकर भरोसा करूँ, विधाता का भी तुम पर कुछ बल न चलेगा ।

(ध्र) यदि भेद्य क्रियार्थक संज्ञा हो तो उसके संबन्धी शब्द उसके और भेदक के बीच में आते हैं, जैसे, राम का वन कोर जाना स्थिर हुआ, आपका इस प्रकार बातें बनाना ठीक नहीं ।

६६४—सबधवाचक और उसके अनुसंबन्धी सर्वनाम के कर्मादि कारक बहुधा वाक्य के आदि में आते हैं; जैसे, उसके पास एक पुस्तक है जिसमें देवताओं के चित्र हैं, वह नौकर कहाँ है जिसे आपने मेरे पास भेजा था, जिससे आप घृणा करते हैं उस पर दूसरे लोग प्रेम करते हैं, इत्यादि ।

६६५—प्रश्रवाचक क्रिया-विशेषण और सर्वनाम अवधारण के लिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी आ सकते हैं; जैसे, वह जाता कब था ? हम वहाँ जा कैसे सकेंगे ? ऐसा कहना क्यों चाहिये ? तू होता कौन है ? वह चाहता क्या है ?

(अ) प्रश्नवाचक अव्यय 'क्या' बहुधा वाक्य के आदि में, और कभी-कभी बीच में अथवा अंत में आता है; जैसे, क्या गाड़ी आ गई ? गाड़ी क्या आ गई ? गाड़ी आ गई क्या ?

(आ) प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के अंत में आता है, जैसे, आप वहाँ चलेगे न ? राजपुत्र तो कुशल से हैं न ? भला, देखेंगे न ? (सत्य०) ।

६६६—तो, भी, ही, भर, तक और मात्र वाक्य में उन्हीं शब्दों के पश्चात् आते हैं जिन पर इनके कारण अवधारण होता है; और इनके स्थानांतर से वाक्य में अर्थांतर हो जाता है; जैसे, हम भी गाँव को जाते हैं; हम गाँव को भी जाते हैं; हम तो गाँव को जाते हैं; हम गाँव को तो जाते हैं ।

(अ) 'मात्र' को छोड़ दूसरे अव्यय मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी आ सकते हैं और 'भी' तथा 'तो' को छोड़ शेष अव्यय संज्ञा और विभक्ति के बीच में आ सकते हैं । 'ही' कर्तृवाचक कर्तृ तथा सामान्य भविष्यत्-काल में प्रत्यय के पहले भी आ जाता है; जैसे, हम वहाँ जाते भी हैं, लड़का अपने मित्र तक की बात नहीं मानता; अब उन्हें बुलाना भर है; यह काम आप ही ने (अथवा आपने ही) किया है; ऐसा तो होवे-ही गा; हम वहाँ जाने ही वाले थे ।

(आ) 'केवल' संबंधी शब्द के पूर्व में ही आता है ।

६६७—संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण, जहाँ-तहाँ, जब-तब, जैसे-तैसे, आदि, बहुधा वाक्य के आरंभ में आते हैं; जैसे, जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर भागियो । जहाँ तेरे सींग समाएँ तहाँ जा ।

६६८—निषेधवाचक अव्यय 'न', 'नहीं' और 'मत' बहुधा क्रिया के पूर्व आते हैं; जैसे, मैं न जाऊँगा, वह नहीं गया, तुम मत जाओ ।

(अ) नहीं और मत क्रिया के पीछे भी आते हैं; जैसे, उसने आपको देखा नहीं। वह जाने का नहीं। उसे बुलाना मत।

(आ) यदि क्रिया संयुक्त हो अथवा संयुक्त काल में आवे तो ये अव्यय मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आते हैं; जैसे, मैं लिख नहीं सकता; वहाँ कोई किसी से बोलता न था; तब तक तुम खा मत लेना।

६६६—संबधसूचक अव्यय जिस संज्ञा से संबंध रखते हैं, उसके पीछे आते हैं, पर मारे, बिना, सिवा, आदि कुछ अव्यय उसके पूर्व भी आते हैं, जैसे, दरजी कपड़ों समेत तर हो गया; वह मारे चिंता के मरी जाती थी।

६७०—समुच्चयबोधक अव्यय जिन शब्दों अथवा वाक्यों का जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं, जैसे, हम उन्हें सुख देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बड़ा तप किया है। ग्रह और उपग्रह सूर्य के आस-पास घूमते हैं।

(अ) यदि सयोजक समुच्चय-बोधक कई शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो तो वह अंतिम शब्द वा वाक्य के पूर्व आता है; जैसे, हास में मुँह, गाल और आँखे फूली हुई जान पड़ती हैं (नागरी०), और-और पक्षियों के बच्चे चपल होते, तुरंत दौड़ने लगते और अपना भोजन भी आप खोज लेते हैं।

(आ) सकेतवाचक समुच्चय-बोधक, 'यदि—तो', 'यद्यपि—तथापि' बहुधा वाक्य के आरंभ में आते हैं; जैसे, जो यह प्रसंग चलता, तो मैं भी सुनता; यदि ठंड न लगे, तो यह हवा बहुत दूर तक चली जाती है।

यद्यपि यह समुभूत हैं नीके ।

तदपि होत परितोप न जी के ॥

६७१—विस्मयादिक-बोधक और संबोधन-कारक बहुधा वाक्य के आरंभ में आते हैं; जैसे, अरे ! यह क्या हुआ ? मित्र ! तुम कहाँ थे ?

६७२—वाक्य किसी भी अर्थ का हो (अं०—५०६), उसके शब्दों का क्रम हिंदी में प्रायः एक ही सा रहता है; जैसे—

- (१) विधानार्थक—राजा नगर में आये ।
- (२) निषेधवाचक—राजा नगर में नहीं आये ।
- (३) आज्ञार्थक—राजन्, नगर में आइये ।
- (४) प्रश्नार्थक—राजा नगर में आये ?
- (५) विस्मयादिबोधक—राजा नगर में आये !
- (६) इच्छाबोधक—राजा नगर में आवें ।
- (७) संदेहसूचक—राजा नगर में आये होंगे ।
- (८) संकेतार्थक—राजा नगर में आते तो अच्छा होता ।

[सू०—बोलचाल की भाषा में पदक्रम के संबंध में पूरी स्वतंत्रता पाई जाती है; जैसे, देखते है, अभी हम तुमको । दे चाहे जहाँ से सब दक्षिणा (सत्य०) ।]

चौदहवाँ अध्याय ।

पद-परिचय ।

६७३—वाक्य का अर्थ पूर्णतया समझने के लिए व्याकरण-शास्त्र की सहायता अपेक्षित है; और यह सहायता वाक्य-गत शब्दों के रूप और उनका परस्पर संबंध जताने में पड़ती है । इस प्रक्रिया

को पद-परिचय* कहते हैं । यह (पद-परिचय) व्याकरण-संबंधी ज्ञान की परीक्षा और उस विद्या के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग है ।

६७४—प्रत्येक शब्द-भेद की व्याख्या में जा-जो वर्णन आवश्यक है वह नीचे लिखा जाता है—

(१) स ज्ञा—प्रकार, लिंग, वचन, कारक, संबंध ।

(२) सर्वनाम—प्रकार, प्रतिनिहित सज्ञा, लिंग, वचन, कारक, संबंध ।

(३) विशेषण—प्रकार, विशेष्य, लिंग, वचन, विकार (हो तो), अन्य संबंध ।

(४) क्रिया—प्रकार, वाच्य, अर्थ, काल, पुरुष, लिंग, वचन, प्रयोग ।

(५) क्रियाविशेषण—प्रकार, विशेष्य, विकार (हो तो) ।

(६) समुच्चय-बोधक—प्रकार, अन्वित शब्द, वाक्याश अथवा वाक्य ।

(७) सम्बन्ध-सूचक—प्रकार, विकार (हो तो), संबंध ।

(८) विस्मयादि-बोधक—प्रकार, संबंध (हो तो) ।

* कोई-कोई इसे पद-निर्देश और कोई-कोई व्याख्या कहते हैं । राजा शिवप्रसाद ने इसका नाम अन्वय लिखा है, और इसका वर्णन फारसी पद्धति पर किया है जिसका उदाहरण यहाँ दिया जाता है—

सनदवाद जहाजी की दूसरी यात्रा का वर्णन । सनदवाद विशेष्य । जहाजी विशेषण । विशेष्य विशेषण मिलकर संग्रह । का संबंध का चिह्न । दूसरी विशेषण । यात्रा विशेष्य । विशेष्य विशेषण मिलकर संबंधवान् । संबंध-संबंधवान् मिलकर संग्रह । का संग्रह का चिह्न । वर्णन संबंधवान् । संग्रह-संबंधवान् मिलकर कर्त्ता । होता है क्रिया गुप्त ।

इस पद्धति में एक बड़ा दोष यह है कि इसमें शब्दों के रूपों का ठीक-ठीक वर्णन नहीं होता ।

[सू० शब्दों का प्रकार बताते समय उनके व्युत्पत्ति-संबंधी भेद—रूढ़, यौगिक और योगरूढ़—भी बताना आवश्यक है ।]

६७५—अब पद-परिचय के कई एक उदाहरण दिये जाते हैं । पहले सरल वाक्य-रचना के और फिर जटिल वाक्य-रचना के शब्दों की व्याख्या लिखी जायगी ।

(क) सहज वाक्य-रचना के शब्द ।

(१) वाक्य—वाह ! क्या ही आनन्द का समय है !

वाह—रूढ़ विस्मयादिबोधक अव्यय, आश्चर्यबोधक ।

क्याही—यौगिक विशेषण, अवधारण-बोधक, प्रकारवाचक, सार्वनामिक, विशेष्य 'आनन्द', अविकारी शब्द ।

आनन्द का—यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुँल्लिंग, एकवचन, संबन्ध-कारक, संबंधी शब्द 'समय' ।

समय—रूढ़ संज्ञा, भाववाचक, पुँल्लिंग, एकवचन, प्रधान कर्त्ताकारक, 'है' क्रिया से अन्वित ।

है—मूल अकर्मक क्रिया, स्थितिबोधक, कर्तृवाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य वर्त्तमान-काल, अन्यपुरुष, पुँल्लिंग, एकवचन, 'समय' कर्त्ताकारक से अन्वित, कर्त्तारि प्रयोग ।

(२) वाक्य—जो अपने वचन को नहीं पालता वह विश्वास के योग्य नहीं है ।

जो—रूढ़ सर्वनाम, संबन्धवाचक 'मनुष्य' संज्ञा की ओर संकेत करता है, अन्यपुरुष, पुँल्लिंग, एकवचन, प्रधान कर्त्ताकारक, 'पालता' क्रिया का ।

अपने—रूढ़ सर्वनाम, निजवाचक, 'जो' सर्वनाम की ओर संकेत करता है, अन्यपुरुष, पुँल्लिंग, एकवचन, संबन्ध-कारक, संबंधी शब्द 'वचन को', विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण विकृत रूप ।

[सू०—संज्ञा और सर्वनाम के संबंध-कारक की व्याख्या में लिङ्ग और वचन का निर्णय करना कुछ कठिन है, क्योंकि इनमें लिङ्ग-वचन के साथ-साथ भेद के लिङ्ग-वचन के कारण रूपांतर होता है। ऐसी अवस्था में इनकी व्याख्या में दोनों रूपों का उल्लेख होना चाहिये। (अ०—१८६—अ)।]

वचन को—यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुल्लिङ्ग, एकवचन, सप्रत्यय कर्मकारक; 'पालता' सकर्मक क्रिया से अधिकृत।

नहीं—यौगिक क्रिया-विशेषण, निषेधवाचक, विशेष्य 'पालता' क्रिया।

पालता—मूल क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य वर्तमान-काल, अन्यपुरुष, पुल्लिङ्ग, एकवचन, जो कर्ता से अन्वित, 'वचन को' कर्म पर अधिकार। कर्त्तरिप्रयोग। (नहीं के योग से "है" सहायक क्रिया का लोप, अ०—६५३—ए)।

वह—रूढ़ सर्वनाम, निश्चयवाचक, 'जो' सर्वनाम की ओर संकेत करता है, अन्यपुरुष, पुल्लिङ्ग, एकवचन, प्रधान कर्त्ताकारक 'है' क्रिया का।

विश्वास के—यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुल्लिङ्ग, एकवचन, संबंध-कारक, संबंधो शब्द 'योग्य'। इस विशेषण के योग से विकृत रूप।

योग्य—यौगिक विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य 'वह', पुल्लिङ्ग, एकवचन, विधेय-विशेषण। इसका प्रयोग सवधसूचक के समान हुआ है। (अ०—२३६)।

नहीं—यौगिकक्रिया-विशेषण, निषेधवाचक, विशेष्य "है"।

है—मूल अपूर्ण-क्रिया, स्थितिवोधक, अकर्मक, कर्तृवाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य वर्तमान-काल, अन्यपुरुष, पुल्लिङ्ग, एकवचन, 'वह' कर्ता से अन्वित। कर्त्तरि-प्रयोग।

(३) वाक्य—यहाँ उन्होंने अपने खोये हुए राज्य को फेर लिया और फिर दमयंती को बेटा-बेटी समेत पास बुलाकर बहुत काल तक सुख-चैन से रहे ।

यहाँ—यौगिक क्रिया-विशेषण, स्थान-वाचक, विशेष्य 'फेर लिया' ।

उन्होंने—रूढ़ सर्वनाम, निश्चय-वाचक, लुप्त 'नल' संज्ञा की ओर संकेत करता है, अन्यपुरुष, पुल्लिंग, आदरार्थ बहुवचन, अप्रधान कर्त्ताकारक, 'फेर लिया' क्रिया का ।

अपने—रूढ़ सर्वनाम, निजवाचक, 'उन्होंने' सर्वनाम की ओर संकेत करता है, अन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, संबंध-कारक, संबंधी शब्द 'राज्य को' । विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण विकृत रूप ।

खोये हुए—मूल सकर्मक, भूतकालिक कृदंत विशेषण (कर्म-वाचक), विशेष्य 'राज्य को', पुल्लिंग, एकवचन । विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण विकृत रूप ।

राज्य को—यौगिक संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, सप्रत्यय कर्मकारक, 'फेर लिया' सकर्मक क्रिया से अधिकृत ।

फेर लिया—संयुक्त सकर्मक क्रिया, अवधारण-बोधक, कर्तृ-वाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, इसका कर्त्ता 'उन्होंने' । कर्म 'राज्य को' । भावेप्रयोग ।

और—रूढ़ संयोजक समुच्चय-बोधक, अव्यय, दो वाक्यांशों को मिलाता है—

(१) यहाँ उन्होंने.....फेर लिया ।

(२) फिर दमयंती को.....रहे ।

फिर—रूढ़ क्रियाविशेषण अव्यय, कालवाचक, 'रहे' क्रिया की विशेषता बतलाता है ।

दमयंती को—रूढ व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, सप्रत्यय कर्म-कारक, 'बुलाकर पूर्वकालिक कृदंत से अधिकृत ।

बेटा-बेटी—द्वंद्व-समास, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, अविकृत रूप, 'समेत' संबंधसूचक अव्यय से संबंध । (अं०—२३२—ख) ।

समेत—यौगिक संबंधसूचक अव्यय, 'बेटा-बेटी' संज्ञा के अविकृतरूप के आगे आकर 'बुलाकर' पूर्वकालिक कृदंत से उसका संबंध मिलाता है ।

पास—रूढ क्रियाविशेषण अव्यय, स्थान-वाचक, 'बुलाकर' पूर्वकालिक कृदंत की विशेषता बतलाता है ।

बुलाकर—यौगिक सकर्मक पूर्वकालिक कृदंत, कर्तृवाच्य, 'दमयंती को' कर्म पर अधिकार, मुख्य क्रिया 'रहे' की विशेषता बताता है ।

बहुत—रूढ विशेषण, परिमाण-वाचक, विशेष्य 'काल,' पुल्लिंग, एक-वचन ।

काल—रूढ संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अविकृतरूप, "तक" संबंधसूचक अव्यय से संबंध ।

तक—रूढ संबंधसूचक अव्यय, 'काल' संज्ञा के (अविकृतरूप के) आगे आकर 'रहे' क्रिया से उसका संबंध मिलाता है ।

[सू०—“काल तक” की व्याख्या एक-साथ भी हो सकती है । तब इसे क्रिया-विशेषण वाक्यांश अथवा (किसी-किसी के मतानुसार) अवधिवाचक अधिकरण-कारक कह सकते हैं ।]

सुख-चैन से—द्वंद्व-समास, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, करण-कारक, साहित्यार्थ, 'रहे' क्रिया से संबंध ।

रहे—मूल क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, पुँल्लिंग, आदरार्थ बहुवचन, इसका कर्ता 'वे' (लुप्त), कर्त्तरिप्रयोग ।

(ख) कठिन वाक्य-रचना के शब्द ।

[सू०—इन शब्दों के उदाहरणों में प्रत्येक शब्द का पद-परिचय न देकर केवल मुख्य-मुख्य शब्दों की व्याख्या दी जायगी । किसी-किसी शब्द की व्याख्या में केवल मुख्य बातें ही कही जावेंगी ।]

(१) सिंह दिन को सोता है ।

दिन को—अधिकरण के अर्थ में सप्रत्यय कर्मकारक । (दिन को = दिन में । अ०-५२५)

(२) मुझे वहाँ जाना था ।

मुझे—रूढ़ पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता के नाम की ओर संकेत करता है, उत्तमपुरुष, उभयलिंग, एकवचन, कर्त्ता के अर्थ में संप्रदान-कारक, 'जाना था' क्रिया से संबंध ।

जाना था—संयुक्त क्रिया, आवश्यकताबोधक, अकर्मक, कर्तृ-वाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, पुँल्लिंग, एकवचन, कर्त्ता 'मुझे', भावेप्रयोग ।

[सू०—किसी-किसी का मत है कि इस प्रकार के वाक्यों में क्रियार्थक संज्ञा 'जाना' कर्त्ता है और उसका अन्वय इकहरी क्रिया "था" से है । इस मत के अनुसार प्रस्तुत वाक्य का यह अर्थ होगा कि मेरा वहाँ जाने का व्यवहार था जो अब नहीं है । इस अर्थ-भेद के कारण "जाना था" को संयुक्त क्रिया ही मानना ठीक है ।]

(३) संवत् १८५७ वि० में बड़ा अकाल पड़ा था ।

संवत्—अधिकरण-कारक ।

१८५७—कर्मधारय-समास, क्रम-संख्यावाचक विशेषण, विशेष्य 'संवत्', पुँल्लिंग, एकवचन ।

वि० (विक्रमी)—यौगिक विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य 'संवत्', पुँल्लिंग, एकवचन ।

(४) किसी की निदा न करनी चाहिये ।

करनी चाहिये—संयुक्त क्रिया, कर्तृव्यबोधक, सकर्मक, कर्तृवाच्य, निश्चयार्थ, संभाव्य भविष्यत्-काल, (अर्थ सामान्य वर्तमान), अन्यपुरुष, पुँल्लिंग, एकवचन, कर्ता 'मनुष्य को' (लुप्त), कर्म निदा, कर्मणिप्रयोग ।

(५) उस समय एक बड़ी भयानक आंधी आई ।

उस—सार्वनामिक निश्चयवाचक विशेषण, विशेष्य समय, पुँल्लिंग, एकवचन, विशेष्य विकृत कारक में होने के कारण विशेषण का विकृत रूप ।

समय—अधिकरण कारक, विभक्ति लुप्त है (अं०—५५५) ।

बड़ी—परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, विशेष्य 'भयानक' विशेषण । मूल में आकारात् विशेषण होने के कारण विकृत रूप । (स्त्रीलिंग) ।

(६) यह लडका गानेवाला है ।

(क) **गानेवाला**—यौगिक कर्तृवाचक कृदंत, सकर्मक, संज्ञा, जातिवाचक, कर्ता-कारक, 'लडका' संज्ञा का समानाधिकरण, 'है' क्रिया की पूर्ति ।

(ख) **गानेवाला**—भविष्यत्काल-वाचक सकर्मक कृदंत, विशेषण, विशेष्य 'लडका', विधेय-विशेषण, पुँल्लिंग, एकवचन । यह पदपरिचय अर्थांतर में है ।

(७) रानी ने सहेलियों को बुलाया ।

बुलाया—कर्तृवाच्य, भावेप्रयोग ।

(ँ) दुर्गध को मारे यहाँ कैसे बैठा जायगा ।

मारे—यौगिक संबंधसूचक अव्यय, 'दुर्गंध' संज्ञा के संबंध-कारक के साथ आकर उसका संबंध 'बैठा जायगा' क्रिया से मिलाता है। (यह शब्द 'मारा' भूतकालिक कृदंत का विकृत रूप है।)

बैठा जायगा—अकर्मक क्रिया, भाववाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भविष्यत्-काल, अन्यपुरुष, पुल्लिङ्ग, एकवचन, इसका उद्देश्य (बैठना) क्रिया के अर्थ में सम्मिलित है, भावेप्रयोग।

(८) गणित सीखा हुआ आदमी व्यापार में सफल होता है।

गणित—अप्रत्यय कर्मकारक, 'सीखा हुआ' सकर्मक भूतकालिक कृदंत विशेषण का कर्म।

सीखा हुआ—इसका प्रयोग यहाँ कर्तृवाचक है, 'विशेष्य' 'आदमी'।

आदमी—यौगिक संज्ञा।

(१०) कहनेवाले को क्या कहे कोई।

क्या—प्रश्नवाचक सर्वनाम, 'नाम' लुप्त संज्ञा की ओर संकेत करता है, अन्यपुरुष, पुल्लिङ्ग, एकवचन, कर्म-कारक, 'कहे' द्विकर्मक क्रिया की कर्म-पूर्ति।

कहे—क्रिया द्विकर्मक, कर्तृवाच्य, संभावनार्थ, संभाव्य भविष्यत्-काल, अन्यपुरुष, उभयलिङ्ग, एकवचन, कर्त्ता 'कोई' से अन्वित, मुख्यकर्म 'कहनेवाले को' और कर्म-पूर्ति 'क्या' पर अधिकार। कर्त्तरिप्रयोग।

(११) गाड़ी में माल लादा जा रहा है।

माल—कर्त्ता-कारक, 'लादा जाता है' क्रिया का कर्म; उद्देश्य होकर आया है।

लादा जा रहा है—अवधारण-बोधक संयुक्त क्रिया, सकर्मक, कर्मवाच्य, निश्चयार्थ, अपूर्ण वत्तमानकाल, अन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, 'माल' अप्रत्यय कर्म (उद्देश्य) से अन्वित, कर्ता लुप्त । कर्मणि-प्रयोग ।

(१२) फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता ।

उन्हें—कर्म-कारक, 'लिटाया जाता' क्रिया का सप्रत्यय कर्म, उद्देश्य होकर आया है ।

लिटाया जाता—क्रिया, सकर्मक, कर्मवाच्य, निश्चयार्थ, अपूर्ण भूतकाल, सहकारी क्रिया 'था' का लोप, अन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, 'उन्हें' सप्रत्यय कर्म-उद्देश्य, कर्ता लुप्त । भावेप्रयोग ।

(१३) आठ बजकर दस मिनट हुए हैं ।

आठ—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्त्ताकारक, 'बजकर' पूर्वकालिक कृदंत का स्वतंत्र कर्त्ता । यहाँ 'आठ' सख्यावाचक विशेषण संज्ञा की नाईं आया है ।

बजकर—अकर्मक, पूर्वकालिक कृदंत अव्यय, कर्त्तृवाच्य, इसका स्वतंत्र कर्त्ता 'आठ', यह मुख्य क्रिया 'हुए हैं' की विशेषता बताता है ।

(१४) यह सुनतेही मा वाप कुँअर के पास दौड़े आये ।

सुनतेही—यौगिक तात्कालिक कृदंत, सकर्मक, कर्त्तृवाच्य, 'यह' कर्म पर अधिकार, 'आये' मुख्य क्रिया की विशेषता बतलाता है ।

दौड़े—अकर्मक भूतकालिक कृदंत विशेषण, विशेष्य 'मा-वाप', पुल्लिंग, बहुवचन ।

(१५) गिनते-गिनते नौ महीने पूरे हुए ।

गिनते-गिनते—पुनरुक्त अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत, अव्यय, कर्त्तृवाच्य (अर्थ कर्मवाच्य), उद्देश्य 'महीने', कर्त्ता लुप्त; 'हुए' क्रिया की विशेषता बतलाता है ।

(१६) मुझको हँसते देख सब-कोई हँस पड़े ।

हँसते—अकर्मक वर्तमानकालिक कृदंत विशेषण, विशेष्य 'मुझको', विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण अविकारी रूप ।

सब-कोई—संयुक्त अनिश्चयवाचक सर्वनाम, "लोग" (लुप्त) संज्ञा की ओर संकेत करता है । अन्यपुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्त्ता-कारक 'हँस पड़े' क्रिया का ।

हँस-पड़े—संयुक्त अकर्मक क्रिया, अचानकता-बोधक, सामान्य भूतकाल, कर्त्तरि-प्रयोग ।

(१७) शिष्य को चाहिये कि गुरु की सेवा करे ।

चाहिये—क्रिया सकर्मक, कर्त्तृवाच्य, निश्चयार्थ, संभाव्य-भविष्यत्काल (अर्थ सामान्य वर्तमान-काल), अन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्त्ता 'शिष्य को', कर्म दूसरा वाक्य 'गुरु.....करे ।' आवेप्रयोग । "चाहिये" अविकारी क्रिया है ।

(१८) किसान भी अशर्फियों की गठरी ले चलता हुआ ।

भी—अवधारण-बोधक अव्यय, 'किसान' संज्ञा के विषय में अधिकता सूचित करता है । (यह क्रिया-विशेषण भी माना जा सकता है; क्योंकि यह 'चलता हुआ' के विषय में भी अधिकता सूचित करता है ।)

[सू०—कोई-कोई इसे संयोजक समुच्चय-बोधक अव्यय समझकर ऐसा मानते हैं कि यह पहले कहे हुए किसी शब्द को प्रस्तुत वाक्य के निर्दिष्ट शब्द से मिलाता है । इस मत के अनुसार 'भी' 'किसान' संज्ञा को पहले कहीं हुई किसी संज्ञा से मिलाता है ।]

चलता—वर्तमानकालिक कृदंत विशेषण, विशेष्य किसान ।

"चलता हुआ" को निश्चयवाचक संयुक्त क्रिया भी मान सकते हैं ।" (अ०—४०७—१८) ।

(१९) जो न होत जग जनम भरत को ।

सकल धरम-धुर धरणि धरत को ॥

जो—संकेतवाचक समुच्चय-बोधक अव्यय, दो वाक्यों को जोड़ता है—जो '.....' भरत को और सकल '.....' धरत को ।

होत—स्थितिवाचक अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, संकेतार्थ, सामान्य संकेतार्थ-काल, अन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता 'जनम', कर्त्तरिप्रयोग ।

को (= का)—संबंध कारक की विभक्ति ।

धरत—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य संकेतार्थ-काल, कर्ता 'को', कर्म 'धर्म-धुर', कर्त्तरिप्रयोग ।

को—प्रश्नवाचक सर्वनाम, कर्त्ताकारक ।

(२०) उन्होंने चट मुझको मेज पर खड़ा कर दिया ।

चट—कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय, 'कर दिया' क्रिया की विशेषता बतलाता है ।

खड़ा—विधेय-विशेषण, विशेष्य "मुझको", "कर दिया" अपूर्ण सकर्मक क्रिया की पूर्ति ।

(२१) मेरे रामको तो सब साफ मालूम होता था ।

मेरे राम को (= मुझको)—संयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तमपुरुष, संप्रदान-कारक, 'होता था' क्रिया से संबंध ।

तो—अवधारणबोधक अव्यय, 'मेरे राम को' सर्वनाम के अर्थ में निश्चय जनाता है ।

साफ—क्रिया-विशेषण, रीतिवाचक, 'होता था' क्रिया की विशेषता बतलाता है ।

(२२) धन, धरती, सब का सब हाथ से निकल गया ।

सब का सब—सर्वनामिक वाक्यांश, 'धन, धरती' संज्ञाओं को और संकेत करता है, कर्त्ता-कारक, 'निकल गया' क्रिया से अन्वित ।

(२३) जो अपने से बहुत बड़े हैं, उनसे घमंड क्या !

अपने से—निजवाचक सर्वनाम, 'मनुष्य' लुप्त संज्ञा की ओर संकेत करता है, अपादान-कारक, 'हैं' क्रिया से संबंध ।

क्या—रीतिवाचक क्रिया-विशेषण, (हो सकता है) लुप्त क्रिया की विशेषता बताता है । **क्या—कैसे** ।

(२४) **क्या मनुष्य निरा पशु है ?**

क्या—प्रश्नवाचक अव्यय, 'है' क्रिया की विशेषता बताता है ।

निरा—विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य 'पशु' संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन ।

(२५) **मुझे भी पूरी आशा थी कि कभी न कभी** अवश्य छुटकारा होगा ।

कभी न कभी—क्रिया-विशेषण-वाक्यांश, कालवाचक ।

(२६) यह अपमान भला किससे सहा जायगा ?

भला—विस्मयादिवोधक, अनुमोदन-सूचक ।

(२७) होनेवाली बात मानो उसे पहले ही से मालूम हो गई थी ।

मानो—(मूल में क्रिया) समुच्चयबोधक, समतासूचक, प्रस्तुत वाक्य को पहले वाक्य से मिलाता है ।

पहले ही से—क्रियाविशेषण वाक्यांश, कालवाचक ।

मालूम—'वात' संज्ञा का विधेय-विशेषण ।

(२८) **अबके तीन-बार** जयध्वनि सुन पड़ी ।

अबके—क्रियाविशेषण ।

तीन-बार—क्रियाविशेषण-वाक्यांश ।

[सू०—कोई-कोई 'तीन' और 'बार' शब्दों की अलग-अलग व्याख्या करते हैं । वे 'बार' के पश्चात् तक संबंधसूचक अव्यय का अव्याहार मानकर 'बार' को संज्ञा लेखते हैं ।]

सुन पड़ी संयुक्त सकर्मक क्रिया, अवधारणबोधक, कर्तृवाच्य (अर्थ कर्मवाच्य), निश्चयार्थ, सामान्यभूत-काल, अन्यपुरुष, स्त्री-लिंग, एकवचन, उद्देश्य 'जयध्वनि', कर्त्तरिप्रयोग ।

(२६) यह छः गज लंबा और कम से कम तीन गज मोटा था ।

छः गज—परिमाणवाचक विशेषण, विशेष्य 'यह' ।

[सू०—छः शब्द संख्यावाचक विशेषण है और गज शब्द जातिवाचक संज्ञा है; परन्तु दोनों मिलकर 'यह' सर्वनाम के द्वारा किसी संज्ञा का परिमाण सूचित करते हैं । 'छ गज' को परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण भी मान सकते हैं, क्योंकि वह एक प्रकार से 'लंबा' विशेषण की विशेषता बताता है । किसी-किसी के विचार से छ और गज शब्दों की व्याख्या अलग-अलग होनी चाहिए । ऐसी अवस्था में गज शब्द को या तो संबंध-कारक में (= छ गज का लंबा) मानना पड़ेगा, या उसे 'यह' का समानाधिकरण स्वीकार करना होगा ।]

कम से कम—परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण-वाक्यांश, विशेष्य 'तीन' अथवा 'तीन-गज' ।

(३०) मैं अभी उसे देखता हूँ न ।

न—अवधारण-बोधक अव्यय (क्रिया-विशेषण), 'देखता हूँ' क्रिया के विषय में निश्चय सूचित करता है ।

(३१) क्या घर में, क्या वन में, ईश्वर सब जगह है ।

क्या—क्या—संयोजक समुच्चय-बोधक, 'घर में' और 'वन में' संज्ञाओं को जोड़ता है ।

तीसरा भाग ।

वाक्य-विन्यास ।

दूसरा परिच्छेद ।

वाक्य-पृथक्करण ।

पहला अध्याय ।

विषयारंभ ।

• ६७६—वाक्य-पृथक्करण के द्वारा शब्दों, तथा वाक्यों का परस्पर संबंध जाना जाता है और वाक्यार्थ को स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है ।

[टी०—यद्यपि इस प्रक्रिया के सूक्ष्म तत्त्व संस्कृत भाषा में पाये जाते हैं और वहाँ से हिंदी के कुछ व्याकरणों में लिये गये हैं, तथापि इसके विस्तृत विवेचन की उत्पत्ति अंगरेजी भाषा के व्याकरण से है, जिसमें यह विषय न्यायशास्त्र से लिया गया है और व्याकरण के साथ इसकी संगति मिलाई गई है ।]

(क) वाक्य के साथ, रूप की दृष्टि से, जैसा व्याकरण का निकट संबंध है वैसा ही, अर्थ के विचार से, न्यायशास्त्र का भी घना संबंध है । व्याकरण का मुख्य विषय वाक्य है, पर न्यायशास्त्र का मुख्य विषय वाक्य नहीं, किंतु अनुमान है, जिसके पूर्व उममें, अर्थ की दृष्टि से, पदों और वाक्यों का विचार किया जाता है । न्यायशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में तीन बातें होनी चाहिये—

• कोई-कोई इसे वाक्य-विश्लेषण कहते हैं ।

दो पद और एक विधान-चिह्न। दोनों पदों को क्रमशः उद्देश्य और विधेय तथा विधान-चिह्न को संयोजक कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य और विधेय में, परस्पर, जो सङ्गति वा विसङ्गति होती है उसी के संबंध से वाक्य में यथार्थ विधान किया जाता है और इस विधान को संयोजक शब्द से सूचित करते हैं। साधारण बोल-चाल में वाक्यों के ये तीन अवयव बहुधा अलग-अलग अथवा स्पष्ट नहीं रहते, इसलिए भाषा के प्रचलित वाक्यों को न्याय-शास्त्र में योग्य स्वरूप दिया जाता है, अर्थात् न्याय-शास्त्र के स्वीकृत वाक्यों में उद्देश्य, विधेय और संयोजक स्पष्टता से रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, “घोड़ा दौड़ा”, इस साधारण बोलचाल के वाक्य को न्याय शास्त्र में “घोड़ा दौड़नेवाला था” कहेंगे। व्याकरण में इस प्रकार का रूपांतर संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, आदि का निश्चय अधिकांश में शब्दों के रूपों की संगति पर अवलंबित है। न्यायशास्त्र में उद्देश्य और विधेय की संगति पर केवल अर्थ की दृष्टि से ध्यान दिया जाता है; इसलिए व्याकरण के वाक्य को जैसा का तैसा रखकर, उसमें न्यायशास्त्र के उद्देश्य और विधेय का प्रयोग करते हैं। व्याकरण और न्याय-शास्त्र के इसी मेल का नाम वाक्य-पृथक्करण है। वाक्य-पृथक्करण में केवल व्याकरण की दृष्टि से विचार नहीं कर सकते, और न केवल न्याय-शास्त्र की ही दृष्टि से, किंतु दोनों के मेल पर दृष्टि रखनी पड़ती है।

साधारण बोलचाल के वाक्यों में न्याय-शास्त्र का संयोजक शब्द बहुधा मिला हुआ रहता है, और व्याकरण में उसे अलग बताने की आवश्यकता नहीं होती; इसलिए वाक्य-पृथक्करण की दृष्टि से वाक्य

के केवल दोही मुख्य भाग माने जाते हैं—उद्देश्य और विधेय । व्याकरण में कर्म को विधेय से भिन्न मानते हैं, परंतु न्यायशास्त्र में वह विधेय के अंतर्गत ही माना जाता है । यहाँ यह कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि उद्देश्य और कर्त्ता तथा विधेय और क्रिया समानार्थक शब्द नहीं हैं; यद्यपि व्याकरण के कर्त्ता और क्रिया बहुधा न्यायशास्त्र के क्रमशः उद्देश्य और विधेय होते हैं ।

दूसरा अध्याय ।

वाक्य और वाक्यों में भेद ।

६७७—एक विचार पूर्णता से प्रगट करनेवाले शब्द-समूह को वाक्य कहते हैं । (अ०—८६—अ) ।

६७८—वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं—(१) उद्देश्य और (२) विधेय ।

(अ) जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करनेवाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं, जैसे, आत्मा अमर है, घोड़ा दौड़ रहा है, राम ने रावण को मारा, इन वाक्यों में आत्मा, घोड़ा, और राम ने उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है अर्थात् विधान किया गया है ।

(आ) उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाले शब्दों को विधेय कहते हैं, जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में आत्मा, घोड़ा, राम ने, इन उद्देश्यों के विषय में क्रमशः अमर है, दौड़ रहा है, रावण को मारा, ये विधान किये गये हैं, इसलिए इन्हे विधेय कहते हैं ।

६७९—उद्देश्य और विधेय प्रत्येक वाक्य में बहुधा स्पष्ट रहते हैं, परंतु भाववाच्य में उद्देश्य प्रायः क्रिया ही में नन्मिलित रहता

है; जैसे मुँहसे चला नहीं जाता, लड़के से बोलते नहीं बनता। इन वाक्यों में क्रमशः चलना और बोलना उद्देश्य क्रिया ही के अर्थ में मिले हुए हैं।

६८०—रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—
(१) साधारण (२) मिश्र और (३) संयुक्त।

(क) जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं; जैसे, आज बहुत पानी गिरा। विजली चमकती है।

(ख) जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक वा अधिक समापिका क्रियाएँ रहती हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं; जैसे, वह कौनसा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। जब लड़का पाँच बरस का हुआ तब पिता ने उसे मदरसे को भेजा। वैदिक लोग कितना भी अच्छा लिखें, तो भी उनके अक्षर अच्छे नहीं बनते।

मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं और दूसरे वाक्यों को आश्रित उप-वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य स्वयं सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने से उनका अर्थ निकलता है। ऊपर के वाक्यों में 'वह कौनसा मनुष्य है', 'तब पिता ने उसे मदरसे को भेजा,' 'तोभी उनके अक्षर अच्छे नहीं बनते', ये मुख्य उपवाक्य हैं और शेष उपवाक्य इनके आश्रित होने के कारण आश्रित उपवाक्य हैं।

(ग) जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के आश्रित नहीं रहते।

उदा०—सपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जातिद्वेष क्रमशः घटता जाता है । (दो साधारण वाक्य ।)

सिंह में सूँघने की शक्ति नहीं होती, इसलिए जब कोई शिकार उसकी दृष्टि के बाहर हो जाता है तब वह अपनी जगह को लौट आता है । (एक साधारण और एक मिश्र वाक्य ।)

जब भाफ जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कुहरा कहते हैं, और जब वह हवा में कुछ ऊपर दीख पड़ती है, तब उसे मेघ वा बादल कहते हैं । (दो मिश्र वाक्य ।)

[सू०—मिश्र वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्य एक-दूसरे के समानाधिकरण हो तो उन्हें आश्रित समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं । इसके विरुद्ध, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्य मुख्य समानाधिकरण उपवाक्य कहाते हैं ।]

६८१—वाक्य और वाक्यांश में अर्थ और रूप, दोनों का अंतर रहता है । (अ०—८६) । वाक्य में एक पूर्ण विचार रहता है, परंतु वाक्यांश में केवल एक वा अधिक भावनाएँ रहती हैं । रूप के अनुसार दोनों में यह अंतर है कि वाक्य में एक क्रिया रहती है; परंतु वाक्यांश में बहुधा कृदंत वा संबंध-सूचक अव्यय रहता है; जैसे, काम करना, सवेरे जल्दी उठना, नदी के किनारे, दूर से आया हुआ ।

तीसरा अध्याय ।

साधारण वाक्य ।

६८२—साधारण वाक्य में एक संज्ञा उद्देश्य और एक क्रिया विधेय होती है और इन्हें क्रमशः साधारण उद्देश्य और साधारण

विधेय कहते हैं। उद्देश्य बहुधा कर्त्ताकारक में रहता है; पर कभी-कभी वह दूसरे कारकों में भी आता है। जैसे—

(१) प्रधान कर्त्ता-कारक—**लड़का** दौड़ता है। **स्त्री** कपड़ा सीती है। **बंदर** पेड़ पर चढ़ रहे थे।

(२) अप्रधान कर्त्ता-कारक—**मैंने** लड़के को बुलाया। **शिपाही** ने चोर को पकड़ा। **हमने** अभी नहाया है।

(३) अप्रत्यय कर्मकारक (कर्मवाच्य में)—**चिट्ठी** लिखी जायगी, **दवाई** बनाई गई है।

(४) सप्रत्यय कर्म-कारक—**नौकर** को वहाँ भेजा जायगा। **शास्त्री जी** को सभापति बनाया गया। (अ०—५२०—ड)

(५) करण-कारक (भाववाच्य में, किसी किसी के मतानुसार)—**लड़के** से चला नहीं जाता। **मुझसे** बोलते नहीं बनता। (अ०—६७६)।

(६) संप्रदान-कारक—**आपको** ऐसा न कहना चाहिये था। **मुझे** वहाँ जाना था। **काजी** को यही हुक्म देते बना।

६८३—साधारण उद्देश्य में संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाले दूसरे शब्द आते हैं; जैसे,

(अ) संज्ञा—**हवा** चलती है; **लड़का** आया।

(आ) सर्वनाम—**तुम** पढ़ते थे, वे जावेगे।

(इ) विशेषण—**विद्वान्** सब जगह पूजा जाता है। **मरता** क्या नहीं करता।

(ई) क्रिया-विशेषण (क्वचित्)—(जिनका) भीतर बाहर एक सा हो (सत्य०)।

(उ) वाक्यांश—**वहाँ जाना** अच्छा नहीं है। **भूठ बोलना** पाप है। **खेत का खेत** सूख गया।

(ऊ) संज्ञा के समान उपयोगमें आनेवाला कोई भी शब्द—
“दौड़कर” पूर्वकालिक कृदंत है। “क” व्यंजन है।

[सू०—एक वाक्य भी उद्देश्य हो सकता है, पर उस अवस्था में वह अकेला नहीं आता, किंतु मिश्र वाक्य का एक अवयव होकर आता है।
(अ०—७०२) ।]

६८४—वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषणों को जोड़कर उसका विस्तार करते हैं। उद्देश्य की संज्ञा नीचे लिखे शब्दों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है—

(क) विशेषण—अच्छा लड़का माता-पिता की आज्ञा मानता है। लाखों आदमी हैजे से मर जाते हैं।

(ख) संबंधकारक—दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। भोजन की सब चीजें ली गईं। इस द्वीप की स्त्रियाँ बड़ी चंचल होती हैं। जहाज पर के यात्रियों ने आनंद मनाया।

(ग) समानाधिकरण शब्द—परमहंस कृष्णस्वामी काशी को गये। उनके पिता जयसिंह यह बात नहीं चाहते थे।

(घ) वाक्यांश—दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। आकाश में फिरता हुआ चंद्रमा राहु से ग्रसा जाता है। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है।

[सू०—(१) उद्देश्य का विस्तार करनेवाले शब्द स्वयं अपने गुणवाचक शब्दों के द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं, जैसे, एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी। आपके बड़े लड़के का नाम क्या है ? जहाज का सचसे ऊपर का हिस्सा पहले दिखाई देता है।

(२) ऊपर लिखे एक अथवा अनेक शब्दों से उद्देश्य का विस्तार हो सकता है, जैसे, तेजी के साथ दौड़ती हुई, छोटी छोटी, सुनहरी मधु-लिरिया साफ दिखाई पड़ती थीं। घोड़ों की टापी की, चढ़ती हुई आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। वाजिद-अली के समय का, र्टों से बना हुआ, एक पक्का मकान अभी तक चढ़ा है।]

६८५ —साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया रहती है, और वह किसी-भी वाच्य, अर्थ, काज, पुरुष, लिंग, वचन और प्रयोग में आ सकती है। “क्रिया” शब्द में संयुक्त क्रिया का भी समावेश होता है। उदा०—

पानी गिरा। लडका जाता है। पत्थर फेंका जायगा। धीरे-धीरे उजेला होने लगा।

(क) साधारणतः अकर्मक क्रियाएँ अपना अर्थ स्वयं प्रकट करती हैं; परंतु कोई-कोई अकर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं कि उनका अर्थ पूरा करने के लिए उनके साथ कोई शब्द लगाने की आवश्यकता होती है। वे क्रियाएँ ये हैं—बनना, दिखना, निकलना, कहलाना, ठहरना, पडना, रहना।

इनकी अर्थ-पूर्ति के लिए संज्ञा, विशेषण अथवा कोई और गुणवाचक शब्द लगाया जाता है; जैसे, वह आदमी पागल है। उसका लडका चोर निकला। नौकर मालिक बन गया। वह पुस्तक राम की थी।

(ख) सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता और द्विकर्मक क्रियाओं में दो कर्म आते हैं; जैसे, पत्नी घोंसले बनाते हैं। वह आदमी मुझे बुलाता है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है।

(ग) करना, बनाना, समझना, पाना, रखना, आदि सकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य के रूप अपूर्ण होते हैं; जैसे, वह सिपाही सरदार बनाया गया। ऐसा आदमी चालाक समझा जाता है। उसका कहना झूठ पाया गया। उस लडके का नाम शंकर रक्खा गया।

(घ) जब अपूर्ण क्रियाएँ अपना अर्थ आपही प्रकट करती हैं तब वे अकेली ही विधेय होती हैं; जैसे, ईश्वर है। सबेरा हुआ। चंद्रमा दिखता है। मेरी बड़ी बनाई जायगी।

(ड) “होना” क्रिया के वर्त्तमानकाल के रूप कभी-कभी लुप्त रहते हैं, जैसे, मुझे इनसे क्या प्रयोजन (है) । वह अब आने का नहीं (है) ।

६८६—कर्म में उद्देश्य के समान संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाला कोई दूसरा शब्द आता है—

(क) संज्ञा—माली फूल तोड़ता है । सौदागर ने घोड़े बेचे ।

(ख) सर्वनाम—वह आदमी मुझे बुलाता है । मैंने उसको नहीं देखा ।

(ग) विशेषण—दीनों को मत सताओ । उसने डूबते को बचाया ।

(घ) क्रिया-विशेषण (क्वचित्)--वह आजकल कर रहा है ।

(ड) वाक्यांश—वह खेत नापना सीखता है । मैं आप का इस तरह बाते बनाना नहीं सुनूँगा । बकरियों ने खेत का खेत चर लिया ।

(च) संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाला कोई भी शब्द—तुलसीदास ने रामायण में ‘कि’ नहीं लिखी ।

[सू०—मुख्य कर्म के स्थान में एक वाक्य भी आ सकता है ; परंतु उसके कारण संपूर्ण वाक्य मिश्र हो जाता है । (अ०—७०२) ।]

६८७—गौण कर्म में भी ऊपर लिखे शब्द पाये जाते हैं ; जैसे,

(क) संज्ञा—यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है ।

(ख) सर्वनाम—उसे यह कपड़ा पहिनाओ ।

(ग) विशेषण—वे भूखों को भोजन और नंगों को वस्त्र देते हैं ।

(घ) क्रिया-विशेषण (क्वचित्)—यह बात आपने वहाँ (= उनको) तो नहीं बताई ?

(ङ) वाक्यांश—आपके ऐसा कहने को मैं कुछ भी मान नहीं देता ।

(च) संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाला कोई भी शब्द—उनकी 'हाँ' को मैं मान देता हूँ ।

६८८—मुख्य कर्म अप्रत्यय कर्म-कारक में रहता है और गौण कर्म बहुधा स प्रदान-कारक में आता है ; परंतु कहना, बोलना, पूछना, द्विकर्मक क्रियाओं का गौण कर्म करण-कारक में आता है ।

उदा०—तुम क्या चाहते हो ? मैंने उसी कहावी सुनाई । आप लड़के को गिनती सिखाता है । तुमसे यह किसने कहा ?

६८९—कर्मवाच्य में द्विकर्मक क्रियाओं का मुख्य कर्म उद्देश्य हो जाता है और वह कर्त्ताकारक में आता है ; परंतु गौण कर्म ज्यों का त्यों बना रहता है ; जैसे, ब्राह्मण को दान दिया गया, मुझसे वह बात पृछी जायगी ।

६९०—करना, बनाना, समझना, मानना, पाना, कहना, ठहराना आदि सकर्मक क्रियाओं के कर्त्-वाच्य में कर्म के साथ एक और शब्द आता है जिसे कर्म-पूर्ति कहते हैं ; जैसे, ईश्वर राई को पर्वत करता है । मैंने मिट्टी को सेना बनाया ।

कर्म-पूर्ति में नीचे लिखे शब्द आते हैं—

(क) संज्ञा—अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया ।

(ख) विशेषण—मैंने उसे सावधान किया ।

(ग) संबंधकारक—वे मुझे घर का समझते हैं ।

(घ) कृदंत अव्यय—उन्होंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा ।

६९१—कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ उन्हींके धातु से बना हुआ कर्म आता है जिसे सजातीय कर्म कहते हैं ; जैसे, वह अच्छी

चाल चलना है । थोड़ा सिंह की बैठक बैठा । पापी कुत्ते की मौत मरेगा । इस कर्म मे संज्ञा आती है ।

६६२—उद्देश्य के समान पूर्ति और कर्म का भी विस्तार होता है, परन्तु वाक्य-पृथक्करण में उसे अलग बताने की आवश्यकता नहीं है । यहाँ केवल मुख्य कर्म को बढ़ानेवाले शब्दों की सूची दी जाती है—

(क) विशेषण—मैंने एक घड़ी मोल ली । वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है । तुम बुरी बातें छोड़ दो ।

(ख) समानाधिकरण शब्द—आध सेर घी लाओ । मैं अपने मित्र गोपाल को बुलाता हूँ ।

(ग) स बंध-कारक—उसने अपना हाथ बढ़ाया । आज का पाठ पढ़ लो । हाकिम ने गाँव के मुखिया को बुलाया ।

(घ) वाक्यांश—मैंने नटों का बाँस पर चढ़ना देखा । लोग हरिश्चंद्र की बनाई कितावे प्रेम से पढ़ते हैं ।

[सू०—उद्देश्य के समान कर्म में भी थनेक गुणवाचक शब्द एक साथ लगाये जा सकते है और ये गुणवाचक शब्द स्वयं अपने गुणवाचक शब्दों के द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं ।]

६६३—उद्देश्य की संज्ञा के समान, विधेय की क्रिया का भी विस्तार होता है । जिस प्रकार उद्देश्य के विस्तार से उद्देश्य के विषय में अधिक बातें जानी जाती हैं, उसी प्रकार विधेय-विस्तार से विधेय के विषय मे अधिक ज्ञान प्राप्त होता है । उद्देश्य का विस्तार बहुधा विशेषण के द्वारा होता है; परन्तु विधेय क्रिया-विशेषण अथवा उसके समान उपयोग में आनेवाले शब्दों क द्वारा बढ़ाया जाता है ।

६६४—विधेय का विस्तार नीचे लिखे शब्दों से होता है—

(क) संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश—वह घर गया । सब दिन चले अढ़ाई कोस । एक समय बड़ा अकाल पड़ा । उसने कई वर्ष राज्य किया ।

(ख) क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आनेवाला विशेषण—वह अच्छा लिखता है । स्त्री मधुर गाती है । मैं स्वस्थ बैठा हूँ ।

(ग) विशेष्य के परे आनेवाला विशेषण—स्त्रियाँ उदास बैठी थीं । उसका लड़का भला-चंगा खड़ा है । मैं चुपचाप चला गया । कुत्ता भौंकता हुआ भागा । तुम मारे-मारे फिरोगे ।

(घ) पूर्ण तथा अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत—कुत्ता पूँछ हिलाते हुए आया । स्त्री बकते-बकते चली गई । लड़का बैठे-बैठे उकता गया । तुम्हारी लड़की छाता लिये जाती थी ।

(ङ) पूर्वकालिक कृदंत—वह उठकर भागा । तुम दौड़कर चलते हो । वे नहाकर लौट आये ।

(च) तत्कालबोधक कृदंत—उसने आते ही उपद्रव मचाया । स्त्री गिरते ही मर गई । वह लेटते ही सो गया ।

[सू०—इन कृदंतों से बने हुए वाक्यांश भी उपयोग में आते हैं ।]

(छ) स्वतंत्र वाक्यांश—इससे थकावट दूर होकर, अच्छी नींद आती है । तुम इतनी रात गये क्यों आए ? सूरज निकलते ही वे लोग भागे । दिन रहते यह काज हो जायगा । दो बजे गाड़ी आती है । मुझे सारी रात तलफते होती । उनको गये एक साल हो गया । लाश गड्ढा खोदकर गाड़ दी गई ।

(ज) क्रिया-विशेषण वा क्रिया-विशेषण-वाक्यांश—गाड़ी जल्दी चलती है । राजा आज आये । वे मुझसे प्रेमपूर्वक बोले । चोर कहीं न कहीं छिपा है । पुस्तक हाथों-हाथ बिक गई । उसने जैसे-तैसे काम पूरा किया ।

(ऋ) संबंध-सूचकांत शब्द—चिड़िया धोती समेत उड़ गई । वह भूख के मारे मर गया । मैं उनके यहाँ रहता हूँ । अँग-रेजों ने कर्मनाशा तक उसका पीछा किया । मरने के सिवा और क्या होगा ? यह काम तुम्हारी सहायता बिना न होगा ।

(व्य) कर्त्ता, कर्म और संबंध-कारको को छोड़ शेष कारक—मैंने चाकू से फल काटा । वह नहाने को गया है । वृक्ष से फल गिरा । मैं अपने किये पर पछताता हूँ ।

[सू०—(१) संबोधन-कारक बहुधा वाक्य से कोई संबंध नहीं रखता, इसलिए वाक्य-पृथक्करण में उसका कोई स्थान नहीं है ।

(२) एक वाक्य भी विधेय-वर्द्धक हो सकता है, परंतु उसके योग से पूरा वाक्य मिश्र हो जाता है (अं०—७०६) ।]

६६५—एक से अधिक विधेय-वर्द्धक एक ही साथ उपयोग में आ सकते हैं, जैसे, इसके बाद, उसने तुरन्त घर के स्वाामी से कहकर, लडके को पढ़ने के लिए, मदरसे को भेजा । मैं अपना काम पूरा करके, बाहिर के कमरे में, अखबार पढ़ता हुआ बैठा था ।

६६६—अर्थ के अनुसार विधेय-वर्द्धक के नीचे लिखे भेद होते हैं—

(१) कालवाचक—

(अ) निश्चित काल—मैं कल आया । वर्षा पैदा होते ही दूध पीने लगता है । आपके जाने के बाद नौकर आया । गाड़ी पाँच बजे जायगी ।

(इ) अवधि—वह दो महीने बीमार रहा । हम दिन-भर काम करते हैं । क्या तुम मेरे आने तक न ठहरोगे ? मेरे रहते यह काम हो जायगा ।

(७) पौनःपुन्य—उसने बार-बार यह कहा । बढ़ई सटूक बना-बनाकर बेचता है । वे रात-रात-भर जागते हैं । पंडितजी कथा कहते समय बीच-बीच में चुटकुले सुनाते हैं । सिपाही बाढ़ पर बाढ़ छोड़ते हुए आगे बढ़े । काम करते-करते अनुभव हो जाता है ।

(२) स्थानवाचक—

(अ) स्थिति—पंजाब में हाथियों का वन नहीं है । उसके एक लड़का है । हिंदुस्थान के उत्तर में हिमालय पर्वत है । प्रयाग गंगा के किनारे बसा है ।

(इ) गति—(१) आरंभ-स्थान—ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए । गंगा हिमालय से निकलती है । वह घोड़े पर से गिर पड़ा ।

(२) लय-स्थान—गाड़ी बंबई को गई । अंगरेजों ने कर्मनाशा तक उसका पीछा किया । घोड़ा जंगल की तरफ भागा । आगे चले बहुरि रघुराई ।

(३) रीतिवाचक—

(अ) शुद्ध रीति—मोटी लकड़ी बड़ा बोझ अच्छी तरह सम्हालती है । लड़का मन से पढ़ता है । घोड़ा लँगड़ाता हुआ भागा । सारी रात तलफते बीती ।

(इ) साधन (अथवा कर्तृत्व)—मंजी के द्वारा राजा से भेंट हुई । सिपाही ने तलवार से चीते को मारा । यह ताला किसी दूसरी कुंजी से नहीं खुलता । देवता राक्षसों से सताये गये । इस कलम से लिखते नहीं बनता ।

(उ) साहित्य—मेरा भाई एक कपड़े से गया । राजा बड़ी सेना लेकर चढ आया । मैं तुम्हारे साथ रहूँगा । बिना पानी के कोई जीवधारी नहीं जी सकता ।

(४) परिमाणवाचक—

(अ) निश्चय—मैं दस मील चला। धन से विद्या श्रेष्ठ है। यह लडका तुम्हारे बराबर काम नहीं कर सकता। वह खी आठ-आठ आँसू रोती है। सिर से घैर तक आदमी की लवाई छः फुट के लगभग होती है।

(इ) अनिश्चय—वह बहुत करके बीमार है। कदाचित् मैं न जा सकूँगा।

[सू०— नहीं (न, मत) को विधेय-विस्तारक न मानकर साधारण विधेय का अंग मानना उचित है।]

(५) कार्यकारण-वाचक—

(अ) हेतु वा कारण—तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा। धूप कड़ी होने के कारण वे पेड की छाया में ठहर गये। वह मारे डर के काँपने लगा।

(इ) कार्य वा निमित्त—पीने को पानी लाओ। हम नाटक देखने को गये थे। वह मेरे लिए एक किताब लाया। आपको नमस्कार है।

(उ) द्रव्य (उपादान-कारण)—गाय के चमड़े के जूते बनाये जाते हैं। शक्कर से मिठाई बनती है।

(ऋ) विरोध—भलाई करते बुराई होती है। मेरे देखते भेडिया बच्चे को उठा ले गया। तूफान आने पर भी उसने जहाज चलाया। मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है।

६६७—पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार साधारण वाक्य के अवयव जिस क्रम से प्रदर्शित करना चाहिये, उसका विचार यहाँ किया जाता है—

(१) वाक्य का साधारण उद्देश्य लिखो।

(२) यदि उद्देश्य के कोई गुणवाचक शब्द हों तो उन्हें लिखो ।

(३) साधारण विधेय बताओ, और यदि विधेय में अपूर्ण क्रिया हो तो उसकी पूर्ति लिखो ।

(४) यदि विधेय में सकर्मक क्रिया हो तो उसका कर्म बताओ और यदि क्रिया द्विकर्मक अथवा अपूर्ण सकर्मक हो तो क्रमशः उसका गौण कर्म वा पूर्ति भी लिखो ।

(५) विधेय-पूरक के गुणवाचक शब्दों को विधेय-पूरक के साथ ही लिखो ।

(६) विधेय-वर्द्धक बताओ ।

इस सूची से नीचे लिखे दो कोष्ठक प्राप्त होते हैं—

(१)

उद्देश्य		विधेय			
साधारण उद्देश्य	उद्देश्य-वर्द्धक	साधारण विधेय	विधेय-पूरक		विधेय-विस्तारक
			कर्म	पूर्ति	

(२)

उद्देश्य	}	साधारण उद्देश्य
		उद्देश्य-वर्द्धक

विधेय	{	साधारण विधेय
		विधेय-पूरक	{ कर्म	...
			{ पूति	...
		विधेय-विस्तारक

[सू०—इन कोष्ठको में से पहला अधिक प्रचलित है ।]

६६८—पृथक्करण के कुछ उदाहरण—

- (१) पानी बरसा ।
- (२) वह आदमी पागल हो गया ।
- (३) सभापति ने अपना भाषण पढ़ा ।
- (४) इसमें वह वेचारा क्या कर सकता था ?
- (५) सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुँचा ।
- (६) एक सेर घी बस होगा ।
- (७) खेत का खेत सूख गया ।
- (८) यहाँ आये मुझे दो वर्ष हो गये ।
- (९) राजमंदिर से बीस फुट की दूरी पर चारों तरफ दो फुट ऊँची दीवार है ।
- (१०) दुर्गंध के मारे वहाँ बैठा नहीं जाता था ।
- (११) यह अपमान, भला, किससे सहा जायगा ?
- (१२) नेपालवाले बहुत दिनों से अपना राज्य बढाते चले आते थे ।
- (१३) विद्वान् को सदा धर्म की चिंता करनी चाहिये ।
- (१४) मुझे ये दान ब्राह्मणों को देने हैं ।
- (१५) मीर कासिम ने मुँगेर ही को अपनी राजधानी बनाया ।
- (१६) उसका कहना भूठ समझा गया ।

वाक्य	उद्देश्य		विधेय			
	साधारण उद्देश्य	उद्देश्य-वर्द्धक	साधारण विधेय	विधेय-पूरक		विधेय-विस्तारक
				कर्म	पूर्ति	
(१)	पानी	०	गिरा	०	०	०
(२)	आदमी	वह	हो गया	०	पागल	०
(३)	सभापतिने	०	पढ़ा	अपना भाषण	०	०
(४)	वह	बेचारा	कर सकता था	क्या	०	इसमें (स्थान)
(५)	मैं	०	जा पहुँचा	०	०	सीढ़ी के सहारे (साधन); जहाज पर (स्थान)
(६)	घी	एक सेर	होगा	०	बस	०
(७)	खेत का खेत	०	सूख गया	०	०	०
(८)	वर्ष	दो	हो गये	०	०	सुझे यहाँ आये (काल)
(९)	दीवार	दो फुट ऊँची	है	०	०	राजमंदिर से बीस फुट की दूरी पर (स्थान), चारों तरफ (स्थान)
(१०)	बैठना (लुप्त) (क्रियांतर्गत) अथवा किस्ती से (लुप्त)	०	बैठा नहीं जाता था	०	०	दुर्गंध के मारे (कारण); वहाँ (स्थान)
(११)	अपमान	यह	सहा जायगा	०	०	किससे (द्वारा)
(१२)	नैपालवाले	०	चले आते थे	०	०	अपना राज्य बढ़ाते (रीति); बहुत दिनों से (काल)

वाक्य	उद्देश्य		विधेय			
	साधारण उद्देश्य	उद्देश्य-वद्क	साधारण विधेय	विधेय-पूरक		विधेय-विस्तारक
				कर्म	पूर्ति	
(१३)	विद्वान् को	०	करनी चाहिये	धर्म की चिन्ता	०	सदा (काल)
(१४)	मुझे	०	देने हैं	ये दान (मुख्य) ब्राह्मणों को (गौण)	०	०
(१५)	मीर कासिम ने	०	बनाया	मुँगेर को	अपनी राजधानी	०
(१६)	कहना	उसका	समझा गया	०	भूठ	०

चौथा अध्याय ।

मिश्र वाक्य ।

६-६६—मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है; पर आश्रित उपवाक्य एक से अधिक आ सकते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं—संज्ञा-उपवाक्य, विशेषण-उपवाक्य और क्रिया-विशेषण-उपवाक्य।

(क) मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश के बदले जो उपवाक्य आता है उसे संज्ञा-उपवाक्य कहते हैं, जैसे तुमको

कब योग्य है कि वन में बसो ? इस वाक्य में 'वन में बसो' आश्रित उपवाक्य है और यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के 'वन में बसना' संज्ञा-वाक्यांश के बदले आया है । मुख्य उपवाक्य में इस संज्ञा-वाक्यांश का उपयोग इस तरह होगा—तुमको वन में बसना कब योग्य है ? इसी तरह "इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो," इस मिश्रवाक्य में 'व्यापार की वृद्धि हो', यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा 'व्यापार की वृद्धि' के बदले आया है ।

(ख) मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता बतानेवाला उपवाक्य विशेषण-उपवाक्य कहलाता है ; जैसे, जो मनुष्य धनवान् होता है उसे सभी चाहते हैं । इस वाक्य में "जो मनुष्य धनवान् होता है", यह आश्रित उपवाक्य मुख्य उप-वाक्य के 'धनवान्' विशेषण के स्थान में प्रयुक्त हुआ है । मुख्य उपवाक्य में यह विशेषण इस तरह रखा जायगा—**धनवान्** मनुष्य को सभी चाहते हैं ; और यहाँ 'धनवान्' विशेषण 'मनुष्य' संज्ञा की विशेषता बतलाता है । इसी तरह "यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते", इस वाक्य में "जो दूसरों की चिंता नहीं करते" यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के "दूसरों की चिंता न करनेवाले" विशेषण के बदले आया है जो "मनुष्य" संज्ञा की विशेषता बतलाता है ।

(ग) क्रिया-विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है ; जैसे, जब सबेरा हुआ तब हम लोग बाहर गये । इस मिश्र वाक्य में 'जब सबेरा हुआ' क्रिया-विशेषण-उपवाक्य है । वह मुख्य उपवाक्य के 'सबेरे' क्रियाविशेषण के स्थान में आया है । मुख्य उपवाक्य में इस क्रियाविशेषण का प्रयोग यों होगा—**सबेरे** हम लोग बाहर गये" और वहाँ यह क्रियाविशेषण "गये" क्रिया की विशेषता बतलाता है । इसी प्रकार "मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ कंस गया है", इस मिश्र वाक्य में "जहाँ कंस गया है" यह

आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के “कंस के जाने के स्थान में” क्रिया-विशेषण-वाक्यांश के बदले आया है जो “भेजूँगा” क्रिया की विशेषता बतलाता है ।

[टी०—ऊपर के विवेचन से सिद्ध होता है कि आश्रित उपवाक्यो के स्थान में, उनकी जाति के अनुरूप, उसी अर्थ की संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण रखने से मिश्र वाक्य साधारण वाक्य हो जाता है, और इसके विरुद्ध साधारण वाक्यों की संज्ञा, विशेषण वा क्रिया-विशेषण के बदले, उनकी जाति के अनुरूप, उसी अर्थ के संज्ञा-उपवाक्य, विशेषण-उपवाक्य अथवा क्रिया-विशेषण-उपवाक्य रखने से साधारण वाक्य मिश्र वाक्य बन जाता है ।]

७००—जिस प्रकार साधारण वाक्य में समानाधिकरण सज्ञाएँ, विशेषण वा क्रिया-विशेषण आ सकते हैं, उसी प्रकार मिश्र वाक्य में दो वा अधिक समानाधिकरण आश्रित उपवाक्य भी आ सकते हैं । उदा०—हम चाहते हैं कि लड़के निरोगी रहें और वे विद्वान् हों । इस मिश्र वाक्य में “हम चाहते हैं” मुख्य उपवाक्य है और “लड़के निरोगी रहे” और “विद्वान् हों” ये दो आश्रित उपवाक्य हैं । ये दोनों उपवाक्य “चाहते हैं” क्रिया के कर्म हैं ; इसलिए दोनों समानाधिकरण संज्ञा-उपवाक्य हैं । यदि इनके स्थान में सज्ञाएँ रक्खी जावे तो ये दोनों समानाधिकरण होंगी, जैसे, हम “लड़कों का निरोगी रहना” और “उनका विद्वान् होना” चाहते हैं । इस वाक्य में ‘रहना’ और ‘होना’ सज्ञाओं का ‘चाहते हैं’ क्रिया से ही एक प्रकार का—कर्म का—संबंध है, इसलिए ये दोनों संज्ञाएँ समानाधिकरण हैं ।

(क) मिश्र वाक्य में जिस प्रकार प्रधान उपवाक्य के संबध से आश्रित उपवाक्य आते हैं उसी प्रकार आश्रित उपवाक्यों के संबध से भी आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं, जैसे, नौकर ने कहा कि मैं जिन दूकान में गया था उममें दवा नहीं मिली । इस

वाक्य में “मैं जिस दूकान में गया था”, यह उपवाक्य “उसमें दवा नहीं मिली,” इस संज्ञा-उपवाक्य का विशेषण-उपवाक्य है। इस पूरे वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य है; इसलिए यह समूचा वाक्य मिश्र ही है।

७०१—आश्रित उपवाक्यों के संज्ञा-उपवाक्य, विशेषण-उपवाक्य और क्रिया-विशेषण-उपवाक्य, ये तीन ही भेद होते हैं। उनके और अधिक भेद नहीं हो सकते, क्योंकि संज्ञा, विशेषण और क्रिया-विशेषण के बदले तो दूसरे उपवाक्य आ सकते हैं; परंतु क्रिया का आशय दूसरे उपवाक्य से प्रकट नहीं किया जा सकता। इनको छोड़कर वाक्य में और कोई ऐसे अवयव नहीं होते जिनके स्थान में वाक्य की योजना की जा सके।

संज्ञा-उपवाक्य ।

७०२—संज्ञा-उपवाक्य बहुधा मुख्य वाक्य के संबंध से नीचे लिखे किसी एक स्थान में आता है—

(क) उद्देश्य—इससे जान पड़ता है “कि बुरी संगति का फल बुरा होता है”। मालूम होता है “कि हिंदू लोग भी इसी घाटी से होकर हिंदुस्थान में आये थे”।

(ख) कर्म—वह जानती भी नहीं “कि धर्म किसे कहते हैं”। मैंने सुना है “कि आपके देश में अच्छा राज-प्रबंध है”।

(ग) पूर्ति—मेरा विचार है “कि हिंदी का एक साम्राजिक पत्र निकालूँ”। उसकी इच्छा है “कि आपको मारकर दिलीप-सिंह को गद्दी पर बिठावे”।

(घ) समानाधिकरण शब्द—इसका फल यह होता है “कि इनकी तादाद अधिक नहीं होने पाती”। यह विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाता है “कि मरे हुए मनुष्य इस संसार में लौट आते हैं”।

[सू०—संज्ञा-उपवाक्य केवल मुख्य विधेय ही का कर्म नहीं होता, किंतु मुख्य उपवाक्य में आनेवाले कृद् त का भी कर्म हो सकता है; जैसे, आप यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि इस नगर में अब शांति है। चोर से यह कहना कि तू साहूकार है, वक्रोक्ति कहाती है।]

७०३—संज्ञा-उपवाक्य बहुधा स्वरूप-वाचक समुच्चय-बोधक 'कि' से आरंभ होता है, जैसे, वह कहता है "कि मैं कल जाऊँगा"। आपको कब योग्य है "कि वन में बसो"।

(क) पुरानी भाषा में तथा कहीं-कहीं आधुनिक भाषा में 'कि' के बदले "जो" का प्रयोग पाया जाता है। यथा—बाबा से समझायकर कहो "जो वे मुझे ग्वालो के सग पठाय दे" (प्रेम०)। यही कारण है "जो मर्म ही उनकी समझ में नहीं आता" (स्वा०)।

(ख) जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के पहले आता है, तब 'कि' का लोप हो जाता है और मुख्य उपवाक्य में "यह" निश्चयवाचक सर्वनाम आश्रित उपवाक्य का समानाधिकरण होकर आता है; जैसे "परमेश्वर एक है", यह धर्म की बात है। "मैं आपको भूल जाऊँ," यह कैसे हो सकता है ?

(ग) कर्म के स्थान में आनेवाले आश्रित उपवाक्य के पूर्व 'कि' का बहुधा लोप कर देते हैं, जैसे, पडोसिन ने कहा, अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं। क्या जाने, किसी के मन में क्या है।

(घ) कविता में 'कि' का प्रयोग बहुत कम करते हैं, जैसे,

लषन लखेर, भा अनरथ आजू।

सकल सुकृत कर फल सुत एहू।

राम-सीय-पद सहज सनेहू ॥

(ङ) संज्ञा-उपवाक्य कभी-कभी प्रश्नवाचक होते हैं, और मुख्य उपवाक्य में बहुधा यह, ऐसा अथवा क्या सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे, राजा ने यह न जाना "कि मैं क्या कर रहा

हूँ” । ऊषा क्या देखती है “कि चारों ओर बिजली चमकने लगी” । एक दिन ऐशा हुआ “कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ा ।”

विशेषण-उपवाक्य ।

७०४—विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है; इसलिए वाक्य में जिन-जिन स्थानों में संज्ञा आती है वन्ही स्थानों में उसके साथ विशेषण-उपवाक्य लगाया जा सकता है; जैसे—

(क) उद्देश्य के साथ—जो सोया उसने खोया । एक बड़ा बुद्धिमान् डाक्टर था जो राजनीति के तत्त्व को अच्छी तरह समझता था ।

(ख) कर्म के साथ—वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया । वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है ।

(ग) पृति के साथ—वह कौन सा मनुष्य है जिसने महा-प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो । राजा का घातक एक सिपाही निकला जिसने एक समय उसके प्राण बचाये थे ।

(घ) विधेय-विस्तारक के साथ—आप उस अपकीर्ति पर ध्यान नहीं देते जो बालहत्या के कारण सारे संसार में होती है । उन्होंने जो कुछ दिया उसीसे मुझे परम संतोष है ।

[सू०—ऊपर जो चार मुख्य अवयव बताये गये हैं उनसे यह न समझना चाहिये कि विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की और किसी संज्ञा के साथ नहीं आता । यथार्थ में विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी भी संज्ञा की विशेषता बतलाता है । उदा०—आपने इस अनित्य शरीर का, जो अल्प ही काल में नाश हो जायगा, इतना मोह किया ! इस वाक्य में विशेषण-उपवाक्य—“जो अल्प ही काल में नाश हो जायगा”—उद्देश्यवर्द्धक संज्ञा “शरीर” के साथ आया है ।]

७०५—विशेषण-उपवाक्य संबंध-वाचक सर्वनाम “जो” से आरंभ होता है और मुख्य उपवाक्य में उसका नित्य-संबंधी ‘सो’ वा ‘वह’ आता है। कभी-कभी जो और सो से बने हुए जैसा, जितना और वैसा, उतना भी आते हैं। इनमें से पहले दो विशेषण-उपवाक्य में और पिछले दो मुख्य उपवाक्य में रहते हैं। उदा०—जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा देश वैसा भेष। इत्यादि।

(क) विशेषण-उपवाक्य में कभी-कभी संबंधवाचक क्रिया-विशेषण—जब, जहाँ, जैसे और जितने भी आते हैं, यथा, वे उन देशों में पल सकते हैं जहाँ उनकी जाति का पहले नाम-मात्र न था।

जैसे जाय मोह भ्रम भारी।

करहु सो यत्न विवेक विचारी ॥

इन उदाहरणों में जहाँ = जिस स्थान में, और जैसे = जिस यत्न से।

[सू०—इन संयोजक शब्दों के साथ कभी कभी “कि” अव्यय (फारसी-रचना के अनुकरण पर) लगा दिया जाता है, जैसे, मैंने एक सपना देखा है कि जिसके आगे अब यह सारा खटराग सपना मालूम होता है (गुटका०), ऐसी नहीं जैसी कि अब प्रतिकूलता है हाल में (भारत०) ।]

(ख) कभी-कभी विशेषण-उपवाक्य में एक से अधिक संबंध-वाचक सर्वनाम (वा विशेषण) आते हैं; और मुख्य उपवाक्य में उनमें से प्रत्येक के नित्य-संबंधी शब्द आते हैं, जैसे, जो जैसी संगति करे सो तैसो फल पाय। जो जितना माँगता उमको उतना दिया जाता।

(ग) कभी-कभी संबंधवाचक और नित्य-संबंधी शब्दों में से किसी एक प्रकार के शब्दों का (अथवा पूरे उपवाक्य का) लोप हो जाता है, जैसे, हुआ सो हुआ। जो हो। जो आता। सच हो सो कह दो।

(घ) कभी-कभी संबंधवाचक सर्वनाम के स्थान में प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है; परंतु नित्य-संबंधी सर्वनाम नियमानुसार रहता है, जैसे, अब शिक्षण क्या है सो हम तुम्हें बताते हैं । फिर आगे क्या हुआ सो किसी को न जान पड़ा ।

[सू०—पहले (७०३-ड में) कहा गया है कि संज्ञा-उपवाक्य प्रश्नवाचक होते हैं; इसलिए प्रश्नवाचक संज्ञा-उपवाक्य और प्रश्नवाचक विशेषण-उपवाक्य का अंतर समझना आवश्यक है । जब पहले प्रकार के उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के पश्चात् आते हैं, तब उनकी पहचान में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो वे बहुधा 'कि' समुच्चय-बोधक से आरंभ होते हैं, और दूसरे, वे मुख्य उप-वाक्य के किसी लुप्त वा प्रकट शब्द के समानाधिकरण होते हैं जैसे, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहनेवाले हो । इस मिश्र वाक्य में जो आश्रित उप-वाक्य है वह मुख्य उपवाक्य के 'यह' (लुप्त) शब्द का समानाधिकरण है और संज्ञा-उपवाक्य है । अब-यदि हम इस उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के पूर्व रखकर इस तरह कहें कि "तुम क्या कहनेवाले हो, यह मैं जानता हूँ," तो यह उपवाक्य भी संज्ञा-उपवाक्य है, क्योंकि यह मुख्य उपवाक्य के "यह" शब्द का समानाधिकरण है । यथार्थ में 'यह' शब्द प्रश्नवाचक संज्ञा-उपवाक्यों के संबध से मुख्य उपवाक्य में सदैव आता है अथवा समझा जाता है । पर प्रश्नवाचक विशेषण-वाक्यों के साथ मुख्य वाक्य में बहुधा नित्य-संबंधी 'सो' अथवा 'वह' रहता है और उसका संबध पूरे वाक्य से न रहकर केवल उसी शब्द से रहता है जिसके साथ प्रश्नवाचक वा संबध-वाचक सर्वनाम आता है; जैसे, फिर उसकी क्या दशा हुई सो (वह) मैं नहीं जानता । इस वाक्य में 'सो' अथवा 'वह' का संबध आश्रित उपवाक्य की 'दशा' संज्ञा से है और यह आश्रित उपवाक्य विशेषण-उपवाक्य है ।]

(ड) कभी-कभी मुख्य उपवाक्य में संज्ञा और उसका सर्वनाम, दोनों आते हैं; जैसे, पानी जो बादलों से बरसता है, वह मीठा रहता है; पहला कमरा जहाँ मैं गया, उसमें अंधे सिपाहियों को मर्दन अथवा, मालिश करने का काम सिखलाया जाता है (सर०) ।

[सू०—इस प्रकार की रचना, जिसमें पहले संज्ञा का उपयोग करके पश्चात् उसका संबधवाचक सर्वनाम रखते हैं और फिर कभी-कभी उस संज्ञा

के बदले निश्चयवाचक सर्वनाम भी लाते हैं, अँगरेजी के संबंध-वाचक सर्वनाम की इसी प्रकार की रचना के अनुकरण का फल जान पड़ता है । यह रचना हिंदी में आजकल बढ़ रही है; परंतु पिछले निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग क्वचित् होता है जैसे, सर्वदर्शी सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर का, जो घट घट का अंतर्गामी है, आपके मन में कुछ भी भय उत्पन्न न हुआ (गुटका०) । जवूदीप नाम का प्रदीप, जो दीपक-समान मान को पाता है, प्रसिद्ध क्षेत्र है (श्यामा०) । कहीं-कहीं नदी की तली मोटी रेत से, जिसमें बहुधा वारीक रेत भी मिली होती है, ढँकी रहती है ।]

(च) कभी-कभी विशेषण-उपवाक्य विशेषण के समान मुख्य उपवाक्य की सज्ञा का अर्थ मर्यादित नहीं करता, किंतु उसके विषय में कुछ अधिक सूचना देता है, जैसे, उसने एक नेवला पाला था, जिस पर उसका बड़ा प्रेम था । इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि उसने वही नेवला पाला था, जिस पर उसका बड़ा प्रेम था, किंतु इसका अर्थ यह है कि उसने एक (कोई) नेवला पाला था और उस पर उसका प्रेम हो गया । इसी प्रकार इस (भगले) वाक्य में विशेषण-उपवाक्य मर्यादक नहीं, किंतु समानाधिकरण है—इन कवियों की आमोद-प्रियता और अपव्यय की अनेक कथाएँ सुनी जाती हैं जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है (सर०) । इस अर्थ के विशेषण-उपवाक्य बहुधा मुख्य उपवाक्य के पश्चात् आते हैं और उनके संबंध-वाचक सर्वनाम के बदले विकल्प से “और” के

१. प्रेमसागर में भी ऐसी रचना पाई जाती है जिसमें प्रकट होता है कि या तो यह रचना हिंदी में बहुत पुरानी है और अँगरेजी रचना से इसका कोई संबंध नहीं है, किंतु फारसी रचना से है, (संस्कृत में ऐसी रचना नहीं है) । या लखू जीलाल पर भी अँगरेजी का प्रभाव पड़ा है । प्रेमसागर का उदाहरण यह है—यह पाप-रूप, काल-भावरण, दरावनी-मूरत, जो आपके सम्मुख खड़ा है, सो पाप है । प्राचीन कविता में इस रचना के उदाहरण नहीं मिलते ।

साथ निश्चयवाचक सर्वनाम रक्खा जा सकता है । ऐसे उपवाक्यों को विशेषण-उपवाक्य न मानकर समानाधिकरण उपवाक्य मानना चाहिये ।

[सू०—इस रचना के संबंध में भी बहुधा यह संदेह हो सकता है कि यह अँगरेजी रचना का अनुकरण है; पर सबसे प्राचीन गद्य-ग्रंथ प्रेमसागर में भी यह रचना है; जैसे, (वे) सब धर्मों से उत्तम धर्म कहेंगे, जिससे तू जन्म-मरण से छूट भवसागर पार होगा । प्राचीन कविता में भी इस रचना के उदाहरण पाये जाते हैं; जैसे—

रामनाम को कल्प-तरु कलि कल्याण-निवास ।

जो सुमिरत भये भाग ते तुलसी तुलसीदास ॥

इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि (अँगरेजी के समान) हिंदी में विशेषण-उपवाक्य दो अर्थों में आता है—मर्यादक और समानाधिकरण, और पिछले अर्थ में उसे विशेषण-उपवाक्य नाम देना अशुद्ध है ।]

क्रिया-विशेषण-उपवाक्य ।

७०६—क्रिया-विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है । जिस प्रकार क्रिया-विशेषण विधेय को बढ़ाने में उसका काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण और फल प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्रिया-विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के विधेय का अर्थ इन्हीं अवस्थाओं में बढ़ाता है । क्रिया-विशेषण के समान क्रिया-विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण की विशेषता बताता है; जैसे—

क्रिया की विशेषता—“जो आप आज्ञा देवे,” तो हम जन्मभूमि देख आवे । (= आपके आज्ञा देने पर) ।

विशेषण की विशेषता—“इन नदियों का पानी इतना ऊँचा पहुँच जाता है कि बड़े-बड़े पूर आ जाते हैं ।” (= बड़े-बड़े पूर आने के योग्य) ।

क्रिया-विशेषण की विशेषता—गाड़ी इतने धीरे चली “कि शहर के बाहर दिन निकल आया।” (=शहर के बाहर दिन निकलने के समय तक)।

[सू०—मिश्र वाक्यों में क्रिया विशेषण-उपवाक्यों की संख्या अन्य आश्रित उपवाक्यों की अपेक्षा अधिक रहती है।]

७०७—क्रिया-विशेषण-उपवाक्य पाँच प्रकार के होते हैं—(१) कालवाचक (२) स्थानवाचक (३) रीति-वाचक (४) परिमाण-वाचक (५) कार्य-कारणवाचक।

(१) कालवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य।

७०७ क—कालवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(क) निश्चित काल—“जब किसान यह फंदा खोलने को आवे,” तब तुम साँभ रोककर मुर्दे के समान पड जाना। “ज्योंही मैं आपको पत्र लिखने लगा,” त्योंही आपका पत्र आ पहुँचा।

(ख) कालावस्थिति—“जब तक हाथ से पुस्तकें लिखने की चाल रही,” तब तक ग्रंथ बहुत ही संक्षेप में लिखे जाते थे। “जब आँधी बड़े जोर से चल रही थी,” तब वह एक टापू पर जा पहुँचा।

(ग) संयोग का पौनःपुन्य—“जब-जब मुझे काम पड़ा,” तब-तब आपने सहायता दी। “जब-कभी कोई दीन-दुखी उसके द्वार पर आता,” तब वह उसे अन्न और वस्त्र देता।

७०८—काल-वाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य जब, ज्योंही, जब-जब, जब तक और जब-कभी सर्व उपवाचक क्रिया-विशेषणों से आरंभ होते हैं, और मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य-संबन्धी तब, त्योंही, तब-तब, तब तक आते हैं।

(२) स्थानवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य ।

७०८—स्थानवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के संबंध से नीचे लिखी अवस्थाएँ सूचित करता है—

(क) स्थिति—“जहाँ अभी समुद्र है” वहाँ किसी समय जंगल था । “जहाँ सुमति” तहाँ संपति नाना ।

(ख) गति का आरंभ—ये लोग भी वही से आये, “जहाँ से आर्य लोग आये थे” । “जहाँ से शब्द आता था” वहाँ से एक सवार आता हुआ दिखाई दिया ।

(ग) गति का अन्त—“जहाँ तुम गये थे” वहाँ गणेश भी गया था । मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा “जहाँ कंस गया है” ।

७१०—स्थानवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य में जहाँ, जहाँ से, जिधर आते हैं और मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य-संबन्धी, तहाँ (वहाँ), वहाँ से और उधर रहते हैं ।

[सू०—(१) “जहाँ” का अर्थ कभी-कभी कालवाचक होता है, जैसे, “यात्रा में जहाँ पहले दिन लगते थे” वहाँ अब घंटे लगते हैं ।

(२) “जहाँ तक” का अर्थ बहुधा परिमाणवाचक होता है; जैसे, “जहाँ तक हो सके” टेढ़ी गलियारों सीधी कर दी जावें । (अ०—७१३) ।]

(३) रीतिवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य ।

७११—रीतिवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य से समता और विषमता का अर्थ पाया जाता है; जैसे, दोनों वीर ऐसे दूटे, “जैसे हाथियों के यूथ पर सिंह दूटे” । “जैसे प्राणी आहार से जीते हैं” वैसे ही पेड़ खाद से बढ़ते हैं । “जैसे आप बोलते हैं” वैसे मैं नहीं बोल सकता ।

अंस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी ।

मानहु रोष-तरंगिनि बाढ़ी ॥

७१२—रीतिवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य जैसे, ज्यां (कविना में), 'मानो' से आरंभ होते हैं और मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य-संबंधी 'वैसे' (ऐसे), कैसे, क्यों आते हैं ।

(४) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य ।

७१३—परिमाणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य से अधिकता, तुल्यता, न्यूनता, अनुगत आदि का बोध होता है, जैसे, 'ज्यां-ज्यां भोजन कामरी,' ल्यों-ल्यों भारी होय । "जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे-वैसे खर्च भी बढ़ता जाता है" । "जहाँ तक हो सके," यह काम अवश्य करना । "जितनी दूर यह रहेगा" उतनी ही कार्य-सिद्धि होगी ।

७१४—परिमाणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य में ज्यों-ज्यों, जैसे-जैसे, जहाँ-तक, जितना, कि आते हैं और मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य संबंधी वैसे-वैसे (तैसे-तैसे), ल्यों-ल्यों, वहाँ-तक, उतना, यहाँ तक रहते हैं ।

७१५—ऊपर लिखे चार प्रकार के उपवाक्यों में जो संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण और उनके नित्य-संबंधी शब्द आते हैं उनमें से कभी-कभी किसी एक प्रकार के शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे जब तक मर्म न जाने, वैद्य औपध नहीं दे सकता । बारह वर्ष हुए जब मैं माइलन का राजा था ।

वर्षहिं जलद भूमि नियराये ।

यथा नवहि बुध विद्या पाये ॥

कदाचित् जहाँ पहले महाद्वीप थे, अब समुद्र हैं ।

७१६—कभी-कभी संबंधवाचक क्रियाविशेषणों के बदले संबंध-वाचक विशेषण और संज्ञा से बने हुए वाक्यांश, और नित्य-संबंधी शब्दों के बदले निश्चयवाचक विशेषण और संज्ञा से बने हुए वाक्यांश

आते हैं। ऐसी अवस्थाओं में आश्रित उपवाक्यों को विशेषण-उपवाक्य मानना उचित है, क्योंकि यद्यपि ये वाक्यांग क्रिया-विशेषणों के पर्यायी हैं तथापि इनमें संज्ञा की प्रधानता रहती है (अ०-७०५); जैसे, जिस काल श्रावृष्ण हस्तिनापुर को चले, उम समय की शोभा कुछ बरनी नहीं जाती। जिस जगह से वह आता है उसी जगह लौट जाता है। जिस प्रकार तहखानों का पता नहीं चलता, उसी प्रकार मनुष्य के मन का रहस्य नहीं मालूम होता।

(५) कार्य-कारणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य ।

७१७—कार्य-कारणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्यों से नीचे लिखे अर्थ पाये जाते हैं—

(१) हेतु वा कारण—हम उन्हें सुख देंगे, “क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बड़ा दुख सहा है”। वह इसलिए नहाता है “कि ग्रहण लगा है”।

(२) संकेत—“जो यह प्रसंग चलता”, तो मैं भी सुनता। “यदि उनके मत के विरुद्ध कोई कुछ कहता है” तो वे उस तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं।

(३) विरोध—“यद्यपि इस समय मेरी चेतना-शक्ति मूर्छित सी हो रही है,” तो भी वह दृश्य आँखों के सामने घूम रहा है। सब काम वे अकेले नहीं कर सकते, “चाहे वे कैसे ही होशियार क्यों न हो।”

(४) कार्य वा निमित्त—इस बात की चर्चा हमने इसलिए की है “कि उसकी शंका दूर हो जावे।” “तपोवन-वासियों के कार्य में विघ्न न हो,” इसलिए रथ को यहीं रखिये।

(५) परिणाम वा फल—इन नदियों का पानी इतना ऊँचा पहुँच जाता है “कि बड़े-बड़े पूर आ जाते हैं”। मुझे मरना नहीं “जो मैं तेरा पत्न करूँ”।

७१८—कार्य-कारणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय-बोधकों से आरंभ होते हैं, जो बहुधा जोड़े से आते हैं। इनकी सूची नीचे दी जाती है—

आश्रित वाक्य में	मुख्य वाक्य में
कि	{ इसलिए, इतना, ऐसा, यहाँ तक
क्योंकि	०
जो, यदि, अगर } यद्यपि }	{ तो, तथापि, तोभी, किन्तु -
चाहे—कैसा, कितना, } कितना—क्या, }	{ तो भी, पर
जो, जिससे, ताकि	०

७१९—इन दुइरे समुच्चयबोधकों में से कभी-कभी किसी एक का लोप हो जाता है, जैसे वुरा न मानो तो एक धात कहुँ। वह कैसा ही कष्ट होता, सह जाता था।

७२०—अब कुछ मिश्र वाक्यों का पृथक्करण बताया जाता है। इसमें मुख्य और आश्रित उपवाक्यों का परस्पर संबंध बताकर साधारण वाक्यों के समान इनका पृथक्करण किया जाता है—

(१) बड़े संतोष की बात है कि ऐसे महदय मज्जनों के सामने हमें अभिनय दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

यह समूचा वाक्य मिश्र वाक्य है। इसमें “बड़े संतोष की बात है” मुख्य उपवाक्य है और दूसरा उपवाक्य सज्ञा-उपवाक्य है। यह संज्ञा-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की “बात” सज्ञा का समानाधिकरण है। इन दोनों उपवाक्यों का पृथक्करण अलग-अलग साधारण वाक्यों के समान करना चाहिये, यथा,

वाक्य	प्रकार	वद्देश्य			विधेय			संयोजक शब्द
		साधा० उद्देश्य	उद्देश्य-वद्क	साधा० विधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय-विस्तारक	
बड़े सन्तोष की बात है	मुख्य उपवाक्य	बात	बड़े सन्तोष की	है
कि ऐसे सहृदय सज्जनों के सामने हमें अभिनय दिखाने का अवसर हुआ है	संज्ञा-उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य की "बात" का संज्ञा का समानाधिकरण	अवसर	ऐसे सहृदय सज्जनों के सामने अभिनय दिखाने का	हुआ है	.	प्राप्त	हमें	कि

(२) स्वामी, यहाँ कौन तुम्हारा बैरी है जिसके बधने का कोप कर कृपाण हाथ में ली है । (मिश्र उपवाक्य)

(क) स्वामी, यहाँ कौन तुम्हारा बैरी है । (मुख्य उपवाक्य)

(ख) जिसके बधने को कोप कर कृपाण हाथ में ली है ।

[विशेषण-उपवाक्य, (क) का]

वाक्य	प्रकार	वद्देश्य			विधेय			संयोजक शब्द
		साधा० उद्देश्य	उद्देश्य-वद्क	साधा० विधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय-विस्तारक	
(क)	मुख्य उपवाक्य	कौन	...	है	..	तुम्हारा बैरी	यहाँ	..
(ख)	विशेषण-उपवाक्य, (क) का	तुमने (लुप्त)	...	ली है	कृपाण	...	जिसके बधने को, कोप कर; हाथ में	...

(३) वेग चली आ जिससे सब एक-संग चेम-कुशल से कुटी में पहुँचें । (मिश्र वाक्य)

(क) वेग चली आ । (मुख्य उपवाक्य)

(ख) जिससे सब एक-संग चेम कुशल से कुटी में पहुँचें ।

[क्रियाविशेषण-उपवाक्य, (क) का ।]

वाक्य	प्रकार	साधारण वद्देश्य	उद्देश्य- वद्देश्य	साधारण विधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय- विस्तारक	सं० श०
(क)	मुख्य उपवाक्य	नू (लुप्त)		चली आ	..	.	वेग	...
(ख)	क्रिया- विशेषण- उपवाक्य, '(क) का कार्य	सब	.	पहुँचें			एक-संग, चेम-कुशल से; कुटी में	...

(४) जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ न कुछ अंतर उसके द्वारा समाज पर जरूर ही पड़ता है । (मिश्र वाक्य)

(क) उसके व्यवहारों का कुछ न कुछ अंतर उसके द्वारा समाज पर जरूर ही पड़ता है । (मुख्य उपवाक्य)

(ख) जो आदमी जिस समाज का है । [विशेषण-उपवाक्य, (क) का]

वाक्य	प्रकार	साधारण वद्देश्य	वद्देश्य- वद्देश्य	साधा० विधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय- विस्तारक	सं० श०
(क)	मुख्य उपवाक्य	आद- मी	जो	है		जिस समाज का		..
(ख)	विशेषण- उपवाक्य, (क) का	अंतर	उसके व्यवहारों का, कुछ न कुछ	पड़ता है	.	.	उसके द्वारा, समाज पर, जरूर ही	...

(५) सुना है, इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है । (मिश्र वाक्य)

(क) सुना है । (मुख्य उपवाक्य)

(ख) इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है । [संज्ञा-उपवाक्य, (क) का कर्म]

वाक्य	प्रकार	साधारण उद्देश्य	उद्देश्य-वर्द्धक	साधारण विधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय-विस्तारक	सं० श०
(क)	मुख्य उपवाक्य	सुना (लुप्त)	...	सुना है	(ख) वाक्य
(ख)	संज्ञा-उपवाक्य; (१) नाम	उत्साह	-ड़ा	फैल रहा है	इस बार; दैत्यों में, भी	...

(६) जैसे कोई किसी चीज का माम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपने भुलाने का प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा लिये थे । (मिश्र वाक्य)

(क) उसी तरह तूने अपने भुलाने का प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा लिये थे । (मुख्य उपवाक्य)

(ख) जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है ।

[विशेषण-उपवाक्य, (क) का; यहाँ जैसे = जिम तरह] ।

वाक्य	प्रकार	साधारण उद्देश्य	उद्देश्य-वर्द्धक	साधारण विधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय-विस्तारक	सं० श०
(क)	मुख्य उपवाक्य	तूने	...	लगा लिये थे	यह फल	..	अपने भुलाने का, प्रशंसा पाने की इच्छा से; हम पेड़ पर; उसी तरह	...
(ख)	विशेषण उपवाक्य (२) का	कोई	...	चिपकाता है	किसी चीज	..	मोम से, जैसे	...

(७) अज लोगों के मन में यही एक बात समा रही है कि जहाँ तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। (मिश्र वाक्य)

(क) अज लोगों के मन में यही एक बात समा रही है।
(मुख्य उपवाक्य)

(ख) कि शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिये। [संज्ञा-उपवाक्य (क) का, बात संज्ञा का समानाधिकरण]।

(ग) जहाँ तक हो सके। [क्रिया-विशेषण उपवाक्य, (ख) का, परिमाण]।

वाक्य	प्रकार	संज्ञा वाक्य	उद्देश वद्ध	साधारण वधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय- विस्तारक	सं- शं
(क)	मुख्य उपवाक्य (ख) का	बात	यही एक	समा रही है			अजकल, लोगों के मनमें	
(ख)	संज्ञा उप- वाक्य (क) का, शान संज्ञा का स- मानाधिकरण	हमें (लुप्त)		लेना चाहिये	बदला		शीघ्र ही, शत्रुओं से	कि
(ग)	क्रिया वि- शेषण उपवाक्य, (ख) का परिमाण	यह (लुप्त)		हो सके	जहाँ-तक	..

(८) शत्रु इसलिए नहीं मारे जा सकते कि उन्हें वर ही ऐसा प्राप्त किया है जिससे उन्हें कोई नहीं मार सकता।

(क) शत्रु इसलिए नहीं मारे जा सकते। (मुख्य उपवाक्य)

(ख) कि उन्हें वर ही ऐसा प्राप्त किया है। [क्रिया-विशेषण-उपवाक्य, (क) का कारण]।

(ग) जिससे उन्हें कोई नहीं मार सकता। [क्रिया-विशेषण-उपवाक्य (ख) का परिणाम]।

वाक्य	प्रकार	साधारण वद्देश्य	वद्देश्य-वद्धक	साधारण विधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय-विस्तारक	संश्लेषण
(क)	मुख्य उपवाक्य (ख) का	शत्रु	...	नहीं मारे जा सकते	इसलिए	...
(ख)	क्रिया-विशेषण-उपवाक्य; (क) का कारण	उन्होंने	...	किया है	वर ही ऐसा	प्राप्त	...	कि
(ग)	क्रिया विशेषण-उपवाक्य (ख) का परिणाम	कोई	...	नहीं मार सकता	उन्हे	जिससे

(६) समाज को एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है कि सबको अपना काम करने के लिए स्वतंत्रता मिले, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका न रहे। (मिश्र वाक्य)

(क) समाज को एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है। (मुख्य उपवाक्य)

(ख) कि सबको अपना काम करने के लिए स्वतंत्रता मिले। [संज्ञा-उपवाक्य (क) का; 'यह' सर्वनाम का समानाधिकरण]।

(ग) ताकि किसी को शिकायत करने का मौका न रहे। [क्रिया-विशेषण-उपवाक्य (ख) का कार्य]।

वाक्य	मकार	वाधारण वद्देश्य	वद्देश्य- वर्द्धक	साधारण विधेय	कर्म	पूर्त	विधेय- विस्तारक	संज्ञा
(क)	मुख्य उपवाक्य (ख) का	न्याय		है	..	यह	समाज क एक सूत्र में वद्ध करने के लिए	
(ख)	संज्ञा-उपवाक्य क) का; 'यह' सर्वनाम का समानाधि- करण	स्व त्रता		मिले		.	सबको, अपना काम करने के लिए	कि
(ग)	क्रियाविशेषण उपवाक्य(ख) का का	मोका	शिका- यत करने का	न रहे			किसी को	ताकि

(१०) मैं नहीं जानता कि रघुवंशी राजपूतों में यह बुरी
रीति लडकी मारने की क्योंकर चल गई और किसने चलाई ।
(मिश्र वाक्य)

(क) मैं नहीं जानता । (मुख्य उपवाक्य) ।

(ख) कि रघुवंशी राजपूतों में यह बुरी चाल लडकी मारने
की क्योंकर चल गई । [संज्ञा-उपवाक्य, (क) का कर्म] ।

(ग) और किसने चलाई । [संज्ञा-उपवाक्य, (क) का कर्म;
(ख) का समानाधिकरण]

वाक्य	प्रकार	साधारण उद्देश्य	उद्देश्य-वर्द्धक	साधारण विधेय	कर्म	पूर्ति	विधेय-विस्तारक	० १० १५
(क)	मुख्य उपवाक्य (ख) और (ग) का	मैं	.	नहीं जानता	(ख) और (ग) उप-वाक्य
(ख)	संज्ञा उप-वाक्य (क) का कर्म	रीति	यह बुरी; लड़की मारनकी	चल गई	रघुवंशी राजपूतों में; कपोकर	कि
(ग)	संज्ञा उपवाक्य (क) का कर्म (ख) का समानाधिकरण	कि सने	...	चलाई	रीति (लुप्त)	और

(११) यद्यपि स्वामीजी का चरित मुझे विशेष रूप से मालूम नहीं, तथापि जन-श्रुतियों-द्वारा जो सुना है और जो कुछ आँखों देखा है उसे ही लिखता हूँ । (मिश्र वाक्य)

(क) तथापि उसे ही लिखता हूँ । (मुख्य उपवाक्य)

(ख) जन-श्रुतियों-द्वारा जो सुना है । [विशेषण-उपवाक्य, (क) का] ।

(ग) और जो कुछ आँखों देखा है । [विशेषण-उपवाक्य, (क) का, (ख) का समानाधिकरण] ।

(घ) यद्यपि स्वामीजी का चरित मुझे विशेष रूप से मालूम नहीं । [क्रिया-विशेषण-उपवाक्य, (क) का विरोध] ।

वाक्य	प्रकार	माधारण उद्देश्य	उद्देश्य-वर्द्धक	माधारण विधेय	कर्म पूरक	विधेय-विस्तारक	संश्लेष
(क)	मुख्य उप-वाक्य	मैं (लुप्त)		लिखता हूँ	उसे		तथापि
(ख)	विशेषण-उपवाक्य (क) का	मैंने (लुप्त)		सुना है	जो	जनश्रुतियों द्वारा	
(ग)	विशेषण-उप-वाक्य (क) का, (ख) का समानाधिकरण	मैंने (लुप्त)		देखा है	जो कुछ	आँखों	आँसू
(घ)	क्रियाविशेषण-उपवाक्य (क) का विरोध	चरित	स्वामीजी का	नहीं है (लुप्त)		मुझे, विशेष रूप से	यद्यपि

पाँचवाँ अध्याय ।

संयुक्त वाक्य ।

७२१—संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं और इन प्रधान उपवाक्यों के साथ बहुधा इनके आश्रित उपवाक्य भी रहते हैं ।

[सू०—पहले (अ०—६८०—ग में) कहा गया है कि संयुक्त वाक्यों में जो प्रधान (समानाधिकरण) उपवाक्य रहते हैं, वे एक दूसरे के आश्रित नहीं रहते, पर इससे यह न समझ लेना चाहिये कि उनमें परस्पर आश्रय कुछ भी नहीं होता । घात यह है कि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर जितना

अवलंबित रहता है उतना एक प्रधान उपवाक्य दूसरे प्रधान उपवाक्य पर नहीं रुकता। यदि दोनों प्रधान उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहें तो उनमें अर्थ-संगति कैसे उत्पन्न होगी ? इसी तरह मिश्र वाक्य का प्रधान उपवाक्य भी अपने आश्रित उपवाक्य पर थोड़ा-बहुत अवलंबित रहता है।]

७२२—संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्यों में चार प्रकार का संबंध पाया जाता है—संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक और परिणामबोधक। यह संबंध बहुधा समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्ययों के द्वारा सूचित होता है; जैसे,

(१) संयोजक—मैं आगे बढ़ गया, और वह पीछे रह गया। विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचार-शक्ति प्राप्त होती है और मान मिलता है। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है, बरत कई और पदार्थ भी हैं।

(२) विभाजक—मेरा भाई यहाँ आवेगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा। उन्हें न नोंद आती थी, न भूख-प्यास लगती थी। अब तू या छूट ही जायगा, नहीं तो कुत्तों-गिद्धों का भक्षण बनेगा।

(३) विरोधदर्शक—ये लोग नये बसनेवालों से सदैव लड़ा करते थे; परन्तु धीरे-धीरे जंगल-पहाड़ों में भगा दिये गये। कामनाओं के प्रबल हो जाने से आदमी दुराचार नहीं करते, किन्तु अंतःकरण के निर्बल हो जाने से वे वैसा करते हैं।

(४) परिणामबोधक—शाहजहाँ इस बेगम को बहुत चाहता था; इसलिए उसे इस रौजे के बनाने की बड़ी रुचि हुई। मुझे उन लोगों का भेद लेना था; सो मैं वहाँ ठहरकर उनकी बातें सुनने लगा।

७२३—कभी-कभी समानाधिकरण उपवाक्य बिना ही समुच्चय-बोधक के जोड़ दिये जाते हैं; अथवा जोड़े से आनेवाले अव्ययों में से किसी एक का लोप हो जाता है; जैसे, नौकर तो क्या, उनके लाला भी जन्म-भर यह बात न भूलेंगे। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी

है, इस समय चलकर उनकी चिता मेटा चाहिये । इन्हें आने का हर्ष, न जाने का शोक ।

७२४—जिस प्रकार संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय-बोधकों के द्वारा जोड़े जाते हैं, उसी प्रकार मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य भी इन अव्ययों के द्वारा जोड़े जा सकते हैं (अं०—७००), जैसे, क्या सप्तर मे ऐसे मनुष्य नहीं दिखाई देते, जो करोड़पति तो हैं, पर जिनका सच्चा मान कुछ भी नहीं है । इस पूरे वाक्य में “जिनका सच्चा मान कुछ भी नहीं है” आश्रित उपवाक्य है और वह “जो करोड़पति तो हैं”, इस उपवाक्य का विरोध-दर्शक समानाधिकरण है । तो भी इन उपवाक्यों के कारण पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रधान उपवाक्य है ।

संकुचित संयुक्त वाक्य ।

७२५—जब संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में एक ही उद्देश्य अथवा एक ही विधेय या दूमरा कोई एक ही भाग बार-बार आता है तब उस भाग की पुनरुक्ति मिटाने के लिये उसे एक ही बार लिखकर संयुक्त वाक्य (अं०—६५४) को संकुचित कर देते हैं । चारों प्रकार के संयुक्त वाक्य संकुचित हो सकते हैं; जैसे,

(१) संयोजक—ग्रह और उपग्रह सूर्य के आस-पास घूमते हैं = ग्रह सूर्य के आस-पास घूमते हैं और उपग्रह सूर्य के आस-पास घूमते हैं ।

(२) विभाजक—न उसमें पत्ते थे, न फूल = न उसमें पत्ते थे न फूल थे ।

(३) विगोध दर्शक—इस समय वह गौतम के नाम से नहीं, बरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ = इस समय वह गौतम के नाम से नहीं प्रसिद्ध हुआ, बरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

(४) परिणाम-बोधक—पत्ते सूख रहे हैं; इसलिए पीले दिखाई देते हैं = पत्ते सूख रहे हैं; इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं ।

७२६—सकुचिन संयुक्त वाक्य में—

(१) दो या अधिक उद्देश्यों का एक ही विधेय हो सकता है; जैसे, मनुष्य और कुत्ते सब जगह पाये जाते हैं । उन्हें आगे पढ़ने के लिय न समय, न धन, न इच्छा होती है ।

(२) एक उद्देश्य के दो या अधिक विधेय हो सकते हैं, जैसे, गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठ ठ से सिकुड़ते हैं ।

(३) एक विधेय के दो वा अधिक कर्म हो सकते हैं; जैसे, पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहा ले जाता है ।

(४) एक विधेय की दो वा अधिक पूर्तियाँ हो सकती हैं; जैसे, सोना सुन्दर और कीमती होता है ।

(५) एक विधेय के दो वा अधिक विधेय-विस्तारक हो सकते हैं; जैसे, दुरात्मा के धर्मशास्त्र पढ़ने और वेद के अध्ययन करने से अच्छा नहीं होता । वह ब्रह्मण अति सन्तुष्ट हो, आशीर्वाद दे, वहाँ से उठ, राजा भीष्मक के पास गया ।

(६) एक उद्देश्य के कई उद्देश्यवर्द्धक हो सकते हैं; जैसे, मेरा घर मेरे भाई का विवाह एक ही घर में हुआ है ।

(७) एक कर्म अथवा पूर्ति के अनेक गुणवाचक शब्द हो सकते हैं; जैसे, सतपुडा नर्मदा और ताप्ती के पानी को जुदा करता है । घोंडा उपयोगी और साहसी जानवर है ।

७२७—ऊपर लिखे सभी प्रकार के संकुचित प्रयोगों के कारण आधारण वाक्यों को संयुक्त वाक्य मानना ठीक नहीं है, क्योंकि

वाक्य के कुछ भाग मुख्य और कुछ गौण होते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य के अनेक विधेय हों या अनेक उद्देश्यों का एक विधेय हो अथवा अनेक उद्देश्यों के अनेक विधेय हों, उसीको संकुचित संयुक्त वाक्य मानना उचित है। यदि वाक्य के दूसरे भाग अनेक हों और वे समानाधिकरण समुच्चय-बोधकों के द्वारा भी जुड़े हों, तो भी उनके कारण साधारण वाक्य संयुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से एक ही साधारण वाक्य के कई अनावश्यक उपवाक्य बनाने पड़ेंगे।

उदा०—रुक्मिणी उसी दिन से, रात-दिन, आठ पहर, चौंसठ घड़ी, सोते-जागते, बैठे-खड़े, चलते-फिरते, खाते-पीते, खेलते, उन्हींका ध्यान किया करती थी और गुण गाया करती थी। इस वाक्य में एक उद्देश्य के दो विधेय हैं और दोनो विधेयों के एकत्र आठ विधेय-विस्तारक हैं। यदि हम इनमें से प्रत्येक विधेय-विस्तारक को एक-एक विधेय के साथ अलग-अलग लिखें, तो दो वाक्यों के बदले सोलह वाक्य बनाने पड़ेंगे। परन्तु ऐसा करने के लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि एक तो ये सब विधेय-विस्तारक किसी समुच्चयबोधक से नहीं जुड़े हैं और दूसरे इस प्रकार के शब्द वा वाक्यांश वाक्य के केवल गौण अवयव हैं।

७२८—कभी-कभी साधारण वाक्य में “और” से जुड़ी हुई ऐसी दो संज्ञाएँ आती हैं जो अलग-अलग वाक्यों में नहीं लिखी जा सकती अथवा जिनसे केवल एक ही व्यक्ति वा वस्तु का बोध होता है; जैसे, दो और दो चार होते हैं। राम और कृष्ण मित्र हैं। आज उसने केवल रोटी और तरकारी खाई। इस प्रकार के वाक्यों को संयुक्त वाक्य नहीं मान सकते क्योंकि इनमें आर्य हुए दुहरे शब्दों का क्रिया से अलग-अलग सम्बन्ध नहीं है। इन शब्दों को साधारण वाक्य का केवल संयुक्त भाग मानना चाहिये।

७२६—अब दो-एक उदाहरण संयुक्त वाक्य के पृथक्करण के दिये जाते हैं । इसमें शुद्ध संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों का परस्पर संबंध बताना पड़ता है ; और संकुचित संयुक्त वाक्य के संयुक्त भागों को पूर्णता से प्रकट करनेकी आवश्यकता होती है । शेष बातें साधारण अथवा मिश्र वाक्यों के समान कही जाती हैं—

(१) दो-एक दिन आते हुए दासी ने उसको देखा था ; किन्तु वह संध्या के पीछे आता था, इससे वह उसे पहचान न सकी ; और उसने यही जाना कि नौकर ही चुपचाप निकल जाता है ।
(संयुक्त वाक्य)

(क) दो-एक दिन आते हुए दासी ने उसको देखा था ।
(मुख्य उपवाक्य ; ख, ग, घ का समानाधिकरण)

(ख) किन्तु वह संध्या के पीछे आता था । (मुख्य उपवाक्य ग, घ का समानाधिकरण, क का विरोध-दर्शक)

(ग) इससे वह उसे पहचान न सकी । (मुख्य उपवाक्य घ का समानाधिकरण, ख का परिणाम-बोधक)

(घ) और उसने यही जाना । (मुख्य उपवाक्य ङ का, ग का संयोजक)

(ङ) कि नौकर ही चुपचाप निकल जाता है । (संज्ञा-उपवाक्य घ का कर्म)

(२) अन्य जातियों के प्राचीन इतिहास में विचार-स्वातंत्र्य के कारण अनेक महात्मा पुरुष सूली पर चढ़ाये या आग में जलाये गये; परन्तु यह आर्य-जाति ही का गौरवान्वित प्राचीन इतिहास है जिसमें स्वतंत्र विचार प्रकट करनेवाले पुरुषों को, चाहे उनके विचार लोकमत के कितने ही प्रतिकूल क्यों न हों, अवतार और सिद्ध पुरुष मानने में जरा भी आनाकानी नहीं की गई । (संकुचित संयुक्त वाक्य)

(क) अन्य जातियों के प्राचीन इतिहास में विचार-स्वातंत्र्य के कारण अनेक महात्मा पुरुष सूली पर चढ़ाये गये । (मुख्य उपवाक्य ख, ग का समानाधिकरण)

(ख) या (अन्य जातियों के प्राचीन इतिहास में विचार-स्वातंत्र्य के कारण अनेक महात्मा पुरुष) आग में जलाये गये । (मुख्य उपवाक्य ग का समानाधिकरण, क का विभाजक)

[सू०—इस वाक्य में विधेय-विस्तारक और उद्देश्य का संकोच किया गया है ।]

(ग) परन्तु यह आर्य जाति ही का गौरवान्वित इतिहास है । (मुख्य उपवाक्य घ का, क, ख का विरोध-दर्शक)

(घ) जिसमें स्वतंत्र विचार प्रकट करनेवाले पुरुषों को अवतार और सिद्ध पुरुष मानने में जरा भी आनाकानी नहीं की गई । (विशेषण उपवाक्य ग का)

[सू०—इस वाक्य के विधेय-विस्तारक में सकर्मक क्रिपार्थक सज्ञा की पूरति संयुक्त है, पर इसके कारण, वाक्य के स्पष्टीकरण में विधेय-विस्तारक को दुहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरति के दोना शब्द से एक ही भावना सूचित होती है । यदि विधेय-विस्तारक को दुहरावे, तोभी उससे दो वाक्य नहीं बनाये जा सकते, क्योंकि वह वाक्य का मुख्य श्रवयव नहीं है ।]

(ङ) चाहे उनके विचार लोकमत के कितने ही प्रतिकूल क्यों न हों । [क्रिया-विशेषण-उपवाक्य, (घ) का विरोध०]

छठा अध्याय ।

संक्षिप्त वाक्य ।

७३०—बहुधा वाक्यों में ऐसे शब्द जो समकं अर्थ पर से मद्दज ही समझ में आ सकते हैं, सत्तेप और गौरव लाने के विचार से

छोड़ दिये जाते हैं । इस प्रकार के वाक्यों को संक्षिप्त वाक्य कहते हैं । (अंक—६५१—६५४) । उदा०— () सुना है । () कहते हैं । दूर के ढोल सुहावने () । यह आप जैसे लोगों का काम है = यह ऐसे लोगों का काम है जैसे आप हैं । इन उदाहरणों में छूटे हुए शब्द वाक्य-रचना में अत्यन्त आवश्यक होने पर भी अपने अभाव से वाक्य के अर्थ में कोई हीनता उत्पन्न नहीं करते ।

[सू०—संक्षिप्त संयुक्त वाक्य भी एक प्रकार के संक्षिप्त वाक्य है ; पर उनकी विशेषता के कारण उनका विवेचन अलग किया गया है । संक्षिप्त वाक्यों के वर्ग में केवल ऐसे वाक्यों का समावेश किया जाता है जो साधारण अथवा मिश्र होते हैं और जिनमें प्रायः ऐसे शब्दों का लोप किया जाता है जो वाक्य में पहले कभी नहीं आते अथवा जिनके कारण वाक्य के अवयवों का संयोग नहीं होता । इस प्रकार के वाक्यों के अनेक उदाहरण अध्याहार के अध्याय में आ चुके हैं , इसलिए यहाँ उनके लिखने की आवश्यकता नहीं है ।]

७३१—किसी-किसी विशेषण-वाक्य के साथ पूरे मुख्य वाक्य का लोप हो जाता है; जैसे, जो हो, जो आज्ञा, जैसा आप समझें ।

७३२—संक्षिप्त वाक्यों का पृथक्करण करते समय अध्याहत शब्दों को प्रकट करने की आवश्यकता होती है; पर इस बात का विचार रखना चाहिये कि इन वाक्यों की जाति में कोई हेरफेर न हो ।

[टी०—वाक्य-पृथक्करण का विस्तृत विवेचन हिन्दी में अँगरेजी भाषा के व्याकरण से लिया गया है; इसलिए हिन्दी के अधिकांश वैयाकरणों ने इस विषय को ग्रहण नहीं किया है । कुछ पुस्तकों में इसका संक्षेप से वर्णन पाया जाता है, और कुछ में इसकी केवल दो-चार बातें लिखी गई हैं । ऐसी अवस्था में इन पुस्तकों में की हुई विवेचना का खंडन-भंडन अनावश्यक जान पड़ता है ।]

सातवाँ अध्याय ।

कुछ विशेष प्रकार के वाक्य ।

७३३—अर्थ के अनुसार वाक्यों के जो आठ भेद होते हैं (अ०—५०६) उनमें से संकेतार्थक वाक्य को छोड़कर, शेष सभी वाक्य तीनों प्रकार के हो सकते हैं । संकेतार्थक वाक्य मिश्र होते हैं । उदा०—

(१) विधानार्थक ।

साधारण—राजा नगर में आये । मिश्र—जब राजा नगर में आते हैं तब आनंद मनाया जाता है । सयुक्त—राजा नगर में आये और उनके लिए आनंद मनाया गया ।

(२) निषेधवाचक ।

सा०—राजा नगर में नहीं आये । मि०—जिस देश में राजा नहीं रहता, वहाँ की प्रजा को शांति नहीं मिलती । स०—राजा नगर में नहीं आये; इसलिए आनंद नहीं मनाया गया ।

(३) आज्ञार्थक ।

सा०—अपना काम देखो । मि०—जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो । सं०—बातचीत बंद करो और अपना काम देखो ।

(४) प्रश्नार्थक ।

सा०—वह आदमी आया है ? मि०—क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कब आया ? सं०—वह कब आया और कब गया ?

(५) विस्मयादिवोधक ।

सा०—तुमने तो बहुत अच्छा काम किया ! मि०—जो काम तुमने किया है वह तो बहुत अच्छा है ! तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे उसकी खबर ही न दी !

(६) इच्छाबोधक ।

सा०—ईश्वर तुम्हें विरायु करे । मि०—वह जहाँ रहे वहाँ सुख से रहे । सं०—भगवन्, मैं सुखी रहूँ और मेरे समान दूसरे भी सुखी रहें ।

(७) सन्देहसूचक ।

सा०—यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी । मि०—जो चिट्ठी मिली है वह उस लड़के ने लिखी होगी । सं०—नौकर वहाँ से चला होगा और सिपाही वहाँ पहुँचा होगा ।

(८) संकेतार्थक ।

मि०—जो वह आज आवे, तो बहुत अच्छा हो । जो मैं आपको पहले से जानता, तो आपका विश्वास न करता ।

[सू०—ऊपर के वाक्यों के जो अर्थ बताये गये हैं उनके लिये मिश्र वाक्य में यह आवश्यक नहीं है कि उसके उपवाक्यों से भी वैसाही अर्थ सूचित हो जो मुख्य वाक्य से सूचित होता है, पर संयुक्त वाक्य के उपवाक्य 'समानार्थी' होने चाहिये ।]

७३४—भिन्न-भिन्न अर्थवाले वाक्यों का पृथक्करण उसी रीति से किया जाता है जो तीनों प्रकार के वाक्यों के लिये पहले लिखी जा चुकी है ।

(अ) आज्ञार्थक वाक्य का उद्देश्य मध्यम पुरुष सर्वनाम रहता है; पर बहुधा उसका लोप कर दिया जाता है । कभी-कभी अन्य पुरुष सर्वनाम आज्ञार्थक वाक्य का उद्देश्य होता है; जैसे वह कल से यहाँ न आवे, लड़के कुँए के पास न जावे ।

(आ) जब प्रश्नार्थक वाक्य में केवल क्रिया की घटना के विषय में प्रश्न किया जाता है, तब प्रश्नवाचक अव्यय 'क्या' का प्रयोग किया जाता है और वह बहुधा वाक्य के आरंभ अथवा अंत में आता है; परन्तु वह वाक्य का कोई अवयव नहीं समझा जाता ।

आठवाँ अध्याय ।

विराम-चिह्न ।

७३५—शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न-भिन्न भागों में बाँटने और पढ़ने में ठहरने के लिए, लेखों में जिन चिह्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें विरामचिह्न कहते हैं ।

[टी०—विराम-चिह्नों का विवेचन अंगरेजी भाषा के अधिकांश व्याकरणों का विषय है और हिंदी में यह वहाँ से लिया गया है । हमारी भाषा में इस प्रणाली का प्रचार अब इतना बढ़ गया है कि इसका ग्रहण करने में कोई सोच-विचार हो ही नहीं सकता ; पर यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न हो सकता है कि विराम-चिह्न शुद्ध व्याकरण का विषय है या भाषा-रचना का ? यद्यार्थ में यह विषय भाषा-रचना का है, क्योंकि लेखक वाक्ता अपने विचार स्पष्टता से प्रकट करने के लिए जिस प्रकार अभ्यास और अध्ययन के द्वारा शब्दों के अनेकार्थ, विचारों का संबंध, विषय-विभाग, आशय की स्पष्टता, लाघव और विस्तार, आदि बातें जान लेता है (जो व्याकरण के नियमों से नहीं जानी जा सकती), उसी प्रकार लेखक को इन विराम-चिह्नों का उपयोग केवल भाषा के व्यवहार ही से ज्ञात हो सकता है । व्याकरण से इन विराम चिह्नों का केवल इतना ही संबंध है कि इनके नियम बहुधा वाक्य-पृथक्करण पर स्थापित किये गये हैं, परन्तु अधिकांश में इनका प्रयोग वाक्य के अर्थ पर ही अवलंबित है । विराम-चिह्नों के उपयोग से, भाषा के व्यवहार से संबंध रखनेवाला कोई सिद्धांत भी उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इन्हें व्याकरण का अङ्ग मानने में बाधा होती है । यद्यार्थ में व्याकरण से इन चिह्नों का केवल गौण संबंध है; परन्तु इनकी उपयोगिता के कारण व्याकरण में इन्हें स्थान दिया जाता है । तो भी इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि कई-एक चिह्नों के उपयोग में बड़ा मतभेद है, और जिस नियमशीलता से अंगरेजी में इन चिह्नों का उपयोग होता है वह हिंदी में आवश्यक नहीं समझी जाती ।]

७३६—मुख्य विराम-चिह्न ये हैं—

- (१) अल्प-विराम ,
- (२) अर्द्ध-विराम ;

(३) पूर्ण-विराम ।

(४) प्रश्न-चिह्न ?

(५) आश्चर्य-चिह्न !

(६) निर्देशक (डैश) —

(७) कोष्ठक ()

(८) अवतरण-चिह्न “ ”

[सू०—अंगरेजी में कोलन नामक एक और चिह्न (:) है, पर हिंदी में इससे विसर्ग का भ्रम होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता। पूर्ण-विराम के चिह्न का रूप (।) हिंदी का है, पर शेष चिह्नों के रूप अंगरेजी ही के हैं।]

(१) अल्प-विराम ।

७३७—इस चिह्न का उपयोग बहुधा नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है —

(क) जब एक ही शब्द-भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय-बोधक न हो; जैसे, वहाँ पीले, हरे खेत दिखाई देते थे। वे लोग नदी, नाले पार करते चले।

(ख) यदि समुच्चय-बोधक से जुड़े हुए दो शब्दों पर विशेष अवधारण देना हो; जैसे, यह पुस्तक उपयोगी, अतएव उपादेय है।

(ग) जब एक ही शब्द-भेद के तीन या अधिक शब्द आवें और उनके बीच विकल्प से समुच्चय-बोधक रहे, तब अंतिम शब्द को छोड़ शेष शब्दों के पश्चात्; जैसे, चातक-चञ्चु, सीप का सम्पुट, मेरा घट भी भरता है।

(घ) जब कई शब्द जोड़े से आते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के पश्चात्; जैसे, ब्रह्मा ने दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, ये सब बनाये हैं।

(ङ) समानाधिकरण शब्दों के बीच में; जैसे, ईरान के बाद-शाह, नादिरशाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की।

(च) यदि उद्देश्य बहुत लंबा हो, तो उसके पश्चात्; जैसे, चारों तरफ चलनेवाले सवारों के घोड़ों की बढ़ती हुई आवाज, दूर-दूर तक फैल रही थी ।

(छ) कई-एक क्रिया-विशेषण वाक्यांशों के साथ; जैसे, बड़े महात्माओं ने, समय-समय पर, यह उपदेश दिया है । एक हव्शी लडका मजबूत रस्ती का एक सिरा अपनी कमर में लपेट, दूसरे सिरे को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बाँध, नदी में कूद पडा ।

(ज) संबोधन-कारक की संज्ञा और संबोधन शब्दों के पश्चात्; जैसे, घनश्याम, फिर भी तू सबकी इच्छा पूरी करता है । लो, मैं यह चला ।

(झ) छंदों में बहुधा यति के पश्चात्, जैसे—

भणित मोर सब गुण-रहित, विश्व-विदित गुण एक ।

(ञ) उदाहरणों में, जैसे, यथा, आदि शब्दों के पश्चात् ।

(ट) संख्या के अंकों में सैकड़ों से ऊपर इकहरे वा दुहरे अंकों के पश्चात्, जैसे, १, २३४३३, ५४, २१२ ।

(ठ) संज्ञा-वाक्य की छोड़ मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों के बीच में; जैसे, हम उन्हें सुख देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए दुख सहा है । आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए, जिसने कभी दुःख का नाम न सुना हो ।

(ड) जब संज्ञा-वाक्य मुख्य वाक्य से किसी ममुच्चय-बोधक के द्वारा नहीं जोडा जाता; जैसे, लडके ने कहा, मैं अभी आता हूँ । परमेश्वर एक है, यह धर्म की मूल बात है ।

(ढ) जब सयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों में घना संबंध रहता है, तब उनके बीच में; जैसे, पहले मैंने घगीचा देखा, फिर मैं एक टीने पर चढ गया, और वहाँ से उतरकर सीधा इधर चला आया ।

(ग) जब छोटे समानाधिकरण प्रधान वाक्यों के बीच में समुच्चय-बोधक नहीं रहता, तब उनके बीच में; जैसे, पानी बरसा, हवा चली, ओले गिरे। सूरज निकला, हुआ सवेरा, पत्नी शोर मचाते हैं।

(२) अर्द्ध-विराम ।

७३८—अर्द्ध-विगम नीचे लिखी अवस्थाओं में प्रयुक्त होता है—

(क) जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता, तब वे अर्द्ध-विराम के द्वारा अलग किये जाते हैं; जैसे, नंदगाँव का पहाड़ कटवाकर उन्होंने विरक्त माधुओं को लुब्ध किया था; पर लोगो की प्रार्थना पर सरकार ने इस घटना को सीमा-वद्ध कर दिया।

(ख) उन पूरे वाक्यों के बीच में जो विकल्प से अंतिम समुच्चय-बोधक के द्वारा जोड़े जाते हैं; जैसे, सूर्य का अस्त हुआ; आकाश लाल हुआ; बराह पोखरो से उठकर घूमने लगे; मोर अपने रहने के झाड़ों पर जा बैठे; हरिण हरियाली पर सोने लगे; पत्नी गाने-गाने घोंगलों की ओर उड़े; और जंगल में धीरे-धीरे अंधेरा फैलने लगा।

(ग) जब मुख्य वाक्य से कारणवाचक क्रियाविशेषण का निकट संबंध नहीं रहता; जैसे, हवा के दबाव से नायून का एक बुलबुला भी नहीं दब सकता; क्योंकि बाहरी हवा का दबाव भीतरी हवा के दबाव से कट जाता है।

(घ) किसी नियम के पश्चात् ध्यानवाले उदाहरण-सूचक (जैसे) शब्द के पूर्व।

(ङ) उन कई आदिन वाक्यों के बीच में, जो एकही मुख्य वाक्य पर अवलम्बित रहते हैं; जैसे, जब तक हमारे देश के फर्द-विर्गों लोग यह न जानने लगे कि देश में क्या क्या हो रहा है; मागन

मे क्या-क्या त्रुटियाँ हैं, और किन-किन बातों की आवश्यकता है, और आवश्यक सुधार किये जाने के लिये आन्दोलन न करने लगे, तब तक देश की दशा सुधरना बहुत कठिन होगा ।

(३) पूर्ण-विराम ।

७३६—इसका उपयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है—

(क) प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अन्त में, जैसे, इस नदी से हिन्दु-स्थान के दो समविभाग होते हैं ।

(ख) बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात् जो किसी वस्तु के उल्लेख-मात्र के लिये आता है, जैसे राम-वन-गमन । पराधीन सपनेहुँ सुख नहीं ।—तुलसी ।

(ग) प्राचीन भाषा के पद्यों में अर्द्धाली के पश्चात्, जैसे—

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी ।

सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥

[सू०—पूरे छ द के अंत में दो खड़ी लकीरें लगाते हे ।]

(घ) कभी-कभी अर्थ की पूर्णता के कारण और, परन्तु, अथवा, इसलिए, आदि समुच्चय-बोधकों के पूर्व-वाक्य के अंत में, जैसे, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो संसार में कुछ न कुछ लाभकारी कार्य न कर सकता हो । और ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं जिनके लिये संसार में एक न एक उचित स्थान न हो ।

(४) प्रश्न-चिह्न ।

७४०—यह चिह्न प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे, क्या यह बैल तुम्हारा ही है ? वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहाँ न जायँगे ?

(क) प्रश्न का चिह्न ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो; जैसे, कलकत्ते की राजधानी यथाश्रो ।

(ख) जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबन्धवाचक शब्दों का सा होता है, उनमें प्रश्न-चिह्न नहीं लगाया जाता; जैसे, आपने क्या कहा, सो मैंने नहीं सुना। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ।

(५) आश्चर्य-चिह्न ।

७४१—यह चिह्न विस्मयादिवोधक अव्ययों और मनोविकार-सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अन्त में लगाया जाता है; जैसे, वाह ! उसने तो तुम्हें अच्छा धोखा दिया ! राम-राम ! उस लड़के ने दीन पत्नी को मार डाला ।

(क) तीव्र मनोविकार-सूचक संबोधन-पदों के अंत में भी आश्चर्य-चिह्न आता है; जैसे, निश्चय दया-दृष्टि से माधव ! मेरी और निहारोगे ।

(ख) मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो भी आश्चर्य-चिह्न लगाया जाता है; जैसे, क्यों री ! क्या तू आँखों से अन्धी है ।

(ग) बढ़ता हुआ मनोविकार सूचित करने के लिए दो अथवा तीन आश्चर्य-चिह्नों का प्रयोग किया जाता है; जैसे, शोक ! शोक !! महाशोक !!!

[सू०—वाक्य के अंत में प्रश्न वा आश्चर्य का चिह्न आने पर पूर्ण-विराम नहीं लगाया जाता ।]

(६) निर्देशक (डैश) ।

७४२—इस चिह्न का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है—

(क) समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में; जैसे, दुनिया में नयापन—नूतनत्व—ऐसी चीज नहीं जो गली-गली मारी-मारी फिरती हो। जहाँ इन बातों से उसका संबंध न रहे—

वह केवल मनोविनोद की सामग्री समझी जाय—वहीं समझना चाहिये कि उसका उद्देश्य नष्ट हो गया—उसका ढंग बिगड़ गया ।

(ख) किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर, जैसे, सबको सान्त्वना देना, विखरी हुई सेना को इकट्ठा करना और—और क्या ?

(ग) किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में; जैसे, इसी सोच में सबेरा हो गया कि हाय ! इस वीरान में अब कैसे प्राण बचे'गे—न जाने, मैं कौन मौत मरूँगा ! इंगलैंड के राजनीतिज्ञों के दो दल हैं—एक उदार, दूसरा अनुदार ।

(घ) किसी के वचनों को उद्धृत करने के पूर्व; जैसे, मैं—अच्छा यहाँ से जमीन कितनी दूर पर होगी ? कप्तान—कम से कम तीन सौ मील पर । हम लोगों को सुना-सुनाकर वह अपनी बोली में बकने लगा—तुम लोगों को पीठ से पीठ बाँधकर समुद्र में डुबा दूँगा । कहा है—

साँच बरोबर तप नहीं, भ्रूठ बरोबर पाप ।

[सू०—अंतिम उदाहरण में कोई-कोई लेखक कोलन और डँग लगाते हैं; पर हिंदी में कोलन का प्रचार नहीं है ।]

(ङ) लेख के नीचे लेखक या पुस्तक के नाम के पूर्व; जैसे—
किते न औगुन जग करै, नय वय चढती धार ।

—विहारी ।

(च) कई एक परस्पर-संबंधी शब्दों को साथ-साथ लिखकर वाक्य का संक्षेप करने में; जैसे प्रथम अध्याय—प्रारंभी वार्त्ता ।
मन—सेर—छटाँक । ६—११—१६१८ ।

(छ) वातचोत में रुकावट सूचित करने के लिये; जैसे मैं—
अब—चल—नहीं—सकता ।

(ज) ऐसे शब्द या उपवाक्य के पूर्व जिस पर अवधारण की आवश्यकता है; जैसे, फिर क्या था—लगे सब मेरे सिर टपाटप गिरने ! पुस्तक का नाम है—श्यामालता ।

(झ) ऐसे विवरण के पूर्व जो यथास्थान न लिखा गया हो; जैसे, इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें—हस्तलिखित—ऐसी भी हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं हैं ।

(७) कोष्ठक ।

७४३—कोष्ठक नीचे लिखे स्थानों में आता है—

(क) विषय-विभाग में क्रम-सूचक अक्षरों वा अंकों के साथ; जैसे, (क) काल, (ख) स्थान, (ग) रीति, (घ) परिमाण ।

(१) शब्दालंकार, (२) अर्थालंकार, (३) उभयालंकार ।

(ख) समानार्थी शब्द या वाक्यांश के साथ; जैसे, अफ्रिका के नीग्रो लोग (हब्शी) अधिकतर उन्हीं की संतान हैं । इसी कालेज में एक रईस-किसान (बड़े जमींदार) का लड़का पढ़ता था ।

(ग) ऐसे वाक्य के साथ जो मूल वाक्य के साथ आकर उससे रचना का कोई संबंध नहीं रखता; जैसे, रानी मेरी का सौंदर्य अद्वितीय था (जैसी वह सुरुपा थी वैसी ही एलिजबेथ कुरुपा थी) ।

(घ) किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाये गये शब्दों के साथ; जैसे, पराधीन (को) सपनेहु सुख नहीं (है) ।

(ङ) नाटकादि संवादमय लेखों में हाव-भाव सूचित करने के लिये; जैसे, इंद्र—(आनंद से) अच्छा देवसेना सज्जित हो गई ?

(च) भूल के संशोधन या संदेह में; जैसे, यह चिह्न प्रकार शब्द (वर्ण ?) का निर्भ्रांत रूप है ।

(८) अवतरण-चिह्न ।

७४४—इन चिह्नों का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है—

(क) किसी के महत्त्व-पूर्ण वचन उद्धृत करने में अथवा कहावतों में; जैसे, इसी प्रेम से प्रेरित होकर ऋषियों के मुख से यह परम पवित्र वाक्य निकला था—“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” । उस बालक के सुलक्षण देखकर सब लोग यही कहते थे कि “होनहार विरवान के होत चीकने पात” ।

(ख) व्याकरण, तर्क, अलंकार, आदि साहित्य-विषयों के उदाहरणों में, जैसे, “मौर्य-वशी राजाओं के समय में भी भारत-वासियों को अपने देश का अच्छा ज्ञान था” ।—यह साधारण वाक्य है । उपमा का उदाहरण—

“प्रभुहिं देखि सब नृप हिय हारे ।

जिमि राकेश उदय भये तारे ॥”

(ग) कभी-कभी सज्ञा-वाक्य के साथ, जो मुख्य वाक्य के पूर्व आता है, जैसे, “रबर काहे का बनता है”, यह बात बहुतेरों को मालूम नहीं है ।

(घ) जब किसी अक्षर, शब्द या वाक्य का प्रयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में होता है; जैसे हिन्दी में, ‘लृ’ का उपयोग नहीं होता । “शिक्षा” बहुत व्यापक शब्द है । चारों ओर से “मारो मारो” की आवाज सुनाई देती थी ।

(ङ) अप्रचलित विदेशी शब्दों में, विशेष प्रचलित अथवा आक्षेप-योग्य शब्दों में और ऐसे शब्दों में जिनका धात्वर्थ बताना हो, जैसे, इन्होंने वो० ए० की परीक्षा बड़ी नामवरी के साथ “पाम” की । आप कलकत्ता विश्व-विद्यालय के “फेनो” थे । कहते

अरबवाले अभी तक “हिन्दसा” ही अंक से । उनके “सर” में चोट लगी है ।

(च) पुस्तक, समाचार-पत्र, लेख, चित्र, मूर्ति और पदवी के नाम में तथा लेखक के उपनाम और वस्तु के व्यक्तिवाचक नाम में; जैसे, कालाकाँकर से “सम्राट्” नाम का जो साप्ताहिक पत्र निकलता था, उसका इन्होंने दो मास तक संपादन किया । इसके पुराने अंकों में “परसन” नाम के एक लेखक के लेख बहुत ही हास्यपूर्ण होते थे । बंबई में “सरदार-गृह” नाम का एक बड़ा विश्रान्ति-गृह है ।

[सू०—(१) अक्षर, शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्य अप्रधान हो या अव-तरणचिह्नो से घिरे हुए वाक्य के भीतर भी इन चिह्नो का प्रयोजन हो तो इकट्ठे अवतरण-चिह्नो का उपयोग किया जाता है; जैसे, “इस पुस्तक का नाम हिंदी में ‘आर्या-समाचार’ छपता है” । “बच्चे मा को ‘मा’ और पानी को ‘पा’ आदि कहते हैं ।”

(२) जब अवतरण-चिह्नो का उपयोग ऐसे लेख में किया जाता है, जो कई पैरों में विभक्त है, तब ये चिह्न प्रत्येक पैरे के आदि में और अन्तिम अनुच्छेद के आदि-अंत में लिखे जाते हैं ।]

७४५—पूर्वोक्त चिह्नो के सिवा नीचे लिखे चिह्न भी भाषा-रचना में प्रयुक्त होते हैं—

(१) वर्गाकार कोष्ठक	[]
(२) सर्पाकार कोष्ठक	{ }
(३) रेखा	—
(४) अपूर्णाता-सूचक	x x x
(५) हंस-पद	^
(६) टीका-सूचक	• , + , † ,
(७) संज्ञेत	o
(८) पुनरुक्ति-सूचक	”

- (६) तुल्यता-सूचक =
 (१०) स्थान पूरक
 (११) समाप्ति-सूचक —०—

(१) वर्गाकार कोष्ठक ।

७४६—यह चिह्न मूल सुधारने और त्रुटि की पूर्ति करने के लिए व्यवहृत होता है; जैसे, अनुवादित [अनूदित] ग्रंथ, वृ [त्र] ज-मोहन, कुटी [र] ।

(क) कभी-कभी इसका उपयोग दूसरे कोष्ठकों को घेरने में होता है, जैसे, अक [४ (क)] देखो । ' दरखास्तें [नमूना (क)] के मुताबिक हो सकती हैं ।

(ख) अन्यान्य कोष्ठको के रहते भिन्नता के लिए; जैसे—

(१) मातृ-मूर्ति—(कविता) [लेखक, बाबू मैथिलीशरण गुप्त] ।

(२) सर्पाकार कोष्ठक ।

७४७—इसका उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्तियों में लिखे जाते हैं और जिन सबका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है, जैसे—

आर्द्रपन	} = गीलापन,	चंद्रशेखर मिश्र	}
आर्द्रभाव		शिक्तक, राजस्कूल दरभंगा	
		(विहार और उड़ीसा)	

(३) रेखा ।

७४८—जिन शब्दों पर विशेष अवधारण देने की आवश्यकता होती है उनके नीचे बहुधा रेखा कर देते हैं, जैसे, जो रुपया लडाईं के कर्जे में जमा किया जायगा उसमें का हर एक रुपया चान्नी वह सबका सब मुल्क हिंद में खर्च किया जायगा । आप कुछ न कुछ रुपया बचा सकते हैं, चाहे वह थोड़ा ही हो और एक रुपय से भी कुछ न कुछ काम चलता है ।

(क) भिन्न-भिन्न विषयों के अलग-अलग लिखे हुए लेखों वा अनुच्छेदों के अन्त में भी ; जैसे —

आजकल शिमले में हैजे का प्रकोप है ।

आगामी बड़ी व्यवस्थापक सभा की बैठक कई कारणों से नियत तिथि पर न हो सकेगी, क्योंकि अनेक सदस्यों को और-और सभा-समितियों में संमिलित होना है ।

[सू०—लेखों के अंत में इस चिह्न के उदाहरण समाचार-पत्रों अथवा मासिक पुस्तकों में मिलते हैं ।]

(४) अपूर्णता-सूचक चिह्न ।

७४६—किसी लेख में से जब कोई अनावश्यक अंश छोड़ दिया जाता है, तब उसके स्थान में यह चिह्न लगा देते हैं; जैसे,

X X X X X

पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ।

(क) जब वाक्य का कोई अंश छोड़ दिया जाता है, तब यह चिह्न (.....) लगाते हैं; जैसे, तुम समझते हो कि यह निरा बालक है, पर..... ।

(५) हंस-पद ।

७५०—लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर अथवा हाशिये पर लिख देते हैं और उसके मुख्य स्थान के नीचे यह चिह्न कर देते हैं; जैसे, रामदास की

-शक्ति यहाँ
रचना स्वाभाविक है। किसी दिन हम भी आपके आवेंगे ।

(६) टीका-सूचक चिह्न ।

७५१—पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिये में कोई सूचना देने के लिए तत्संबंधी शब्द के साथ कोई एक चिह्न, अङ्क अथवा अक्षर लिख देते हैं; जैसे, उस समय मेवाड़ में राना उदयसिंह * राज करते थे ।

* ये वही उदयसिंह थे जिनकी प्राण-रक्षा पद्मादाई ने की थी ।

(७) संकेत ।

७५२—समय की बचत अथवा पुनरुक्ति के निवारण के लिए किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के निमित्त इस चिह्न का उपयोग करते हैं, जैसे, डा० घ० । जि० । सर० । श्री० । रा० सा० ।

(क) अँगरेजी के कई एक सक्षिप्त नाम हिंदी में भी संक्षिप्त मान लिये गये हैं, यद्यपि इस भाषा में उनका पूर्ण रूप प्रचलित नहीं है; जैसे, वी० ए० । सी० आई० ई० । सी० पी० । जी० आई० पी० आर० ।

(८) पुनरुक्ति-सूचक चिह्न ।

७५३—किसी शब्द या शब्दों को बार-बार प्रत्येक पंक्ति में लिखने की अडचन मिटाने के लिए सूचो आदि में इस चिह्न का प्रयोग करते हैं, जैसे,

श्रीमान् माननीय प० मदनमोहन मालवीय, प्रयाग

„ „ वावू सी० वाई० चिंतामणि, „

(९) तुल्यता-सूचक चिह्न ।

७५४—शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिह्न का उपयोग किया जाता है, जैसे, शिञ्जित = पढा लिखा । दो और दो = ४, अ = व ।

(१०) स्थान-पूरक चिह्न ।

७५५—यह चिह्न सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है, जैसे,

खेल (कविता) ... वावू मैथिलीशरण गुप्त ... १७६ ।

(११) समाप्ति-सूचक चिह्न ।

७५६—इस चिह्न का उपयोग बहुधा लेख अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं; जैसे,

परिशिष्ट (क) ।

कविता की भाषा ।

१—हिंदी कविता प्रायः तीन प्रकार की उपभाषाओं में होती है—ब्रजभाषा, वैसवाड़ी और खड़ीबोली । हमारी अधिकांश प्राचीन कविता ब्रजभाषा में पाई जाती है और उसका बहुत कुछ प्रभाव अन्य दोनों भाषाओं पर भी पड़ा है । स्वयं ब्रजभाषा ही में कभी-कभी बुंदेलखंडी तथा दूसरी दो भाषाओं का थोड़ा-बहुत मेल पाया जाता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि शुद्ध ब्रजभाषा की कविता प्रायः बहुत कम मिलती है । वैसवाड़ी में, जिसे कोई-कोई अवधी नाम से अभिहित करते हैं, तुलसीदास तथा अन्य दो-चार श्रेष्ठ कवियों ने कविता की है; परंतु शेष प्राचीन तथा कई एक अर्वाचीन कवियों ने मिश्रित ब्रजभाषा में अपनी कविता लिखी है । आजकल कुछ वर्षों से खड़ीबोली अर्थात् बोलचाल की भाषा में कविता होने लगी है । यह भाषा प्रायः गद्य ही की भाषा है ।

२—इस परिशिष्ट में हिंदी कविता की प्राचीन भाषाओं के शब्द-साधन के कई एक नियम संक्षेप में * देने का प्रयत्न किया जाता है । इस विषय में ब्रजभाषा ही की प्रधानता रहेगी, तो भी

इस विषय को संक्षेप में लिखने का कारण यह है कि व्याकरण के नियम गद्य ही की भाषा पर रचे जाते हैं और उसमें पद्य के प्रचलित शब्दों का विचार केवल प्रसंग-वश किया जाता है । यद्यपि आधुनिक हिंदी का ब्रजभाषा से घनिष्ठ संबंध है, तथापि व्याकरण की दृष्टि से दोनों भाषाओं में बहुत कुछ अंतर है । यदि केवल इतना ही अंतर पूर्णतया प्रकट करने का प्रयत्न किया जावे, तो भी ब्रजभाषा का एक छोटा-मोटा व्याकरण लिखने की आवश्यकता होगी; और इतना करना भी प्रस्तुत व्याकरण के उद्देश्य के बाहर है । इस पुस्तक में कविता के प्रयोगों का थोड़ा-बहुत विचार यथास्थान हो चुका है, पर यहाँ वह कुछ अधिक नियमित रूप से, पर संक्षेप में, दिया जायगा । हिंदी कविता की भाषाओं का पूर्ण विवेचन करने के लिये एक नवतंत्र पुस्तक की आवश्यकता है ।

कविता की दूसरी प्राचीन भाषाओं की रूपावली भी जो हिंदी में पाई जाती है, ब्रजभाषा की रूपावली के साथ यथासंभव दी जायगी, पर प्रत्येक रूपांतर के साथ यह बताना कठिन होगा कि वह किस विशेष उपभाषा का है। ऐसी अवस्था में एक प्रकरण के भिन्न-भिन्न रूपांतरों का उल्लेख एक ही साथ किया जायगा। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि जितने रूपों का संग्रह इस परिशिष्ट में किया गया है उनके सिवा और भी कुछ अधिक रूप यत्र-तत्र कविता में पाये जाते हैं।

३—गद्य और पद्य के शब्दों के वर्ण-विन्यास में बहुधा यह अंतर पाया जाता है कि गद्य के ड, य, ल, व, श और च के बदले पद्य में क्रमशः र, ज, र, व, म और छ (अथवा ख) आते हैं, और संयुक्त वर्णों के अवयव अलग-अलग लिखे जाते हैं, जैसे, पडा = परा यज्ञ = जज्ञ, पीपल = पीपर, वन = वन, शील = सील, रचा = रच्छा, साक्षी = साखी, यत्न = जतन, धर्म = धरम।

४—गद्य और पद्य की भाषाओं की रूपावली में एक साधारण अंतर यह है कि गद्य के अधिकांश आकारांत पुलिग शब्द पद्य में ओकारांत रूप में पाये जाते हैं, जैसे,

संज्ञा—सोना = सेना, चेरा = चेरो, हिया = हियो, नाता = नातो, वसेरा = वसेरो, सपना = सपनो, वहाना = वहानो (उट्ट), मायका = मायको।

सर्वनाम—मेरा = मेरो, अपना = अपनो, पराया = परायो, जैसा = जैसो, जितना = जितनो।

विशेषण—काला = कारो, पीला = पीरो, ऊँचा = ऊँचो, नया = नयो, बडा = बडो, सीधा = सीधो, तिरछा = तिरछो।

क्रिया—गया = गयो, देखा = देख्यो, जाऊँगा = जाऊँगी, करता = करतो, जाना = जान्यो।

लिंग ।

५—इस विषय मे गद्य और पद्य की भाषाओं मे विशेष अंतर नहीं है । स्त्रीलिंग बनाने में ई और इनि प्रत्ययों का उपयोग अन्यान्य प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक किया जाता है; जैसे, वर-दुल-हिनि सकुचाहिं । दुलही सिय सुंदर । भूलि हू न कीजै ठकु-राइनी इतेक हठ । भिल्लिनि जनु छाँड़न चहत ।

वचन ।

६—बहुत्व सूचित करने के लिए कविता मे गद्य की अपेक्षा कम रूपांतर होते हैं और प्रत्ययों की अपेक्षा शब्दों से अधिक काम लिया जाता है । रामचरित-मानस मे बहुधा समूहवाची नामो (गन, वृंद, युथ, निकर आदि) का विशेष प्रयोग पाया जाता है । उदा०—

जमुना-तट कुंज कदंब के पंज तरे तिनके नवनीर भिरै ।
लपटी लतिका तरु जालन सो कुसुमावलि ते मकरंद गिरै ।
इन उदाहरणो मे मोटे अक्षरों मे दिये हुए शब्द अर्थ मे बहुवचन हैं; पर उनके रूप दूसरे ही हैं ।

(क) अविकृत कारकों के बहुवचन मे संज्ञा का रूप बहुधा जैसा का तैसा रहता है; पर कहीं-कहीं उसमे भी विकृत कारकों का रूपांतर दिखाई देता है । अकारात स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में ए' के बदले बहुधा ऐ' पाया जाता है ।

उदा०—भौरा ये दिन कठिन हैं । विलोकत ही कछु भौर
की भीरन । सिगरे दिन येही सुहाति हैं बातै ।

(ख) विकृत कारकों के बहुवचन में बहुधा न, न्ह अथवा नि आती है; जैसे, पृछेसि लोगन्ह काह उछाहू । ज्यां आँखिन सब देखिये । है रहो अँगुरी दोऊ कानन में ।

कारक ।

७—पद्य मे सज्ञाओं के साथ भिन्न-भिन्न कारकों में नीचे लिखी विभक्तियों का प्रयोग होता है—

कर्त्ता—ने (क्वचित्) । रामचरित-मानस में इसका प्रयोग नहीं हुआ ।

कर्म—हि, कौं, कहँ

करण—ते, सो

संप्रदान—हि, कौं, कहँ

अपादान—ते, सो

संबंध—कौ, कर, केरा । भेद्य के लिंग और वचन के अनुसार कौ और केरा में विकार होता है ।

अधिकरण—मे, मां, माहि, मांभ, महँ ।

सर्वनामों की कारक-रचना ।

८—सज्ञाओं की अपेक्षा सर्वनामों में अधिक रूपांतर होता है ; इसलिए इनके कुछ कारकों के रूप यहाँ दिये जाते हैं ।

उत्तम-पुरुष सर्वनाम ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	मैं, हँ	हम
विकृत रूप	मो	हम
कर्म	मोकौं, मोहिं	हमकौं, हमहिं
	मोकहँ (वैस०)	हमकहँ
संबंध	मेरो, मोर, मोरा	हमारो, हमार
	मम (सं०)	

मध्यम-पुरुष सर्वनाम ।

कर्त्ता	तू, तै	तुम
विकृत रूप	तो	तुम

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्म	तोकौं, तोहिं तोकरहँ	तुमकौं, तुमहि तुमकरहँ
संबंध	तेरो, तोर, तोरा तव (सं०)	तुम्हारो, तुम्हार तिहारो, तिहार

अन्य-पुरुष सर्वनाम ।

(निकटवर्ती)

कर्ता	यह, एहि,	ये
विकृत रूप	या, एहि	इन
कर्म	याकौं, याहि, एहिकहँ	इनकौं, इनहि इनकरहँ
संबंध	याकौ, एहिकर	इनको, इनकर

(दूरवर्ती)

कर्ता	वोह, ओ, सो	वे, ते
विकृत रूप	वा, ता, तेहि	उन, तिन
कर्म	वाकौं, ताहि ताकरहँ	उनकौं, उनहिं तिनको, तिनहिं
संबंध	वाकौ, ताकौ तासु (सं०-तस्य) ताकर, तेहिकर	तिनकौ, तिनकर उनकौ, उनकर

निजवाचक सर्वनाम ।

कर्ता	आपु	आपु
विकृत रूप	आपु	आपु
कर्म	आपुकौं	आपुकौं
संबंध	आपुन, अपुनौ	आपुन, अपुनौ

संबंधवाचक सर्वनाम ।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	जो, जौन	जे
विकृत रूप	जा	जिन
कर्म	जाकों, जेहि, जाहि, जाकहँ	जिनकौ, जिनहिं, जिनकहँ
संबंध	जाकौ, जाकर, जेहिकर, जासु	जिनकौ, जिनकर
	(स०-यस्य)	

प्रश्नवाचक सर्वनाम (कौन) ।

कर्त्ता	कौन, को, कवन	कौन, को
विकृत रूप	का	किन
कर्म	काकों, काहि, केहि	किनकौं, किनहिं
संबंध	काकौ, काकर	किनकौ, किनकर
	(क्या)	

कर्त्ता	का, कहा	का, कहा
विकृत रूप	काहे	काहे
कर्म	काहे कौ	काहे कौ
संबंध	काहे कौ	काहे कौ

अनिश्चयवाचक सर्वनाम (कोई) ।

कर्त्ता	कोऊ, कोय	कोऊ, कोय
विकृत रूप	काहू	काहू
कर्म	काहू को, काहुहि	काहू कौं, काहुहि
संबंध	काहू कौ	काहू कौ

(६५०)

कारक	एकवचन	बहुवचन
	(कुछ)	
कर्त्ता	कछु	कछु
विकृत रूप	कछु	कछु
कर्म	} ये रूप नहीं पाये जाते ।	
संबंध		

क्रियाओं की काल-रचना ।

कर्तृवाच्य ।

८—धातुओं के प्रत्यय अलग-अलग बताने में सुभीता नहीं है; इसलिए भिन्न-भिन्न कालों में कुछ धातुओं के रूप लिखे जाते हैं—

‘होना’ क्रिया (स्थिति-दर्शक) ।

क्रियार्थक संज्ञा—होनौं, होइवो

कर्तृवाचक संज्ञा—होनहार, होनेहारा

वर्त्तमानकालिक कृदंत—होत

भूतकालिक कृदंत—भयो

पूर्वकालिक कृदंत—होइ, है, हूँके, होयकै

तात्कालिक कृदंत—होतही

सामान्य वर्त्तमान-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
१	हौं, अहौं	हैं, अहैं
२	है, हसि	हो, अहो
३	है, अहै, अहहि	हैं, अहैं, अहहि

सामान्य भूतकाल ।

कर्त्ता—पुल्लिग ।

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
१ २ ३	} हते	हते

अथवा

१	रह्यौ, रह्यो, रहेऊँ	} हो	} रहे, हे
२	रह्यौ, रहेसि		
३	रह्यौ, रहेसि		

कर्त्ता—स्त्रीलिग ।

१—३ रह्यौ, ही १—३ रहीं, हीं

[सू०—इस क्रिया के शेष काल विकारदर्शक 'होना' क्रिया के रूपों के समान होते हैं ।]

होना (विकार-दर्शक) ।

संभाव्य-भविष्यत् (अथवा सामान्य-वर्त्तमान)

कर्त्ता—पुल्लिग वा स्त्रीलिग ।

१	होऊँ	१—३	होयँ
२—३	होय, होवे, होहि	२	हो

विधिकाल (प्रत्यक्ष) ।

कर्त्ता—पुल्लिग वा स्त्रीलिग ।

१	होऊँ	१—३	होयँ
२—३	होय, होवे	२	हो, होहु

विधिकाल (परोक्ष) ।

कर्त्ता—पुल्लिग वा स्त्रीलिग ।

२	होइयो	होइयो, होहु
---	-------	-------------

सामान्य-भविष्यत् ।

कर्त्ता—पुल्लिग वा स्त्रीलिग ।

पुरुष	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
१	होइहैं, हँ हैं	१—३	होइहैं, हँ हैं
२—३	होइहै, हँ है	२	होइहै, हँ है

अथवा

कर्त्ता—पुल्लिग

१	होऊँगे	१—३	होयँगे
२—३	होयगो	२	होगे

कर्त्ता—स्त्रीलिग ।

१	होऊँगी	१—३	होयँगी
२—३	होयगी	२	होगी

सामान्य स'केतार्थ-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिग ।

१	होतो, होतेऊँ	१—३	होते
२	होतो, होतेऊ, होतु	२	होते, होतेऊ
३	होतो, होतु		

कर्त्ता—स्त्रीलिग ।

१	होती, होतिऊँ	}	होतीं
२—३	होत, होती		

सामान्य वर्त्तमान-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिग वा स्त्रीलिग ।

१	होतु हँ, होत हँ	१—३	होतु हैं, होत हैं
२—३	होतु है, होत है	२	होतु है, होत है

अपूर्ण-भूत-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

पुरुष ।	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
१	होत रह्यो—रहेऊँ	}	होत रहे
२—३	होत रह्यो		
कर्त्ता—स्त्रीलिंग ।			
१—३	होत रही, रहेऊँ		होत रहों

सामान्य भूत-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१	भयौ, भयऊँ	१—३	भये
२	भयौ, भयेसि		
३	भयौ, भयऊ, भयेसि		
कर्त्ता—स्त्रीलिंग ।			
१—३	भई		भईं

आसन्न भूत-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१	भयौ हँ	१—३	भये हँ
२—३	भयौ है	२	भये है
कर्त्ता—स्त्रीलिंग ।			
१	भईं हो,	}	भईं हँ
२—३	भईं है		

[सू०—अवशिष्ट रूपों का प्रचार बहुत कम है और वे ऊपर लिखे रूपों सहायता से बनाये जा सकते हैं ।]

व्यंजनांत धातु ।

चलना (अकर्मक क्रिया) ।

क्रियार्थक संज्ञा—चलना, चलनीं, चलिवौ

कर्तृवाचक संज्ञा—चलनहार

वर्तमानकालिक कृदन्त—चलत, चलतु

भूतकालिक कृदन्त—चल्यौ

पूर्वकालिक कृदन्त—चलि, चलिकै

तात्कालिक कृदन्त—चलतही

अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त—चलत, चलतु

पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त—चले

संभाव्य-भविष्यत् (अथवा सामान्य-वर्तमान) ।

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग ।

पुरुष	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
१	चलौ, चलऊँ	१—३	चलें, चलदि
२	चलै, चलसि	२	चलौ, चलहु
३	चलै, चलइ, चलहि		

विधिकाल (प्रत्यक्ष) ।

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग ।

१	चलौ, चलऊँ	१—३	चलें, चलदि
२	चल, चले, चलही	२	चलौ, चलहु

विधिकाल (परोक्ष) ।

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग ।

२	चलियो		चलियो
---	-------	--	-------

आदरसूचक विधि

२—३	चलियो	२—३	चलियो
-----	-------	-----	-------

सामान्य-भविष्यत् ।

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग ।

१	चलिहैं	१—३	चलिहैं
---	--------	-----	--------

पुरुष	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
२—३	चलि है	२	चलिहैं

(अथवा)

कर्त्ता—पुल्लिग ।

१	चलौंगो	१—३	चलैंगे
२—३	चलैंगो	२	चलौंगे

कर्त्ता—छोलिग

१	चलौंगी	१—३	चलैंगी
२—३	चलैंगी	२	चलौंगी

सामान्य संकेतार्थ ।

कर्त्ता—पुल्लिग

१	चलतो, चलत	१—३	चलते
	चलतेऊँ	२	चलतेऊ
२	चलतो, चलत		
	चलतेऊ		
३	चलतो, चलत		

कर्त्ता—छोलिग ।

१	चलती, चलतिऊँ	}	चलती
२—३	चलती, चलत		

सामान्य वतमान-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिग वा छोलिग ।

१	चलत हैं	१—३	चलत हैं
२—३	चलत है	२	चलत हैं

(अथवा)

कर्त्ता—छोलिग

१	चलति हैं	१—३	चलति हैं
---	----------	-----	----------

पुरुष	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
२—३	चलति है	२	चलति हैं

अपूर्ण भूत-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१	चलत रह्यौ--रहेऊँ	१—३	चलत रहे
२—३	चलत रह्यो		रहे--रहौ

कर्त्ता--स्त्रीलिंग ।

१—३	चलत रही	१—३	चलत रह्यौ
२	चलत रही, हुती		

सामान्य-भूत ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१—३	चल्यौ	१—३	चले
-----	-------	-----	-----

कर्त्ता--स्त्रीलिंग ।

१—३	चली		चली
-----	-----	--	-----

आसन्न भूत-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१	चल्यौ हों	१—३	चले हैं
२—३	चल्यौ है	२	चले हौ

कर्त्ता--स्त्रीलिंग ।

१	चली हों	१—३	चली हैं
२—३	चली है	२	चली हौ

पूर्ण भूत-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१—३	चल्यौ रह्यो, हो	१—३	चले रहे, हे
			२ चलते रहे--रहौ, हे

(६५७)

कर्त्ता—स्त्रीलिंग ।

पुरुष	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
१—३	चली रही, ही	१—३	चली रहीं, ही

स्वरांत धातु ।

पाना (सकर्मक) ।

क्रियार्थक संज्ञा—पाना, पावनों, पाइवो

कर्त्तृवाचक—पावनहार

वर्त्तमानकालिक कृदन्त—पावत

भूतकालिक कृदन्त—पायौ

पूर्वकालिक कृदन्त—पाय, पाइ, पायकै,
पाइकै

तात्कालिक कृदन्त—पावतही

अपूर्ण क्रियाद्योतक ”—पावत

पूर्ण क्रियाद्योतक ”—पायें

संभाव्य भविष्यत-काल ।

(अथवा सामान्य वर्त्तमान काल)

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग ।

पुरुष	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
१	पावौं, पावउँ	१—३	पावहि, पावैं
२	पावै, पावसि	२	पावौ, पावहु
३	पावै, पावइ, पावहि		

विधि काल (प्रत्यक्ष) ।

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग ।

१	पावौं, पावउँ	१—३	पावैं, पावहि
२	पाइ, पावै, पावही	२	पावौ, पावहु

विधि-काल (परोक्ष) ।

पुरुष	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
२	पाइयो	२	पाइयो

आदर-सूचक विधि ।

२—३	पाइये	२—३	पाइये
-----	-------	-----	-------

सामान्य भविष्यत-काल ।

१	पाइहें	१—३	पाइहें
२—३	पाइहै	२	पाइहै

(अथवा)

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१	पाउँगो, पावहुँगो	१—३	पायँगे, पावहिँगे
२—३	पायगो, पावहिगो	२	पाओगे, पावहुगे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग ।

१	पाऊँगी, पावौँगी	१—३	पावैँगी
२—३	पावैँगी	२	पावौँगी

सामान्य संकेतार्थ-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१—३	पावतो	१—३	पावते
-----	-------	-----	-------

कर्त्ता—स्त्रीलिंग ।

१—३	पावती	१—३	पावती
-----	-------	-----	-------

सामान्य वर्त्तमान-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१	पावत हँ	१—३	पावत हँ
२—३	पावत हँ	२	पावत हँ

कर्त्ता—छोलिंग ।

पुरुष	एकवचन	पुरुष	बहुवचन
१	पावति हैं	१—३	पावति हैं
२—३	पावति है	२	पावति है

अपूर्णा भूत-काल ।

कर्त्ता—पुल्लिंग ।

१	पावत रह्यो	१—३	पावत रहे
२—३	पावत रह्यो	२	पावत रहे—रही

कर्त्ता—छोलिंग ।

१—३	पावत रही	१—३	पावत रहीं
-----	----------	-----	-----------

सामान्य भूत-काल ।

कर्म—पुल्लिंग ।

१—३	पायो	१—३	पाये
-----	------	-----	------

कर्म—छोलिंग ।

१—३	पाई	१—३	पाई
-----	-----	-----	-----

[सू०—सामान्य भूतकाल तथा इस वर्ग के अन्य कालों में सकर्मक क्रिया की काल-रचना अकर्मक क्रिया के समान होती है। अवशिष्ट काल ऊपर के आदर्श पर बन सकते हैं ।]

अव्यय ।

१०—अव्ययों की वाक्य-रचना में गद्य और पद्य की भाषाओं में विशेष अंतर नहीं है; पर पिछली भाषा में इन शब्दों के प्रांतिक रूपों का ही प्रचार होता है, जिनके कुछ उदाहरण ये हैं—

क्रिया-विशेषण ।

स्थान-वाचक—इहाँ, इत, इतै, ह्याँ, तहाँ, तित, तितै, रहाँ, तहँ, तहँवाँ, कहाँ, कित, कितै, कहँ, कहँवा, जहा, जित, जितै, जहँ, जहँवा ।

काल-वाचक—अब, अबै, अबहि (अभी), तब, तबै, तबहिं (तभी),
कब, कबै, कबहुँ (कभी), जब, जबै, जबहिं (जभी) ।
रीति-वाचक—ऐसे, अस, यां, इमि, तैसे, तस, त्यों, वैसे, तिमि,
कैसे, कस, कयां, किमि, जैसे, जस, ज्यों, जिमि ।
परिमाण-वाचक—बहुत, बड़, केवल, निपट, अतिशय, अति ।

संबंध-सूचक ।

निकट, नेरे, ढिग, बिन, मध्य, सम्मुख, तरे, ओर, बिनु, लौं,
लगि, नाई, अनुरूप, समान, करि, जान, हेतु, सरिस, इव, लाने,
सहित, इत्यादि ।

समुच्चय-बोधक ।

संयोजक—औ, अरु, फिर, पुनि, तथा, कहँ—कहँ ।

विभाजक—नतरु, नाहित, न—न, कै—कै, वरु, मकु (राम०),

घौं, की, अथवा, किवा, चाहै—चाहै, का—का ।

विरोध-दर्शक—पै, तदपि, यदपि—तदपि ।

परिणामदर्शक—याते, यासां, इहि हेतु, जाते ।

स्वरूपबोधक—कै, जो ।

संकेत-दर्शक—जो—तो, जोपै—तो ।

विस्मयादि-बोधक ।

हे, रे, हा, हाय, हा-हा, अहह, धिक्, जय, वाहि, पाहि, एरे ।

परिशिष्ट (ख)

काव्य-स्वतंत्रता ।

११—कविता की दोनों प्रकार की भाषाओं में अलग-अलग प्रकार की काव्य-स्वतंत्रता पाई जाती है; इसलिए इसका विचार दोनों के संबंध से अलग-अलग किया जायगा ।

(अ) प्राचीन भाषा की काव्य-स्वतंत्रता ।

१२—विभक्तियों का लोप—

(क) कर्त्ता-कारक—इन नहीं कछु काज विगारा । नारद
देखा विकल जयंता—(राम०) । जगत जनाया जिहिं सकल—
(सत०) ।

(ख) कर्म—भूप भरत पुनि लिये बुनाई—(राम०) ।
पापी अजामिल पार कियो—(जगत्०) ।

(ग) करण—ज्यो अंखिन सब देखिये—(सत०) ।
लागि अगम आपनि कदराई—(राम०) ।

(घ) सप्रदान—जासवंत नीलादि सब पहिराये रघुनाथ—
(राम०) । सुरन धीरज देत यह नव वीर गुण सचार (क० क०) ।

(ङ) अपादान—हानि कुसंग सुसंगति लाहू । लोकहु
वेद विदित सब काहू—(राम०) । विरुत भय कर के डरन जो
कछु चित अकुलात—(जगत्०) ।

(च) संबंध—भूप रूप, तव रामदुराम—(राम०) । पावस
घन अंधियार में—(सत०) ।

(छ) अधिकरण—भानुवंश भे भूप, घनेरे—(राम०) । एक
पाय भीत एक मीत कांधे धरे एक—(जगत्०) ।

१३—सत्तावाचक और सहकारी क्रियाओं का लोप—

(क) अन्न जो कहै सो भूठी—(कवीर०) । धनि रहीम वे
लोग—(रहीम०) ।

(ख) अति विकराल न जात () घतायो—(ब्रज०) । कपि
कह () धर्मशीलता तोरी । हमहुँ सुनी कृत पर तिय-चोरी—
(राम०) ।

१४—संबंधी शब्दों में से किमी एक शब्द का लोप अथवा विपर्यय-
जो जनसों वन बंधु-विछोह ।

() पिता-वचन नहि मनल्योँ ओहू ॥ (राम०)

कोटि जतन कोऊ करै परै न प्रकृतिहिं बीच ।

() नल-बल जल ऊँचो चढ़ै अंत नीच को नीच ॥ (सत०)

जाको राखै साइयाँ () मारि न सकिहै कोय । (कबीर०)

तौ लगि या मन-सदन महँ हरि आवहिं कोहि बाट ।

निपट विकट जै लोँ जुटै, खुलहिं न कपट-कपाट ॥ (सत०)

तब लगि मोहिं परखियहु भाई ।

X

X

X

जब लगि आँवहुँ सीतहिं देखी ॥ (राम०)

१५—प्रचलित शब्दों का अपभ्रंश—

काज—काजा (राम०) ।

सपना—सापना (जगत्०) ।

एकत्र—एकत (सत०) ।

संस्कृत—संस्किरत (कबीर०) ।

१६—नाम-धातुओं की बहुतायत—

प्रमाण—प्रमानियत (सत०) ।

विरुद्ध—विरुद्धिये (कुण्ड०) ।

गवन—गवनहु (राम०) ।

अनुराग—अनुरागत (नीति०) ।

१७—अर्थ के अनुसार नामांतर—

मेघनाद—घननाद (राम०) ।

हिरण्याक्ष—हाटकलोचन (तत्रैव) ।

कुंभज—घटज (तत्रैव) ।

(आ) खड़ीबोली की काव्य-स्वतंत्रता ।

१८—यद्यपि खड़ीबोली की कविता में शब्दों की इतनी तोड़-मरोड़ नहीं होती जितनी प्राचीन भाषा की कविता में होती है

तथापि उसमे भी कवि लोग बहुत कुछ स्वतंत्रता से काम लेते हैं । खडीबोली की काव्य-स्वतंत्रता में नीचे लिखे विषय पाये जाते हैं—

(क) शब्द-दोष ।

१६—कहीं-कहीं प्राचीन शब्दों का प्रयोग—

नेक न जीवन-काल विताना (सर०) ।

पल-भर में तजके ममता सब (हिं० प्र०) ।

सुध्वनित पिक लीं जो वाटिका था बनाता (प्रिय०) ।

२०—ऋठिन सस्कृत शब्दों का अधिक उपयोग—

भाता है जो स्वयमपि वही रूप होता वरिष्ठ (सर०) ।

स्वकुल-जलज का है जो समुत्फुल्लकारी (प्रिय०) ।

२१—संस्कृत शब्दों का अपभ्रंश—

मार्ग = मारग (सर०) ।

हरिश्चद्र = हरिचद्र (क० क०) ।

यद्यपि = यदपि (हिं० प्र०) ।

परमार्थ = परमारथ (सर०) ।

२२—नाम-धातुओं का प्रयोग—

न तो भी मुझे लंग सम्मानते हैं (सर०) ।

देख युवा का भी मन लोभा (क० क०) ।

२३—लंबे समास—

दुख-जलनिधि-डूबी का सहारा कहाँ है (प्रिय०) ।

अगणित-कमल-असल-जल-पूरित (क० क०) ।

शैलेंद्र-तीर-सरिता जल (सर०) ।

२४—फारसी-अरबी शब्दों का अनमिल प्रयोग—

अफसोस ! अब तरु भी वने हैं पात्र जो संताप के

—(सर०) ।

विधिरोग का अंश एक दिन लिये बहाना । (तत्रैव) ।

२५—शब्दों की तोड़-मरोड़—

आधार = अधारा (प्रिय०) ।

तूही = तुही (सर०) ।

चाहता = चहता (तत्रैव) ।

नहीं = नहि (एकांत०) ।

२६—संस्कृत की वर्ण-गुरुता—

कितु श्री लोग इसी सबेरे (हिं० प्र०) ।

मुझ पर मत लाना दोष कोई कदापि (सर०) ।

उशीनर-क्षितीश ने स्वर्मांस दान भी किया (सर०) ।

२७—पाद-पूरक शब्द—

है खु कोकिल समान कलवैनी (सर०) ।

न होगी अहो पुष्ट जौलों रत्रभाषा (तत्रैव) ।

२८—विषम तुक्रांत—

रत्न-खचित मिहासन-ऊपर जो सदैव ही रहते थे ।

नृप-मुकुटों के सुमन रजःकण जिनको भूषित करते थे ।
—(सर०) ।

जब तक तुम पय पान करोगे, नित नीराग-शरीर रहोगे ।

फूलोगे नित नये फूलोगे, पुत्र कभी मद-पान न करना ।
—(सूक्ति०) ।

(ख) व्याकरण दोष ।

२९—संकर-समास—

वन-त्राग (सर०) ।

रण-खेत (तत्रैव) ।

लोक-चर्य (तत्रैव) ।

मंजु-दिल (तत्रैव) ।

भारत-राजी (तत्रैव) ।

३०—शब्दों के प्राचीन रूप—

कीजिये = करिये (सर०) ।

हूजियो = हूजो (तत्रैव) ।

देओगे = दोगे (तत्रैव) ।

जलती है = जलै है (एकांत) ।

सरलपन = सरलपना (प्रय०) ।

३१—शब्द-भेदों का प्रयोगांतर—

(क) अकर्मक क्रिया का प्रयोग सकर्मक क्रिया के समान तथा सकर्मक का अकर्मक के समान—

(१) प्रेम लिंघु में स्व-जन वर्ग को शीघ्र नहा दो (सर०) ।

(२) व्यापक न ऐसी एक भाषा और दिखलाती यहाँ ।

—(सर०) ।

(ख) विशेषण का क्रिया-विशेषण बनाना—जीवन सुखद विताते थे (सर०) ।

३२—अप्राणिवाचक कर्म के साथ अनावश्यक चिह्न—

सहसा उसने पकड़ लिया कृष्ण के कर को (सर०) ।

पाकर उचित सुत्कार को (तत्रैव) ।

३३—“नहीं” के बदले “न” का प्रयोग—

शुक्र । न हो सकते फनो से वे कदापि रसाल हैं (सर०) ।

लिखना मुझे न आता है (तत्रैव) ।

३४—भूत-काल का प्राचीन रूप—

रति भी जिसको देख लजानी (क० क०) ।

मोह-महाराज की पताका फहरानी है (तत्रैव) ।

३५—कर्मणि-प्रयोग की भूल—

तद्विषय एक रस-क्रेलि आप निर्धरि (सर०) ।

~~सं~~पद-भ्रंष्ट किये जिसने हमें (क० क०) ।

३६—विभक्तियों का लोप—

(जो) मम सदन बहाता स्वर्ग मंदाकिनी था (प्रिय०) ।

सुरपुर बैठी हुई (सर०) ।

३७—सहकारी क्रिया का लोप—

कितु उच्च-पद में मद रहता (सर०) ।

हाय ! आज ब्रज में क्यों फिरते, जाओ तुम सरसी के तीर ।

—(तत्रैव) ।

३८—संबन्धी शब्दों में से किसी एक का लोप अथवा विपर्यय—

प्रबल जो तुममें पुरुषार्थ हो—

() सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो (पद्य०) ।

निकला वही दण्ड यम का जब,

() कर आगे अनुमान (सर०) ।

कहो न मुझसे ज्ञानी बनकर, () जगजीवन है स्वप्न-समान

—(जीवन०) ।

जब तक तुम पयपान करोगं । () नित नीरोग-शरीर रहोगे ।

—(सूक्ति०) ।

लख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ ।

वह हृदय हमारा नैन-तारा कहाँ ? (प्रिय०) ।

समाप्त

उदाहृत ग्रंथों के नामों के संकेत ।

- (१) अध०—अधखिला फूल (पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय)
- (२) आदर्श०—आदर्श-जीवन (पं० रामचंद्र शुक्ल)
- (३) आरा०—आराध्य-पुष्पांजलि (पं० श्रीधर पाठक)
- (४) ईग०—ईग्लैंड का इतिहास (पं० श्यामविहारी मिश्र)
- (५) इति०—इतिहास-तिमिर-नाशक, भा० १—३ (राजा शिवप्रसाद)
- (६) एकात०—एकातवासी यागी (पं० श्रीधर पाठक)
- (७) एक्ट०—एक्ट-काश्तकारी, मध्यप्रदेश (रा० सा० बाबू मथुराप्रसाद)
- (८) क० क०—कविता-रूलाप (पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी)
- (९) कवि०—कवि-प्रिया (केशवदाम कवि)
- (१०) कर्पूर०—कर्पूर-मजरी (भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र)
- (११) कवीर०—कवीर साहब के ग्रथ
- (१२) कहां०—कहावत (प्रचलित)
- (१३) कुड०—कुंडलियाँ (गिरिधर कविराय)
- (१४) गंगा०—गंगा-लहरी (पद्माकर कवि)
- (१५) गुटका०—गुटका, भा० १—३ (राजा शिवप्रसाद)
- (१६) चंद्र०—चंद्रहास (बाबू मैथिलीशरण गुप्त)
- (१७) चद्रप्र०—चंद्रप्रभा और पूर्ण-प्रकाश (भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र)
- (१८) चौ० पु०—चौथी पुस्तक (पं० गणपतिलाल चौधे)
- (१९) जगत्०—जगद्विन्दोद (पद्माकर कवि)

३०) जीवन०—जीवनोद्देश्य (रा० सा० पं० रघुवरप्रसाद
द्विवेदी)

- (२१) जीविका०—जीविका-परिपाटी (पं० श्रीलाल)
 (२२) ठेठ०—ठेठ हिंदी का ठाठ (पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय)
 (२३) तिलो०—तिलोत्तमा (बाबू मैथिलीशरण गुप्त)
 (२४) तु० स०—तुलसी-सतसई (गो० तुलसीदास)
 (२५) नागरी०—नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका (काशी-ना०-
प्र०-सभा)
 (२६) नीति०—नीति-शतक (महाराजा प्रतापसिंह)
 (२७) नील०—नीलदेवी (भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र)
 (२८) पद्य०—पद्य-प्रबंध (बाबू मैथिलीशरण गुप्त)
 (२९) परी०—परीक्षा गुरु (लाला श्रीनिवासदास)
 (३०) प्रणयि०—प्रणयि-माधव (पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री)
 (३१) प्रिय०—प्रिय-प्रवास (पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय)
 (३२) पीयूष०—पीयूषधारा-टीका (पं० रामेश्वर भट्ट)
 (३३) प्रेम०—प्रेमनागर (पं० लल्लुजी लाल कवि)
 (३४) भा० दु०—भारत-दुर्दशा (भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र)
 (३५) भाषासार०—भाषासार-संग्रह (नागरी-प्रचारिणी-सभा)
 (३६) भारत०—भारत-भारती (बाबू मैथिलीशरण गुप्त)
 (३७) मुद्रा०—मुद्राराक्षस (भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र)
 (३८) रघु०—रघुवंश (पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी)
 (३९) रत्ना०—रत्नावली (बाबू बालमुकुंद गुप्त)
 (४०) रहीम०—रहिमन-शतक (रहीम कवि)
 (४१) राज०—राजनीति (पं० लल्लुजीलाल कवि)
 (४२) राम०—रामचरित-मानस (गो० तुलसीदास)
 (४३) ल०—लक्ष्मी (लाला भगवानदीन)

- (४४) विद्या०—विद्यार्थी (प० रामजीलाल शर्मा)
- (४५) विचित्र०—विचित्र-विचरण (पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी)
- (४६) विभक्ति०—विभक्ति-विचार (पं० गोविंदनारायण मिश्र)
- (४७) व्रज०—व्रजविलास (व्रजवासीदास कवि)
- (४८) शकु०—शकुंतला (राजा लक्ष्मणसिंह)
- (४९) शिचा०—शिचा (पं० सकलनारायण पांडेय)
- (५०) शिव०—शिव-शभु का चिट्ठा (बाबू बालमुकुंद गुप्त)
- (५१) श्यामा०—श्यामा-स्वप्न (ठाकुर जगन्मोहनसिंह)
- (५२) सत०—सतसई (विहारीलाल कवि)
- (५३) सत्य०—सत्य-हरिश्चंद्र (भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र)
- (५४) सर०—सरस्वती (पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी)
- (५५) सरो०—सरोजिनी (बाबू रामकृष्ण वर्मा)
- (५६) साखी०—साखी (कबीर साहब)
- (५७) सुदरी०—सुदरी-तिलक (भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र)
- (५८) सूक्ति०—सूक्ति-मुक्तावली (पं० रामचरित उपाध्याय)
- (५९) सूर०—सूर-सागर (सूरदास कवि)
- (६०) स्वा०—स्वाधीनता (पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी)
- (६१) हित०—हितकारिणी (रा० सा० पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी)
- (६२) हि० को०—हिंदी-कोविद-रत्नमाला (रा० सा० बाबू श्यामसुंदर दास)
- (६३) हि० ग्रं०—हिंदी ग्रंथमाला (पं० माधवराव सप्रे)
-

हिंदी-व्याकरण की सर्वमान्य पुस्तकें ।

(काल-क्रम के अनुसार)

- (१) हिंदी-व्याकरण—पादरी आदम साहिव ।
- (२) भाषा-तत्त्वबोधिनी—पं० रामजसन ।
- (३) भाषा-चंद्रोदय—पं० श्रीलाल ।
- (४) नवीन-चंद्रोदय—बाबू नवीनचंद्र राय ।
- (५) भाषा-तत्त्व-दीपिका—पं० हरि गोपाल पाध्ये ।
- (६) हिंदी-व्याकरण—राजा शिवप्रसाद ।
- (७) भाषा-भास्कर—पादरी एथरिंगटन साहिव ।
- (८) भाषा-प्रभाकर—ठाकुर रामचरणसिंह ।
- (९) हिंदी-व्याकरण—पं० केशवराम भट्ट ।
- (१०) बालबोध-व्याकरण—पं० माधवप्रसाद शुक्ल ।
- (११) भाषा-तत्त्व-प्रकाश—पं० विश्वेश्वरदत्त शर्मा ।
- (१२) प्रवेशिका-हिन्दी-व्याकरण—पं० रामदहिन मिश्र ।

अंगरेजी में लिखी हुई हिंदी-व्याकरण

की पुस्तकें ।

- (१) कैलाग-कृत—हिंदी-व्याकरण ।
- (२) एथरिंगटन-कृत—हिंदी-व्याकरण ।
- (३) हार्नली-कृत—पूर्वी हिंदी का व्याकरण ।
- (४) डा० त्रियर्सन-कृत—बिहारी भाषाओं का व्याकरण ।
- (५) पिंकाट-कृत—हिंदी-मैनुएल ।
- (६) एडविन ग्रीब्ज-कृत—रामायणीय व्याकरण ।
- (७) „ „ —हिंदी-व्याकरण ।

काशी नागरीप्रचारिणी सभा की पुस्तकें

मनोरंजन पुस्तकमाला

अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—

- (१) आदर्श जीवन—लेखक रामचंद्र शुक्ल ।
- (२) घात्मोद्धार—लेखक रामचंद्र वर्मा ।
- (३) गुरु गोविंदसिंह—लेखक वेणीप्रसाद ।
- (४) आदर्श हिंदू १ भाग—लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा ।
- (५) " २ " " "
- (६) " ३ " " "
- (७) राणा जगवहादुर—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (८) भीष्म पितामह—लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा ।
- (९) जीवन के आनंद—लेखक गणपति जानकीराम दूबे वी० ए० ।
- (१०) भौतिक-विज्ञान—लेखक संपूर्णानंद वी० एस-सी०, एल० टी० ।
- (११) लालचीन—लेखक ब्रजनदनसहाय ।
- (१२) कवीरवचनावली—सग्रहकर्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय ।
- (१३) महादेव गोविंद रानडे—लेखक रामनारायण मिश्र वी० ए० ।
- (१४) बुद्धदेव—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (१५) मितव्यय—लेखक रामचंद्र वर्मा ।

पुस्तकें मिलने का पता—

मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

- (१६१) मिश्रवा का उत्थान और पतन—लेखक नंदकुमारदेव शर्मा ।
(१७) वीरमणि—लेखक श्यामविहारी मिश्र एम० ए० और
शुकदेवविहारी मिश्र बी० ए० ।
(१८) नेपोलियन बैनापार्टे—लेखक राधामोहन गोकुलजी ।
(१९) शासन-पद्धति—लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार ।
(२०) हिन्दुस्तान भाग १—लेखक दयाचंद्र गोयलीय बी० ए० ।
(२१) „ भाग २—लेखक „
(२२) महर्षि सुकरात—लेखक वेणीप्रसाद ।
(२३) ज्योतिर्विनोद—लेखक सपूर्णानंद बी० एस-सी०, एल० टी० ।
(२४) आत्मशिचण—लेखक श्यामविहारी मिश्र एम० ए० और
शुकदेवविहारी मिश्र बी० ए० ।
(२५) सुंदरसार—संग्रहकर्ता पुरोहित हरिनारायण शर्मा बी० ए० ।
(२६) जर्मनी का विकास भाग १—लेखक सूर्यकुमार वर्मा ।
(२७) जर्मनी का विकास भाग २—लेखक सूर्यकुमार वर्मा ।
(२८) कृषि-कौमुदी—लेखक दुर्गाप्रसादसिंह ।
(२९) कर्त्तव्यशास्त्र—लेखक गुलाबराय एम० ए०, एल०-एल० बी० ।
(३०) मुसलमानी राज्य का इतिहास भाग १—लेखक मन्नन द्विवेदी
बी० ए० ।
(३१) मुसलमानी राज्य का इतिहास भाग २— „
(३२) रणजीतसिंह—लेखक वेणीप्रसाद ।
(३३) विश्व-प्रपंच—लेखक रामचंद्र शुक्ल ।
(३४) „ —लेखक „
(३५) अहिल्याबाई—लेखक गोविंदराम केशवराम जोशी ।

पुस्तकें मिलने का पता—

मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

- (३६) रामचंद्रिका—संकलनकर्ता भगवानदीन ।
(३७) ऐतिहासिक कहानियाँ—लेखक द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी ।
(३८) हिंदी निबंधमाला भाग १—संप्रहकर्ता श्यामसुंदरदास
वी० ए० ।
(३९) हिंदी निबंधमाला भाग २—संप्रहकर्ता ”
(४०) सूरसुधा—संपादक मिश्रबंधु ।
(४१) कर्त्तव्य—लेखक रामचंद्र वर्मा ।
(४२) संक्षिप्त राम-स्वयंवर—लेखक ब्रजरत्नदास ।
(४३) शिशु-पालन—लेखक डाक्टर मुकुन्दस्वरूप वर्मा ।
(४४) शाही दृश्य—लेखक मकखनलाल गुप्त गर्क ।
(४५) पुरुषार्थ—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
(४६) तर्कशास्त्र पहला भाग—लेखक गुलावराय एम० ए०, एल-
एल० बी० ।
(४७) तर्कशास्त्र दूसरा भाग— ” ”

सूर्यकुमारी पुस्तकमाला

- | | |
|---|--|
| (१) ज्ञान-योग पहला खंड—
अनुवादक जगन्मोहन वर्मा | (५) ज्ञान-योग दूसरा खंड—अनुवादक
जगन्मोहन वर्मा |
| (२) करुणा—अनुवादक रामचंद्र
वर्मा | (६) मुद्रा-शास्त्र —लेखक प्राणनाथ
विद्यालंकार |
| (३) शर्शाक—अनुवादक रामचंद्र
शुक्ल | (७) प्रकरी दरबार पहला भाग—
अनुवादक रामचंद्र वर्मा |
| (४) बुद्ध-चरित्र—लेखक रामचंद्र
शुक्ल | |

पुस्तकें मिलने का पता—

मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

देवी प्रसाद ऐतिहासिक

पुस्तकशाला

- (१) चीनी यात्री फाहियान का यात्रा-विवरण—अनुवादक जगन्मोहन वर्मा
- (२) चीनी यात्री सुङ्गयुन का यात्रा-विवरण—अनुवादक जगन्मोहन वर्मा
- (३) सुलेमान सैदागर—अनुवादक महेशप्रसाद “साधु”
- (४) अशोक की धर्मलिपियाँ, पहला भाग
- (५) हुमायूँ नामा—अनुवादक ब्रजरत्नदास
- (६) प्राचीन ज्ञान—अनुवादक रामचंद्र वम.

कुछ अन्य ग्रंथ

- (१) बाँकीदास ग्रंथावली पहला भाग—संपादक रामकरण
- (२) तुलसी ग्रंथावली ३ खंड
- (३) प्रेमसागर
- (४) जायसी ग्रंथावली—संपादक रामचंद्र शुक्ल
- (५) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण पहला भाग—संपादक श्यामसुंदरदास बी० ए०

प्राचीन भाषा काव्य

- (१) अखरावट—संपादक म० म० सुधाकर द्विवेदी
- (२) अनन्य-ग्रंथावली—संपादक ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा
- (३) इंद्रावती पहला भाग—संपादक श्यामसुंदरदास बी० ए०
- (४) चित्रावली—संपादक जगन्मोहन वर्मा
- (५) परमाल रासो—संपादक श्यामसुंदरदास बी० ए०
- (६) भूषण-ग्रंथावली—संपादक श्याम-विहारी मिश्र एम० ए० और शुकदेवविहारी मिश्र बी० ए०
- (७) दीनदयाल ग्रंथावली
- (८) राजविलास—संपादक भगवान-दीन
- (९) हस्मीर रासो—संपादक श्यामसुंदरदास बी० ए०
- (१०) छत्रप्रकाश—संपादक श्यामसुंदरदास बी० ए० और कृष्णबलदेव वर्मा
- (११) दादूयाल की बानी—संपादक म० म० सुधाकर द्विवेदी
- (१२) दादूदयाल के शब्द—संपादक म० म० सुधाकर द्विवेदी

पुस्तकें मिलने का पता—

मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

